

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014—वैशाख 26, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 346-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् पलेरा, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

#### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
----------------------	---------------------

1	विवेकानंद वार्ड
2	हनुमान वार्ड
3	पटेश्वरी वार्ड

(1)	(2)
4	भगतसिंह वार्ड
5	केदारेश्वर वार्ड
6	सुभाष वार्ड
7	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
8	अम्बेडकर वार्ड
9	इंदिरा गांधी वार्ड
10	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
11	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
12	मौलाना आजाद वार्ड
13	देवी शीतला वार्ड
14	शिवाजी वार्ड
15	महात्मा गांधी वार्ड

#### वार्ड की सीमाएं

वार्ड क्रमांक 01—विवेकानंद वार्ड

उत्तर—छोटा बस स्टैण्ड यशपाल की दुकान से मोगांव की ओर चलते हुए रोड के दाहिनी ओर के समस्त मकानों सहित मुराहा तिगैला तक.

**पूर्व**—मुराहा तिगैला से क्रेशर मशीन सहित सम्पूर्ण सूरजपुर लेकर कृषि भूमि लेकर गज मोहल्ला खचौरा खटीक के मकान तक.

**दक्षिण**—खचौरा खटीक के मकान से सामुदायिक भवन की ओर चलते हुए दाहिनी ओर के समस्त मकानों सहित पम्प हाउस डगबेल तक.

**पश्चिम**—पम्प हाउस डगबेल से छोटा बस स्टैण्ड यशपाल यादव की दुकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—हनुमान वार्ड

**उत्तर**—सैपुरा रोड खरया वेयर हाउस से कृषि भूमि हरितला मंदिर लेकर छोटा बस स्टैण्ड मुराहा तिगैला जवाहर खटीक के मकान तक.

**पूर्व**—जवाहर खटीक से छोटा बस स्टैण्ड बेण्डरी तिगैला तक.

**दक्षिण**—बैण्डरी तिगैला से राम प्रसाद चौरसिया की दुकान से जतारा की ओर रोड पर चलते हुए समस्त दाहिनी ओर के मकान लेते हुए हरितला मंदिर गेट, रविदास मंदिर तक.

**पश्चिम**—रविदास मंदिर से लक्ष्मण अहिरवार का मकान लेते हुए सैपुरा रोड खरया वेयर हाउस तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—पठेश्वरी वार्ड

**उत्तर**—ताल की हवेली से पठेश्वरी मंदिर की ओर चलते हुए रोड के दाहिनी ओर से समस्त मकानों सहित माध्यमिक शाला गंज को लेते हुए शती मठों सहित काली दालान तक.

**पूर्व**—काली दालान से सम्पूर्ण बगार भाटा मोहल्ला, कचनपुरा सम्मिलित करते हुए, गजाधर तालाब की कृषि भूमि तक.

**दक्षिण**—गजाधर तालाब की कृषि भूमि से बनिया कुंआ तक.

**पश्चिम**—बनिया कुंआ से ताल की हवेली तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—भगतसिंह वार्ड

**उत्तर**—अथाई बलराम कडरे के मकान से खरे शिव मंदिर सहित सुखलाल ढीमर के पीछे कृषि भूमि टॉवर तक.

**पूर्व**—कृषि भूमि टॉवर से गजाधर तालाब की रिक्त भूमि आरी का पुरवा, चुखर माते का पुरवा तक.

**दक्षिण**—चुखर माते के पुरवा से वाले का पुरा मुक्तिधाम लेकर भगवानदास रैकवार के मकान तक.

**पश्चिम**—भगवान दास रैकवार के मकान से परशुराम आदिवासी का मकान लेकर किले की पहाड़ी के समस्त मकानों सहित मरी, मोहन ढीमर के मकान लेकर सी. सी. रोड क्रास करके जानकी ढीमर का मकान लेकर बल्लू काछी का मकान एवं पेटी राजा का मकान लेकर रोड क्रास कर अथाई मोहल्ला बलराम कडरे के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—केदारेश्वर वार्ड

**उत्तर**—चौरसिया तिगेला देवकी चौरसिया के मकान से केदारेश्वर मंदिर लेकर परशुराम तिवारी के मकान तक.

**पूर्व**—परशुराम तिवारी के मकान से किले की पहाड़ी के समस्त मकानों को लेकर हीरालाल ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—हीरालाल ढीमर के मकान से पहाड़ी के खाली जमीन लेकर खंदा क्रास करके ग्वालबाबा मन्दिर सावित्री माली के मकान तक.

**पश्चिम**—सावित्री माली के मकान से पन्ना नाई राजेश नायक कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल लेते हुए चौरसिया तिगैला, देवकी चौरसिया के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—खाई नाला मन्नु ढीमर के मकान से कपिल सोनी जखीरा मंदिर लेते हुए देवी मंदिर लेकर बृजकिशोर तिवारी के मकान तक.

**पूर्व**—बृजकिशोर तिवारी के मकान से चाली राजा का भवन लेते हुए रोड क्रास कर रामप्रसाद गोस्वामी का मकान लेकर मुन्ना खरे रोड क्रास कर कैलाश रजक का मकान लेकर कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल तक.

**दक्षिण**—कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल से हरिहर अड़जरिया का मकान लेकर रोड क्रास करते हुए चन्सौरिया का मकान लेकर खाई नाला पुलिया शिव मंदिर तक.

**पश्चिम**—खाई नाला शिव मंदिर से खाई के किनारे-किनारे के समस्त मकानों को लेकर खाई उस पार भुल्लू अहिरवार अवध दुबे का मकान लेकर रोड क्रास कर सब्बीर टेलर का मकान लेकर खाई नाला उस पार मन्नु ढीमर के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—हजारी गंगेले के मकान से नौगांव रोड पर छोटा बस स्टैण्ड की ओर चलते हुए दाहिनी ओर के समस्त मकानों को लेकर छोटा बस स्टैण्ड नाथूराम साहू की दुकान तक.

**पूर्व**—नाथूराम साहू की दुकान से सुरेन्द्र यादव, मथुरा खरया के मकान लेते हुए राजकुमार सोनी के मकान तक रोड क्रॉस करते हुए खाई नाला पन्ना ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—खाई नाला पन्ना ढीमर के मकान से खाई के किनारे-किनारे बलराम राय, शिव मंदिर राधे यादव का मकान सी.सी. रोड चलकर सामुदायिक भवन तक.

**पश्चिम**—सामुदायिक भवन से नौगांव रोड की ओर चलकर हजारी गंगेले के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—थाना तिगेला सुलभ काम्प्लेक्स से पेट्रोल पम्प लेकर लक्ष्मन अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—लक्ष्मन अहिरवार के मकान से खरउआ पुरा स्कूल नन्ने भैया पुलगा अहिरवार का मकान लेकर खाई नाला उस पार हरिजन मुहल्ला लेकर श्याम लाल बरार एवं शेख मुहम्मद का मकान लेकर खाई के किनारे-किनारे हायर सेकेण्डरी रोड गौरी रावत दुकान पुलिया तक.

**दक्षिण**—खाई पुलिया से बड़ा बस स्टैण्ड की ओर चलकर बी.आर.सी. भवन शिव मेडिकल तक.

**पश्चिम**—शिव मेडिकल से अस्पताल रेस्ट हाउस लेकर थाना तिगेला सुलभ काम्प्लेक्स तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—इन्दिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—खाई नाला किदारी पाठक की कृषि भूमि से पन्ना रावत का मकान तक रोड क्रॉस कर कैलाश जोशी रम्भू ददरया का मकान रोड क्रॉस कर कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बृजेश दीक्षित के मकान तक.

**पूर्व**—बृजेश दीक्षित के मकान से पुराना बाजार हनुमान गुप्ता के मकान तक.

**दक्षिण**—हनुमान गुप्ता के मकान से रोड क्रॉस कर अवध बिहारी का मकान फिर रोड क्रॉस कर बादशाह का मकान लेकर लतीफ बाबू का मकान लेकर गोटी रावत के मकान तक रोड क्रॉस कर बली की दुकान लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल खाई पुलिया छबू बुनकर के मकान तक.

**पश्चिम**—छबू बुनकर के मकान से खाई नाला के किनारे-किनारे किदारी पाठक की कृषि भूमि तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर**—इमाम चौक जामा मस्जिद से पुराना बाजार पशुपतिनाथ सिंग्या के मकान तक.

**पूर्व**—पशुपतिनाथ सिंग्या के मकान से बजरया कुंआ लेकर रोड क्रॉस कर शिवप्रसाद तिवारी का मकान लेकर ग्वालबाबा मंदिर छिदू यादव के मकान तक.

**दक्षिण**—छिदू यादव के मकान से मुक्तिधाम मन्नू तलैया बधान तक.

**पश्चिम**—मन्नू तलैया बधान से ईदगाह मस्जिद की ओर चलते हुए सुबराती का मकान इदू खजरी का मकान लेकर इमाम चौक तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—बड़ा बस स्टैण्ड भागीरथ रजक के मकान से हायर सेकेण्डरी स्कूल लेकर इमाम चौक सलीम शाह के मकान तक.

**पूर्व**—सलीम शाह के मकान से ईदगाह मस्जिद खरगापुर रोड ख्वाजा बाबू के मकान तक.

**दक्षिण**—ख्वाजा बाबू के मकान से बस स्टैण्ड की ओर चलकर सावित्री गुप्ता नर्स के मकान तक.

**पश्चिम**—सावित्री गुप्ता नर्स के मकान से बड़ा बस स्टैण्ड भागीरथ रजक के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—मौलाना आजाद वार्ड

**उत्तर**—शीतला माता मंदिर पुलिया से नगरपालिका की दुकान रामचरन दमेले तक.

**पूर्व**—नगरपालिका की दुकान रामचरन दमेले से कालेज सहित पुलिया तुलसी लोहर के बाडा तक.

**दक्षिण**—तुलसी लोहर के बाडा से धुबया नाला उस पार फुल्लू अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम**—फुल्लू अहिरवार के मकान से कब्रिस्तान लेकर शीतला माता मंदिर पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—देवी शीतला वार्ड

**उत्तर**—हरिओम अहिरवार के मकान के सामने विद्युत् मण्डल बाउण्ड्री जतारा रोड से थाना तिगेला बाबा ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—बाबा ढीमर के मकान से नगरपालिका कार्यालय फेस-1 एवं फेस-2 की दुकानों को लेकर बड़ा बस स्टैण्ड नगरपालिका की दुकान रमेश जैन तक.

**दक्षिण**—नगरपालिका की दुकान रमेश जैन से असगर खां का मकान लेकर शीतला माता मंदिर तक.

**पश्चिम**—शीतला माता मंदिर से बैजनाथ अहिरवार का मकान लेकर खाई नाला किनारे-किनारे पन्ना ढीमर हरिजन छात्रावास एवं रविदास पुरा स्कूल के पीछे रोड क्रॉस करके बलराम नापित, मुमताज खां का मकान लेकर दासू ढीमर, बाबा ढीमर का मकान लेकर हरिओम अहिरवार के मकान से सामने के विद्युत् मण्डल बाउण्ड्री जतारा रोड तक.

**वार्ड क्रमांक 14—शिवाजी वार्ड**

**उत्तर**—पटपरा तिगेला केशव खरे के पम्प हाउस से नगर की ओर चलते हुए जतारा रोड के दाहिनी ओर के समस्त मकानों को लेकर हरिदास अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—हरिदास अहिरवार के मकान से सीताराम अहिरवार, रखना अहिरवार, पजन अहिरवार का मकान लेते हुए पम्प हाउस सहित नत्थू खां हरकनपुरा के मकान तक.

**दक्षिण**—नत्थू खां हरकनपुरा के मकान से रविदास पुरा स्कूल लेकर खाई नाला किनारे-किनारे, गोटी चढ़ार के मकान तक.

**पश्चिम**—गोटी चढ़ार के मकान से कृषि भूमि लेकर पटपरा तिगेला केशव खरे के पम्प हाउस तक.

**वार्ड क्रमांक 15—महात्मा गांधी वार्ड**

**उत्तर**—पटपरा मोहल्ला मोती अहिरवार के मकान से लल्लू बरार का मकान लेकर कृषि भूमि सहित भागीरथ अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—भागीरथ अहिरवार के मकान से जतारा रोड पर्वत लाल पूर्व विधायक के मकान तक.

**दक्षिण**—पर्वत लाल पूर्व विधायक के मकान से जतारा रोड पर पटपरा तिगेला की ओर चलकर दाहिनी ओर के समस्त मकानों को लेकर पटपरा तिगेला माँ गायत्री पेट्रोल पम्प तक.

**पश्चिम**—माँ गायत्री पेट्रोल पम्प से कृषि भूमि लेकर मजीद खां का मकान लेकर पटपरा मोहल्ला मोती अहिरवार के मकान तक.

**सुदाम खाडे, कलेक्टर.**

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 346- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of

Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Palera, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

**SCHEDULE**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Vivekanand Ward
2	Hanuman Ward
3	Patheshwari Ward
4	Bhagat Singh Ward
5	Kedareswar Ward
6	Subhash Ward
7	Rani Lakshmi Bai Ward
8	Ambedkar Ward
9	Indira Gandhi Ward
10	Jawahar Lal Nehru Ward
11	Lal Bahadur Shastri Ward
12	Molana Azad Ward
13	Devi Sheetala Ward
14	Shivaji Ward
15	Mahatma Gandhi Ward

**BORDER OF WARD**

**Ward No. 01—Vivekanand Ward**

**North**—From small Bus starting from Yespal Yadav shop and going on the Nowgong road Right side including all the house and upto Murraha Tigela.

**East**—From Murraha Tigela including the Kesar Machine and taking all area of Surajpura and including the Agricultural field and Ganj street upto Khachaura Khatik house.

**South**—From Khachaura house going on the way society of house and including all the houses in the right side upto the Pump house.

**West**—From Pump house well to small Bus Stand upto Yespal Yadav shop.



**Ward No. 02—Hanuman Ward**

**North**—From the Saipura Kharaya Ware house including the Agriculture field and Hartala Temple and small Bus Stand Murraha Trigela upto Jawahar Khatik house.

**East**—From Jawahar Khatik house to small Bus Stand upto the Baidari junction.

**South**—From Baidari Junction Ram Prasad Chourasiya shop going on the Jatara road including the all the right side houses upto the Hartala Temple Gate upto Ravidas Temple.

**West**—From Ravidas Temple taking the Laxman Ahirwar upto Kharaya Ware house in Saipura road.

**Ward No. 03—Patheshwari Ward**

**North**—From the pond to Patheshwari Temple going on the right side of the road and including all the house and including the Govt. Middle School, Gang and upto Satimatho and including old black building.

**East**—From the old black building including all Bagarbhattai street, including Kanchanpura with it and including Gajadhara Pond and the Agriculture field.

**South**—From the Gajadhara Pong Agriculture field to Baniya well.

**West**—From the Baniya well to Talhaveli.

**Ward No. 04—Bhagat Singh Ward**

**North**—From Athae Balram Kadere house including the Khare Shiv Temple upto Shuklal Dheemar house back side to Agriculture field to tower.

**East**—From the Agriculture field and tower including the Gajadhara Pond empty area, Aarikapurwa, Chukharmatepurwa.

**South**—From Chukharmatepurwa to Balekapura and including the Crematorium upto Bhagavandas Raikwar house.

**West**—From Bhagavandas Raikwar house to including the Parasuram Adivasi house and including the fort Mountain houses and including Marimohan Dheemar house and crossing the CC road and including Janaki Dheemar house and Balloo Kasi house and Petiraja house and crossing the road and upto Athae street to Balram Kadere house.

**Ward No. 05—Kedareswar Ward**

**North**—From Devki Chourasiya in Chourasiya Junction and including Kedareswar Temple upto Parasuram Tiwari home.

**East**—From Parasuram Tiwari including all the house in the fort Mountain and upto Heeralal Dheemar house.

**South**—From Heeralal Dheemar taking all the empty area near the Mountain and crossing the Khanda and Gwalbaba Temple upto Savitri Mali house.

**West**—From Savitri Mali house, Panna Nai, Rajesh Nai including the Girls Higher Secondary School and Chourasiya Junction upto Devi Chourasiya house.

**Ward No. 06—Subhash Ward**

**North**—From Khai Bridge Mannu Dheemar house and including Kapil Soni, Jakheera Temple including Devi Temple and upto Brijkishore Tiwari house.

**East**—From Brijkishore Tiwari house to taking the Chaliraja house crossing the including Ramprasad Goswami house and crossing the road of the Munna Khare house again the crossing the road and including Kailash Rajak house upto Girls Higher Secondary School.

**South**—From Girls Higher Secondary School including the Hariharsan Ajariya house and crossing the road and including the Chansauriya house and Khai Bridge upto Shiv Temple.

**West**—From Khai Drain Shiv Temple taking all the beside house of the Khai Drain and including the other sides house upto Bhulloo Ahirwar, including Awadh Dube and crossing the road and including Sabbir Tailor house and including otherside of Khai Drain upto Mannu Dheemar house.

**Ward No. 07—Rani Lakshmi Bai Ward**

**North**—From Hajari Gangele house to going on the Nowgong Road Small Bus Stand including the right side houses and upto Small Bus Stand Nathuram Sahu shop.

**East**—From Nathuram Sahu shop to Surendra Yadav, including Mathura Kharaya house upto Rajkumar Soni house and crossing the road in the Khai Drain upto the Panna Dheemar house.

**South**—From Khai Drain, Panna Dheemar house to Khai sides Balram Rai, Shiv Temple, Radhe Yadav house going on CC road upto Community Hall.

**West**—From Community Hall going on the Nowgong upto Hajari Gangele house.

#### **Ward No. 08—Ambedkar Ward**

**North**—From Police Station Junction Toilet Complex to Petrol bunk upto Laxman Ahirwar house.

**East**—From Laxman Ahirwar house to Kharuwapura School, including Nannaibhaiya, Pulga Ahirwar houses and otherside Khai Drain houses and including Harijan street Syamlal Barara and including Sheik Muhammad house and including side of Khai Drain Higher Secondary road Gauri Rawat house upto bridge.

**South**—From Khai Drain going to Bus Stand to “BRC” office upto Shiv Medical.

**West**—From Shiv Medical including the Hospital Rest house upto Police Station junction toilet complex.

#### **Ward No. 09—Indira Ward**

**North**—From Khai Drain Kidari Pathak Agriculture upto Panna Rawat house and crossing the road Kailash Joshi, Rammu Dadariya house, crossing the road Girls Higher Secondary School upto Brijesh Dixit house.

**East**—From Brijesh Dixit house Old Bazaar upto Hanuman Gupta house.

**South**—From Hanuman Gupta house and crossing the road Awadh Bihari house again crossing the road including Badsha house Lateeph Babu house and upto Goti Rawat house and after crossing including Bali shop and including the Higher Secondary School Khai Drain upto Chhabu Bunker house.

**West**—From Chhabu Bunker house to side of Khai Drain upto Kidari Pathak Agriculture field.

#### **Ward No. 10—Jawahar Ward**

**North**—From Emam Chowk Jama Mosque to Purana Bazaar upto Pasupatinath Singya house.

**East**—From Pasupatinath Singya house including the Bajraya well crossing the road including the Shivaprasad Tiwari house, Guwal Baba Temple upto Chhiddu Yadav house.

**South**—From Chhiddu Yadav house to Crematorium upto the Mannu (Thalaiya) pond.

**West**—From Mannu Thalैया (pond) going on the side of Idgah Mosque including Subrati house Iddu Khajri house upto Emam Chowk.

#### **Ward No. 11—Lal Bahadur Ward**

**North**—From Big Bus Stand Bhagirath Rajak house including Higher Secondary School Emam Chowk upto Salim Shah house.

**East**—From Salim Shah house to Idgah Mosque to Khargapur road upto Khwaja Babu house.

**South**—From Khwaja Babu house to going to Bus Stand side upto Savitri Gupta (ANM) house.

**West**—From Savitri Gupta (ANM) house upto Big Bus Stand upto Bhagirath Rajak house.

#### **Ward No. 12—Molana Azad Ward**

**North**—From Seetala Mata Temple Drain upto Nagarparishad shops and upto Ramcharan Damele.

**East**—From Nagarparishad shops from Ramcharan Damele to including College and Drain upto Tulsi Luhar field.

**South**—From Tulsi Luhar field Dhubey Drain to otherside upto Phulloo Ahirwar house.

**West**—From Phulloo house including the Crematorium upto Seetalamata Temple Drain.

#### **Ward No. 13—Devi Sheetala Ward**

**North**—From infront Hariom Ahirwar house electricity board wall and in Jatara road upto Police Station Junction Baba Dheemar house.

**East**—From Baba Dheemar house Nagar Parishad office including the shopping complex Phase 1 and Phase 2 upto Big Bus Stand Nagar Parishad shops upto Ramesh Jain shop.

**South**—From Nagar Parishad shop Ramesh Jain to including Asgar Khan house upto Seetala Mata Temple.

**West**—From Seetala Mata Temple including Baijnath Ahirwar house Khai Drain side by side Panna Dheemar, Schedule hostel and Ravidas Pura School Backside crossing the road and taking the Balram Napit and Mumtaj Khan house and including Dasu Dheemar and Baba Dheemar house, infront of Hariom Ahirwar Electricity Board boundary Jatara road.

**Ward No. 14—Shivaji Ward**

**North**—From Patpura Junction Keshav Khare pump house and going on the town road and including the Jatara in including the right side all house upto Haridas Ahirwar house.

**East**—From Haridas Ahirwar house including Seetaram Ahirwar, Rakhan Ahirwar, Pajan Ahirwar house and pump house, Natthu Kha from Harkanpura house.

**South**—From Natthu Kha from Harkanpura house to Ravidaspura School Khai Drain side by side upto Goti Chadar house.

**West**—From Goti Chadar house including the Agriculture field, Patpura Junction upto Keshav Khare pump house.

**Ward No. 15—Mahatma Gandhi Ward**

**North**—From Patpura street Moti Ahirwar house including Laloo Warar house and including the Agriculture field and Bhagirath Ahirwar house.

**East**—From Bhagirath house to Jatara road Former MLA Parvathlal house.

**South**—From Parvathlal Former MLA house to Jatara road going on Patpura junction and including all the houses in the right side upto Patpura junction upto Maa Gayatri Petrol Bunk.

**West**—From Maa Gayatri Petrol Bunk including the Agriculture field, including Majeed Khan house upto Patpura street Moti Ahirwar house.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 347-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् जतारा, जिला टीकमगढ़ के

वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

**अनुसूची**

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	मदन सागर वार्ड
2	रानी दुर्गावती वार्ड
3	इन्दिरा वार्ड
4	शहीद नारायण दास वार्ड
5	सुभाष वार्ड
6	अम्बेडकर वार्ड
7	हरदौल वार्ड
8	चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
9	शिवाजी वार्ड
10	शहीद भगत सिंह वार्ड
11	लोक मान्य तिलक वार्ड
12	निजाम वार्ड
13	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
14	महाराजा छत्रसाल वार्ड
15	हरसिंह वार्ड

**वार्ड की सीमाएं****वार्ड क्रमांक 01—मदन सागर वार्ड**

**उत्तर**—मदन सागर तालाब के पश्चिमी उत्तरी कोने से पूर्व की ओर दक्षिणी राजस्व सीमा लेते हुये चंदेरा तिगैला तक.

**पूर्व**—चंदेरा तिगैला से दक्षिण की ओर टीकमगढ़ मऊ रोड चलते हुये पश्चिम की ओर से मकान लेते हुये मस्जिद तक यहां से सड़क पार कर बशीर रंगरेज के मकान से लेकर पुनः सड़क पार कर लाडली ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—लाडली ढीमर के मकान से पहाडी पर पश्चिम की ओर उत्तर दिशा के मकान लेते हुये कन्हैया ढीमर के मकान से हरपा ढीमर के मकान एवं मदन सागर तालाब की पश्चिमी सीमा तक पश्चिम में.

**पश्चिम**—मदन सागर तालाब की दक्षिणी पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तर की ओर पूर्वी राजस्व सीमा लेते हुये पश्चिमी उत्तरी कोने तक.

**वार्ड क्रमांक 02—रानी दुर्गावती वार्ड**

**उत्तर**—चंदेरा तिगैला से पूर्व की दक्षिणी पहाड़ी राजस्व सीमा लेते हुये ग्यासी तनय सरजू बसोर के मकान तक.

**पूर्व**—ग्यासी बसोर के मकान से मोहम्मद रजा के मकान तक.

**दक्षिण**—मोहम्मद रजा के मकान से पश्चिम की ओर उत्तरी मकान लेते हुये श्याम ढीमर के मकान तक.

**पश्चिम**—श्याम ढीमर के मकान से उत्तर की ओर मउ टीकमगढ़ रोड चलकर पूर्व के मकान लेते हुए चंदेरा तिगैला तक.

**वार्ड क्रमांक 03—इन्दिरा वार्ड**

**उत्तर**—बड़ी देवी जी से पूर्व की ओर दक्षिणी राजस्व सीमा लेते हुये अब्बू खंगार के मकान तक.

**पूर्व**—अब्बू खंगार के मकान से दक्षिणी ओर पश्चिमी राजस्व सीमा लेते हुए गल्ला मंडी एवं हरचरन का मकान लेते हुये हर दास बसोर के मकान तक.

**दक्षिण**—हर दास बसोर के मकान से राम सेवक साहू के मकान लेते हुये पश्चिमी की ओर उत्तरी मकान लेते हुये राम किशोर बसोर के मकान से सड़क पार कर बाबू काछी एवं हरदास का मकान लेते हुये सरजू बसोर के मकान तक.

**पश्चिम**—सरजू बसोर के मकान से हर दास बसोर का मकान लेते हुये पूर्व पहाड़ी राजस्व सीमा लेते हुये बड़ी देवी जी तक.

**वार्ड क्रमांक 04—शहीद नारायण दास वार्ड**

**उत्तर**—अहिरवार मास्टर के मकान से पूर्व की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये नहर चलते हुये माते के आँका तक.

**पूर्व**—माते के आँका से दक्षिण की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये नहर के किनारे मकुन्दी अहिरवार के मकान तक.

**दक्षिण**—मकुन्दी अहिरवार के मकान से पश्चिम की ओर उत्तरी मकान लेते हुये सड़क पार कर गोकुल काछी के मकान से मुलू काछी के मकान तक.

**पश्चिम**—मुलू काछी के मकान से उत्तर की ओर पूर्वी मकान लेते हुये बृजेन्द्र जोशी के मकान से सड़क पार कर धनराम जोशी के मकान तथा किशोरी लाल जोशी के मकान लेते हुये रामदीन ढीमर के मकान लेते हुये अहिरवार मास्टर का मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 05—सुभाष वार्ड**

**उत्तर**—पीठाताल पर धरमू जोशी के मकान से पूर्व की ओर दक्षिणी राजस्व सीमा लेते हुये छोडवारी खिरक लेकर अब्दा हिल तक.

**पूर्व**—अब्दा हिल से दक्षिण की ओर पश्चिमी राजस्व सीमा लेते हुये मंगरमुआ खिरक में प्यारे लाल रामदास काछी के मकान तक.

**दक्षिण**—राम दास काछी के मकान से पश्चिम की ओर दक्षिणी राजस्व सीमा लेते हुये खुमान काछी के मकान तक.

**पश्चिम**—खुमान काछी के मकान से उत्तर की ओर कंगाल नहर के किनारे पूर्वी सीमा के मकान लेते हुये सड़क पार कर राम नाथ नाई के मकान तक काशी काछी के मकान लेते हुये नत्थू पल्लेदार के मकान से राम बगस घोषी के मकान तक यहां से मंडी रोड चलते हुये रम्मू काछी प्यारी गढ़रिया का मकान लेते हुये पीठाताल पर धरमू जोशी के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 06—अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर**—रती कारीगर के मकान से पूर्व की ओर दक्षिणी सीमा लेते हुये उददी अहिरवार के मकान नहर की पुलिया तक.

**पूर्व**—नहर की पुलिया से दक्षिण की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये नहर चलकर भदभदा की पुलिया तक एवं नहर पार कर हरजू धोबी के मकान से नगर परिषद् कांजी हाउस तक, कांजी हाउस से दोनो तरफ की सीमा लेते हुये, चैनका मास्टर का मकान लेते हुये पश्चिमी सीमा लेते हुये, चिट्टू शर्मा की पुलिया पर मसीत तक भगवान दास अहिरवार के मकान को लेते हुये दोनों तरफ हरजू धोबी के मकान तक.

**दक्षिण**—हरजू धोबी के मकान से सम्पूर्ण अंडुआ के दोनों तरफ के मकान लेते हुये भदभदा की पुलिया से पश्चिम की ओर उत्तरी मकान लेते हुये धर्मेन्द्र शर्मा के मकान से सड़क पार कर वैजनाथ अहिरवार के मकान तक समस्त स्कूल की सीमा लेते हुये रिल्ली अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम**—रिल्ली अहिरवार का मकान लेते हुये वैजनाथ अहिरवार का मकान लेते हुये रती कारीगर के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 07—हरदौल वार्ड**

**उत्तर**—राजेन्द्र सिंह एडवोकेट के मकान से पूर्व की ओर दक्षिणी मकान लेते हुये हाकीम सिंह के मकान तक.

**पूर्व**—हाकीम सिंह के मकान से दक्षिणी की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये बाबूलाल गुप्ता के मकान से सड़क पार

कर सुखलाल खरे के मकान से पंच भवन एवं अनन्दी काछी के मकान तक.

**दक्षिण**—अनन्दी काछी के मकान से दिन्नी की चक्की एवं साहूओं के मकान लेते हुये, अमीर अली के मकान तक.

**पश्चिम**—अमीर अली के मकान से दिन्नी की चक्की कुन्दी भरोसी के मकान लेते हुये उत्तरी सीमा लेते हुए, शिवचरण के मकान तक एवं शिवचरण के मकान से दिलदार का मकान लेते हुये अकबर के मकान तक एवं अकबर का मकान लेते हुये पूर्वी सीमा में शेख बादल का मकान लेते हुये अमीर अली का मकान लेते हुये राजेन्द्र सिंह एडवोकेट का मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 08— चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—रमाशंकर सक्सेना के मकान से पूर्व की ओर दक्षिण के मकान लेते हुये, कैलाश खरे के मकान तक.

**पूर्व**—कैलाश खरे के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम के मकान लेते हुये बृन्दावन रिछारिया के मकान तक यहां से सड़क पार कर देशराज जैन के मकान से न्याज अली के मकान तक यहां से सड़क पार कर मढ़ोले चौरसिया के मकान से गुलजार के मकान तक.

**दक्षिण**—गुलजार के मकान से पश्चिम की ओर दक्षिण के मकान लेते हुये जैन मंदिर तक यहां से सड़क पार कर जैन पाठशाला लेते हुये पी. डब्ल्यू डी. के शासकीय क्वार्टर भार्गव निवास तक.

**पश्चिम**—भार्गव निवास से उत्तर की ओर पूर्व मकान लेते हुये महेश जैन एवं दीपचन्द्र जैन के मकान से रमाशंकर सक्सेना के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—हरिदास कोरी के मकान से पूर्व की ओर सकरी रास्ता होकर दक्षिणी मकान लेते हुये पूरन कोरी के मकान तक.

**पूर्व**—पूरन कोरी के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये सुन्दरलाल संत के मकान तक.

**दक्षिण**—सुन्दरलाल संत के मकान से पश्चिम की ओर उत्तरी मकान लेते हुये चिंतामन जैन की दुकान तक.

**पश्चिम**—चिन्तामन जैन की दुकान से उत्तर की ओर पूर्वी मकान लेते हुये इमाम अली के मकान से स्टेट बैंक होते हुये हरिदास कोरी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—शहीद भगत सिंह वार्ड

**उत्तर**—मदन सागर तालाब से पूर्व की ओर कल्लू धोबी के मकान से दक्षिणी मकान लेते हुये फोसे लाल केवट के मकान लेते हुये भगवान दास मिश्रा की दुकान से सड़क पार कर नगरपालिका मूत्रालय कनक भवन तिराहा तक.

**पूर्व**—कनक भवन तिराहा से दक्षिण की ओर पश्चिमी मकान लेते हुये दीनदयाल साहू की दुकान तक.

**दक्षिण**—दीनदयाल साहू की दुकान से पश्चिम की ओर उत्तर के मकान लेते हुये हुकुमचन्द्र जैन के मकान तक यहां से सड़क पार कर दूरभाष केन्द्र लेते हुये सत मडियन तक.

**पश्चिम**—सतमडिया से उत्तर की ओर पूर्वी राजस्व सीमा लेते हुये कल्लू धोबी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—लोकमान्य तिलक वार्ड

**उत्तर**—बाल चन्द्र गुप्ता के मकान से पूर्व की ओर दक्षिण के मकान लेते हुये लखन लाल साहू के मकान तक.

**पूर्व**—लखन लाल साहू के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम के मकान लेते हुये बाबू खाँ के किराये वाले मकान तक यहां से सड़क पार कर चन्द्रभान जैन के मकान से रमेश पाठक के मकान लेते हुये यूनिंस अली के मकान से नूरे काजी के मकान तक.

**दक्षिण**—नूरे काजी से पश्चिम की ओर उत्तरी मकान लेते हुये परमानंद चौबे के मकान से तिजू धोबी के मकान लेते हुये हरि माली के मकान तक.

**पश्चिम**—हरि माली के मकान से उत्तर की ओर मउ रोड चलते हुये पूर्वी मकान लेते हुये कुंज बिहारी अग्रवाल की दुकान से बालचन्द्र गुप्ता के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—निजाम वार्ड

**उत्तर**—हर प्रसाद खरे के मकान से पूर्व की ओर दक्षिण के मकान लेते हुए स्टाक अली का मकान लेकर सकरी रास्ता से पूरन शर्मा के मकान तक.

**पूर्व**—पूरनलाल शर्मा के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम के मकान लेते हुये मलखान नाई के मकान से भदभदा नहर की पुलिया पर हरदास धोबी के मकान तक एवं नहर पार कर करन्जू धोबी के मकान से दक्षिणी सीमा के मकान लेते हुये दीन मुहम्मद जमील अंसारी का मकान लेते हुए रसूल बैना के मकान तक

**दक्षिण**—रसूल बैना के मकान से हरदास धोबी के मकान की पश्चिम की ओर उत्तर के मकान लेते हुये रिखू कुम्हार के मकान से शेख हजाबुद्दीन का मकान लेकर नहर चलते हुये सिकन्दर मिस्त्री के मकान तक.

**पश्चिम**—सिकन्दर मिस्त्री के मकान से उत्तर की ओर पूर्व के मकान लेते हुये अब्दाल रोड चलकर बाकर मास्टर एवं काजी अजीज उद्दीन के मकान से हर प्रसाद खरे के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 13—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

**उत्तर**—राम सेवक मोदी के मकान से पूर्व की ओर दक्षिण के मकान लेते हुये शब्बीर के मकान से सकीर रास्ता होकर जय देव पाठक के मकान से मुबारक के मकान तक.

**पूर्व**—मुबारक के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिम के मकान लेते हुये ओम प्रकाश साहू के मकान तक यहां से सड़क पार कर हबूल के मकान से नत्थू पतरोल के मकान तक.

**दक्षिण**—नत्थू पतरोल के मकान से पश्चिम की ओर उत्तर के मकान लेते हुये पंचम कोरी से बहीद का मकान लेकर अब्दा दरगाह रोड से जय स्तम्भ तक.

**पश्चिम**—जय स्तम्भ से उत्तर की ओर मउ रोड से पूर्व का मकान लेते हुये रमेश राय की दुकान एवं महाविद्यालय लेकर राम सेवक मोदी के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 14—महाराजा छत्रसाल वार्ड**

**उत्तर**—हसन शाह के मकान से पूर्व की ओर दक्षिणी मकान लेते हुये अरमान के मकान से बाबू खटीक एवं नसीर के मकान लेते हुये, नूर उद्दीन के मकान से इमामी वैना के मकान तक.

**पूर्व**—इमामी के मकान से दक्षिण की ओर पश्चिमी राजस्व सीमा लेते हुये झंझरन मुहल्ला में मनु धोबी के मकान तक.

**दक्षिण**—मनु धोबी के मकान से पश्चिम की ओर टीकमगढ़ रोड नहर की पुलिया तक.

**पश्चिम**—नहर की पुलिया से उत्तर की पूर्वी सीमा लेते हुये ब्लॉक कालोनी सोरयाना हायर सेकेण्ड्री स्कूल लेकर हसन शाह के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 15—नरसिंह वार्ड**

**उत्तर**—सतमडिय से पूर्व की ओर दक्षिणी सीमा लेते हुये मदन सागर स्कूल तक यहां से काली चरन रजक का मकान लेते हुये महेन्द्र सिंह के मकान तक.

**पूर्व**—महेन्द्र सिंह के मकान से दक्षिण की ओर सड़क से चलकर पश्चिमी सीमा लेते हुये नहर की पुलिया तक.

**दक्षिण**—नहर की पुलिया से पश्चिम की ओर दक्षिणी राजस्व सीमा लेते हुये कुण्ड पहाड़ी तक.

**पश्चिम**—कुण्ड पहाड़ी से उत्तर की ओर पूर्वी राजस्व सीमा सम्मिलित करते हुये गंज मुहल्ला लेकर संत मडियन तक.

**सुदाम खाडे, कलेक्टर.**

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 347- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Jatara distt., Tikamgarh as per Schedule:—

**SCHEDULE**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Madan Sagar Ward
2	Rani Durgawati Ward
3	Indra Ward
4	Saheed Narayan Das Ward
5	Subhash Ward
6	Ambedkar Ward
7	Hardol Ward
8	Chandra Shekhar Azad Ward
9	Shivaji Ward
10	Shaheed Bhagat Singh Ward
11	Lok Manya Tilak Ward
12	Nizam Ward
13	Maharani Lakshmi Bai Ward
14	Maharaja Chhatrasaal Ward
15	Narsingh Ward

**Ward No. 01—Madan Sagar Ward**

**North**—Towards east from northern corner of Madan Sagar Tank and taking revenue area upto Chandera Tigela.

**East**—From Chandera Tigela towards south taking western house on Mau Tikamgarh road upto Maszid (Mosque) then across the road taking the house of Basir Rangrej again crossing the road upto the house of Ladley Dhimar.

**South**—From Ladley's Dheemar house towards west on hill taking from northern houses of Kanhaiya Dhimar to Herpa Dhimar and taking Madan Sagar Tank of western border upto west side.

**West**—From south west corner of Madan Sagar Tank towards north taking eastern revenue area upto eastern-northern corner.

#### **Ward No. 02—Rani Durgawati Ward**

**North**—From Chandera Tigela toward southern hill and taking revenue area through the house of Gyasi S/o Sarju basore.

**East**—From the house of Gyasi S/o Sarju Basore to Mohammad Raza house.

**South**—From the house of Mohammad Raza's to towards western side and taking house of northern upto Shyam Dheemar house.

**West**—From the house of Shyam Dhimar's towards northern side Mau-Tikamgarh road through and taking eastern side upto Chandera Tigela

#### **Ward No. 03—Indra Ward**

**North**—From Badi Devi ji towards east taking southern revenue border upto the house of Abboo Khangar.

**East**—From Abboo Khangar's house towards south taking western revenue border, Galla Mandi and taking house of Harcham Harizan upto Hardas Basore house.

**South**—From the house of Hardas Basore to taking house of ram Sewak Sahu towards the west taking northern houses of Ram Kishor's Basore and across the road taking Baboo Kachhi and Hardas house upto house of Sarju Basor.

**West**—From the house of Sarju Basor to taking Hardas Basore house through east hill revenue border upto Badi Devi ji.

#### **Ward No. 04—Saheed Narayana Das Ward**

**North**—From house of Ahirwar master toward of the east side and taking western house's through canal upto Mate ka Aoka.

**East**—From the Mate ke Aoka towards southern and western houses by side of canal upto the house of Makundi Ahirwar's.

**South**—From Makundi Ahirwar's house towards west taking northern houses across the road form Gokul Kachhi's upto Mulu Kachhi house.

**West**—From the house of Mulu Kachhi towards northern taking western house from the house of Brijendra Joshi crossed the road Dhanram Joshi house and taking house of Kishori Lal Joshi through Ram Deen Dhimar upto Ahirwar master's house.

#### **Ward No. 05—Subhash Ward**

**North**—At the Pitha Taal form house of Dharmu Joshi towards east. Taking southern revenue area, taking through Chhodwari Khirak upto abda hill.

**East**—From the abda hill towards south, taking western revenue area through in Magar Muau Khirak house of Pyare Lal Ram Das Kachhi.

**South**—From the house of Ramdas Kachhi Kachhi towards western side taking southern revenue area upto Khuman Kachhi house.

**West**—From Khuman Kachhi house toward northern side by Kangal canal to cross the western boarder to taking house of crosses the road house of Ram Nath Nai and Kashi Kachhi through Nathu Palle Kachhi to ram Bagash Ghosi and taking mandi road through Ramsu Kachhi, Pyari Gadariya at the Pitha Taal house of Dharmu Joshi.

#### **Ward No. 06—Ambedkar Ward**

**North**—From the house of Rati Karigar towards east side taking southern revenue area through Uddi Ahirwar upto culvert of canal.

**East**—From the culvert of canal towards south taking western houses both side of canal upto culvert of Bhad Bhada Culvert and across the canal

from the house of Harju Dhobi to Nagar Parisad Kanji and taking house of both side area of Kanji house taken Chainka Master houses & taken western area toward Chitu Sharma ki Puliya ki Mashid & taken the both side house of Bhagwan das Ahirwar upto Harju Dhobi house.

**South**—From Harju Dhobi house and taken all area of Andua and both side to Bhad Bhada culvert toward west taking northern houses of Dharmendra Sharma across the road from Bhajj Nath Ahirwar house to taken all area of school up to Rilli Ahirwar house.

**West**— From taken Rilli Ahirwar house to taking house of Baij Nath Ahirwar upto house of Rati Karigar.

#### **Ward No. 07—Hardol Ward**

**North**—From house of Rajendra Singh Advocate towards East and taking Southern house's upto house of Hakeem Singh.

**East**—From house of Hakeem Singh towards taking Southern, Western house's through Babulal Gupta crossed the road from house of Sukhlal Khare taking Panch Bhawan and house of Anandi Kachhi.

**South**—From house of the Anandi Kachhi to Dinni ki Chakki and taken houser of Sahu's upto house of Ameer Ali.

**West**— From house of Ameer Ali to Dinni ki Chakki house to taking house of Kunddi Bharoshi through Northne area upto Shiv Charn house and taking Dil Daar house and upto house of Akbar and taking house of Akbar toward Western side house Shikh Badal, Ameer Ali upto Rajendra Singh Advocate house.

#### **Ward No. 08—Chandra Shekhar Azad Ward**

**North**—From house of Rama Shankar Saxena towards East taking Southern house upto house of Kailash Khare.

**East**—From house of Kailash Khare towards South taking Western houses upto house of Bindravan Richharia. From Acrossed the road from house of Deshraj Jain upto house of Nayaj Ali From Acrossed the road from house of Mathola Chourasia upto house of Gulzar.

**South**—From house of Gulzar towards West taking Southern houses upto Jain Mandir form acrossed the road taking Jain Pathashala upto P.W.D. Govt. Quariters Bhargav Niwas.

**West**— From Bhargav Niwas towards North taking Eastern house, form house of Mahesh Jain and Deep Chand Jain upto house of Ramashankar Saxena.

#### **Ward No. 09—Shivaji Ward**

**North**—From house of Haridas Kori towards East by Narrow street taking Southern houses upto house of Pooran Kori.

**East**—From house of Pooran Kori toward South taking Western house upto house of Sundarlal Sant.

**South**—From house of Sundarlal Sant towards West taking Northern houses upto shop of Chintaman Jain.

**West**—From shop of Chintaman Jain toward North taking Eastern houses from house of Imam Ali through State Bank upto house of Haridas Kori.

#### **Ward No. 10—Shaheed Bhagat Singh Ward**

**North**—From Madan Sagar Talab towards East taking house of Kallu Dhobi and Southern houses through Phose Lal Kewat form shop of Bhagwandas Mishra crossed road upto Urinal of Municipality and Kanak Bhawan Tiraha.

**East**—From Kanak Bhawan Tiraha towards South taking Western houses upto shop of Deen Dayal Sahu.

**South**—From shop of Deen Dayal Sahu towards West taking Northern houses upto house of Hukum Chandra Jain form cross the road to taking Telephone exchange upto Sat Madia.

**West**—From Sat Madia towards North taking Eastern Revenue area upto house of Kallu Dhobi.

#### **Ward No. 11—Lok Manya Tilak Ward**

**North**—From house of Balchand Gupta towards East taking Southern houses upto house of Lakhn Lal Sahu.



**East**—From house of Lakhan Lal Sahu towards South taking Western houses upto rented house of Babu Kha form across the road form house of Chandra Bhan Jain taking house of Ramesh Pathak. From house of Unis Ali upto house of Noore Kazi.

**South**—From Noore Kazi towards West taking Northern houses form house of Permanand Choube taking house of Tiju Dhobi upto house of Harimali.

**West**—From house of Hari Mali towards North by mau road taking Eastern houses of taking Western house sope of Kunj Bihari Agarawal to house of Balchandra Gupta.

#### **Ward No. 12—Nizam Ward**

**North**—From the house of Harprasad Khare towards East taking Southern houses and house of Istiyak Ali form Narrow Street upto house of Puran Lal Sharma.

**East**—From the house of Puran Lal Sharma towards South, taking Western houses form MalKhan Nai to Culvert of Bhad Bhada Canal upto house of Hardas Dhobi across the canal and taken house of Kranju Dhobi towards Southern houses Din Mohhammad Jamil Ansari upto house upto Rasul Baina house.

**South**—From the house of Rasul Baina towards Hardas Dhobi West and taking Northern houses form houses of Rikhu Kumhar and taking the house of Saikh Sahabuddin taking by canal upto house of Sikandra Mistri.

**West**—From house of Sikandar Mistri towards North taking Eastern house of Abda road form house of Bakar Master of Kazi Ajujuddin upto house of Harprasad Khare.

#### **Ward No. 13—Maharani Lakshmibai Ward**

**North**—From the house of Ramsewak Modi towards East taking Southern houses form the house of Shabir by Narrow road and form the house of Jaidev Pathak upto houses of Mubarak.

**East**—From house of Mubarak to the South taking Western houses of Omprakash Sahu then across the road and form house of Habool upto house of Nathu Patrol.

**South**—From the house of Nathu Patrol to the West taking Northern houses and form house of Pancham Kari taking houses of Wahedd Dargah to Jai Stambh.

**West**—From Jai Stambh to the North of Mau road taking Eastern houses and shop of Ramesh Rai and through College houses of Ram Seak Modi.

#### **Ward No. 14—Maharaja Chhatrashaal Ward**

**North**—From house of Husan Shah towards East taking Southern houses and form house of Arman and taking house of Babu Khatik and Nasir to taking Noor udding house upto Imami Baina house.

**East**—From house of Imami Baina to house to the South taking Western Revenue Area in Jhajran Muhalla upto house of Manu Dhobi.

**South**—From house of Manu Dhobi to the Western on Tikamgarh road upto Culvert of canal.

**West**— From Culvert of canal to the North taking Eastern area form block Colony to taking Soorayana Higher Secondary upto house of Hasan Shah.

#### **Ward No. 15—Narsingh Ward**

**North**—From Satmadia towards East taking Southern area upto Madan Sagar School. From taking house of Kalicharan Rajak house upto house of Mahendra Singh.

**East**—From house of Mahendra Singh to the South on the road taking Western area upto Culvert of canal.

**South**—From the Culvert of canal to the Western Southern Revenue area upto Kund Pahadi.

**West**— From Kund Pahadi towards North and taking Eastern Revenue area and Ganj Muhalla upto Satmadia.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 348-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् लिधौराखास, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ.:-

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	भूतेश्वर वार्ड
2	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	सुभाष वार्ड
4	आजाद वार्ड
5	प्रियदर्शनी वार्ड
6	श्रृंगिक्रमि वार्ड
7	रुकमणि वार्ड
8	भगतसिंह वार्ड
9	राजीव गांधी वार्ड
10	रैदास वार्ड
11	लक्ष्मीबाई वार्ड
12	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
13	विवेकानंद वार्ड
14	श्यामलालमाते वार्ड
15	महात्मा गांधी वार्ड

### वार्ड विभाजन की सीमाएं

#### वार्ड क्रमांक 01—भूतेश्वर वार्ड

**उत्तर**—दुदेरा खिरक से पूर्व की ओर ईदगाह होते हुए डबकी की आबादी.

**पूर्व**—डबकी से कारस देव होते हुए वावू साहू की दुकान से रास्ते की दोनों ओर की आबादी लेते हुए सुभान शाह के मकान तक.

**दक्षिण**—सुभान शाह के मकान से सम्मा ढीमर का मकान लेते हुए रामगोपाल भट्ट के मकान तक.

**पश्चिम**—रामगोपाल भट्ट के मकान से महेश भट्ट का मकान लेते हुए रास्ते के दोनों ओर की आबादी लेते हुए बड़े महादेव लेते हुए दुदेरा तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—राठिया खिरक पूरा.

**पूर्व**—गव्ठू काछी के मकान से दक्षिण की ओर रास्ता के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए फुल्ला अहिरवार के मकान तक.

**दक्षिण**—किलकाई अहिरवार के मकान से पश्चिम की ओर रास्ता के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए फुल्ला अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम**—फुल्ला अहिरवार के मकान से उत्तर की ओर रास्ता के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मल्लू काछी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—सुनरई रोड पर ढीमर खिरक तक एवं थाने से चंदेरा रोड पर दोनों ओर की आबादी लेते हुए, मुन्ना खटीक के मकान तक एवं आगे हनुमान पट्टा मंदिर तक.

**पूर्व**—हनुमान पट्टा से पठा मुहल्ला की आबादी एवं कृषि भूमि में होकर स्वामी काछी के मकान तक.

**दक्षिण**—स्वामी काछी के मकान से दाहिनी ओर की कृषि भूमि लेते हुए गंज की पुलिया तक.

**पश्चिम**—गंज की पुलिया से उत्तर की ओर दाहिनी ओर की आबादी लेते हुए थाना लेते हुए सुनरई रोड पर ढीमरों के खिरक तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—आजाद वार्ड

**उत्तर**—नया कुंआ खिरक गंज मुहल्ला से छिदामी अहिरवार के मकान से पूर्व की ओर रास्ते की दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मलखान अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—मलखान अहिरवार के मकान से दक्षिण की ओर के मकान लेते हुए मुन्ना साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—मुन्ना साहू के मकान से पश्चिम की ओर के मकान लेते हुए वृज विहारी पाठक के मकान तक.

**पश्चिम**—वृज विहारी पाठक के मकान से उत्तर की ओर कृषि भूमि में होकर मंदिर के पीछे से छिदामी अहिरवार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 05—प्रियदर्शनी वार्ड**

**उत्तर**—बिन्दा कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर द्वारका गौतम के मकान तक.

**पूर्व**—द्वारका गौतम के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए कन्या पाठशाला के सामने तथा लखन तिवारी के मकान से जैन मंदिर तक.

**दक्षिण**—जैन मंदिर से पश्चिम की ओर रास्ते के दाहिनी ओर ओम प्रकाश भट्ट के मकान तक दुन्न वरेठा एवं हुकुम खंगार के मकान छोड़कर आमीन खाँ के मकान से शंकर सोनकिया के मकान तक एवं शंकर सोनकिया के मकान से उत्तर की दाहिनी ओर के मकान लेते हुए एवं याकूब खाँ का मकान छोड़कर मोती काछी के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मस्जिद तक.

**पश्चिम**—मस्जिद से दोनों ओर की आबादी लेते हुए बिन्दा कुम्हार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 06—श्रृंगिन्नषि वार्ड**

**उत्तर**—परमू साहू के मकान से दाहिनी ओर की आबादी लेते हुए मानू साहू की दुकान तक एवं गुल्ली ढीमर के मकान से (याकूब, अजीज, मुवारक के मकान) की दोनों ओर की आबादी लेते हुए पंचम साहू के मकान तक.

**पूर्व**—मानू साहू की दुकान से हरीश गुप्ता के मकान एवं नवल किशोर पटसारिया के मकान से सत्तार खाँ का मकान लेते हुए रास्ते के दोनों ओर के मकान लेते हुए राजेन्द्र सिंह के मकान तक.

**दक्षिण**—दुर्जन वरेठा के मकान से पन्ना लाल प्रजापति के मकान को लेते हुए हुकुम चौकीदार के मकान तक एवं कुसुम ठाकुर के मकान से दोनों ओर की आबादी लेते हुए देवीजी मंदिर तक एवं सम्पूर्ण ढिमरौला मुहल्ला की सम्पूर्ण आबादी.

**पश्चिम**—पिपरी घाट के मंदिर के आगे से राजेन्द्र सिंह के मकान के पीछे से चलकर तालाब की वदान लेते हुए तालाब की पांखी तक.

**वार्ड क्रमांक 07—रुकमणी वार्ड**

**उत्तर**—आदित्य पटसारिया के मकान से पूर्व की ओर के मकान लेते हुए राजेन्द्र मसौरिया की दुकान तक.

**पूर्व**—राजेन्द्र मसौरिया की दुकान से दक्षिण की ओर के रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए शिवचरन गुप्ता की दुकान तक.

**दक्षिण**—शिवचरन गुप्ता की दुकान से पश्चिम की ओर के मकान लेते हुए महेश फौजदार की दुकान तक एवं गायत्री कालोनी की भीतरी सम्पूर्ण आबादी.

**पश्चिम**—पंचम फौजदार के मकान से उत्तर की ओर दोनों ओर की आबादी लेते हुए ओमप्रकाश पटसारिया के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 08—भगत सिंह वार्ड**

**उत्तर**—अरविन्द पस्तोर की दुकानों से मुन्नी साहू के मकान एवं शिवू यादव के मकान से बस स्टैण्ड के दोनों ओर के मकान लेते हुए दोनों ओर के मकान एवं आशाराम प्रजापति के मकान तक एवं देवी खर्द की दुकान से ऊपर का रोतियाना मुहल्ला लेते हुए नथूसिंह के मकान तक.

**पूर्व**—नथूसिंह के मकान से दोनों ओर की आबादी लेते हुए लखन नापित के मकान तक.

**दक्षिण**—लखन नापित के मकान से दोनों तरफ की आबादी लेते हुए तलैया मंदिर तक.

**पश्चिम**—तलैया मंदिर से आशाराम प्रजापति के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 09—राजीव वार्ड**

**उत्तर**—पुतु कुम्हार के मकान से पूर्व की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए नथुआ गडरिया के मकान तक.

**पूर्व**—नथुआ गडरिया के मकान से दक्षिण की ओर कुठई यादव के मकान तक.

**दक्षिण**—कुठई यादव के मकान से पश्चिम की ओर सूरत सिंह के मकान तक.

**पश्चिम**—सूरत सिंह के मकान से उत्तर की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए प्रभु कुम्हार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 10—रैदास वार्ड**

**उत्तर**—लल्ला दुवे के कुंआ से पूर्व की ओर रास्ते की दाहिनी ओर के मकान लेते हुए हीरा अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—हीरा अहिरवार के मकान से दक्षिण की ओर कृषि भूमि की ओर रमला वरैठा के मकान तक.

**दक्षिण**—रमला वरेठा के मकान से पश्चिम की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए सगुल्ला अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम**—सगुल्ला अहिरवार के मकान से उत्तर की ओर रास्ते.

**वार्ड क्रमांक 11—लक्ष्मीबाई वार्ड**

**उत्तर**—महेश साहू के मकान से पूर्व की ओर भगवत लुहार के मकान तक एवं मदन मोहन त्रिपाठी के मकान से रमेश कोरी का मकान लेते हुए मुन्नी ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—भगवत लुहार के मकान से दक्षिण की ओर के रास्ते के मकान लेते हुए राजकुमार सोनी के नये मकान तक एवं परमानंद बुनकर के मकान से दोनों ओर के मकान लेते हुए गुल्ली वरेठा के मकान तक.

**दक्षिण**—किशोरी धोबी से लेकर हल्के बुनकर तक एवं राजकुमार सोनी के नये मकान तक.

**पश्चिम**—राजकुमार सोनी के मकान से दोनों तरफ की आबादी लेते हुए महेश साहू के मकान तक एवं वच्चू लाल जैन के मकान से गौंदऊ मंदिर तक.

**वार्ड क्रमांक 12—लालबहादुर शास्त्री वार्ड**

**उत्तर**—घनकू वार्ड की दुकान से पूर्व की ओर रास्ते के दाहिनी ओर की आबादी लेते हुए रामदास सक्सेना के मकान तक एवं प्रभात दमले के मकान से उमाशंकर नापित के मकान तक एवं नगरपालिका कार्यालय से रमेश योगी के मकान तक.

**पूर्व**—जीवन रावत के मकान से स्वामी प्रसाद पस्तोर की दुकानें लेते हुए दोनों ओर की आबादी लेते हुए आदेश सक्सेना की अस्पताल एवं रमेश जोगी के मकान से उदेता ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—उदेता ढीमर के मकान से नीचे का दाहिनी ओर का आदिवासी मुहल्ला लेते हुए पप्पू लखैरे की दुकान तक.

**पश्चिम**—

**वार्ड क्रमांक 13—विवेकानंद वार्ड**

**उत्तर**—कल्लू मिठया के मकान से पूर्व के रास्ता की दाहिनी ओर के मकान लेते हुए स्वामी पाठक के मकान तक एवं रसूल खान के मकान से हल्का ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—स्वामी पाठक के मकान से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रसूल खां के मकान तक.

**दक्षिण**—सलकू नामदेव के मकान से विद्युत् कार्यालय तक.

**पश्चिम**—विद्युत् कार्यालय से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए कल्लू मिठया के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 14—श्यामलालमाते वार्ड**

**उत्तर**—गंगा काछी के मकान से पूर्व की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रामस्वरूप कुम्हार के मकान तक.

**पूर्व**—रामस्वरूप कुम्हार के मकान से दक्षिण की ओर के मकान लेते हुए जुगला अहिरवार के मकान तक.

**दक्षिण**—जमना अहिरवार के मकान से पश्चिम की ओर रास्ते से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए बसीर खां के मकान तक.

**पश्चिम**—बसीर खां के मकान से उत्तर की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मनप्यारे वाढई के मकान तक एवं नत्थू वाढई के मकान से रामेश्वर लोधी का मकान एवं बाबूलाल लोधी का मकान लेते हुए गंगा काछी के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 15—महात्मा गांधी वार्ड**

**उत्तर**—रमेश सोनी के मकान से पूर्व की ओर कृषि भूमि में होकर आम रास्ता में मुन्ना दुबे के मकान तक एवं मुन्ना दुबे के मकान से पूर्व की ओर प्रभू वरेठा के मकान तक.

**पूर्व**—श्रीराम लिटौरिया के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए छिदामी रजक के मकान से फरसराम विश्वकर्मा के मकान तक.

**दक्षिण**—रामेश्वर लोधी के मकान से पश्चिम की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए लक्ष्मी जोगी के मकान लेते हुए राजू साहू के मकान तक.

**पश्चिम**—राजू साहू के मकान से महेवा रोड से सम्पूर्ण चढार मुहल्ला एवं साहू मुहल्ला लेते हुए रमेश सोनी के मकान तक.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 348- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of

1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Lidhorakhas, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Bhuteswar Ward
2	Dr. Ambedkar Ward
3	Subhash Ward
4	Azad Ward
5	Priydarshni Ward
6	Shiringirishi Ward
7	Rukmani Ward
8	Bhagat Singh Ward
9	Rajeev Gandhi Ward
10	Raidas Ward
11	Lakshmi Bai Ward
12	Lalbahadur Shastri Ward
13	Vivekanand Ward
14	Shyamalmate Ward
15	Mahatma Gandhi Ward

LIMITS OF WARD DIVISION

**Ward No. 01—Bhuteswar Ward**

**North**—Towards the East from Dudera Khirak covering Idgah upto population of Dabaki.

**East**—From Dabki to Kharasdev from Babu Sahu's shap coverin both side population of the way towards the house of Suban Shah.

**South**—From Suban Shah's house covering Samma Dhimar's house upto Ram Gopal Bhatt's house.

**West**—From Ram Gopal Bhatt's house including Mahesh Bhatt's house both side population of the way including Bade Mahadev upto Dudera Khirak.

**Ward No. 02—Dr. Ambedkar Ward**

**North**—The whole Rathiya Khirak.

**East**—Including right side houses of the way towards the South from Gabdu Kachhi's house upto Phulla Ahirwar's house.

**South**—West side way from Kilkai Ahirwar's house including right side house upto Phulla Ahirwar's house.

**West**—Towards the North from Phulla Ahirwar's house including the houses right side of way upto Maldu Kachhi's house.

**Ward No. 03—Subhash Ward**

**North**—On Sunrai road upto population of Dheemar Khirak and on Chandera road From Police Station to house of Munna Khatik and Hanuman Pattha Mandir.

**East**—From Hanuman Pattha upto the population of Patha Muhalla and Agricultural Land through Swami Kachhi's house.

**South**—Including Agricultural land from right side of Swami Kachhi's house upto Bright of Ganj.

**West**—Towards North from the Bridge of Ganj including right side population upto Police Station and Thana to Sunray road Khirak.

**Ward No. 04—Azad Ward**

**North**—From Naya Kuan Ganj Muhalla towards the North of Chhidami Ahirwar's house of the way upto Malkhan Ahirwar's house.

**East**—Towards the South from Malkhan Ahirwar's house including the houses upto Munna Sahu's house.

**South**—Including the houses towards the West from Munna Sahu's house upto Braj Bihari Pathak's house.

**West**—Towards the North from Braj Bihari Pathak's house through Agricultural land behind the Temple upto Chhidami Ahirwar's house.

**Ward No. 05—Priyadarshani Ward**

**North**—Towards the East from the house of Binda Kumhar upto Dwarka Goutam's house.

**East**—Towards the South from Dwarka Goutam's house the right side house of the way including in front of Girls School and from Lakhan Lal Tiwari's house upto Jain Temple.

**South**—Towards the West from Jain Temple right side of the way upto Om Prakash Bhatt's house, Durjan Baretha and Hukum Khengar's house are left from Amir Khan house upto Shankar Sonakiya's house and towards the North from Shankar Sonakiya's house including right side right side house and excluding Yakub Khan's house including right side houses from Moti Kachhi's house upto Mosque.

**West**—Including both side houses from the Mosque upto Bindra Kumhar's house.

**Ward No. 06—Shringirishi Ward**

**North**—Including the Habitation of right side to Paramu Sahu's house upto Manu Sahu's shop and from Galli Dhimar's house covering both side population (Yakub, Aziz and Mubarak's house) upto the house of Pancham Sahu.

**East**—From Manu Sahu's shop to Harish Gupta's house and from Naval Kishor Patsariya's house including Sattar Khan's and both side house of the way upto Rajendra Singh's house.

**South**—From Durjan Baretha's house to Panna Lal Prajapati and Hukum Choukidar house and from Kusum Thakur's house both side population upto Deviji Temple and the whole Dhimraula Muhalla.

**West**—Next to Pipari Ghat Temple behind Rajendra Singh's houses including pond bonding to pond's Pankhi.

**Ward No. 07—Rukmani Ward**

**North**—Including the houses of the East side of Aditya Patsariya's house upto Rajendra Masouriya's shop.

**East**—Towards the South from Rajendra Masouriya's shop including right side houses upto Shiv Charan's shop.

**South**—Towards the West from Shivcharan's Gupta's shop including house upto Mahesh Faujdar's shop and the whole population of Gayatri Colony.

**West**—Including both side Habitation the North from Pancham Foujdar's upto Om Prakash Patsariya's house.

**Ward No. 08—Bhagat Singh Ward**

**North**—From the shops of Arvidra Pastore to Munni Sahu's house and from Shibbu Yadav's house including both side Habitation of the Bus Stand upto Asharam Prajapati's house and from Devi Khard's shop up side including Rotiyana Muhalla upto Nathu Singh's house.

**East**—Including both side population from Nathu Singh's house upto Lakhan Napit's house.

**South**—Including both side habitation from Lakhan Napit's house upto Talaiya Temple.

**West**—From Talaiya Temple upto Asharam Prajapati's house.

**Ward No. 09—Rajeev Ward**

**North**—Towards the East from Putu Kumhar's house including right side houses of the way upto Nathua Gadariya's house.

**East**—Towards the South from Nathua Gadariya's house upto the house of Kuthai Yadav.

**South**—Towards the West from Kuthai Yadav's house upto Soorat Singh's house.

**West**—Towards the North from Soorat Singh's house including right side houses upto Prabhu Kumhar's house.

**Ward No. 10—Raidas Ward**

**North**—Towards the east from Lalla Dubey's well including the houses of the right side of the way upto Heera Ahirwar's house.

**East**—The south side of Heera Ahirwar's house through Agricultural Land upto Ramola Baraitha's house.

**South**—Towards the west from Ramola Baraitha's house including right side house of the way upto Sagulla Ahirwar's house.

**West**—The north side way of Sagulla Ahirwar's house.

#### **Ward No. 11— Laxmi Bai Ward**

**North**—Towards the east from Mahes Sahu's house upto Bhagrat Luhar's house and from Madan Mohan Tripathi's house to Ramesh Kori's house upto Munni Dhimar's house.

**East**—Towards the south from Bhagvat Luhar's house including the houses of the way upto Raj Kumar Soni's new house and from Paramanand Bunkar's house including both side houses upto Gulli Baraitha's house.

**South**—From the house of Kishori Dhovi upto Halke Bunkar and new house of Raj Kumar Soni.

**West**—Including both side population from Raj Kumar Soni's house upto Mahesh Sahu's house and from Bachchu Lal Jain's house upto Gaudau temple.

#### **Ward No. 12— Lalbahadur Shastri Ward**

**North**—Towards the East from Dhanku Bai's shop including right side population of the way upto Ramdas Saxena's house and from Prabhat Damele's house to Umashankar Napit's house and from the Municipality office to Ramesh Yogi's house.

**East**—From Jeevan Rawat's house to both side population alongwith Swami Pastore's shops upto Adesh Saxena's dispensary and from Raesh Yogi's house upto Uddeta Dhimar's house.

**South**—Down side from Uddeta Dhimar's house towards right side including Adiwasi Muhalla upto Pappu Lakhere' shop.

**West**—Including right side population from Pappu Lakhere's shop upto Santosh Saxena's house and covering Haveli upto Dhanku Bai's shop

#### **Ward No. 13— Vivekanand Ward**

**North**—From Kallu Mithya's house to the east side of the way including right side houses upto

Swami Pathak's house and from Rasul Khan's house to Halke Dhimar's house.

**East**—Including right side houses from Swami Patha's house upto Rasul Khan's house.

**South**—Salku Namdev's house upto MPEB Office.

**West**—Covering right side houses from MPEB Office upto Kallu Mityhya's house.

#### **Ward No. 14— Shyamlalmate Ward**

**North**—Towards the east from Ganga Kachhi's house including right side houses of the way upto Ramswaroop Kumhar's house.

**East**—Toward the south from Ramswarup Kumhar's house including houses upto Jugla Ahirwar's house.

**South**—Towards the west from Jugla Ahirwar's house including right side houses of the way upto Basir Khan's house.

**West**—Towards the north from Basir Khan's house including right side house of the way upto Manpyare Badai and Nathu Badai to Rameswar Rajpoot and Babulal Rajpoot upto Ganga Kachhi's house.

#### **Ward No. 15— Mahatma Gandhi Ward**

**North**—Towards the east from Ramesh Soni's house through farm house in general way upto Munna Dubey's house and from Munna Dubey's house in the east upto Prabhu Baraitha's house.

**East**—Towards the south from Shri Ram Litoriya's house including right side house and including Chhidami Rajak house to Parashuram Vishwakarma house.

**South**—Towards west from Rameshwar Lodhi's house covering the right side houses of the way upto Laxmi Jogi and Raju Sahu's house.

**West**—From Raju Sahu's house Maheba road to the whole Chadhar Muhalla and Sahu Muhalla upto Ramesh Soni's house.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 349-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खांडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद, पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
2	नेहरू वार्ड
3	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
4	हरदौल वार्ड
5	रामराजा वार्ड
6	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
7	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
8	सुभाष वार्ड
9	इंदिरा गांधी वार्ड
10	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
11	शिवाजी वार्ड
12	अमर सिंह राठौर वार्ड
13	संजय गांधी वार्ड
14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
15	राजीव गांधी वार्ड

### वार्ड विभाजन की सीमाएं

#### वार्ड क्रमांक 01—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—पठार (गंजड) खिरक से उत्तर की ओर कृषि उपज मण्डी के पास वेयर हाउस सहित कृषि उपज मण्डी की बाउण्ड्री निवाडी रोड तक.

**पूर्व**—कृषि उपज मण्डी की बाउण्ड्री से निवाडी रोड दक्षिण की ओर ओरछा तिगैला फब्बारे तक.

**दक्षिण**—ओरछा तिगैला फब्बारे से कल्लू कुशवाहा वाली लाईन शिवकान्त कुशवाहा विश्वनाथ चतुर्वेदी के मुहल्ला सहित

रूपचन्द्र जैन के मकान से पश्चिम की ओर वार्ड 14 भेड फार्म के पहले वार्ड नं. 15 को जाने वाली रास्ता तक.

**पश्चिम**—भेड फार्म के पहले की रास्ता से उत्तर की ओर शेख मुजप्फर अली की नमकीन फैक्ट्री होकर पठार (गंजड) खिरक तक.

#### वार्ड क्रमांक 02— नेहरू वार्ड

**उत्तर**—आदिवासी मुहल्ला के पास केशवदास नायक के मकान से उत्तर पूर्व की ओर टीकमगढ़ रोड पर ज्ञानचन्द्र जैन उर्फ गुड्डन जैन की दुकान जेरों रोड तिराहा तक.

**पूर्व**—जेरों तिराहा के पास ज्ञानचन्द्र उर्फ गुड्डन जैन की दुकान से दक्षिण की ओर जेरों रोड वार्ड 15 के पास की पुलिया तक.

**दक्षिण**—जेरों रोड पर वार्ड 15 के पास की पुलिया से एमपीईबी पावर हाउस के पास वीरेन्द्र जैन (वीरो) के सामने वाली बस्ती तक.

**पश्चिम**—वीरेन्द्र जैन (वीरो) के सामने वाली बस्ती से उत्तर की ओर सम्पूर्ण बस्ती आदिवासी मुहल्ला सहित टीकमगढ़ रोड के पहले केशवदास नायक के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 03— महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—टीकमगढ़ रोड मुख्य सड़क पर जेरों रोड तिराहा चैनू पटैरिया के मकान से पूर्व की ओर तथा राधा सागर तालाब तक.

**पूर्व**—राधासागर तालाब से हरिजन आदिवासी छात्रावास के पास तक पृथ्वीपुर टीकमगढ़ मुख्य सड़क.

**दक्षिण**—हरिजन आदिवासी छात्रावास से अटन मंदिर एवं सम्पूर्ण डुमेरा खिरक होते हुए करगुवां वार्ड 15 के पास पुलिया तक.

**पश्चिम**—वार्ड 15 के पास पुलिया से पृथ्वीपुर जेरों रोड मुख्य सड़क से उत्तर की ओर जेरों रोड तिराहो के पास चैनू पटैरिया के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 04— हरदौल वार्ड

**उत्तर**—निवाडी रोड पर 132 के. बी. एमपीईबी की बाउण्ड्री के पास की रास्ता से महिला बाल विकास कार्यालय होते हुए तहसील कालोनी तथा श्याम बिहारीसिंह राठौर की कालोनी एवं किले के पीछे कछयाना एवं सौनी बस्ती के साथ पूर्व की ओर यासीन खां प्रचारक के मकान तक.



**पूर्व**—यासीन खां प्रचारक के मकान से डॉ. नूरबक्श रंगरेज के रहवासी मकान वाली लाईन से दक्षिण की ओर किले से बसस्टैण्ड की रास्ता टीकमगढ़ मुख्य सड़क के पास प्यारेलाल कुचवंदिया के मकान तक.

**दक्षिण**—प्यारेलाल कुचवंदिया के मकान से टीकमगढ़ रोड पश्चिम की ओर ओरछा तिगैला फब्बारे के पास रघुवीर सिंह राठौर के मकान तक.

**पश्चिम**—रघुवीर सिंह राठौर का मकान ओरछा तिगैला फब्बारे के पास से निवाड़ी रोड 132 के. वी. एमपीईबी बाउण्ड्री तक.

#### वार्ड क्रमांक 05— रामराजा वार्ड

**उत्तर**—बेर कूप से पूर्व की ओर मसीदन मुहल्ला सहित बडापुरा कुरयाना तक.

**पूर्व**—बडापुरा कुरयाना के अंतिम मकान से दक्षिण की ओर हनुमान मुहल्ला खटकयाना होते हुए सुभाष खरे इमरत सौनी वाली लाईन वृहताकार सहकारी समिति के पहले तक.

**दक्षिण**—वृहताकार सहकारी समिति के पहले से पश्चिम की ओर मुन्दू ताम्रकार के मकान से गुल्लन सौनी, रामप्रसाद साहू तक तथा कटारे वाली लाईन से सकूर खां लम्पू वर्मा का पुराना मकान एवं कमलेश पत्नी स्व. गुलाब सेन के आवासीय मकान तक.

**पश्चिम**—कमलेश पत्नी स्व. गुलाब सेन के आवासीय मकान से उत्तर की ओर किले सहित बेर कूप तक की बस्ती.

#### वार्ड क्रमांक 06— मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वार्ड

**उत्तर**—कनिष्ठ बुनियादी शाला से उत्तर की ओर अनन्दी साहू के मकान डा. मैथिलीशरण वर्मा वाली लाईन मोतीलाल त्रिवेदी के मकान तक एवं पप्पू सौनी चक्की वाले वाली लाईन एवं वृहताकार सहकार समिति तक.

**पूर्व**—वृहताकार समिति से विश्वनाथ नामदेव सहित कोतवाली मंदिर की ओर महेन्द्र प्रताप सेठ वाली लाईन टेहर का रोड पर थान सिंह परिहार एवं राजेन्द्र नायक के मकान तक.

**दक्षिण**—किशुनलाल सेठ के मकान से पश्चिम की ओर गोपाल जी मंदिर सहित जैन मंदिर एवं भुन्ना देवी पत्नी स्व. राजा राम सेठ के मकान से डॉ. नूरबक्श रंगरेज मेडीकल स्टोर तक.

**पश्चिम**—डॉ. नूरबक्श रंगरेज मेडीकल स्टोर से किले की रास्ता

कनिष्ठ बुनियादी शाला आनन्दी साहू के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07— डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—सीताराम विश्वकर्मा के मकान से रानी जैन की दुकान तक.

**पूर्व**—राजी जैन की दुकान एवं सम्पूर्ण बसुरयाना एवं अहिरवारों का मुहल्ला दयाल अहिरवार तथा ग्या जी मंदिर लेते हुए टीकमगढ़ रोड तक.

**दक्षिण**—ग्या जी मंदिर टीकमगढ़ रोड से बृजकिशोर वर्मा की दुकान तक.

**पश्चिम**—बृजकिशोर वर्मा की दुकान से थाने के सामने बाजार वाली रास्ता सम्पूर्ण दर्जयाना मुहल्ला सीताराम विश्वकर्मा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 08— सुभाष वार्ड

**उत्तर**—कैलाश नारायण पुजारी के मकान से लोकपाल सिंह राठौर के मकान हाथी दरवाजा से चौपरा कुआं की रास्ता एवं साहू धर्मशाला से टेहरका रोड बछौंड़ा तिराहा पर धनीराम साहू के मकान तक.

**पूर्व**—धनीराम साहू के टेहर का रोड बछौंड़ा तिराहा वाले मकान से दक्षिण की ओर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने रेस्ट हाउस के मोड़ तक.

**दक्षिण**—रेस्ट हाउस की मोड़ टेहर का रोड से पश्चिम की ओर शा. बा. उ. मा. वि., पृथ्वीपुर तक.

**पश्चिम**—शा. बा. उ. माध्यमिक विद्यालय से चौकबाजार की ओर इमलया कूप वाली रास्ता तथा चन्द्रकुमार जैन एडवोकेट के मकान से प्रेमचन्द्र जैन के मकान तक व चौक बाजार खलील खां, नूरे किराना स्टोर की दुकान सहित नन्दराम गुप्ता (जिप्पी गारमेन्ट्स) सहित कैलाश नारायण पुजारी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09— इंदिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—चौपरा कुआ से पूर्व की ओर टेहर का रोड के पास भागचन्द्र भौंडेले एवं सेवाराम यादव पूर्व आर. आई. के मकानों के बगल से सत्ती सत्तन की रास्ता मनीराम नामदेव के मकान तक.

**पूर्व**—मनीराम नामदेव के मकान से दक्षिण की ओर चन्द्रभान सिंह, जवाहर खंगार के मकानों सहित नारे की बस्ती की ओर घमण्डी नापित के मकान तक.

**दक्षिण**—घमण्डी नापित के मकान से टीकगढ़ रोड इंडियन गैस

गोदाम सहित सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के ढाबा तक एवं नवीन बसस्टेण्ड के पास हरिजन कूप से लखनलाल, कल्याणदास साहू के रहवासी मकानों तक.

**पश्चिम**—सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के ढाबा से उत्तर की ओर मबई खिरक सहित हरिजन आदिवासी छात्रावास के पास अटन मंदिर की रास्ता तक एवं लखनलाल व कल्याणदास साहू के रहवासी मकानों से चौपरा कुआं तक.

#### वार्ड क्रमांक 10— डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड

**उत्तर**—पुराना बरतरया से लेते हुए डेकचीवाला खिरक से टेहरका रोड पर बालचन्द्र जैन के मकान के आगे कुशवाहा की चक्की तक.

**पूर्व**—बालचन्द्र जैन के आगे कुशवाहा की चक्की से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक एवं सत्ती सत्तन के खिरक तक.

**दक्षिण**—सत्ती सत्तन खिरक से पश्चिम की ओर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बाउंड्री सहित टेहरका रोड के पास प्रेम कुचवंदिया के मकान तक.

**पश्चिम**—टेहरका रोड के पास प्रेम कुचवंदिया के मकान से उत्तर की ओर राजेन्द्र नायक के बाद वाले मकान सहित बड़े कुरयाने की ओर बरगोला खिरक से पुराने बरतरया खिरक तक.

#### वार्ड क्रमांक 11— शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—बड़े कुआँ से पूर्व की ओर सीधे आमन की पुलिया से दोनों ढिमरौला एवं समपूर्ण रौतेला खिरक तक.

**पूर्व**—रौतेला खिरक ढिमरौला मुहल्ला तक.

**दक्षिण**—कृषि उपज मण्डी की बाउण्ड्री से लगे सुखनन्दन तिवारी के मकान से उत्तर की ओर निवाडी रोड की बस्ती नथयाना रौतयाना होते हुये शा. प्रा. कन्या शा. जेर तक.

**पश्चिम**—शा. प्रा. कन्या शाला जेर से उत्तर की ओर जेर मुख्य रास्ता दाहिने साईड की बस्ती पूर्व मा. शाला जेर के सामने बड़े कुआँ तक की बस्ती.

#### वार्ड क्रमांक 12— अमर सिंह राठौर वार्ड

**उत्तर**—दुमदुमा तिगैला की बस्ती सहित आमन की पुलिया तक.

**पूर्व**—दुमदुमा की ओर सड़क आमन की पुलिया तक एवं जेर की मुख्य रास्ता.

**दक्षिण**—डूडा वारौ खिरक की बस्ती एवं सत्ती वाले पम्प हाऊस के पास की बस्ती से पश्चिम की ओर पहाड़ी की हरिजन बस्ती तक.

**पश्चिम**—पहाड़ी की हरिजन बस्ती से उत्तर की ओर दुमदुमा तिगैला की बस्ती तक.

#### वार्ड क्रमांक 13— संजय गांधी वार्ड

**उत्तर**—नंदावारे खिरक के उत्तरी-पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर गोयली तलैया के बंधान से होते हुए जेर के पीछे की पहाड़ी झोमर तक.

**पूर्व**—जेर के पीछे की पहाड़ी झोमर से दक्षिण की ओर नयाखेरा में बस्ती लेते हुये प्राथमिक पाठशाला नयाखेरा तक.

**दक्षिण**—प्राथमिक पाठशाला के पास की पहाड़ी पर बने काछियों के मकान लेते हुए पश्चिम की ओर काछियों की सम्पूर्ण बस्ती सहित नायाकों के मकान लेते हुए पश्चिम नयाखेरा से पश्चिम में खिरक बगरयाना की ओर.

**पश्चिम**—खिरक वगरयाना पर प्राथमिक पाठशाला राजावर से वगरयाना संपूर्ण हरिजन बस्ती एवं खिरक राजावर सहित खिरक नंदावारे के उत्तरी कोने तक.

#### वार्ड क्रमांक 14— लाल बाहदुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—संपूर्ण समरया खिरक लेते हुए विन्दपुरा गढ़ा नाले से बिन्दपुरा बस्ती तक.

**पूर्व**—विन्दपुरा बस्ती से दक्षिण में दोनों ओर की बस्ती लेते हुए टीकमगढ़ रोड पर पृथ्वीपुर बसस्टैण्ड से ओरछा रोड से एक किलो मीटर तक.

**दक्षिण**—पृथ्वीपुर बस स्टैण्ड से ओरछा रोड के एक कि. मी. से पश्चिम की ओर दोनों ओर की बस्ती लेते हुए गुरार खिरक तक.

**पश्चिम**—गुरार खिरक संपूर्ण लेते हुए उत्तर की ओर समरया खिरक के उत्तरी पश्चिमी कोने तक.

#### वार्ड क्रमांक 15— राजीव गाँधी वार्ड

**उत्तर**—बस्ती के उत्तर में हनुमान जी मंदिर से उत्तर की ओर टीकमगढ़ ओरछा रोड स्थित भेड़फार्म कालोनी तक.

**पूर्व**—भेड़फार्म कालोनी से दक्षिण में जेरों रोड पर महेश खरे के पास दोनों ओर के मकान लेते हुए जेरों सिमरा रोड के तिगैला से जेरों रोड पर एक कि. मी. तक.

**दक्षिण**—सिमरा जेरों रोड के तिगैला से दोनों ओर की लेते हुए करगुवाँ ग्राम की सीमा तक.

**पश्चिम**—सिमरा रोड पर करगुवाँ की सीमा से उत्तर की ओर संपूर्ण ढिमरौला व ब्राम्हणों के मकानों को लेते हुए बस्ती के उत्तर में हनुमान जी के मंदिर तक.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 350-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद्, जेरोन खालसा, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	नेहरू वार्ड
2	नरसिंह वार्ड
3	विवेकानन्द वार्ड
4	अजयपार वार्ड
5	मुखर्जी वार्ड
6	सरदार पटेल वार्ड
7	सुभाष वार्ड
8	आजाद वार्ड
9	इंदिरा गांधी वार्ड
10	संजय वार्ड
11	गांधी वार्ड
12	शास्त्री वार्ड
13	खेरापति वार्ड
14	भगत सिंह वार्ड
15	डॉ. अंबेडकर वार्ड (अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित)

### वार्ड विभाजन की सीमाएं

#### वार्ड क्रमांक 01—नेहरू वार्ड

**उत्तर**—तालाब के पास हजरिया महादेव से उत्तर की ओर मुख्य मार्ग के मध्य से होते हुए दाहिनी ओर की समस्त भूमि एवं आबादी लेते हुये तालाब की पाली तक.

**पूर्व**—पाली की पूर्वी पट्टी से सानेरा तालाब लेते हुए अरविन्द रावत के मकान तक.

**दक्षिण**—अरविन्द रावत के मकान से उत्तर की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रामसेवक संज्ञा के मकान तक.

**पश्चिम**—रामसेवक संज्ञा के मकान से रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए तालाब के पास हजरिया महादेव के मंदिर तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—नरसिंह वार्ड

**उत्तर**—द्वारिका प्रसाद संज्ञा के मकान से पूर्व की ओर रामस्वरूप शर्मा के मकान तक तथा वहां से दक्षिण की ओर दाहिनी ओर से मकान सम्मिलित करते हुए चतुर्भुज गोस्वामी के मकान तक.

**पूर्व**—चतुर्भुज गोस्वामी के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते के वार्यों ओर के मकान सम्मिलित करते हुए थाना भवन तक.

**दक्षिण**—थाना भवन से पश्चिम की ओर देवना रोड तक.

**पश्चिम**—देवना रोड से उत्तर की ओर ऊपर वाले रास्ते से चलकर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए द्वारिका प्रसाद संज्ञा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—विवेकानंद वार्ड

**उत्तर**—नन्हे की कोयली खिरक से पूर्व की ओर वार्ड क्रमांक 04 की सीमा तक.

**पूर्व**—गुदरऊ खिरक में नहर से दक्षिण की ओर दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुए वार्ड अजयपार वार्ड क्रमांक 04 की सीमा तक.

**दक्षिण**—अजयपार वार्ड की सीमा से पश्चिम की ओर दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुए वार्ड क्रमांक 02 की सीमा तक.

**पश्चिम**—वार्ड क्रमांक 02 की सीमा से उत्तर की ओर दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुये नन्हे की कोयली खिरक तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—अजयपार वार्ड

**उत्तर**—ब्राम्हण कोयली खिरक में सुन्नु बिलगैया के मकान से रामकिशन बिलगैया के मकान तक.

**पूर्व**—रामकिशन बिलगैया के मकान से पूर्व की ओर अछरू की कोयली का संपूर्ण खिरक लेते हुए अजयपार खिरक में रमसू कुशवाहा के मकान तक एवं रोड की बाईं ओर गोपी कुशवाहा का खिरक एवं नाथूराम कुशवाहा के संपूर्ण खिरक लेते हुये गनू लटोरे के मकान लेते हुए पूर्व की ओर छुट्टे एवं भगोले के मकान तक.

**दक्षिण**—रमसू कुशवाहा के मकान से पश्चिम की ओर कोयली खिरक में नाथूराम कुशवाहा के मकान तक.

**पश्चिम**—छुट्टे एवं भगोले कुशवाहा के मकान से लेते हुए रोड के किनारे-किनारे गोपी कुशवाहा का खिरक लेते हुए ब्राम्हण कोयली रामकिशन बिलगैया के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—मुखर्जी वार्ड

**उत्तर**—कोयली खिरक में धीरज कुशवाहा के मकान से बहोरे एवं चतुर्भुज की आरामशीन तक.

**पूर्व**—चतुर्भुज की आरामशीन से दक्षिण की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए शिबलाल के मकान से कामता के मकान तक.

**दक्षिण**—कामता के मकान से पश्चिम की ओर दाहिनी ओर कृषि भूमि लेते हुए वार्ड क्रमांक 06 की सीमा तक.

**पश्चिम**—वार्ड क्रमांक 06 की सीमा से उत्तर की ओर रोड के दाहिनी ओर कृषि भूमि लेते हुये धीरज कुशवाहा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—सरदार पटेल वार्ड

**उत्तर**—रौतेरा खिरक में पूरन यादव के मकान से पूर्व की ओर कैलाश यादव के मकान तक.

**पूर्व**—कैलाश यादव के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते की दोनों ओर की आबादी लेते हुए वार्ड क्रमांक 07 की सीमा तक.

**दक्षिण**—वार्ड क्रमांक 07 की सीमा से पश्चिम की ओर गनपत यादव के मकान से पुनू गडरिया के मकान तक.

**पश्चिम**—पुनू गडरिया के मकान से उत्तर की ओर कृषि भूमि में होकर दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुये पूरन यादव के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—वार्ड नं. 08 की सीमा से पूर्व की ओर कृषि भूमि में होकर बजरंगढ़ खिरक की दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुए बल्ला कुशवाहा के मकान तक.

**पूर्व**—बल्ला कुशवाहा के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते की दोनों ओर की आबादी लेते हुए सुकई कुशवाहा के मकान तक.

**दक्षिण**—सुकई कुशवाहा के मकान से पश्चिम की ओर कृषि भूमि से होकर दाहिनी ओर की समस्त आबादी लेते हुए रामसहाय कुशवाहा के मकान तक.

**पश्चिम**—रामसहाय कुशवाहा के मकान से दक्षिण पश्चिम की ओर वार्ड नं. 08 की सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—आजाद वार्ड

**उत्तर**—मनीराम बंशकार के मकान से पूर्व की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए अशोक खंगार के मकान तक.

**पूर्व**—अशोक खंगार के मकान से दक्षिण की ओर रोड के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मातादीन छकू के मकान तक तथा वहाँ से पहाड़ी के किनारे-किनारे पश्चिमी देवना में रूपसिंह यादव के मकान के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए बंशीलाल चौबे के मकान तक.

**दक्षिण**—बंशीलाल चौबे के मकान से पश्चिम की ओर पहाड़ी तक.

**पश्चिम**—पहाड़ी से दक्षिण की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे मातादीन छकू के मकान से दाहिनी ओर की आबादी लेते हुये मनीराम बंशकार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—इंदिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—शिमबा साहू के मकान से पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए महादेव लक्ष्यकार के मकान तक.

**पूर्व**—महादेव लक्ष्यकार के मकान से दक्षिण की ओर रोड की दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रामलाल खंगार एवं चन्नु धौबी के मकान तक तथा पश्चिमी देवना में रामस्वरूप के मकान से स्वामी प्रसाद के मकान तक.

**दक्षिण**—स्वामी यादव के मकान से पश्चिम की ओर पहाड़ी तक.

**पश्चिम**—पहाड़ी से उत्तर की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे चन्नु धौबी के मकान तक तथा वहाँ से दाहिनी ओर के मकान लेते हुए महेश गुप्ता के मकान तक एवं वहाँ से सड़क पार करते शिवालय से सुन्दर नापित के मकान तक. सुन्दर नापित के मकान से शिमबा साहू के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—संजय वार्ड

**उत्तर**—पुल्लन खां के मकान से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए जगदीश पाण्डेय के मकान तक.

**पूर्व**—जगदीश पाण्डेय के मकान से दक्षिण की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए संजू रावत की दुकान तक.

**दक्षिण**—संजू रावत की दुकान से पश्चिम की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए पहाड़ी के पास वीरेन्द्र सिंह बुन्देला के मकान तक.

**पश्चिम**—वीरेन्द्र सिंह बुन्देला के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते के दोनों ओर के मकान लेते हुए प्रागीलाल नापित के मकान तक तथा वहां से बाईं ओर के अशोक नापित से दयाराम नामदेव के मकान छोड़ते हुए पुत्तन खां के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—गांधी वार्ड

**उत्तर**—कमल ढीमर के मकान से पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए जहूर खां के मकान तक.

**पूर्व**—जहूर खां के मकान से दक्षिण की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए बृजकिशोर रावत की दुकान तक.

**दक्षिण**—बृजकिशोर रावत की दुकान से पश्चिम की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रोड पार करते हुए बलीराम बुनकर के मकान तक.

**पश्चिम**—बलीराम बुनकर के मकान से रोड की बाईं तरफ की आबादी लेते हुए हवेली शामिल करते हुए रोड पार करते हुए पहाड़ी के किनारे-किनारे कमल ढीमर के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—पहाड़ी से स्कूल बाउन्ड्री के किनारे-किनारे पूर्व की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए दम्पू ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—दम्पू ढीमर के मकान से दक्षिण की ओर रास्ते दाहिनी ओर के मकान लेते हुए अधरा ढीमर के मकान तक.

**दक्षिण**—अधरा ढीमर के मकान से पश्चिम की ओर रास्ते के दाहिनी ओर के मकान लेते हुए परसू ढीमर के मकान तक.

**पश्चिम**—परसू ढीमर के मकान से उत्तर की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे दाहिनी ओर के मकान लेते हुए स्कूल बाउन्ड्री तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—खेरापति वार्ड

**उत्तर**—गीदा खिरक में धर्मशाला से समस्त गीदा खिरक की आबादी लेते हुए गोपी ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—गोपी ढीमर के मकान से दक्षिण की ओर बगीचा के किनारे-किनारे नहर की दाहिनी ओर की कृषि भूमि लेते हुए नारायण दास साहू की दुकान तक.

**दक्षिण**—नारायण दास साहू की दुकान से पश्चिम की ओर दाहिनी ओर की कृषि भूमि व आबादी लेते हुए संपूर्ण गुंदलयाना खिरक सम्मिलित करते हुए कतरयाना खिरक तक.

**पश्चिम**—कतरयाना खिरक से उत्तर की ओर कृषि भूमि में होकर समस्त कतरयाना खिरक सम्मिलित करते हुए गीदा खिरक में धर्मशाला तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—भगत सिंह वार्ड

**उत्तर**—महेन्द्र सिंह के मकान से पूर्व की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे दाहिनी ओर के मकान लेते हुए मत्थी बुनकर के मकान तक.

**पूर्व**—मत्थी बुनकर के मकान से दक्षिण की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे दाहिने ओर के मकान सम्मिलित करते हुए रमेश मेहतर के मकान से पूर्व की ओर हरनारायण साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—हरनारायण साहू के मकान से पश्चिम की ओर बाईं ओर के मकान लेते हुए रमेश साहू की दुकान तक एवं पश्चिम की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए रमेश एवं जयराम मेहतर के मकान लेते हुये रोड के किनारे-किनारे एवं रूस्तम खां के मकान से लेकर संपूर्ण आदिवासी मुहल्ला एवं संपूर्ण मुडेनी रोड का आदिवासी मुहल्ला लेते हुए महेन्द्र सिंह के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्ना खां के मकान से खिरक लेते हुये रोड के किनारे किनारे मोहन अहिरवार के मकान से उत्तर की ओर दाहिनी ओर के मकान लेते हुए महेन्द्र सिंह के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 15—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित)

**उत्तर**—मोल्लनवारा खिरक से उत्तर की ओर सिमरा रोड पर एवं रोड से पूर्व की ओर दाहिनी ओर की आबादी सम्मिलित करते हुए रतु बरार के मकान तक.

**पूर्व**—रतु बरार के मकान से दक्षिण की ओर पहाड़ी के किनारे-किनारे दाहिनी ओर पहाड़ी से जेरॉन रौंगटा घाट रोड की समस्त आबादी लेते हुए शिवचरन जोशी के मकान तक.

**दक्षिण**—शिवचरन जोशी के मकान से दक्षिण पश्चिम की ओर मौल्लनवारा खिरक तक.

**पश्चिम**—मौल्लनवारा खिरक की संपूर्ण आबादी सम्मिलित करते हुए उत्तर की ओर सिमरा जेरॉन रोड तक. उपरोक्तानुसार सीमा का निर्धारण अंतिम रूप से किये जाने का निर्णय लिया जाता है. अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाए एवं प्रकाशन की कार्यवाही की जावे.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 350- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parishad Jeronkhalsa, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Nehru Ward
2	Narsing Ward
3	Vivekanand Ward
4	Ajaypar Ward
5	Mukherji Ward
6	Sardar Patel Ward
7	Subhash Ward
8	Azad Ward
9	Indira Gandhi Ward
10	Sanjay Ward
11	Gandhi Ward
12	Shastri Ward
13	Kherapati Ward
14	Bhagat Singh Ward
15	Dr. Ambedkar Ward (Reserved for Scheduled Caste)

**Ward No. 01—Nehru Ward**

**North**—From the near of tank Hajariya Mahadev in North side taking centre of main road to wards South taking populated area upto Pali to tank.

**East**—To take Eastern portion of Pali to Sendra tank connect to Arvind Rawat.

**South**—From the house of Arvindra Rawat in North side to taking South side housed upto house of Ram Sewak Sngyan.

**West**—From the house of Ram Sevak Sangya to take South portion of way side houses upto the near of Tank Hajariya Mahadev Mandir's.

**Ward No. 02—Narsing Ward**

**North**—From the house of Dwarka Prasad Sangya in East side upto the house of Ramswaroop Sharma and connect in South Wards taking South side houses upto the houses of Chaturbhuj Goswami.

**East**—From the Chaturbhuj Goswami house in South Wards to connect of way upto Police Station.

**South**—From the Police Station in Western side upto Devna Road.

**West**—From Devna Road in North side go to above way to connect South sides house upto the Dwarika Prasad Sangya.

**Ward No. 03—Vivekanand Ward**

**North**—From the Nanhe Koyli Khirak to East Wards upto boundary of Ward No. 2.

**East**—In Gudrau Khirak from the canal in South sides to taking whole area upto the boundary of Ward No. 4 upto Ajaypar.

**South**—From the Ajayepar boundary in Western side to taking South Wards and taking whole area upto boundary Ward No. 2.

**West**—From the boundary of Ward No. 2 in North side taking whole area of South Ward upto Nanhe Koyali Khirak.

**Ward No. 04—Ajaypar Ward**

**North**—In the Koyali Khirak of Brahman from the house of Sunnu Bilagaiyan upto house of Ramkishan Bilgaiyan.

**East**—From the house of Ram Kishan Bilgaiyan East side Koyali of Achharu to taking whole Khirak in Ajayapar upto the house of Ramshu Kushwaha and from the road in left side taking whole Khirak upto Khirak of Gopi Kushwaha, Nathu Kushwaha, Ganu and Latore and in North side upto houses of Chhutte and Bhagole.

**South**—From the house of Ramshu Kushwaha in Western side in the Koyali Khirak upto house of Nathuram Kushwaha.

**West**—From house of Chhutte and Bhagole taking Khirak of Gopi Kushwah in corner of road, houses in Bramhan Koyali upto the house of Ramkishan Bilgaiyan.

#### **Ward No. 05—Mukherji Ward**

**North**—In Koyali Khirak from the house of Dheeraj Kushwaha upto Saw Mill's of Bahore and Chaturbhuj.

**East**—From the Saw Mill's of Chaturbhuj in South Wards way houses included from the house of Sevlal upto Kamta house.

**South**—From house of Kamta towards Western taking Agricultural land upto boundary of Ward No. 6.

**West**—From the boundary of Ward No. 6 in North side to taking South portion of road to link Agricultural road upto the houses of Dheeraj Kushwaha.

#### **Ward No. 06—Sardar Patel Ward**

**North**—In Roteria Khirak from the house of Pooran Yadav East side upto the house of Kailash Yadav.

**East**—From the house of Kailash Yadav in South Ward's to taking both side populated area of road upto the boundary of Ward No. 7.

**South**—From the boundary of Ward No. 7 in Western side Ganpat housed on upto the Punnu Gadariya house.

**West**—From the house of Punnu Gadariya to go in North side Agricultural road and taking whole area of South wards upto in the house of Pooran Yadav.

#### **Ward No. 07—Subhash Ward**

**North**—From the boundary of Ward No. 8 in East side to go Agricultural land to taking whole area of Bajrangarh Khirak in South side upto the house of Balla Kushwaha.

**East**—From the Balla Kushwah house in South ward taking whole area of both side of road upto Sukai Kushwaha house.

**South**—From the house of Sukai Kushwaha in Western side go to Agricultural land to taking whole area of South wards upto the house of Ramsahay Kushwaha.

**West**—From the house of Ramsahay Kushwaha whole in South Western side upto the Boundary of Ward No. 9.

#### **Ward No. 08—Azad Ward**

**North**—From the house of Maniram Banskar to wards East taking house's of South wards upto the house of Ashok Khangar.

**East**—From the house of Ashok Khangar in South ward taking the houses of road in South wards upto the corner of hill in Western side Devna house of Matadeen Chhaku and go the corner of hill in Western side Devna Rupsing Yadav house of taking South wards house upto the house of Bansi Lal Chove.

**South**—From the house of Bansi Lal Chaube in Western side upto hill.

**West**—From the hill to ward South to go line of hill Matadeen Chhaku house in South wards taking populated area of upto the house of Maniram Banskar.

#### **Ward No. 09—Indira Gandhi Ward**

**North**—From the house of Simba Sahu in East side to taking South side house upto the house of Mahadev Laxkar.

**East**—From the house of Mahadev Laxkar in South wards taking the house of road in South wards to go Panna Khangar and upto houses of Chhannu Rajak and in Western Devna for Ramswaroop house to Swami Prasad house.

**South**—From the house of Swami Prasad Yadav in Western side upto hill.

**West**—From the hill in North side line of hill upto the house of Chhannu Rajak and go to taking South wards houses upto Manish Gupta house and go to cross the road from Shivalaya upto Sunder Napit upto the house of Shimba Sahu.

#### **Ward No. 10—Sanjay Ward**

**North**—From the house of Puttan Khan to go North side East ward to taking houses of South wards of road upto Jagdish Pandey house.

**East**—From the house of Jagdish Pandey towards South to taking houses of South wards upto the shop of Sanjeev Rawat.

**South**—From the Sanjeev Rawat shop in Western side to taking houses of South wards near the hill upto the house of Gulab Singh Bundela.

**West**—From the house of Gulab Singh Bundela to South wards to taking both side houses of way upto house of Pragi Lal Napit and go to North side from excluding the houses of Ashok Napit to Dayaram Namdev upto the house of Puttan Khan.

#### Ward No. 11—Gandhi Ward

**North**—From the house of Kamal Dheemar in East side to taking houses of South ward upto the house of Jahoor Khan.

**East**—From Jahoor Khan house toward South taking South side houses upto the shop of Brijkishore Rawat.

**South**—From the shops of Brijkishore Rawat to ward Western to taking houses of South wards of Road upto house of Balram Bunkar.

**West**—From the house of Baliram Bunkar towards left side taking the houses include Haweli to cross the road to line the hill upto the house of Kamal Dheemar.

#### Ward No. 12—Shastri Ward

**North**—From hill to line the School boundary towards East taking North side houses upto the house of Dammu Dhimar.

**East**—From Dammu Dhimar house toward South taking houses of North of way upto Adhara Dhimar house.

**South**—From the house of Adhra Dhimar to wards Western to taking the house of North side of way upto the house of Parsu Dhimar.

**West**—From Parsu Dhimar house towards North line the hill to taking the house of North side upto the School Boundary.

#### Ward No. 13—Kherapati Ward

**North**—In Khirak of Geeda from the Sanctuary to taking whole area of Geeda Khirak upto house of Gopi Dhimar.

**East**—From the house of Gopi Dheemar towards South taking whole area of North to taking Agricultural land North side of canal line the Park upto the shop of Narayan Das Sahu.

**South**—From the shop of Narayan Das Sahu towards Western to connect the Agricultural land and populated area of North side whole Khirak of Guldalyana upto the Khirak of Kataryana.

**West**—From the house of Katariyana toward North to go Agricultural land whole area of Kataryana Khirak in Geeda Khirak upto Sanctuary.

#### Ward No. 14—Bhagat Singh Ward

**North**—From the house of Mahendra Singh in East side line the hill to taking the house of North side upto house of Matthi Bunkar.

**East**—From Matthi Bunkar house towards South line the hill of to taking North side house from Ramesh Metter house towards East upto the house of Harnarayan Sahu.

**South**—From the house of Harnarayan towards Western to taking the houses of South of way upto shop of Ramesh Sahu and toward Western to taking North side house of Ramesh and Jayram Natter to taking house line the road and from the house of Rustam Khan to taking whole area of Schedule Caste and to taking whole area of Schedule Caste of Mudeni Road upto house of Mahendra Singh.

**West**—From house of Munna Khan and Mohan Ahirwar towards North line the road taking houses upto Mahendra Singh house.

#### Ward No. 15—Dr. Ambedkar Ward

(Reserved for Scheduled Caste)

**North**—From the Khirak of Mollanwara towards North upto Simra road and in East side of road to taking populated area of side upto the house of Rattu Barar.

**East**—From the house of Rattu Barar to wards South line of the hill Jeron Rongta Ghat Road taking whole populated area upto Shivcharan Joshi house.

**South**—From the house of Shivcharan Joshi towards South Western upto Mollanwara Khirak.

**West**—The whole area of Mohanwara Khirak towards North side upto Jeron Simra road.

SUDAM KHADE, Collector.



टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 351-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् निबडी, जिला टीकमगढ़ के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	शक्ति वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	सुभाष वार्ड
4	नेहरू वार्ड
5	भगतसिंह वार्ड
6	अहिल्या बाई वार्ड
7	चन्द्रशेखर वार्ड
8	संजय गांधी वार्ड
9	छोटा बाजार वार्ड
10	अम्बेडकर वार्ड
11	रामराजा वार्ड
12	शिवाजी वार्ड
13	शास्त्री वार्ड
14	हर्ष मऊ वार्ड
15	रानी दुर्गावती वार्ड

### वार्ड विभाजन की सीमाएं

#### वार्ड क्रमांक 01—शक्ति वार्ड

उत्तर—झांसी मऊ रोड के खसरा क्र. 17 पांखी नाला की पुलिया से नाले के साथ खसरा नं. 22 में पाखी नाला कि किनारे पर निर्मित सीमा चिन्ह तक तथा सीमा चिन्ह से पूर्व की ओर खसरा 28 में निर्मित सीमा चिन्ह तक.

पूर्व—खसरा क्र. 28 के सीमा चिन्ह से एक काल्पनिक रेखा दक्षिण की ओर भैयालाल दांगी के खते नाले चिन्ह से पूर्व की ओर खसरा 28 निर्मित सीमा चिन्ह तक.

दक्षिण—रामप्रसाद कोरी के मकान से खटकयाना तिराहे पर रामचरण ऊर्फ माग खटोक के मकान से गली की दाहिनी ओर धूकरं.

पश्चिम—रामदास सूत्रकार मकान के सामने सीताराम पाल के मकान के बगल की रास्ता होकर श्मशान घाट नदी तक.

#### वार्ड क्रमांक 02—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—खसरा क्र. 17 के बिन्दु से करोदया नाला पोहा नदी से खेतहार भूमि सीमा होते हुए सीताराम पाल के मकान के सामने परसराम भरभूजा के खेत से होकर मिलन चौराहा होते हुए खटकयाना मुहल्ला तिराहा तक.

पूर्व—खटकयाना मुहल्ला तिराहा से समसुददीन अली के मकान अशरफ के मकान से गवडू की चक्की होते हुए खंजा बाबा तक.

दक्षिण—खंजा बाबा से पुरोहित के मकान होते हुए खेतहार भूमि श्मशान घाट क्षेत्र सम्मिलित करते हुए करोदया नाला खसरा नं. 17 के बिन्दु तक.

पश्चिम—करोदया नाला से होते हुए परशराम भरभूजा के खेत तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—सुभाष वार्ड

उत्तर—करोदया नाला से पुरोहित के मकान के सामने एम. पी. यादव के मकान से होते हुए खंजा बाबा तक.

पूर्व—खंजा बाबा से अखलेश साहू कन्या शाला त्रिपाठी के मकान से होते हुए सीधे रास्ता रामचरण कोरी के मकान तक.

दक्षिण—रामचरण कोरी के मकान से पोहा नदी होते हुए करोदया नाला तक.

पश्चिम—करोदया नाला से एम. पी. यादव के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—नेहरू वार्ड

उत्तर—पोहा मार्ग नाला नदी कुण्डी मुहल्ला सम्मिलित करते हुए सीधे सड़क गब्बर के मकान को सम्मिलित करते हुए रविकांत चतुर्वेदी के मकान से शंकर जी के मंदिर होते हुए विलगैया जी के मकान तक.

पूर्व—विलगैया जी के मकान से बब्बू राय के मकान होते हुए गणेश जी मंदिर से सीधे रास्ता पोहा मार्ग आगे नदी ट्यूबवेल के आगे रेल्वे लाईन की ओर.

दक्षिण—रेल्वे लाईन से नाले तक.

पश्चिम—नदी नाला से कुण्डी मोहल्ला पोहा मार्ग तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—भगतसिंह वार्ड

उत्तर—करवल मूलचन्द्र अहिरवार के मकान पोहा मार्ग से रेस्ट हाउस अम्बेडकर तिराहा से गिरजा अहिरवार, गज्जू टी. आई. से होते हुए सोसायटी संतोष वर्मा का मकान से एल के मकान से सीधा रास्ता सिद्ध टौरिया तक.

**पूर्व**—सिद्ध तौरिया से चुरारा सीमा में समीप स्टेशन तिराहा तक.

**दक्षिण**—स्टेशन तिराहा से रेल्वे लाईन सीमा ब्याटा सीमा तक.

**पश्चिम**—ब्याटा सीमा से पोहा नदी पार्क ट्यूबवेल होते हुए मूलचन्द्र अहिरवार करबल के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—अहिल्या बाई वार्ड

**उत्तर**—निवाड़ी तिगैला पुलिस चौकी के सामने से पावर हाउस मुड़ारा सीमा तक.

**पूर्व**—पावर हाउस से जेल सम्मिलित करते हुए मरई माता रोड सीमा सिद्ध तौरिया तक.

**दक्षिण**—सिद्ध तौरिया से वाईपास रोड होते हुए मुन्ना रैकवार के मकान एस. बी. आई. ट्यूबवेल समीप तक.

**पश्चिम**—ट्यूबवेल एस. बी. आई. से सीधे रास्ते छोटे तालाब चन्द्रभान दांगी के मकान आदि सम्मिलित कर वाईपास रोड विनोद अहिरवार फर्नीचर होते हुए रामगोपाल अहिरवार के मकान होते हुए सड़क कालेज सम्मिलित सीधे निवाड़ी तिगैला तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—चन्द्रशेखर वार्ड

**उत्तर**—कैना पुल से खसरा क्र. 28 एवं 28/2 टीला सीमा किनारे रघुवीर प्रसाद अग्रवाल के मकान को सम्मिलित करते हुए निवाड़ी तिगैला मण्डी समीप चौकी तक खसरा नं. 28 एवं 28/2 की सीमा तक.

**पूर्व**—निवाड़ी तिगैला पुलिस चौकी से निवाड़ी मार्ग वाईपास झुन्ना बाल्मीक होते हुए रामकुमार अहिरवार के मकानार्थ होते हुए चिन्तामन रमपुरा के मकान तक.

**दक्षिण**—चिन्तामन रमपुरा के मकान से रोड पार करते हुए पीपल कुइया से दंगयाना कुइया से गुजरते हुए कारसदेव चबूतरा नगरिया की के मकान सम्मिलित करते हुए प्रताप दांगी बलवीर दांगी के मकान तक.

**पश्चिम**—बलवीर दांगी के मकान से वार्ड क्र. 1 सीमा समीप डब्ल्यू. बी. एम. रोड सम्मिलित करते हुए कैना पुल तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—संजय गांधी वार्ड

**उत्तर**—कटरा मुहल्ला से समाधिया के मकान तक वार्ड क्र. 1 की सीमा तक.

**पूर्व**—समाधिया के मकान से पुन्चवू पुरोहित रामजी नापित योगेन्द्र डॉ. का मकान से होते हुए उमाशंकर गुप्ता वकील के मकान तक.

**दक्षिण**—उमाशंकर गुप्ता वकील के मकान से ओम सोनी, बजमोहन धूसर होते हुए श्री प्रकाश दुबे के मकान से होते हुए मस्जिद तक.

**पश्चिम**—मस्जिद से अरूण गुप्ता के मकान होते हुए गबडू की चक्की के सामने वाली रास्ता रमजान की चक्की सम्मिलित करते हुए सुशील नायक के मकान कटरा मुहल्ला तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—छोटा बाजार वार्ड

**उत्तर**—ओम सोनी के सामने खर्द के मकान से राजेन्द्र गुप्ता प्रेस टेक्सी स्टैण्ड सुलभ कॉम्प्लेक्स तक.

**पूर्व**—सुलभ कॉम्प्लेक्स से पुरानी तहसील धर्मशाला होते हुए गांधी चबूतरा से राजेन्द्र प्रेस तक.

**दक्षिण**—राजेन्द्र प्रेस से पुराना थाना होते हुए मस्जिद के सामने श्री रमाकान्त नायक के मकान तक.

**पश्चिम**—रमाकान्त नायक के मकान से परशराम यादव के मकान होते हुए काशी चौधरी के मकान होते हुए खर्द के मकान तक ओम सोनी के सामने.

#### वार्ड क्रमांक 10—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—सुरेश राय के मकान से अमरूद्दीन की दुकान तक.

**पूर्व**—अमरूद्दीन की दुकान से क्र. 1 स्कूल छात्रावास अम्बेडकर चौराहा तक.

**दक्षिण**—अम्बेडकर चौराहा से स्वामी पेन्टर के मकान तक.

**पश्चिम**—स्वामी पेन्टर के मकान से गणेश जी के मंदिर सम्मिलित करते हुए सुरेश राय के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—रामराजा वार्ड

**उत्तर**—टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर सीताराम नामदेव के मकान से छोटा तालाब बांध मूलचन्द्र रैकवार, धनीराम रैकवार के मकान तक.

**पूर्व**—धनीराम रैकवार के मकान से रमेश रैकवार, कंचनपुरा ट्यूबवेल के पम्प हाउस पर.

**दक्षिण**—कंचनपुरा ट्यूबवेल से हाई सेकेण्ड्री स्कूल नं. के तिराहा तक.

**पश्चिम**—स्कूल नं. तिराहा से पटवारी भवन नगरपालिका चिल्ड्रन पार्क से सीताराम नामदेव तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—बालाराम बाढ़ई के मकान से पूर्व की ओर रास्ता सार्वजनिक कुआ होते हुए साहू के मकान लेते हुए रोड तक.

**पूर्व**—रोड से टैक्सी स्टैण्ड सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने तक.

**दक्षिण**—सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने से राजेन्द्र गुप्ता के मकान के सामने वाली रास्ता से बबलू गुप्ता के मकान तक.

**पश्चिम**— बबलू गुप्ता के मकान से बल्लन घूसर, लक्ष्मीकान्त गुप्ता का मकान लेते हुए निराला जी का मकान लेते हुए बालाराम बढई के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—किस्सू लुहार के मकान से मिल्लू मास्टर किशोरी लाल दांगी विजय सिंह दांगी सार्वजनिक कुआं लक्ष्मन साहू से कोरिया की धर्मशाला तक.

**पूर्व**—कोरिया की धर्मशाला से शंकर जी की मडिया चन्दन सिंह कुशवाहा के मकान से सड़क तक.

**दक्षिण**—सीताराम रैकवार से सड़क पार कर राजकुमार दांगी रघुवीर दांगी, कल्लू दांगी, डॉ. विनोद वाजपेई, प्रताप नारायण लखेरे के मकान तक.

**पश्चिम**—प्रताप नारायण लखेरे के मकान से कालीचरण साहू बट्टी दांगी के मकान से किस्सू लुहार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—हर्ष मऊ वार्ड

**उत्तर**—खसरा क्र. 2232 के पूर्वी कोने से नगर सीमा के सहारे पूर्व की ओर खसरा क्र. 941, 942, 942/2, 943 शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन के पीछे से खसरा 741, 743 के किनारे से खसरा क्र. 815 तक.

**पूर्व**—खसरा क्र. 816 से दक्षिण पश्चिम की ओर अड़जार तालाब के किनारे से खसरा 263/15 टीकमगढ़ रोड तक.

**दक्षिण**—खसरा नं. 263/15 से टीकमगढ़ रोड के साथ दक्षिण की ओर खसरा क्र. 24 के सीमा चिन्ह तक, तथा वहां से खसरा क्र. 252 में स्थित सीमा चिन्ह तक.

**पश्चिम**—खसरा क्र. 252 में स्थित सीमा चिन्ह से उत्तर की ओर ब्याटा ग्राम को शामिल करते हुए खसरा क्र. 44 के किनारे से रेल्वे लाईन क्रॉस करते हुए खसरा क्र. 2232 एवं पुरा मुहल्ला तक.

#### वार्ड क्रमांक 15—रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर**—खसरा क्र. 263/15 टीकमगढ़ रोड से कच्चा रास्ता पूर्व की ओर तालाब के किनारे से खसरा क्र. 963 पर.

**पूर्व**—खसरा क्र. 963 से खसरा क्र. 834 के पूर्वी किनारे से अड़जार तालाब के बांध तक तथा बांध से खसरा क्र. 838 में स्थित सीमा चिन्ह तक.

**दक्षिण**—खसरा क्र. 838 में स्थित सीमा चिन्ह के पश्चिम की ओर खसरा क्र. 245 के सीमा चिन्ह तथा टीकमगढ़ रोड तक.

**पश्चिम**—खसरा क्र. 245 टीकमगढ़ रोड पर निवाडी की ओर जाते हुए खसरा क्र. 263/15 तक.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 351- 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Niwari, distt. Tikamgarh as per Schedule given below :—

#### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Shakti Ward
2	Mahatma Gandhi Ward
3	Subhash Ward
4	Nehru Ward
5	Bhagat Singh Ward
6	Ahilya Bai Ward
7	Chandra Shekhar Ward
8	Sanjay Gandhi Ward
9	Chota Bazar Ward
10	Dr. Ambedkar Ward
11	Ramraja Ward
12	Shivaji Ward
13	Shastri Ward
14	Hars Mau Ward
15	Rani Dugrawati Ward

**WARD DEVIDATION LIMIT****Ward No. 01—Shakti Ward**

**North**—From the culvert of Pankhi Nala Khasra No. 17 at Jhansi Mau road boundary limit goes along with in Khasra No. 22 to the boudnary piller constructed at the Bank of Pankhi Nala and further boundary piller to last side till constructed boundary piller in Khasra

**East**—From boundary piller of Khasra No. 28 one Kalpink line at the south side to Khate Wale boundary of Bhaiyalal Dangi last side till constructed boundary piller Khasra No. 28.

**South**—From house of Rani Prasad kon to Khatkyana Tisalve on Ramcharan urf Mag Khateek house to right side of way side Ghunkan.

**West**—Infront of round house of Ramdas Sutrakar way near through house of Sitaram Pal to Shamshan ghat river.

**Ward No. 02— Mahatma Gandhi Ward**

**North**—From the pount of Khasra No. 17 through Karadya Nala Poha Nadi to Khathar land boundary through infront of Sitaram Pal through Parashuram Bharbhujas Khet through Milan Chouraha till Khatakyana Mohalla Tiraha.

**East**—From Khatakyana Mohalla Tiraha to house of Samsuddin Ali to house of Ashraf through Gabdoo ki Chakki till Khanja Baba.

**South**—From Khanja Baba through house of Pushlot including Khetihar Bhuni Shamshan Ghat area till. Karoundia Nala Khasra No. 17 point.

**West**—Through Karoundiya Nala till the Ket of Parashuram Bharbhuja.

**Ward No. 03— Subhash Ward**

**North**—From Karoundiya Nala to infront of house of Purohit through house M. P. Yadav till Khanja Baba.

**East**—From Khanja Baba to through Akhlesh Sahu Kanya Shala Tripathi house State way till house of Ramcharan Kan.

**South**—From house of Ramcharan Kan to through Poha Nadi till around Nala.

**West**—From Karoundiya Nala till house of M. P. Yadav.

**Ward No. 04— Nehru Ward**

**North**—Including Poha Marg Nala Nadi Kundi Mohalla Steta Road including house of Gabbar from house of Ravikant Chaturvedi to Temple of Sankar ji through till house of Bilgaiya.

**East**—From house of Bilgaiya through house Babu Rai from Ganesh ji Temple State way Poha Marg Ahead River tubewell ahead Railway line side.

**South**—From Railway line till nala.

**West**—From Nadi Nala till Kundi Mohalla Poha Marg.

**Ward No. 05— Bhagat Singh Ward**

**North**—From house of Karbal Moolchandra Ahirwar Poha Marg to Rest house Ambedkar Tiraha to house of Gajju TI Society house of Santosh Varma from house of KL State way till Sidhya Toriya.

**East**—From Sidhya Toriya to Churara boundary till near Station Tiraha.

**South**—From Station Tiraha to Railway Line boundary Byata boundary.

**West**—From Byata boundary through from Poha Nadi till house of Moolchandra Ahirwar.

**Ward No. 06— Ahilya Bai Ward**

**North**—From infront of Niwari Tigela Chouki till power house Mudara boundary.

**East**—Power house including Jail till Marai Mata road boundary Sidh Toriya.

**South**—From sidh Toriya through bypass road till house Munna Raikwar SBI near tubewell.

**West**—From tubewell SBI State way to Chota Talab including house of Chandrabhan Dangi etc. bypass road through Vinod Ahirwar furniture through house Ramgopal Ahirwar including way College till State road Niwari Tigela.

**Ward No. 07— Chandra Shekhar Ward**

**North**—From Keina Pull Khasra No. 28 and 28/2 tilla boundary including near house of Raghuvveer Prasad Agrawal Niari Tigela Mandi near Choukey till Khasra No. 28 and 28/2 boundary.

**East**—From Niwari Tigela Police Choukey Ninari Marg bypass through Jhunna Balmik house of Ramkumar Ahirwar till house of Chintaman Rampurya.

**South**—From house of Chintaman crossing road from Pipal Kulya to Dangyana Kuiya passing Karasdev Chabutra including house Nagariya till house of Pratap Dangi Balbeer Dangi

**West**—From house of Balver Dangi Ward No.1 boundary near including WBM road till Keina Pul.

#### **Ward No. 08— Sanjay Gandhi Ward**

**North**—From Katra Mohalla till house of Samadhiya till boundary of Ward No. 1.

**East**—From house Sadhiya through Punchu Purohit, Rami ji Napit, Dr. Yogendra till house of Umashankar Gupta Add.

**South**—From Umashankar Gupta Add through house of Brijmohan Dhosar through house of Shre Prakash Dubey till Masjid.

**West**—From Masjid through house of Arun Gupta including Gabdu Chakki ki Samne wali Rasta Ramjan ki Chakki till house of Shusil Nayak Katra Mohalla.

#### **Ward No. 09— Chotta Bazar Ward**

**North**—Infront of Om Soni from house of Khard till Rajendra Gupta, Gupta Press taxi stand, Sulabh Complex.

**East**—From Sulabh Complex through Purani Tehsil Dharmshala till Gandhi Chabu to Rajendra Press.

**South**—From Rajendra Press through Purana Thana till infront of Masjid house of Ramakant Nayak.

**West**—From house Ramakant Nayak through house of Parashuram Ram Yadav, through house of Kashi Ehamdhu till house of Khard in front of one some.

#### **Ward No. 10— Dr. Ambedkar Ward**

**North**—From house of Suresh Rai upto shop of Amrudeen

**East**—From shop of Amrudeen upto No. 1 School Sostal Ambedkar Choraha.

**South**—From Ambedkar Chouraha upto house of Swami Penter.

**West**—From house of Swami Penter including Ganesh Ji Temple upto house of Suresh Rai.

#### **Ward No. 11— Ramraja Ward**

**North**—On Tikamgarh Jhansi Main road from house of Seetaram Namdev upto little Tenk Deam Moolchandra Raikwar house Dhaniram Raikwar house.

**East**—From house of Dhaniram Raikwar upto Ramesh Raikwar Kanchanpura, Tubewell pump house.

**South**—From Kanchanpura Tubewell upto H. S. S. No. 1 Tiraha.

**West**—From School No. 1 Tiraha upto Patwari Bhawan from Nagar Palika Children park upto Seetaram Namdev.

#### **Ward No. 12— Shivaji Ward**

**North**—From house of Balaram Badai East side way public well through house of Sahu upto road.

**East**—From road till taxi stand infront of Taxi Stand and shopping Complex.

**South**—Infront of Shoping Complex to house Rajendra Gupta infront way upto house of Bablu Gupta.

**West**—From house of Bablu Gupta through house of Ballan Gupta through house of Nirala ji upto house of Balaram Badai.

#### **Ward No. 13— Shastri Ward**

**North**—From house of Kissu Luhar upto millo master Kishorilal Dangi Vijay Singh Dangi public will Laxman Sahu upto Kanya ki Dharmshala.

**East**—From Dharam Shala of Kanya upto Shankar ji ki Madiyas house of Chandra Singh Kushwaha till road.

**South**—From Sitaram Raikwar encrossing road upto house of RajKumar Dangio, Raghuvveer Dangi, Kallo Dangi, Dr. Vinod Bajpai, Pratap Narayan Lakhere.

**West**—From house of Pratap Narayan Lakhere upto hosue of Kalicharan Sahu Batte Dangi till house of Kissu Luhar.

**Ward No. 14— Hars Mau Ward**

**North**—From east corner of Khasra No. 2232 Depend entry limit on east side including Khasra No. 9410, 942, 942/2, 943 behind Railway Station Khasra No. 741, 743 side upto Khasra No. 815.

**East**—From Khasara No. 815 south, west side from Bank of Adjar Talab upto Khasra No. 263/15 Tikamgarh road.

**South**—From Khasara No. 263/15 with Tikamgarh road south side upto limit of point Khasara No. 24 and from there upto situated limit point of Khasra No. 252.

**West**—From limit point situated Khasara No. 252 north side including byata gram from side of Khasra No. 44 crossing Railway line upto Khasra No. 2232 and pura Mohalla.

**Ward No. 15— Rani Durgawati Ward**

**North**—From Khasra No. 263/15 Tikamgarh road east side Khachcha way upto Bank of tank to Khasra No. 963.

**East**—From Khasara No. 963 to Khasra No. 834 east side till Adjar Talab Dam and from Dam to limit parnt of Khasra No. 8388.

**South**—From limit pointed situated in Khasara No. 838 west side tupto limit point Khasra No. 2458 and Tikamgarh road.

**West**—From Khasra No. 245 on Tikamgarh road upto through Niwari side Khasra No. 263/15.

SUDAM KHADE, Collector.

टीकमगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 352-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह 3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद् तरीचरकलॉ, जिला टीकमगढ़

के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

**अनुसूची**

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	संत कबीर वार्ड
2	चन्द्रशेखर वार्ड
3	संजय वार्ड
4	सुभाष वार्ड
5	संत रविदास वार्ड
6	पालेश्वर वार्ड
7	महात्मा गांधी वार्ड
8	अम्बेडकर वार्ड
9	शास्त्री वार्ड
10	सरदार पटेल वार्ड
11	रामराजा वार्ड
12	इंदिरा गांधी वार्ड
13	जगजीवन वार्ड
14	सागर सिंह वार्ड
15	भगतसिंह वार्ड

**वार्ड विभाजन की सीमाएं****वार्ड क्रमांक 01—संत कबीर वार्ड**

**उत्तर**—म. प्र. विद्युत् मंडल कार्यालय से माता मंदिर तक.

**पूर्व**—माता मंदिर से सरकारी कुआं तक.

**दक्षिण**—सरकारी कुआं से दिनेश आर्य के ट्यूबवेल से होते हुए जगर डेरा बस्ती कैथपुरा मुहल्ला सम्मिलित करते हुए मिट्टू केवट के मकान तक.

**पश्चिम**—मिट्टू केवट के मकान से हसू काछी का मकान सम्मिलित करते हुए विद्युत् मण्डल कार्यालय तक.

**वार्ड क्रमांक 02—चंद्रशेखर वार्ड**

**उत्तर**—असफल ट्यूबवेल से लौटे कुशवाहा कैलाश सोनी के मकान को सम्मिलित करते हुये संतोष चौधरी के मकान तक.

**पूर्व**—संतोष चौधरी के मकान से ज्ञानसिंह पटेल के मकान को सम्मिलित करते हुए स्वामी प्रसाद गुप्ता के मकान से मुड़कर डनिडा स्वास्थ्य केन्द्र तक.

**दक्षिण**—डेनिडा स्वास्थ्य केन्द्र से मंडी को सम्मिलित करते हुए मुंडकर हरनारायण काछी के मकान को सम्मिलित करते हुए बाबूलाल कोरी के मकान तक.

**पश्चिम**—बाबूलाल कोरी के मकान से समस्त खेतिहर भूमि कुलिया मुहल्ला बैरकुंआ सम्मिलित करते हुए असफल ट्यूबवेल तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—संजय वार्ड

**उत्तर**—तरीचरखुर्द रोड से गौची नाला होते हुए खिरिया रोड क्रास तक.

**पूर्व**—खिरिया रोड क्रास से भूरे कुशवाहा का मकान सम्मिलित कर सरकारी हैण्डपंप तक.

**दक्षिण**—सरकारी हैण्डपंप से चैना कुशवाहा के मकान के दायीं ओर से समस्त मकान सम्मिलित कर तरीचरखुर्द लिंक मार्ग तक.

**पश्चिम**—तरीचरखुर्द लिंक मार्ग से सिद्धबाबा पहाड़ी पालेश्वर मंदिर गौची नाला होते हुए तरीचरखुर्द रोड क्रास तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—भुजू के मकान से बैजनाथ के मकान तक.

**पूर्व**—बैजनाथ के मकान से बाबू पाल के मकान तक.

**दक्षिण**—बाबूलाल के मकान से दयाराम के मकान से पूर्व की ओर मुड़कर लखनलाल के मकान को सम्मिलित करते हुए असफल ट्यूबवेल तक.

**पश्चिम**—असफल ट्यूबवेल बेर कुआं की सीमा से गुजरते हुए भुजू अहिरवार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—संत रविदास वार्ड

**उत्तर**—लखन अहिरवार के मकान से बद्री अहिरवार के मकान तक.

**पूर्व**—बद्री अहिरवार के मकान से गोटीराम का मकान को सम्मिलित करते हुए लक्ष्मीराय के मकान तक.

**दक्षिण**—लक्ष्मीराय के मकान से असफल ट्यूबवेल तक.

**पश्चिम**—असफल ट्यूबवेल से लखन अहिरवार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—पालेश्वर वार्ड

**उत्तर**—रामसहाय के मकान से सरकारी हैण्डपंप तक.

**पूर्व**—सरकारी हैण्डपंप से लखन काछी मुन्ना बरेठा के मकान से समस्त दायीं क्षेत्र सम्मिलित करते हुए कमलेश देवलिया के मकान तक.

**दक्षिण**—कमलेश देवलिया के मकान से प्यासी साहू के मकान तक.

**पश्चिम**—ग्यासी साहू के मकान से हरनारायण के मकान को सम्मिलित करते हुए रामसहाय के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—प्रेमनारायण सोनी के मकान से पंचमपुरी के मकान को सम्मिलित करते हुए खिरिया रोड क्रास तक.

**पूर्व**—खिरिया रोड क्रास से हनुमान मंदिर होते हुए खिरिया तरीचरखुर्द रोड होते हुए कैलाश कोरी के मकान तक.

**दक्षिण**—कैलाश कोरी के मकान से कैलाश की दुकान तक.

**पश्चिम**—कैलाश की दुकान से कल्ले प्ररोहित हनुमान मंदिर दीनदयाल साहू मैथली खरे मुरारीशरण खरे पंचमपुरी के मकान से दक्षिण की ओर सुरेश काछी की दुकान सम्मिलित कर प्रेमनारायण सोनी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—पंचम कुशवाहा के मकान से खचोरे के मकान तक.

**पूर्व**—खचोरे के मकान से मुसददी भगवानदास के मकान के दायीं ओर की समस्त बस्ती लेते हुए कामता के मकान तक.

**दक्षिण**—कामता के मकान से विनोद कुमार शर्मा के मकान तक.

**पश्चिम**—विनोद कुमार शर्मा के मकान से पंचम कुशवाहा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—घनश्याम आर्य की बैठक से बाबूलाल साहू के मकान तक.

**पूर्व**—बाबूलाल साहू के मकान से पंचमलाल साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—पंचम साहू के मकान से गुरदयाल हरदयाल आर्य के मकान को सम्मिलित करते हुए मातादीन नापित के मकान तक.

**पश्चिम**—मातादीन के मकान से घनश्याम आर्य के बैठका तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—सरदार पटेल वार्ड

**उत्तर**—माधव वर्मा के मकान से लल्लू आर्य के मकान तक.

**पूर्व**—लल्लू आर्य के मकान से सोसायटी सम्मिलित करते हुए रास्ता पारकर गोरेलाल वाढई के मकान तक.

**दक्षिण**—गोरेलाल वाढई के मकान से मथुरा सोनी के मकान तक.

**पश्चिम**—मथुरा सोनी के मकान से रास्ता पारकर शिवदयाल विश्वकर्मा के मकान को सम्मिलित करते हुए माधव वर्मा के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 11—रामराजा वार्ड**

उत्तर—ध्यानी आर्य के मकान से कैलाश भरमूजा के मकान तक.

पूर्व—कैलाश भरमेंजा के मकान से रामदयाल नापित रमेश का वाडा सम्मिलित करते हुए जालिम कोरी के मकान तक.

दक्षिण—जालिम कोरी के मकान से कमलापत आर्य के मकान तक.

पश्चिम—कमलापत आर्य के मकान से ध्यानी के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 12—इंदिरा गांधी वार्ड**

उत्तर—रामशरण के मकान से छंजी कोरी के मकान को सम्मिलित करते हुए रास्ता पारकर दयाराम कोरी के मकान तक.

पूर्व—दयाराम कोरी के मकान से बालादीन मास्टर के मकान तक.

दक्षिण—बालादीन मास्टर के मकान से बसीर खान के मकान को सम्मिलित करते हुए कुंदरसिंह पटेल के मकान तक.

पश्चिम—कुंदन के मकान से रामशरण के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 13—जगजीवन वार्ड**

उत्तर—रावली प्राईमरी स्कूल से रामसहाय का मकान सम्मिलित करते हुए जालिम के मकान तक.

पूर्व—जालिम के मकान से आशाराम पाल के मकान के दायीं ओर के समस्त क्षेत्र सम्मिलित करते हुए बन्दू के मकान तक.

दक्षिण—बन्दू के मकान से तरीचर थाना मार्ग पार करते हुए समस्त हरिजन बस्ती को सम्मिलित करते हुए बिनपारा थोना क्रास मार्ग तक.

पश्चिम—बिनपारा थोना क्रास मार्ग से थोना मार्ग होते हुए प्राईमरी स्कूल तक.

**वार्ड क्रमांक 14—सागर सिंह वार्ड**

उत्तर—बिनवारा थोना क्रास मार्ग से संपूर्ण ढीमर बस्ती व पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए काशीराम पाल के मकान तक.

पूर्व—काशीराम पाल के मकान से खेतिहर भूमि सम्मिलित करते हुए रामलाल के मकान तक.

दक्षिण—रामलाल के मकान से दसई अहिरवार के मकान से पश्चिम की ओर गोटीराम के मकान से रास्ता पार कर अज्जुदीन के मकान को सम्मिलित करते हुए माता मंदिर तक.

पश्चिम—माता मंदिर से रणजीतसिंह सीताराम केवट का मकान लेते हुए रास्ता पार कर बिनपारा थोना क्रास तक.

**वार्ड क्रमांक 15—भगतसिंह वार्ड**

उत्तर—राजेन्द्रसिंह के मकान से दयाराम के मकान को सम्मिलित करते हुए गिरिजा शर्मा के मकान तक.

पूर्व—गिरिजा शर्मा के मकान से हरप्रसाद पाल के मकान तक.

दक्षिण—हरप्रसाद पाल के मकान से ओमप्रसाद ब्राम्हण के मकान को लेते हुए रास्ता पारकर राम जानकी मंदिर से रास्ता पारकर कुट्टू ढीमर के मकान तक.

पश्चिम—कुट्टू ढीमर के मकान से नन्दू ढीमर के मकान को सम्मिलित करते हुए राजेन्द्रसिंह के मकान तक.

सुदाम खाडे, कलेक्टर.

Tikamgarh, the 29th April 2014

No. 2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-2004, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Sudam Khade, Collector, Distt. Tikamgarh, Madhya Pradesh Under Section 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine of extend of ward of Nagar Parisad Taricharkala, distt. Tikamgarh as per Schedule:—

**SCHEDULE**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Sant Kabir Ward
2	Chandra Ward
3	Sanjay Ward
4	Subhash Ward
5	Sant. Ravidas Ward
6	Paleshwar Ward
7	Mahatma Gandhi Ward
8	Ambedkar Ward
9	Shastri Ward
10	Sardar Patel Ward
11	Ramraja Ward
12	Indra Gandhi Ward
13	Jagjeevan Ward
14	Sagar Singh Ward
15	Bhagat Singh Ward



**WARD DEVIDATION LIMIT****Ward No. 01— Sant Kabir Ward**

**North**—From MPEB Divisional Office to Mata Mandir.

**East**—From Mata Mandir up to Government well.

**South**—From Government well including Dinesh Arya's Tubewell Jagandera Basti, Kaithpura Mohalla up to the house of Mitthu Kewat.

**West**—From Mitthu Kewat's house including Hasu Kachhi's house up to the M. P. E. B. divisional office.

**Ward No. 02— Chandra Shekhar Ward**

**North**—From fail tubewell including the house of Iote Kushawaha, Kailash Soni's up to the house Santosh Chaudhary.

**East**—From Santosh Chaudhary's house including house of Gyan Patel Shwami Prasad Gupta up to Denida building.

**South**—From Denida building to including Mundi turning and including the house of Har Narayan Kanchhi up to the Babulal Kori's house to the including.

**West**—From Babu Kori's house including entrie agriculture land Kuliya Mohalla Berkuwan up to fail tubewell.

**Ward No. 03 —Sanjay Ward**

**North**—Taricharkhurd road including Couchi male up to the Khiria cross road.

**East**—From Khiriya cross road including Kushawaha house up to the government hand pump.

**South**—From Government hand pump including all the house on the right side Chaina Kushawaha up the Taricharkhurd link road.

**West**—From Taricharkhurd link road including Sidh Baba Pahadi Paleswar Mandir Gonchi Nala up to Taricharkhurd road cross.

**Ward No. 04 —Subhash Ward**

**North**—From Bhujua house up to the house Baijnath.

**East**—From Baijnath house up to the house of Babu Pal.

**South**—From Babu Pal's house turning to the guest from Dyaram including the house Lakhanlal Ahirwar up to the fail tubewell.

**West**—From fail tubewell passing Ber Kua including Bhujua Ahirwar house.

**Ward No. 05—Sant Ravidas Ward**

**North**—From Lakhan Ahirwar's house from up to the house of Badri Ahirwar.

**East**—From Badri Ahirwar's house including the house of Gotiram up to the house of Laxami Rai.

**South**—From Laxmi Rai's house up to the fail tubewell.

**West**—Fail tubewell up to the house of Lakhan Ahirwar.

**Ward No. 06—Paleshwar Ward**

**North**—From Ramshay house up to the Government hand pump.

**East**—Government hand pump up to the Lakhan Kushawaha including entire/area house on the right of Munna Rajak's house up to house.

**South**—From Kamlesh Dewaliya house up to the house of Gyasi Sahu.

**West**—From Gyasi Sahu's including the house of Harnarayan up to house of Ramshay.

**Ward No. 07— Mahatma Gandhi Ward**

**North**—From Pem Narayan Soni's house including the house of Panchampuri up to the Khiriya cross road.

**East**—From Khiriya cross road passing Hanuman Mandir road including Khiriya Tarichar road up to the house of Kailash Kori.

**South**—From Kailash Kori's house up to the shop of Kailash.

**West**—From Kailash's including Kalle Prohit Hanuman Mandir, Deendyal Sahu, Maithili Khare Murari Sharan Khare, Panchampuri house turning to the south and including shop os Suresh Kachhi up to the house Prem Narayan Soni.

**Ward No. 08— Ambedkar Ward**

**North**—From Pancham Kushawaha's house up to the house of Khachore..

**East**—From the house of Khachore including the entire basti in to the right side of Musaddi Bhagawandas's house up to the house of Kamta.

**South**—From Kamta's house up to the house Vinod Kumar Sharma.

**West**—From Vinod Kumar Sharma's house up to the house of Pancham Kushawaha.

#### **Ward No. 09— Shastri Ward**

**North**—From Ghanshyam Arya's Baithak up to the Babulal Sahu's house.

**East**—Babulal Sahu's up to the house Pancham Sahu.

**South**—From Pancham Sahu's house including the house of Gurdyal, Hardyal Arya up to the house Matadeen Napit.

**West**—From Matadeen Napit's house up to the Ghanshyam Arya's Baithak.

#### **Ward No. 10— Sardar Patel Ward**

**North**—From Madhav Verma house up to house of Lallu Arya.

**East**—From Lallu Arya's house including Society crossing the road up to house of Gorelal Panchal.

**South**—From Gorelal Panchal up to the house of Mathura Soni.

**West**—From the house of Mathura Soni's to crossing the including the house of Shivdayal Vishwakarma up to the house of Madhav Verma.

#### **Ward No. 11—Ramraja Ward**

**North**—From Dhyani Arya's house up to the house of Kailash Bharbhujia.

**East**—From Kailash Bharbhujia's house including the house Ramdyal Napit, Ramesh ka Bada up to the house of Jalam Kori.

**South**—From Jalam Kori's house up to the house Kamlapath Arya's house.

**West**—From Kamlapath Arya's house up to the house of Dhyani.

#### **Ward No. 12— Indra Gandhi Ward**

**North**—From the house of Ramsharan Arya including the house of Chhandi Kori crossing the road up to house of Dayaram Kori.

**East**—From Dayaram Kori house up to the house Baladeen master.

**South**—From the house of Baladeen master including the house of Basir Khan up to the house of Kundan Singh Patel.

**West**—From the house of Kundan Singh Patel up to the house of Ramsahay.

#### **Ward No. 13— Jagjeevan Ward**

**North**—From Rawli primary school including the house of Ramshay up to the house of Jalim.

**East**—From Jalim's house including the entire eriya of right side of Asharam Pal's house up to the house Baldu.

**South**—From Baldu's house crossing the Tarichar Marg including entire Harijan Basti up to the Binwara, Thona cross road.

**West**—From Binwara's cross road passing the Thona Marg up to the Primary School.

#### **Ward No. 14— Sagar Singh Ward**

**North**—From Binwara, Thona cross road including entire Dhimar Basti, Hilly eriya upto house of Kashiram Pal.

**East**—From Kashiram Pal's house including entire Agricultural Land up to the house of Ramlal.

**South**—From Ramlal's house and turning to the west from Dasai Ahirwar's crossing the road from Gotiram's house including Ajuddi's house up to the Mata Mandir.

**West**—From Mata Mandir including Ranjeet Singh and Sitaram's house crossing the road and Sinware Thona road up to Binwara Thona cross road.

#### **Ward No. 15—Bhagat Singh Ward**

**North**—From Rajendra Singh's house including the house of Dayaram up to house of Girjaprasad Sharma.

**East**—From Girjaprasad Sharma's house up to the house of Harprasad Pal.

**South**—From Harprasad Pal's house including the Omprakash Sharmas's house crossing the road and including the Ram Janki Mandir road up to the house of Kutu Kewat.

**West**—From Kutu Kewat's house including the house of Ganu Kewat up to the house of Rajendra Singh.

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 4270-पं.प्रको.परिसीमन-2014.—

राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

## जिला पंचायत राजगढ़

## परिशिष्ट-5(ब)

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आनन्दकुमार शर्मा कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजगढ़	1-जीरापुर	धानोदा, भगोरा, लिम्बोदा, झरनी, मोहली, कोड़क्या, ब्राम्हणगांव, आगरिया, अरन्या, लखौनी, गड़गच, खेड़ी, पाड़ल्या, पीपल्याकुल्मी, गोविन्दपुरा, जैथली, भगोरी, लसूडल्या, झरन्या, आमलाबे, दोबड़ा, कूमड़ा, कूमड़ी, चौखण्डा, खोंकरिया, मुकुन्दपुरा, मीनागांव, पाड़ली, बाड़गांव, उचावदा-उचावदी, गोघटपुर, पोलखेड़ा, बावड़ीखेड़ा, डूंगरी, कवलसीखेड़ा, कचनारिया, गादिया, राजपुरा, रामगढ़, गोरियाखेड़ा बांकपुरा, बंदा, गुलखेड़ी, कुण्डालिया	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0, महिला अ0 पि0 वर्ग महिला अनारक्षित	01 00 02 02 01 03 03
2		2-जीरापुर	खारपा, मैनाखेड़ी, परोलिया, धतरावदा, भण्डावद, बटावदा, खेजड़िया, सिरपोई, लसूडल्याखैराज, रूपाहेड़ा, सादलपुर, गागोरनी, जैतपुरा, बरखेड़ीउमठ, ब्राम्हणखेड़ा, धतुरिया, भानपुरा, राजाहेड़ी, बरमनखेड़ी, टपरियाहेड़ी, काशीखेड़ी, झाड़मउ, बांसखेड़ी, रामनगर, तमोलिया, पीपल्दा, चिलावद, कहारखेड़ा, रानीपुरा, पीपल्याबीजारेल, हरिगढ़, उभापान, लक्ष्मणपुरा, नाईहेड़ा, खांकरी, बालाहेड़ा, नांदनी, मोहन, दुपाड़िया, सूरजपुरा,		

3		3-खिलचीपुर	पोलाखेड़ा, महाराजपुरा, कण्डेली करकरी, चीबड़कलां, अमानपुरा, समेली, सेदरा, भूमरिया, गोपालपुरा, बारोल, डालूपुरा, गादियाकलां, मोकमपुरा, दुर्गपुरा, बावड़ीखेड़ाजागीर, भोजपुर, गादियामेर, खाजला, बोरकापानी, बादरी, बावड़ीखेड़ा, धामन्या, दिलावरी, सतनखेड़ी, रिछड़िया, खेरखेड़ी, बरखेड़ा, सुआहेड़ी, बघेला, धामन्याजोगी, हरिपुरानजदीक, रूपपुरा, छिपीपुरा, ढाबलीकलां, पपड़ेल, चांदपुरा, शेरपुरा, सेमलीकलां, रूपाहेड़ा, खोंखेड़ा, देहरा, ढण्ड, रामपुरिया, कुशलपुरा, सड़ियाकुआ, माण्डाखेड़ा, सेमलीकांकड़, लिम्बोदा, हिम्मतपुरा, खाजली, भवानीपुरा, खुरचन्याकलां, अभयपुर
4		4-खिलचीपुर	पानखेड़ी, जैतपुराकलां, बिसन्या, देवाखेड़ी, कुलीखेड़ी, खजूरीगोकुल, भादाहेड़ी, नाटाराम, गाड़ाहेट, बामनगांव, कांकरिया, हिनोत्या, गूर्जरखेड़ी, महाराजपुरा, रूपारेल, दुदाहेड़ी, जटामढी, ब्यावराकलां, धुआंखेड़ी, सिकन्दरी, सोनखेड़ाकलां, फतेहपुर, लक्ष्मणपुरा, पीपल्याकलां, खाताखेड़ी, कछोटिया, बाजरोन, भाटखेड़ा, हालाहेड़ी, जैतपुराखुर्द, गूगाहेड़ा, देवलीसांगा, दौलाज, जामोन्या, चितावलिया, बरखेड़ाभोजा, अमावता, रनारा, गुनाखेड़ी, कुआंखेड़ा, लसूडली, चमारी, दरियापुर, बड़बेली
5		5-राजगढ़	बलबहादुरपुरा, पीपलोदी, देहरीनाथ, हिनोति, भियांपुरा, किलाअमरगढ़, बांकपुरा, प्रेमपुरा, संवासड़ा, जलालपुरा, काचरी, सिन्दुरिया, कीलखेड़ा, नारायणघटा, देवलीकलां, आम्बा, महाबल, सांडाहेड़ी, बनानिया, कालीपीठ, टांडीकलां, हिरनखेड़ा, धनवासकलां, माचलपुर, सुल्तानपुरा, गोलाखेड़ा, झंझाड़पुर, खेड़ी, बावड़ीपुरा, सुआहेड़ी, लहरची, कंवरपुरा, कांसी, मोतीपुरा, छायन
6		6-राजगढ़	पाड़लीखाती, देवझिरी, पीपलवे, सरेड़ी, हताईखेड़ा, बरखेड़ा, कलीखेड़ा, पीपल्या, रामगढ़, पाटनकलां, नेसड़ी, कुण्डीवे, राजपुरा,

			करेड़ी, कोलूखेड़ी, खैरासी, गोरखपुरा, खजूरी, नरी, कालीतलाई, रोज्या, मूरारिया, चाटूखेड़ा, पड़िया, अभयपुर, बगा, खरना, बानपुर, मांडाखेड़ा, बामलाबे, कोलूखेड़ा, मोहनपुरा, बाईहेड़ा, फूलखेड़ी		
7		7-राजगढ़	तुमड़ियाखेड़ी, घोड़ाखेड़ा, रामपुरिया, चौंसला, बांसखेड़ा, लसूड़लीधाकड़, लाख्या, लिम्बोदा, पाड़ल्याखेड़ी, कल्पोनी, बड़लावदा, चौंडापुरा, टूनी, कोड़ियाजरगर, फुन्दिया, गोरियाखेड़ा, पीपलखेड़ा, चौतरा, सुस्तानी, बादलखेड़ी, नाईहेड़ा, समेली, सीलापानी, करनवास, ओड़पुर, सनखेड़ी, कचनारिया, देहरीबामन, देहरीकराड़, पदमपुरा, बखेड़, खेड़ी		
8		8-ब्यावरा	पीपलबे, कटारियाखेड़ी, चन्दरपुरा, माल्याहेड़ी, पड़ोनिया, कचनारिया, परसुलिया, बालचिड़ी, शाहपुरा, मोर्चाखेड़ी, जरकड़ियाखेड़ी, पनाली, रलायती, भिलवाड़िया, भाटखेड़ी, पुनरखेड़ी, देवलखेड़ा, दुल्तारिया, खानपुरा, खजूरिया, जामोन्याघाटा, बरखेड़ा, हबीपुरा, निपानिया, खुरी, मोया, नारियाबे, कांसोरकलां, आलमपुरा, अमरगढ़, भाटपुरासौंधिया, बहादुरपुरा, चाठा, लोधीपुरा		
9		9-ब्यावरा	बांसखो, पहाड़गढ़, निवारा, कानेड़, नापानेरा, गोलाखेड़ा, रायपुरिया, मरु, नेवली, तरेना-59, खनोटा, टोंका, बिसोनिया, नेटाठारी, मोठबड़ली, जेपला, पीपल्याखेड़ी, गिन्दोरहाट, गोरधनपुरा, कोलूखेड़ी, बैलास, मानकी, हांसरोद, सालरियाखेड़ी, बेरियाखेड़ी, सेमलापार, सलेहपुर, नरी, बेड़ाबे, पारसाना		
10		10-ब्यावरा	ढकोरा, तालोड़ी, पगारा, लसूड़लीमहाराजा, मुवालियादांगी, बारवां, बाईहेड़ा, बागोरी, अतरालिया, गिन्दोरमीना, तलावड़ामहाराजा, खांकरातेजा, जामोन्या, मलावर, भगवतीपुर, अरन्या, मोतीपुरा, आमल्याहाट, आगर, चूकल्या, पीपलहेला, बरखेड़ी, तलावली, चाचाखेड़ी, सुन्दरपुरा, कुण्डीखेड़ा, आमडोर, भवास, लखनवास, तरेना-86, सीलखेड़ा, पाड़लीगुसाई,		

			बगवाज, गांगाहोनी, उमरेड़, खेजड़ामहाराजा, बरखेड़ीनवीन, पातलापानी, किशनगढ़, झरखेड़ा, कड़ियाहाट, भूरा, टोड़ी, बोरदा, जामी
11		11-नरसिंहगढ़	नूत्याहेड़ी, घियांखेड़ी, ताजपुरा, कांकरवाल, उदपुरिया, खानपुरा, चांदबड़, पलासी, बैरसिया, खेड़ी, कुदाली, गनियारी, भवानीपुरा, कड़ियाचन्द्रावत, चैनपुराकलां, पीपल्याबाग, पाड़ल्याबना, सोनकच्छ, आंदलहेड़ा, गादिया, चारपुरा, मानपुरादेव, पांजरा, मुआलियाहेदर, संवासी, पुराबरायठा, विजयगढ़, रामगढ़, बरखेड़ीगढ़ी, कोटरा, बिहार
12		12-नरसिंहगढ़	सांकाजागीर, लश्करपुर, झाड़क्या, पालखेड़ी, तरेनीधाकड़, तिन्दोनिया, माना, जामोन्यागौपचौहान, गीलाखेड़ी, मोयलीकलां, लसूड़ल्याहाजी, शिवपुरा, पीलूखेड़ी, बड़नगर, खेरखेड़ी, बिजोरी, कांकरियामीना, मानपुरा,
13		13-नरसिंहगढ़	निपान्याचेतन, मुगलखेड़ी, मानपिछोड़ी, धनखेड़ी, मंगलादीप, बिरगढ़ी, बोरखेड़ा, झाड़ला, आंवली, सूकल्या, बरखेड़ाडोर, मवासा, लसूड़ल्यापाता, जामोन्याजौहार, जामोन्यागणेश, बड़ोदियातालाब, सराना, खजूरिया, बरखेड़ाअमरदास, नंदगांव, मूण्डलाबारोल, हिनोत्या, कोटरीकलां, साहूखेड़ी, पीपलखेड़ा, कण्डाराकोटरी, पनवाड़ी, ढाबला
14		14-नरसिंहगढ़	इकलेरा, टिकरिया, बावड़ीखेड़ा, पाड़ल्यादान, पीपल्यातवक्कुल, नाहली, जंगीबड़, बनापुरा, पटेलपुरा, तुर्कीपुरा, बेजड़, बड़बेली, बरनावद, कांसरोद, बूचाखेड़ी, शहदखेड़ी, उमरी, परसूखेड़ी, सूकली, ताजीपुरा, हूलखेड़ी, पीपल्याबीरम, बमोरी, बमोरासूखा, रोंसला, निपान्यागढ़ी, झागरिया
15		15-नरसिंहगढ़	पान्या, लसूड़ल्याजागीर, उमरिया, पीपल्यारसोड़ा, चाठा, हरलाय, कोड़ियागौढ़, आंकखेड़ीकलां, कूकल्याखेड़ी, मण्डावर, भैंसाना, कुराड़ियाखेड़ी, कुवंरकोटरी, झाड़पीपल्या, कड़ियासांसी, करोंदी, महुआ, गेहूँखेड़ी, गिन्दोली, चौमा, अमलार, बारवांखुरम, भिलखेड़ा,

			बोकड़ी, रलायती, बकानी, रनावा, गागर, कुड़लासा		
16		16-सारंगपुर	बुढ़नपुर, इटावा, बनी, टिकोद, लाटाहेड़ी, जबरदी, हालूहेड़ीकलां, पटाड़ियाधाकड़, रोस्या, सराली, आसारेटापंवार, करोंदी, मगराना, धनोरा, लखेसरा, पाड़ल्याआंजना, भूमका, डोबड़ाजमींदार, चिड़लावनिया, बाबल्दा, गायन, आमलारोड़, धामन्दा, घटटिया, इचिवाड़ा, गुलावता, बाबड़ल्या, भूराखेड़ी, कोड़ियाखेड़ी, बाबल्दी, शेरपुरा, तरलाखेड़ी, मंग्याखेड़ी, चाकरोद, तुकोगंज		
17		17-सारंगपुर	निहाल, सईदाबाग, काछीखेड़ी, कांकरिया, नारायणपुर, पड़ना, मउ, नैनवाड़ा, कमलसरा, छापरा, सुल्तानिया, भण्डावद, सरेड़ी, गुलखेड़ी, नारान्या, उदनखेड़ी, ग्वाड़ा, रामपुरिया, चाटक्या, पाटक्या, पांदा, कालापीपल, कड़लावद, कूपा, देवलीमानजागीर, शामगीघाटा, खजूरियाघाटा, खजूरियाहरि, काचरियाभाई, कालूखेड़ा, चतरूखेड़ी, सेमलीधाकड़, रामपुरिया, बारोल		
18		18-सारंगपुर	दुग्या, मूण्डलालोधा, साबरस्या, निपान्यातुला, भाटखेड़ी, सेमलीलोड़ा, झिरी, देदला, लीमाचौहान, सण्डावता, भ्याना, हराना, दराना, बरखेड़ाखुरम, दोबड़ाजोगी, काल्याखेड़ी, भैंसवामाता, पाड़ल्यामाता, ब्यावरामाण्डू, ढाकनी, टूटियाहेड़ी, अरन्या, आमगढ़ा, पीपल्यापाल, सीमरोल, बालोड़ी, डिगवाड़, बिगनोदीपुरा		

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर

## जनपद पंचायत राजगढ़

## परिशिष्ट-5( ब )

अनु.क्रमांक	खण्ड / जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा( ग्राम पंचायत के)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्यां	
				प्रवर्ग	संख्यां
1	2	3	4	5	6
1	राजगढ़	1 पिपलोदी	पिपलोदी	अजा	2
			देहरीनाथ	अजजा	
			छायन	अन्य पिछडावर्ग	3
				महिला अजा	2
		2 भियापुरा	भियापुरा	महिला अजजा	1
			हिनोती	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
			किलाअमरगढ़	महिला अनारक्षित	7
		3 माचलपुर	माचलपुर		
			बलबहादुरपुरा		
			कवरपुरा		
			झंझाडपुर		
		4 पाडलीखाती	पाडलीखाती		
			गोलाखेडा		
			बगा		
			देवझिरी		
			कांसी		
		5 कीलखेडा	कीलखेडा		
			काचरी		
			महाबल		
		6 कालीपीठ	कालीपीठ		
			बनानिया		
			सुल्तानपुरा		



			देवलीकला	
		7 बामलाबे	बामलाबे	
			पडिया	
			मांडाखेडा	
			मोहनपुरा	
			कोलूखेडा	
			अभयपुर	
		8 करनवास	करनवास	
			समेली	
			सीलापानी	
			ओढपुर	
		9 लिम्बोदा	लिम्बोदा	
			तुमडियाखेडी	
			खेडी	
			लसुडलीधाकड	
		10 नाईहेडा	नाईहेडा	
			नरी	
			बाईहेडा	
			मुरारिया	
		11 कल्पोनी	कल्पोनी	
			बखेड	
			पाडल्याखेडी	
		12 देहरीकराड	देहरीकराड	
			बांसखेडा	
			लाख्या	
			घोडाखेडा	

	13 सुस्तानी	सुस्तानी		
		पीपलखेडा		
		कचनारिया		
		ढूनी		
		पदमपुरा		
	14 सरेडी	सरेडी		
		फूलखेडी		
		बरखेडा		
		राजपुरा		
	15 करेडी	करेडी		
		खजूरी		
		कुण्डीबे		
	16 खैरासी	खैरासी		
		कोलखेडी		
		चौंसला		
		हताईखेडा		
	17 देहरीबामन	देहरीबामन		
		बादलखेडी		
		सनखेडी		
		गोरियाखेडा		
	18 संवासडा	संवासडा		
		सुवाहेडी		
		जलालपुरा		
		सिन्दूरिया		

	19 बांकपुरा	बांकपुरा	
		बावडीपुरा	
		धनवासकला	
		लेहरची	
		नारायणघटा	
	20 सांडाहेडी	सांडाहेडी	
		खेडी	
		आम्बा	
		प्रेमपुरा	
	21 पीपल्या	पीपल्या	
		बानपुर	
		पीपलबे	
		खरना	
	22 पाटनकला	पाटनकला	
		रामगढ़	
		नेसडी	
		कालीतलाई	
	23 कलीखेडा	कलीखेडा	
		टांडीकलां	
		हिरनखेडा	
		मोतीपुरा	
	24 चोडापुरा	चोडापुरा	
		फून्दिया	
		कोडियाजरगर	
		बडलावदा	
		चौतरा	
	25 चाटूखेडा	चाटूखेडा	
		रामपुरिया	
		रोज्या	
		गोरखपुरा	

## जनपद पंचायत ब्यावरा

अनुक्रमांक	खण्ड जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	
1	ब्यावरा (राजगढ़)	1- चन्द्रपुरा	1. चन्द्रपुरा 2. चाठा 3. पीपलबे 4. कटारियाखेडी 5. माल्याहेडी 6. मोया 7. जामोन्धाघाटा	अ.जा. महिला	3
		2 - लोदीपुरा	1. लोदीपुरा 2. बरखेडा 3. हबीपुरा 4. निवानिया	अ.जा. मुक्त	2
		3 - झरखेडा	1. झरखेडा 2. गिन्दोरमीना 3. तलावली 4. ढकोरा 5. चाचाखेडी	अ.ज.जा महिला	1
		4 - पडोनिया	1. पडोनिया 2. बहादुरपुरा 3. कचनारिया 4. खुरी	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5 - पीपलहेला	1. पीपलहेला 2. भूरा 3. बरखेडी 17 4. बाईहेडा	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6 - बालचिडी	1. बालचिडी 2. परसूलिया 3. शाहपुरा 4. खजूरिया	अन्य पि. वर्ग मुक्त	3
		7 - बांरवा	1. बांरवा 2. तालोडी 3. लसूडलीमहाराजा	अनारक्षित महिला	6
		8 - देवलखेडा	1. देवलखेडा 2. पूनरखेडी 3. भाटखेडी 4. दुत्तारिया		
		9 - पनाली	1. पनाली 2. जरकडियाखेडी 3. रलायती 4. भीलवाडिया 5. मोर्चाखेडी		
		10 - आमल्याहाट	1. आमल्याहाट 2. पगारा 3. मुवालियादांगी 4. भगवतीपुर 5. बोरदा		
		11 - नारियावे	1. नारियावे 2. जेपला 3. कांसोरकला 4. खानपुरा 5. आलमपुरा		
		12 - गोस्धनपुरा	1. गोस्धनपुरा 2. गिन्दोरहाट 3. मानकी 4. बेलास 5. पीपल्याखेडी		
		13 - अतरालिया	1. अतरालिया 2. बागोरी 3. जामी 4. जामोन्धा 5. तलावडामहाराजा 6. खांकरातेजा		
		14 - मलावर	1. मलावर 2. चुकल्या 3. अरन्धा		
		15 - आगर	1. आगर 2. सुन्दरपुरा 3. मोतीपुरा 4. बरखेडीन.		
		16 - भंवास	1. भंवास 2. कुण्डीखेडा 3. आमडोर 4. लखनवास 5. किशनगढ		
		17 - बेरियाखेडी	1. बेरियाखेडी 2. उमरेड 3. खेजडामहाराजा 4. सेमलापार		
		18 - बगवाज	1. बगवाज 2. सीलखेडा 3. पाडलीगुसाई 4. तेरना 5. पातलापानी		
		19 - कडियाहाट	1. कडियाहाट 2. गांगाहोनी 3. निवारा		
		20 - सालरियाखेडी	1. सालरियाखेडी 2. सलेहपुर 3. हांसरोद 4. कोलूखेडी		
		21 - मोठबडली	1. मोठबडली 2. नरी 3. बिसोनिया 4. बेडाबे		
		22 - मरु	1. मरु 2. पहाडगढ 3. टोडी		
		23 - रायपुरिया	1. रायपुरिया 2. खनोटा 3. गोलाखेडा 4. पारसाना		
		24 - बांसखो	1. बांसखो 2. कानेड 3. नेवली 4. नापानेरा 5. नेठाठारी		
		25 - तेरना 86	1. तेरना 2. अमरगढ 3. टोंका 4. भाटपुरासौधिया		

## जनपद पंचायत नरसिंहगढ़

## परिशिष्ट-5( ब )

अनु.क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़	1	1- नून्याहेड़ी	अ0जा0	5
			2- घियाखेड़ी	अ0ज0जा0	1
			3- भैसाना	अन्य पिछडावर्ग	6
			4- ताजपुरा	महिला अ0जा0	3
			5- कुराड़ियाखेड़ी	महिला अ0ज0जा0	0
			6- कुंवरकोटरी	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		2	1- उदपुरिया	महिला सामान्य	6
			2- कांकरवाल		
			3- बैरसिया		
			4- नन्दगांव		
			5- कुदाली		
			6- चांदबड़		
		3	1- सोनकच्छ		
			2- खेड़ी		
			3- भवानीपुरा		
			4- पलासी		
			5- खानपुरा		
			6- कड़ियाचंद्रवत		
		4	1- मानपुरादेव		
			2- मुवालिया खेदर		
			3- पांजरा		
			4- संवासी		
			5- पुराबरायठा		
			6- रामगढ़		
		5	1- माना		
			2- कांकरियामीना		
			3- गीलाखेड़ी		
			4- जामोन्धा जौहार		

1	2	3	4	5	6
		6	1- बिहार		
			2- कोटरा		
			3- तिन्दोनिया		
			4- बरखेड़ीगढ़ी		
			5- विजयगढ़		
		7	1- बड़ोदिया तालाब		
			2- गनियारी		
			3- सराना		
			4- खजुरिया		
			5- बरखेड़ा अमरदास		
		8	1- मवासा		
			2- लसूडल्यापाता		
			3- झाड़ला		
			4- आंबली		
			5- सूकल्या		
			6- बरखेड़ाडोर		
		9	1- आंकखेड़ी		
			2- कोड़ियागोड़		
			3- मंडावर		
			4- हरलाय		
			5- कूकल्याखेड़ी		
			6- रनावा		
		10	1- उगरिया		
			2- पीपल्यारसोड़ा		
			3- पान्या		
			4- लसूडयाजागीर		
			5- करौंदी		
		11	1- परसूखेड़ी		
			2- महुआ		
			3- बारवांखुरम		
			4- भीलखेड़ा		
			5- रोसला		
			6- बमोरा सूखा		
		12	1- चौमा		
			2- गन्दोली		
			3- गेहूखेड़ी		
			4- बोकड़ी		
			5- कड़ियासांसी		
			6- रलायती		
		13	1- पाड़ल्यादान		
			2- टीकरिया		
			3- अमलार		

1	2	3	4	5	6
			4- बावड़ीखेड़ा		
			5- पीपल्यातवक्कुल		
		14	1- इकलेरा		
		"	2- बरनावद		
			3- बेजड़		
			4- बड़वेली		
		15	1- नाहली		
			2- सेहत खेड़ी		
			3- जंगीबढ़		
			4- बनापुरा		
			5- पटेलपुरा		
			6- तुर्कीपुरा		
		16	1- सूकली		
			2- गागर		
			3- उमरी		
		"	4- बूचाखेड़ी		
			5- बमोरी		
			6- कांसरोद		
		17	1- पनवाड़ी		
			2- ढाबला		
			3- कण्डारा कोटरी		
			4- हूलखेड़ी		
			5- ताजीपुरा		
			6- पीपल्या बीरभ		
		18	1- मूडलाबारोल		
			2- मोयलीकला		
			3- लसूडयाहाजी		
		"	4- जामो.गोप.चौहान		
			5- जामोन्या गणेश		
		19	1- साहूखेड़ी		
			2- कोटरीकला		
			3- बिजोरी		
			4- मानपिछोड़ी		
		20	1- आन्दलहेड़ा		
			2- पाड़ल्याबना		
			3- गादिया		
			4- चारपुरा		
			5- चैनपुराकला		
			6- पीपल्याबाग		
		21	1- बिरगढ़ी		
			2- बोरखेड़ा		
			3- मेंगलादीप		

1	2	3	4	5	6
			4- मुगलखेड़ी		
			5- निपान्याचेतन		
			6- धनखेड़ी		
		22	1- तरेनीधाकड़		
			2- सांकाजागीर		
			3- लशकरपुर		
			4- झाड़क्या		
			5- पालखेड़ी		
			6- शिवपुरा		
		23	1- पीलूखेड़ी		
			2- बड़नगर		
			3- खेरखेड़ी		
			4- मानपुरागुजराती		
			5- पीपलखेड़ा		
		24	1- चाठा		
			2- बकानी		
			3- झाड़पीपत्या		
			4- निपान्यागढ़ी		
			5- झागरिया		
			6- हिनोत्या		

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.



## जनपद पंचायत सारंगपुर

## परिशिष्ट-5( ब )

अनु. क्रमांक	खण्ड/जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सारंगपुर	1-देवलीमानजॉगीर	देवलीमानजॉगीर,कालापीपल, खजूरियाहरी,भूमका,मूंडलालोदा	अजा	2
		2-सिमरोल	सिमरोल,साबरस्या, कडलावद, निपान्यातुला, देदला	अजजा	1
		3- खजूरियाघांटा	खजूरियाघांटा, शामगीघांटा,बारोल ,कूपा	अ.पि.वर्ग	3
		4- भ्याना	भ्याना,झिरी, सेमलीलोडा,	महिला अजा	3
		5-संडावता	संडावता, बरखेडाखुरम, काल्याखेडी, डोबडाजोगी	महिला अजजा	1
		6- लीमाचौहान	लीमाचौहान, हराना, दराना	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7-काचरियाभाई	काचरियाभाई ,भाटखेडी, , दुग्गा, ढाकनी	महिला अनारक्षित	6
		8-बालोडी	बालोडी, ब्यावरामाण्डू,आमगढ़ा, बिगनोदीपुरा		
		9-पाडल्यामाता	पाडल्यामाता, भैंसवामाता		
		10-ईचीवाडा	ईचीवाडा, अरन्या, शेरपुरा,घट्टिया, पीपल्यापाल		
		11-टुटियाहेडी	टुटियाहेडी,पान्दा,पाटक्या, चाटक्या		
		12-डोबडाजामीदार	डोबडाजामीदार, रायपुरिया, बाबल्दा, बाबल्दी, भंडावद, सेमलीधाकड		
		13-सुल्तानिया	सुल्तानियां, सरेडी, गुलखेडी		
		14-चिडलावनियां	चिडलावनियां, गायन, धामन्दा, आमलारोड		
		15-गुलावता	गुलावता,बाबडल्या,डिगवाड, भूराखेडी		
		16-तरलाखेडी	तरलाखेडी,सईदाबाग,निहाल		
		17-कांकरिया	कांकरिया, काछीखेडी, कालूखेडा, नारायणपुर		
		18-मउ	मउ, धनोरा, तुकोगज, चतरूखेडी		
		19-सराली	सराली,उदनखेडी, नारान्या, रोस्या, पटाडियाधाकड		
		20-पडाना	पडाना		
		21-ईटावा	ईटावा, करोदी, मगराना, रामपुरिया		
		22-पाडल्याआंजना	पाडल्याआंजना, हालुहेडीकला, लखेसरा, चाकरोद, कुडलासा, कोडियाखेडी		
		23-आसारेटापवार	आसारेटापवार, मंग्याखेडी, बुडनपुर		
		24-टिकोद	टिकोद, लाटाहेडी, बनी, जबरदी		
		25-कमलसरा	कमलसरा, छापरा, नैनवाडा, रवाडा		

## जनपद पंचायत खिलचीपुर

अनु. क्रमांक	जनपद/ जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षित वर्गों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खिलचीपुर	1	1 सेमलीकला, 2 करकरी, 3 बावडीखेडा 4 हिम्मतपुरा		
2	खिलचीपुर	2	1 भोजपुर, 2 चौबडकला, 3 समेली 4 खोखेडा		
3	खिलचीपुर	3	1 सतनखेडी, 2 ढाबलीकला, 3 मोकमपुरा 4 दौलाज		
4	खिलचीपुर	4	1 रूपाहेडा, 2 धामन्या, 3 लिम्बोदा 4 हरिपुरा नजदीक, 5 छीपीपुरा		
5	खिलचीपुर	5	1 दिलावरी, 2 गादियामेर, 3 गादियाकला 4 खुरचन्याकला, 5 अमानपुरा		
6	खिलचीपुर	6	1 भूमरिया, 2 खेरखेडी, 3 रामपुरिया 4 पपडेल		
7	खिलचीपुर	7	1 दण्ड, 2 रिछडिया, 3 भवानीपुरादण्ड 4 देहरा, 5 दुर्गपुरा		
8	खिलचीपुर	8	1 सेदरा, 2 खाजली, 3 खाजला 4 कुशलपुरा		
9	खिलचीपुर	9	1 बारोल, 2 सुआहेडी, 3 बरखेडा 4 गोपालपुरा, 5 बादरी	अ.जा. महिला	2
10	खिलचीपुर	10	1 डालुपुरा, 2 सडियाकुआ, 3 बोरकापानी 4 बघेला, 5 रूपपुरा	अ.जा. मुक्त	1
11	खिलचीपुर	11	1 बडबेली, 2 चांदपुरा, 3 सेमलीकला 4 मण्डाखेडा, 5 अभयपुर	अ.जा. महिला	1
12	खिलचीपुर	12	1 धामन्याजोगी, 2 हिनोत्या, 3 लक्ष्मणपुरा 4 पानखेडी, 5 दूदाहेडी	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
13	खिलचीपुर	13	1 फतेहपुर, 2 नेहराजपुरा, 3 बावडीखेडाजागीर 4 बोरपुरा, 5 रूषारेव	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	3
14	खिलचीपुर	14	1 जेतपुराकला, 2 जानोन्धा, 3 बिसन्या 4 मज्जरखेडी	अनारक्षित महिला	6
15	खिलचीपुर	15	1 खजूरीगोकुल, 2 जटामडी, 3 कौकरिया	अनारक्षित मुक्त	7
16	खिलचीपुर	16	1 रनारा, 2 खांताखेडी, 3 बाजनेन		
17	खिलचीपुर	17	1 भाटखेडा, 2 सिकन्दरी, 3 बरखेडाभोजा		
18	खिलचीपुर	18	1 जेतपुराखुर्द, 2 भादाहेडी, 3 लसूडली 4 चमारी		
19	खिलचीपुर	19	1 सोनखेडाकला, 2 बामनगांव, 3 देवलीसांगा		
20	खिलचीपुर	20	1 गूगाहेडा, 2 दरियापुर, 3 गाऊाहेट 4 गुनाखेडी		
21	खिलचीपुर	21	1 पीपल्याकला, 2 धुआखेडी, 3 चितावल्या		
22	खिलचीपुर	22	1 कुआखेडा, 2 कछोटिया, 3 नाटाराम 4 देवाखेडी		
23	खिलचीपुर	23	1 ब्यावराकला, 2 हालाहेडी, 3 कुलीखेडा 4 अमावता		

## जनपद पंचायत जीरापुर

परिशिष्ट-5(ब)

अनु. क्रमांक	जनपद/जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वर्गों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जीरापुर/राजगढ़	1	धानोदा, जैथली, भागोरा	अ0जा0	2
2		2	गोघटपुर, आगरिया, बावडीखेडा	अ0ज0जा0	0
3		3	पोलखेडा, लिम्बोदा, खेडी, भगोरी	अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	मुकुन्दपुरा, खोकरिया, उचावदा, अरन्या, गोरियाखेडा	महिला अ0जा0	3
5		5	रामगढ, लखोनी	महिला अ0ज0जा0	0
6		6	पीपल्याकुल्मी, कूमडा	महिला अ0पि0 वर्ग	2
7		7	ब्राहमणगांव, झरन्या, झरनी, डूंगरी, बन्दा	महिला अनारक्षित	6
8		8	गादिया, कूमडी, गडगच, राजपुरा		
9		9	आमलाबे, लसूडल्या, मोहली, कचनारिया		
10		10	कोडक्या, कवलसीखेडा, मीनागांव, गुलखेडी		
11		11	बाडगांव, चौखण्डा, गोविन्दपुरा, बांगपुरा		
12		12	भानपुरा, धतुरिया, पाडल्या, चिलावद		
13		13	गागोरनी, पीपल्दा, पाडली		
14		14	दोबडा, सूरजपुरा, रानीपुरा, सादलपुर		
15		15	परोलिया, मैनाखेडी, हरिगढ, पोलाखेडा		
16		16	खारपा, राजाहैडी, टपरियाहैडी, नाईहैडा		
17	17	उभापान, जैतपुरा, पीपल्याबीजारेल, कुण्डालिया			
18	18	धतरावदा, बरमनखेडी, महाराजपुरा, कहारखेडा			
19	19	भण्डावद, बटावदा, लक्ष्मणपुरा			
20	20	काशीखेडी, तमोलिया, ब्राहमणखेडा, दुपाडिया			
21	21	खांकरी, खेजडिया, बालाहैडा, सिरपोई			
22	22	झाडमउ, बरखेडीउमठ, रूपाहैडा, बांसखेडी			
23	23	मोहन, रामनगर, लसूडल्या खेराज, कण्डेली, नांदनी			

### ग्राम पंचायत बलबहादुरपुरा

#### परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ -तीन वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी। विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्यां स्तम्भ-पाच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व सम्बंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बलबहादुरपुरा	1	बलबहादुरपुरा	1 से 3/8 तक	अजा	
		2	बलबहादुरपुरा	4 से 7/4	अजजा	
		3	बलबहादुरपुरा	8 से अंत तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	छगोड़ा	1 से 7/2 तक	महिला अजा	1
		5	छगोड़ा	8 से 28	महिला अजजा	
		6	छगोड़ा	27 से अन्त तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
			पिरथीपुरा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		7	मूजखेड़ी	1 से 15 तक		
		8	मूजखेड़ी	16 से अंत तक		
		9	मूजखेडा	1 से अंत तक		
			(श्यामपुरा वीरान)	1 से अंत तक		
		10	बालापुरा	1 से अंत तक		
		11	भंवरपुरा	1 से अंत तक		
		12	करणपुरा	1 से अंत तक		
			इनुमानपुरा	1 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत छायन

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	छायन	1	छायन	1 से 10	अजा	
		2	छायन	11 से 20/2 तक	अजजा	1
		3	छायन	21 से 28 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	छायन	29 से 44 तक	महिला अजा	
		5	छायन	45 से अंत तक	महिला अजजा	1
		6	गुराड़खेड़ा	1 से 9 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	गुराड़खेड़ा	10 से 17/2 तक	महिला सामान्य	4
		8	गुराड़खेड़ा	18 से अंत तक		
		9	पुरागुराड़खेड़ा	1 से अंत तक		
		10	लक्ष्मीपुरा	1 से 5 तक		
		11	लक्ष्मीपुरा	6 से 17 तक		
		12	लक्ष्मीपुरा	18 से अंत तक		
		13	दौलतपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पिपलोदी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पिपलोदी	1	पिपलोदी	1 से 13/3 तक	अजा	
		2	पिपलोदी	14 से 33/4 तक	अजजा	
		3	पिपलोदी	34 से 50/4 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	पिपलोदी	51 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	अलवापुरा	1 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	तलावड़ा	1 से 22 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	तलावड़ा	23 से 34 तक	महिला सामान्य	6
		8	तलावड़ा	35 से अंत तक		
		9	केलघटा	1 से अंत तक		
		10	बाक्यापुरा	1 से 9 तक		
		11	बाक्यापुरा	10 से अंत तक		
		12	रामपुरिया	1 से 10		
		13	रामपुरिया	11 से 17 तक		
		14	रामपुरिया	18 से अंत तक		
		15	गणेशपुरा	1 से 18 तक		
		16	गणेशपुरा	19 से 27 तक		
		17	गणेशपुरा	28 से अंत तक		
		18	माथन्या	1 से अंत तक		
		19	तुलसीपुरा	1 से अंत तक		
		20	उदपुरिया	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत देहरीनाथ

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	देहरीनाथ	1	देहरीनाथ	1 से 14 तक	अजा	
		2	देहरीनाथ	15 से 27 तक	अजजा	
		3	देहरीनाथ	28 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	देहरीनाथ	41 से 56 तक	महिला अजा	1
		5	देहरीनाथ	57 से अंत तक	महिला अजजा	1
		6	बहादुरपुरा	1 से 15 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बहादुरपुरा	16 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	छुवाड़लिया	1 से 12 तक		
		9	छुवाड़लिया	13 से 27 तक		
		10	छुवाड़लिया	28 से 35 तक		
		11	छुवाड़लिया	36 से अंत तक		
		12	आवनपुरा	1 से 7 तक		
		13	आवनपुरा	8 से 14 तक		
		14	आवनपुरा	15 से अंत तक		
		15	कमालपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत हिनोती

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	हिनोती	1	हिनोती	1 से 5 तक	अजा	
		2	हिनोती	6 से 10 तक	अजजा	
		3	हिनोती	11 से 19 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	हिनोती	20 से 30 तक	महिला अजा	
		5	हिनोती	31 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	हिनोत्या	1 से 9 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	हिनोत्या	10 से 28 तक	महिला सामान्य	7
		8	हिनोत्या	29 से अंत तक		
		9	गणेशपुराखुर्द	1 से 7 तक		
		10	गणेशपुराखुर्द	8 से अंत तक		
		11	गंगापाट	1 से 10 तक		
		12	गंगापाट	11 से 18/3 तक		
		13	गंगापाट	19 से अंत तक		
		14	कोयला	1 से 11 तक		
		15	कोयला	12 से 22 तक		
		16	कोयला	23 से अंत तक		
		17	कडे का पुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत भियापुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	भियापुरा	1	भियापुरा	1 से 29 तक	अजा	
		2	भियापुरा	30 से 53 तक	अजजा	
		3	भियापुरा	54 से 77 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	भियापुरा	78 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	सेमलाबे	1 से 20 तक	महिला अजजा	
		6	सेमलाबे	21 से 43 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	सेमलाबे	44 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	मगनियाखेड़ी	1 से 16 तक		
		9	मगनियाखेड़ी	17 से अंत तक		
		10	पुराभारमल	1 से 22 तक		
		11	पुराभारमल	23 से अंत तक		
		12	पाटरीकलां	1 से 26 तक		
		13	पाटरीकलां	27 से 52 तक		
		14	पाटरीकलां	53 से अंत तक		
		15	लहरचा	1 से 11 तक		
		16	लहरचा	12 से अंत तक		
		17	निपान्या	1 से 12 तक		
		18	निपान्या	13 से अंत तक		
		19	किशनपुरिया	1 से अंत तक		
		20	ढोलबे	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत किलाअमरगढ़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	किलाअमरगढ़	1	अमरगढ़	1 से 27/3 तक	अजा	1
		2	अमरगढ़	28 से 36/2 तक	अजजा	
		3	अमरगढ़	37 से 53/2 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	अमरगढ़	54 से 71 तक	महिला अजा	1
		5	अमरगढ़	72 से 91 तक	महिला अजजा	
		6	अमरगढ़	92 से 110 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	अमरगढ़	111 से 115 तक	महिला सामान्य	4
		8	अमरगढ़	116 से अंत तक		
			किला	1 से अंत तक		
		9	शोभापुरा	1 से 8/2 तक		
		10	शोभापुरा	9 से अंत तक		
		11	डूंगरपुर	1 से 8 तक		
		12	डूंगरपुर	9 से अंत तक		
			बांसखो	1 से अंत तक		
		13	भवानीपुरा	1 से 6 तक		
		14	भवानीपुरा	7 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बावडीपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बावडीपुरा	1	बावडीपुरा	1 से 10 तक	अजा	
		2	बावडीपुरा	11 से 16 तक	अजजा	
		3	बावडीपुरा	17 से 23 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	बावडीपुरा	24 से अंत तक	महिला अजा	
		5	रामपुरिया	1 से 11 तक	महिला अजजा	
		6	रामपुरिया	12 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	भगवतीपुरा	1 से 5/1 तक	महिला सामान्य	4
		8	भगवतीपुरा	6 से 15/3 तक		
		9	भगवतीपुरा	16 से अंत तक		
		10	फैटापुरा	1 से 6 तक		
		11	फैटापुरा	7 से 11 तक		
		12	फैटापुरा	12 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बांकपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बांकपुरा	1	बांकपुरा	1 से 7 तक	अजा	1
		2	बांकपुरा	8 से 14 तक	अजजा	1
		3	बांकपुरा	15 से 30 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	बांकपुरा	31 से 44 तक	महिला अजा	1
		5	बांकपुरा	45 से 58 तक	महिला अजजा	2
		6	बांकपुरा	59 से 66 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	बांकपुरा	67 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	देहरीजागीर	1 से 8 तक		
		9	देहरीजागीर	9 से 18/2 तक		
		10	देहरीजागीर	19 से अंत तक		
		11	मान्यापुरा	1 से 5 तक		
		12	मान्यापुरा	6 से 8/4 तक		
		13	मान्यापुरा	9 से अंत तक		
		14	राकल्या	1 से 14 तक		
		15	राकल्या	15 से अंत तक		
		16	पटना	1 से 6 तक		
		17	पटना	7 से 14/2 तक		
		18	पटना	15 से 32 तक		
		19	पटना	33 से अंत तक		
		20	धीरगढ़	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत प्रेमपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	प्रेमपुरा	1	प्रेमपुरा	1 से 10 तक	अजा	1
		2	प्रेमपुरा	11 से 26/2 तक	अजजा	
		3	प्रेमपुरा	27 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	प्रेमपुरा	41 से 53 तक	महिला अजा	1
		5	प्रेमपुरा	54 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	गुराड़िया	1 से 13 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	गुराड़िया	14 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	मवड़ीपुरा	1 से अंत तक		
		9	रतनपुरिया	1 से अंत तक		
		10	पानसरा	1 से 16 तक		
		11	पानसरा	17 से 30 तक		
		12	पानसरा	31 से अंत तक		
		13	पाटरीखुर्द	1 से 11 तक		
		14	पाटरीखुर्द	12 से अंत तक		
		15	भवानीपुरा	1 से 10/3 तक		
		16	भवानीपुरा	11 से 18 तक		
		17	भवानीपुरा	19 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत संवासड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	संवासड़ा	1	संवासड़ा	1 से 13 तक	अजा	
		2	संवासड़ा	14 से 32 तक	अजजा	1
		3	संवासड़ा	33 से 53/3 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	संवासड़ा	54 से 70 तक	महिला अजा	1
		5	संवासड़ा	71 से 92 तक	महिला अजजा	2
		6	संवासड़ा	93 से 105 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	संवासड़ा	108 से 117 तक	महिला सामान्य	2
		8	संवासड़ा	118 से 138 तक		
		9	संवासड़ा	139 से 156/2 तक		
		10	संवासड़ा	157 से 171 तक		
		11	संवासड़ा	172 से अंत तक		
		12	लक्ष्मणपुरा	1 से 11 तक		
		13	लक्ष्मणपुरा	12 से अंत तक		
		14	चंदरपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सुआहेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सुआहेडी	1	सुआहेडी	1 से 11 तक	अजा	1
		2	सुआहेडी	12 से 30 तक	अजजा	
		3	सुआहेडी	31 से 39 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	सुआहेडी	40 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	महुआबै	1 से 12 तक	महिला अजजा	
		6	महुआबै	13 से 18 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	महुआबै	19/1 से 32 तक	महिला सामान्य	2
		8	महुआबै	33 से अंत तक		
		9	खारपरस	1 से 17/4 तक		
		10	खारपरस	18 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत जलालपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	जलालपुरा	1	जलालपुरा	1 से 4 तक	अजा	
		2	जलालपुरा	5 से 16 तक	अजजा	
		3	जलालपुरा	17 से 25 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	जलालपुरा	26 से 32 तक	महिला अजा	1
		5	जलालपुरा	33 से 41/3 तक	महिला अजजा	1
		6	जलालपुरा	42 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	जोगीदाता	1 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	कस्तूरीपुरा	1 से अंत तक		
		9	केशरपुरा	1 से अंत तक		
		10	कुण्डीबै	1 से 5 तक		
		11	कुण्डीबै	6 से 18 तक		
		12	कुण्डीबै	19 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत काचरी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	काचरी	1	काचरी	1 से 11 तक	अजा	1
		2	काचरी	12 से 20 तक	अजजा	
		3	काचरी	21 से 33 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	काचरी	34 से 42 तक	महिला अजा	2
		5	काचरी	43 से 55 तक	महिला अजजा	
		6	काचरी	56 से 66 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	काचरी	67 से 77/2 तक	महिला सामान्य	5
		8	काचरी	78 से 91 तक		
		9	काचरी	92 से 103 तक		
		10	काचरी	104 से 123 तक		
		11	काचरी	124 से 135 तक		
		12	काचरी	136 से 150 तक		
		13	काचरी	151 से 161 तक		
		14	काचरी	162 से 173 तक		
		15	काचरी	174 से 185 तक		
		16	काचरी	186 से 206 तक		
		17	काचरी	207 से अंत तक		
		18	बापची	1 से 12 तक		
		19	बापची	13 से 20 तक		
		20	बापची	21 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सिंदूरिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सिंदूरिया	1	सिंदूरिया	1 से 14 तक	अजा	
		2	सिंदूरिया	15 से 28/2 तक	अजजा	1
		3	सिंदूरिया	29/1 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	सिंदूरिया	41 से 56 तक	महिला अजा	1
		5	सिंदूरिया	57 से 84/3 तक	महिला अजजा	1
		6	सिंदूरिया	85/1 से 94/3 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सिंदूरिया	95 से 107/6 तक	महिला सामान्य	3
		8	सिंदूरिया	108 से 145 तक		
		9	सिंदूरिया	146 से 156 तक		
		10	सिंदूरिया	157 से 169 तक		
		11	सिंदूरिया	170 से 186 तक		
		12	सिंदूरिया	187 से 206 तक		
		13	सिंदूरिया	207 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कीलखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कीलखेड़ा	1	कीलखेड़ा	1 से 12 तक	अजा	1
		2	कीलखेड़ा	13 से 28 तक	अजजा	1
		3	कीलखेड़ा	29 से 39 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कीलखेड़ा	40 से 51 तक	महिला अजा	2
		5	कीलखेड़ा	52 से 62 तक	महिला अजजा	1
		6	कीलखेड़ा	63 से 77 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	कीलखेड़ा	78 से 85 तक	महिला सामान्य	4
		8	कीलखेड़ा	86 से 108 तक		
		9	कीलखेड़ा	109 से 125 तक		
		10	कीलखेड़ा	126 से 140 तक		
		11	कीलखेड़ा	141 से 156 तक		
		12	कीलखेड़ा	157 से 173 तक		
		13	कीलखेड़ा	174 से 178 तक		
		14	कीलखेड़ा	179 से 192 तक		
		15	कीलखेड़ा	193 से 209 तक		
		16	कीलखेड़ा	210 से 222 तक		
		17	कीलखेड़ा	223 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत नारायणघटा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	नारायणघटा	1	नारायणघटा	1 से 18 तक	अजा	2
		2	नारायणघटा	19 से 35/2 तक	अजजा	
		3	नारायणघटा	36 से 47/2 मे	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	नारायणघटा	48 से 58 तक	महिला अजा	2
		5	नारायणघटा	59 से 73 तक	महिला अजजा	
		6	नारायणघटा	74 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बाजपुरा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	जोड़क्या	1 से 9/2 तक		
		9	जोड़क्या	10/1 से 18 तक		
		10	जोड़क्या	19/1 से 32 तक		
		11	जोड़क्या	33 से 43/3 तक		
		12	जोड़क्या	44 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत आम्बा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	आम्बा	1	आम्बा	1 से 13/2 तक	अजा	1
		2	आम्बा	14 से 34 तक	अजजा	
		3	आम्बा	35 से 50 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	आम्बा	51 से 64 तक	महिला अजा	1
		5	आम्बा	65 से 77/2 तक	महिला अजजा	
		6	आम्बा	78 से 87 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	आम्बा	88 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	नाईपुरिया	1 से 12 तक		
		9	नाईपुरिया	13 से 21 तक		
		10	नाईपुरिया	22 से 35 तक		
		11	नाईपुरिया	36 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत खेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	खेड़ी	1	खेड़ी	1 से 15 तक	अजा	1
		2	खेड़ी	16 से 25 तक	अजजा	
		3	खेड़ी	26 से 34 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	खेड़ी	35 से 44 तक	महिला अजा	1
		5	खेड़ी	45 से 54 तक	महिला अजजा	
		6	खेड़ी	55 से 62 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	खेड़ी	63 से 73 तक	महिला सामान्य	4
		8	खेड़ी	74 से अंत तक		
		9	बाजतलाई	1 से 16 तक		
		10	बाजतलाई	17 से 31 तक		
		11	बाजतलाई	32 से अंत तक		
		12	लाल्यातलाई	1 से 7 तक		
		13	लाल्यातलाई	8 से 21 तक		
		14	लाल्यातलाई	22 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत देवलीकलां

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	देवलीकलां	1	देवलीकलां	1 से 18 तक	अजा	1
		2	देवलीकलां	19 से 33 तक	अजजा	
		3	देवलीकलां	34 से 43 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	देवलीकलां	44 से 58 तक	महिला अजा	1
		5	देवलीकलां	57 से 69 तक	महिला अजजा	
		6	देवलीकलां	70 से 77 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	देवलीकलां	78 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	भोजपुरिया	1 से अंत तक		
		9	भामल्यापुरा	1 से 11 तक		
		10	भामल्यापुरा	12 से 19 तक		
		11	भामल्यापुरा	20 से अंत तक		
		12	गोल्यावे	1 से 14 तक		
		13	गोल्यावे	15 से 28 तक		
		14	गोल्यावे	27 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत महाबल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	महाबल	1	महाबल	1 से 11 तक	अजा	1
		2	महाबल	12 से 23 तक	अजजा	1
		3	महाबल	24 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	महाबल	41 से 61 तक	महिला अजा	2
		5	महाबल	62 से 70 तक	महिला अजजा	1
		6	महाबल	71 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	कोलूखेड़ी	1 से 10 तक	महिला सामान्य	1
		8	कोलूखेड़ी	11 से अंत तक		
		9	लताड़िया	1 से 16 तक		
		10	लताड़िया	17 से 25 तक		
		11	लताड़िया	26 से अंत तक		
		12	रावतपुरा	1 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत सांडाहेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सांडाहेड़ी	1	सांडाहेड़ी	1 से 12 तक	अजा	1
		2	सांडाहेड़ी	13 से 28 तक	अजजा	
		3	सांडाहेड़ी	29 से 42 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	सांडाहेड़ी	43 से 55 तक	महिला अजा	1
		5	सांडाहेड़ी	56 से 68 तक	महिला अजजा	
		6	सांडाहेड़ी	69 से 77 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	सांडाहेड़ी	78 से 89 तक	महिला सामान्य	4
		8	सांडाहेड़ी	90 से अंत तक		
		9	लसूड़लीलोदा	1 से 9 तक		
		10	लसूड़लीलोदा	10 से 17 तक		
		11	लसूड़लीलोदा	18 से 30 तक		
		12	लसूड़लीलोदा	31 से 43 तक		
		13	लसूड़लीलोदा	44 से 62 तक		
		14	लसूड़लीलोदा	63 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बनानिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बनानिया	1	बनानिया	1 से 13 तक	अजा	2
		2	बनानिया	14 से 24 तक	अजजा	
		3	बनानिया	25 से 38 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	बनानिया	39 से 47 तक	महिला अजा	2
		5	बनानिया	48/1 से 53 तक	महिला अजजा	
		6	बनानिया	54 से 64 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	बनानिया	65 से 74 तक	महिला सामान्य	3
		8	बनानिया	75 से 83 तक		
		9	बनानिया	84 से 97 तक		
		10	बनानिया	98 से अंत तक		
		11	गादिया	1 से 8 तक		
		12	गादिया	9 से 21 तक		
		13	गादिया	22 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत लहरची

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	लहरची	1	लहरची	1 से 11 तक	अजा	1
		2	लहरची	12 से 25 तक	अजजा	
		3	लहरची	26 से 37 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	लहरची	38 से 44/1 तक	महिला अजा	1
		5	लहरची	45 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	डेंडिया	1 से 9 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	डेंडिया	10 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	तिंदोनिया	1 से 11 तक		
		9	तिंदोनिया	12 से अंत तक		
		10	कानबे	1 से अंत तक		
		11	लावाबे	1 से 13/2 तक		
		12	लावाबे	14 से 27/2 तक		
		13	लावाबे	28 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कालीपीठ

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कालीपीठ	1	कालीपीठ	1 से 16 तक	अजा	1
		2	कालीपीठ	17 से 29 तक	अजजा	1
		3	कालीपीठ	30 से 45 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	कालीपीठ	46 से 58 तक	महिला अजा	2
		5	कालीपीठ	59 से 70 तक	महिला अजजा	1
		6	कालीपीठ	71 से 80 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	कालीपीठ	81 से 90 तक	महिला सामान्य	4
		8	कालीपीठ	91 से 109 तक		
		9	कालीपीठ	110 से 121 तक		
		10	कालीपीठ	122 से 131 तक		
		11	कालीपीठ	132 तक 147 तक		
		12	कालीपीठ	148 से 160 तक		
		13	कालीपीठ	161 से 178 तक		
		14	कालीपीठ	179 से 196 तक		
		15	कालीपीठ	197 से 217 तक		
		16	कालीपीठ	218 से 237 तक		
		17	कालीपीठ	238 से 265 तक		
		18	कालीपीठ	266 से अंत तक		
			राजपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत टांडीकला

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	टांडीकला	1	टांडीकला	1 से 11 तक	अजा	1
		2	टांडीकला	12 से 21 तक	अजजा	
		3	टांडीकला	22 से 34 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	टांडीकला	35 से 41 तक	महिला अजा	2
		5	टांडीकला	42 से 53 तक	महिला अजजा	
		6	टांडीकला	54 से 75 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	टांडीकला	76 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	टांडीखुर्द	1 से 10/2 तक		
		9	टांडीखुर्द	11 से 24 तक		
		10	टांडीखुर्द	25 से 34 तक		
		11	टांडीखुर्द	35 से 48 तक		
		12	टांडीखुर्द	49 से अंत तक		
		13	सेमली	1 से 10 तक		
		14	सेमली	11 से 26 तक		
		15	सेमली	27 से 44 तक		
		16	सेमली	45 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत हिरनखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	हिरनखेड़ा	1	हिरनखेड़ा	1 से 13 तक	अजा	1
		2	हिरनखेड़ा	14 से 27 तक	अजजा	
		3	हिरनखेड़ा	28 से 42 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	हिरनखेड़ा	43 से 60 तक	महिला अजा	1
		5	हिरनखेड़ा	61 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	घोघड़ियाकला	1 से 14 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	घोघड़ियाकला	15 से अंत तक	महिला सामान्य	5
		8	घोघड़ियाखुर्द	1 से 14 तक		
		9	घोघड़ियाखुर्द	15 से 27 तक		
		10	घोघड़ियाखुर्द	28 से अंत तक		
		11	बड़दला	1 से 16 तक		
		12	बड़दला	17 से 27 तक		
		13	बड़दला	28 से अंत तक		
		14	अमृतपुरा	1 से 11 तक		
		15	अमृतपुरा	12 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत धनवासकलां

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	धनवासकलां	1	धनवासकलां	1 से 16 तक	अजा	
		2	धनवासकलां	17 से 24 तक	अजजा	
		3	धनवासकलां	25 से 37 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	धनवासकलां	38 से 54 तक	महिला अजा	1
		5	धनवासकलां	55 से 67 तक	महिला अजजा	
		6	धनवासकलां	68 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	रूपाहेड़ा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	काना का पुरा	1 से अंत तक		
		9	फूटा तालाब	1 से 18 तक		
		10	फूटा तालाब	19 से अंत तक		
		11	नौ गांव	1 से 15 तक		
		12	नौ गांव	16 से अंत तक		
		13	कराड़िया	1 से 20 तक		
		14	कराड़िया	21 से अंत तक		
		15	धनवासखुर्द	1 से 14 तक		
		16	धनवासखुर्द	15 से अंत तक		
		17	बख्तावरपुरा	1 से अंत तक		
		18	पाड़लिया	1 से 21 तक		
		19	पाड़लिया	22 से अंत तक		
		20	पुरापाड़लिया	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत माचलपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	माचलपुर	1	माचलपुर	1 से 7 तक	अजा	
		2	माचलपुर	8 से 23 तक	अजजा	
		3	माचलपुर	24 से 39 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	माचलपुर	40 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	देहरा	1 से 16 तक	महिला अजजा	
		6	देहरा	17 से 31 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	देहरा	32 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		8	बांकना	1 से 9 तक		
		9	बांकना	10 से अंत तक		
		10	दलेलपुरा	1 से 7 तक		
		11	दलेलपुरा	8 से 17 तक		
		12	दलेलपुरा	18 से अंत तक		
		13	देवलीजागीर	1 से 13 तक		
		14	देवलीजागीर	14 से 20 तक		
		15	देवलीजागीर	21 से अंत तक		
			खैरबे	1 से अंत तक		
		16	रूगनाथपुरा	1 से 15 तक		
		17	रूगनाथपुरा	16 से 26 तक		
		18	रूगनाथपुरा	27 से 37 तक		
		19	रूगनाथपुरा	38 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत कंवरपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कंवरपुरा	1	कंवरपुरा	1 से 18 तक	अजा	
		2	कंवरपुरा	19 से अंत तक	अजजा	
		3	पीपल्याकला	1 से 17 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	पीपल्याकला	18 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	जीरापुर	1 से 9 तक	महिला अजजा	
		6	जीरापुर	10 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	भैनपुरा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	भैनपुरी	1 से अंत तक		
		9	मेरियाखेड़ी	1 से अंत तक		
		10	सोहनपुरा	1 से अंत तक		
		11	रसमरी	1 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत कांसी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कांसी	1	कांसी	1 से 19 तक	अजा	
		2	कांसी	20 से 38 तक	अजजा	
		3	कांसी	39 से 64 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कांसी	55 से 73 तक	महिला अजा	1
		5	कांसी	74 से 90 तक	महिला अजजा	1
		6	कांसी	91 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	जूना पानी का खेडा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	रावतपुरा	1 से 16 तक		
		9	रावतपुरा	17 से 32 तक		
		10	रावतपुरा	33 से अंत तक		
		11	बालदिया	1 से 14 तक		
		12	बालदिया	15 से 29 तक		
		13	बालदिया	30 से अंत तक		
		14	लक्ष्मणपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत झंझाड़पुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	झंझाड़पुर	1	झंझाड़पुर	1 से 11 तक	अजा	1
		2	झंझाड़पुर	12 से 28 तक	अजजा	3
		3	झंझाड़पुर	29 से 38 तक	अन्य पिछडावर्ग	
		4	झंझाड़पुर	39 से 51 तक	महिला अजा	1
		5	झंझाड़पुर	52 से 65 तक	महिला अजजा	3
		6	झंझाड़पुर	66 से 81 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	
		7	झंझाड़पुर	82 से 90 तक	महिला सामान्य	5
		8	झंझाड़पुर	91 से अंत तक		
		9	जूनापानी	1 से 16 तक		
		10	जूनापानी	17 से 30 तक		
		11	जूनापानी	31 से 48 तक		
		12	जूनापानी	49 से 66 तक		
		13	जूनापानी	67 से 81 तक		
		14	जूनापानी	82 से 94 तक		
		15	जूनापानी	95 से अंत तक		
		16	परसपुरा	1 से 9 तक		
		17	परसपुरा	10 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत मोतीपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	मोतीपुरा	1	मोतीपुरा	1 से 9 तक	अजा	1
		2	मोतीपुरा	10 से 22 तक	अजजा	
		3	मोतीपुरा	23 से अंत तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	पड़िया	1 से 18 तक	महिला अजा	2
		5	पड़िया	17 से 28 तक	महिला अजजा	
		6	पड़िया	27 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
			रामपुरिया वीरान	1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		7	हमीरपुरा	1 से 13 तक		
		8	हमीरपुरा	14 से अंत तक		
		9	जमशेरपुरा	1 से 10 तक		
		10	जमशेरपुरा	11 से 15 तक		
		11	जमशेरपुरा	16 से 20 तक		
		12	जमशेरपुरा	21 से अंत तक		
		13	बीडबटेरीदाताग्राम	1 से 11 तक		
		14	बीडबटेरीदाताग्राम	12 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बगा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बगा	1	बगा	1 से 13 तक	अजा	1
		2	बगा	14 से 27 तक	अजजा	
		3	बगा	28 से 41 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	बगा	42 से अंत तक	महिला अजा	2
			गुराड़िया	1 से अंत तक	महिला अजजा	
		5	चांदपुरा	1 से 8 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		6	चांदपुरा	9 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		7	देहरीठाकुर	1 से 12 तक		
		8	देहरीठाकुर	13 से 19 तक		
		9	देहरीठाकुर	20 से अंत तक		
		10	बरन्याखेड़ी	1 से अंत तक		
		11	फत्तूखेड़ी	1 से 10 तक		
		12	फत्तूखेड़ी	11 से 20 तक		
		13	फत्तूखेड़ी	21 से अंत तक		
		14	गोपालपुरा	1 से 19 तक		
		15	गोपालपुरा	20 से 29 तक		
		16	गोपालपुरा	30 से अंत तक		
			(भूर कोटरी वीरान)	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पाड़लीखाती

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पाड़लीखाती	1	पाड़लीखाती	1 से 17 तक	अजा	
		2	पाड़लीखाती	18 से 34 तक	अजजा	
		3	पाड़लीखाती	35 से 48 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	पाड़लीखाती	47 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	गबा का पुरा	1 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	तूतीपुरा	1 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	चमारी	1 से 9 तक	महिला सामान्य	4
		8	चमारी	10 से 23 तक		
		9	चमारी	24 से अंत तक		
		10	हीरापुरा	1 से 19 तक		
		11	हीरापुरा	20 से 35 तक		
		12	हीरापुरा	36 से अंत तक		
		13	भाटपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सामा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	गोलाखेड़ा	1	गोलाखेड़ा	1 से 11 तक	अजा	
		2	गोलाखेड़ा	12 से 27 तक	अजजा	
		3	गोलाखेड़ा	28 से अंत तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	विजयगढ़	1 से 11 तक	महिला अजा	1
		5	विजयगढ़	12 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	दिलावरा	1 से 11 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	दिलावरा	12 से 24 तक	महिला सामान्य	3
		8	दिलावरा	25 से 33 तक		
		9	दिलावरा	34 से 44 तक		
		10	दिलावरा	45 से अंत तक		
		11	दिलावरी	1 से 16 तक		
		12	दिलावरी	17 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत देवझिरि

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	देवझिरि	1	देवझिरि	1 से अंत तक	अजा	1
		2	(सुन्दरपुरा)	1 से अंत तक	अजजा	1
		3	ज्वालापुरा	1 से 5 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	ज्वालापुरा	6 से अंत तक	महिला अजा	2
			कोटरा	1 से अंत तक	महिला अजजा	2
			बीड़ जालपा (वीरान)		महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		5	जगनियापुरा	1 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		6	मोतीपुराखाती	1 से 6 तक		
		7	मोतीपुराखाती	7 से 15 तक		
		8	मोतीपुराखाती	16 से 26 तक		
		9	मोतीपुराखाती	27 से अंत तक		
		10	मानियापुरा	1 से 8 तक		
		11	मानियापुरा	9 से 16 तक		
		12	मानियापुरा	17 से अंत तक		
		13	धोबीपुरा	1 से अंत तक		
		14	जोगीपुरा	1 से अंत तक		
		15	मालीपुरा	1 से अंत तक		
		16	फतेहपुर	1 से 15 तक		
		17	फतेहपुर	16 से 29 तक		
		18	फतेहपुर	30 से अंत तक		
		19	बेड़े का पुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सरेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सरेड़ी	1	सरेड़ी	1 से 12 तक	अजा	2
		2	सरेड़ी	13 से 30/2 तक	अजजा	
		3	सरेड़ी	31 से 41/3 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	सरेड़ी	42 से 57 तक	महिला अजा	3
		5	सरेड़ी	58 से 71 तक	महिला अजजा	1
		6	सरेड़ी	72 से 81/2 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सरेड़ी	82 से 98 तक	महिला सामान्य	2
		8	सरेड़ी	99 से 115 तक		
		9	सरेड़ी	116 से 125 तक		
		10	सरेड़ी	126 से 139 तक		
		11	सरेड़ी	140 से 153 तक		
		12	सरेड़ी	154 से अंत तक		
		13	वीरेन्द्रपुरा	1 से 8 तक		
		14	वीरेन्द्रपुरा	9 से अंत तक		
		15	हरजीपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत फूलखेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	फूलखेडी	1	फूलखेडी	1 से 18 तक	अजा	1
		2	फूलखेडी	19 से 37 तक	अजजा	
		3	फूलखेडी	38 से 50 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	फूलखेडी	51 से 77 तक	महिला अजा	2
		5	फूलखेडी	78 से 100 तक	महिला अजजा	
		6	फूलखेडी	101 से 121 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	फूलखेडी	122 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	जैतपुरा	1 से 3 ग तक		
		9	जैतपुरा	4 से अंत तक		
		10	मनोहरपुरा	1 से 6/2 तक		
		11	मनोहरपुरा	7 से 13 ख तक		
		12	मनोहरपुरा	14/1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बरखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बरखेड़ा	1	बरखेड़ा	1 से 11/2 तक	अजा	1
		2	बरखेड़ा	12 से 25 तक	अजजा	
		3	बरखेड़ा	26 से 34/2 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	बरखेड़ा	35 से 52 तक	महिला अजा	2
		5	बरखेड़ा	53 से 69 तक	महिला अजजा	
		6	बरखेड़ा	70 से 84 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	बरखेड़ा	85 से 100 तक	महिला सामान्य	4
		8	बरखेड़ा	101 से 116 तक		
		9	बरखेड़ा	117 से 137 तक		
		10	बरखेड़ा	138 से अंत तक		
		11	मोरपीपली	1 से 17 तक		
		12	मोरपीपली	18 से अंत तक		
		13	चांदपुरा	1 से 13 तक		
		14	चांदपुरा	14 से अंत तक		
		15	मोतीपुरा सोंध्या	1 से 9/2 तक		
		16	मोतीपुरा सोंध्या	10 से 18 तक		
		17	मोतीपुरा सोंध्या	19 से 35/2 तक		
		18	मोतीपुरा सोंध्या	36 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत हताईखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	हताईखेड़ा	1	हताईखेड़ा	1 से 12 तक	अजा	1
		2	हताईखेड़ा	13 से 25/2 तक	अजजा	
		3	हताईखेड़ा	26 से 41 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	हताईखेड़ा	42 से 53 तक	महिला अजा	1
		5	हताईखेड़ा	54 से अंत तक	महिला अजजा	1
		6	तलाईखेड़ा	1 से 17/2 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	तलाईखेड़ा	18 से 30 तक	महिला सामान्य	4
		8	तलाईखेड़ा	31 से 46 तक		
		9	तलाईखेड़ा	47 से 59 तक		
		10	तलाईखेड़ा	60 से अंत तक		
		11	खारचाखेड़ी	1 से 15 तक		
		12	खारचाखेड़ी	16 से 32 तक		
		13	खारचाखेड़ी	33 से 45 तक		
		14	खारचाखेड़ी	46 से 58 तक		
		15	खारचाखेड़ी	59 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कलीखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कलीखेड़ा	1	कलीखेड़ा	1 से 10 तक	अजा	1
		2	कलीखेड़ा	11 से 25 तक	अजजा	
		3	कलीखेड़ा	26 से 38 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कलीखेड़ा	39 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	ढण्ड	1 से 18 तक	महिला अजजा	
		6	ढण्ड	19 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	टिटोड़ी	1 से अंत तक	महिला सामान्य	5
			टिटोड़ी का अन्डा	1 से अंत तक		
		8	रसूलपुरा	1 से अंत तक		
		9	दफतरीकीबावड़ी	1 से 9 तक		
		10	दफतरीकीबावड़ी	10 से अंत तक		
		11	उँचाखेड़ा	1 से 16 तक		
		12	उँचाखेड़ा	17 से 30 तक		
		13	उँचाखेड़ा	31 से अंत तक		
		14	रामपुरिया	1 से 10 तक		
		15	रामपुरिया	11 से अंत तक		
		16	उदपुरिया	1 से 14 तक		
		17	उदपुरिया	15 से 23 तक		
		18	उदपुरिया	24 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पीपलबे

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पीपलबे	1	पीपलबे	1 से 12/2 तक	अजा	1
		2	पीपलबे	13 से 28 तक	अजजा	
		3	पीपलबे	29 से 36 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	पीपलबे	37 से 51 तक	महिला अजा	1
		5	पीपलबे	52 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	भोनीपुरा	1 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	हिरनखेड़ी	1 से 14 तक	महिला सामान्य	5
		8	हिरनखेड़ी	15 से 28 तक		
		9	हिरनखेड़ी	29 से 44 तक		
		10	हिरनखेड़ी	45 से 54 तक		
		11	हिरनखेड़ी	55 से 65 तक		
		12	हिरनखेड़ी	66 से 86 तक		
		13	हिरनखेड़ी	87 से 90/3 तक		
		14	हिरनखेड़ी	91 से अंत तक		
		15	किशनपुरिया	1 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत पीपल्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पीपल्या	1	पीपल्या	1 से 13 तक	अजा	1
		2	पीपल्या	14 से 21 तक	अजजा	
		3	पीपल्या	22 से अंत तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कालीतलाई	1 से 9 तक	महिला अजा	1
		5	कालीतलाई	10 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	रामपुरिया	1 से अंत तक	महिला सामान्य	6
		7	मदापुरा	1 से 7 तक		
		8	मदापुरा	8 से 20 तक		
		9	मदापुरा	21 से 28 तक		
		10	मदापुरा	29 से अंत तक		
			अजीतगढ	1 से अंत तक		
		11	भादवाखेड़ा	1 से 8 तक		
			गोरधनपुरा वीरान	1 से अंत तक		
		12	भादवाखेड़ा	9 से अंत तक		
		13	सावनखेड़ा	1 से अंत तक		
		14	जैतपुराकलाई	1 से अंत तक		
		15	बांसखेड़ी	1 से 12 तक		
		16	बांसखेड़ी	13 से अंत तक		
		17	मांजरीखी	1 से अंत तक		
		18	राजलीबे	1 से 9 तक		
		19	राजलीबे	10 से 23 तक		
		20	राजलीबे	24 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत खरना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	खरना	1	खरना	1 से 20 तक	अजा	1
		2	खरना	21 से 33 तक	अजजा	
		3	खरना	34 से 48/2 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	खरना	49 से 60 तक	महिला अजा	1
		5	खरना	61 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	खांडियापुरा	1 से 10 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	खांडियापुरा	11 से 22 तक	महिला सामान्य	3
		8	खांडियापुरा	23 से अंत तक		
		9	लीलबे	1 से अंत तक		
		10	मगरियादेह	1 से 12 तक		
		11	मगरियादेह	13 से 21 तक		
		12	मगरियादेह	22 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पडिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पडिया	1	पडिया	1 से 13 तक	अजा	2
		2	पडिया	14 से 30 तक	अजजा	
		3	पडिया	31 से 45 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	पडिया	46 से 58/2 तक	महिला अजा	2
		5	पडिया	58/3 से 64 तक	महिला अजजा	
		6	पडिया	65 से 73/3 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	पडिया	74 से 85 तक	महिला सामान्य	2
		8	पडिया	86 से 102 तक		
		9	पडिया	103 से 112 तक		
		10	पडिया	113 से अंत तक		
		11	गोपालपुरा	1 से 8 तक		
		12	गोपालपुरा	9 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सुल्तानपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सुल्तानपुरा	1	सुल्तानपुरा	1 से 5 तक	अजा	
		2	सुल्तानपुरा	6 से 11 तक	अजजा	
		3	सुल्तानपुरा	12 से 16 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	सुल्तानपुरा	17 से 25 तक	महिला अजा	1
		5	सुल्तानपुरा	26 से 38 तक	महिला अजजा	
		6	सुल्तानपुरा	39 से 49 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सुल्तानपुरा	50 से 58 तक	महिला सामान्य	3
		8	सुल्तानपुरा	59 से अंत तक		
		9	खाजला	1 से 11 तक		
		10	खाजला	12 से 25 तक		
		11	खाजला	26 से 41 तक		
		12	खाजला	42 से अंत तक		
			नरसिंहपुरा वीरान	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बानपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बानपुर	1	बानपुर	1 से 18 तक	अजा	2
		2	बानपुर	19 से 30 तक	अजजा	
		3	बानपुर	31 से अंत तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	कलालपुरा	1 से 14 तक	महिला अजा	2
		5	कलालपुरा	15 से अंत तक	महिला अजजा	
			लगदरिया वीरान	1 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		6	खीमाखेड़ी	1 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		7	मूंडला	1 से 9 तक		
		8	मूंडला	10 से 17 तक		
		9	मूंडला	18 से 23 तक		
		10	मूंडला	24 से 30 तक		
		11	मूंडला	31/1 से अंत तक		
		12	लक्ष्मणपुरा	1 से 5/3 तक		
		13	लक्ष्मणपुरा	6 से 12/3 तक		
		14	लक्ष्मणपुरा	13 से अंत तक		
		15	लालगढ़	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत अभयपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	अभयपुर	1	अभयपुर	1 से 11 तक	अजा	
		2	अभयपुर	12 से 21 तक	अजजा	
		3	अभयपुर	22 से अंत तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	चैनपुरिया	1 से 12 तक	महिला अजा	1
		5	चैनपुरिया	13 से 21/3 तक	महिला अजजा	
		6	चैनपुरिया	22 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	चौकी	1 से 12/3 तक	महिला सामान्य	2
		8	चौकी	13 से अंत तक		
		9	शिकारपुरा	1 से 10 तक		
		10	शिकारपुरा	11 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत रामगढ़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	रामगढ़	1	रामगढ़	1 से 13 तक	अजा	
		2	रामगढ़	14 से अंत तक	अजजा	
		3	सांगी	1 से 9 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	सांगी	10 से अंत तक	महिला अजा	1
			अर्जुनपुरा वीरान	1 से अंत तक	महिला अजजा	
		5	कराड़िया	1 से 16 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		6	कराड़िया	17 से 29 तक	महिला सामान्य	4
		7	कराड़िया	30 से 48 तक		
		8	कराड़िया	49 से अंत तक		
		9	नलखेड़ा	1 से 7 तक		
		10	नलखेड़ा	8 से अंत तक		
		11	गोपालपुरा	1 से 7 तक		
		12	गोपालपुरा	8 से 16 तक		
		13	गोपालपुरा	17 से अंत तक		
		14	घोघड़िया	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पाटनकलां

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पाटनकलां	1	पाटनकलां	1 से 14 तक	अजा	1
		2	पाटनकलां	15 से 29 तक	अजजा	
		3	पाटनकलां	30 से 44 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	पाटनकलां	45 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	रानीपुरा	1 से अंत तक	महिला अजजा	
			इजारीपुरा	1 से अंत तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		6	दलेलपुरा	1 से 12 तक	महिला सामान्य	6
		7	दलेलपुरा	13 से 20 तक		
		8	दलेलपुरा	21 से 29 तक		
		9	दलेलपुरा	30 से 38 तक		
		10	दलेलपुरा	39 से 41/4 तक		
		11	दलेलपुरा	42 से अंत तक		
		12	लक्ष्मणपुरा	1 से अंत तक		
		13	बीरमपुरा	1 से 11 तक		
		14	बीरमपुरा	12 से 23 तक		
		15	बीरमपुरा	24 से अंत तक		
		16	चैनपुरिया	1 से 13 तक		
		17	चैनपुरिया	14 से अंत तक		
		18	सालपुरा	1 से 15 तक		
		19	सालपुरा	16 से 31 तक		
		20	सालपुरा	32 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत नेसड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	नेसड़ी	1	नेसड़ी	1 से 6 तक	अजा	1
		2	नेसड़ी	7 से 13 तक	अजजा	
		3	नेसड़ी	14 से 19 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	नेसड़ी	20 से अंत तक	महिला अजा	1
		5	जुगलपुरा	1 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	फूलपुरा	1 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	लालपुरा	1 से 8 तक	महिला सामान्य	2
		8	लालपुरा	9 से अंत तक		
			बरखेडी, गणेशपुरा वीरान	1 से अंत तक		
		9	गोरधनपुरा	1 से अंत तक		
			गागोरनी	1 से अंत तक		
		10	रुगनाथगढ़	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कुण्डीबे

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कुण्डीबे	1	कुण्डीबे	1 से 8 तक	अजा	
		2	कुण्डीबे	9 से 18 तक	अजजा	
		3	कुण्डीबे	19 से 28 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	कुण्डीबे	27 से 37 तक	महिला अजा	1
		5	कुण्डीबे	38 से 48 तक	महिला अजजा	
		6	कुण्डीबे	47 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	किशनपुरिया	1 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	परसपुरा	1 से अंत तक		
		9	मोकमपुरा	1 से 7 तक		
		10	मोकमपुरा	8 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत राजपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	राजपुरा	1	राजपुरा	1 से 12 तक	अजा	
		2	राजपुरा	13 से 23 तक	अजजा	
		3	राजपुरा	24 से 38 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	राजपुरा	39 से 53 तक	महिला अजा	1
		5	राजपुरा	54 से 68 तक	महिला अजजा	
		6	राजपुरा	67 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	गेहूँखेड़ी	1 से 10 तक	महिला सामान्य	3
		8	गेहूँखेड़ी	11 से 22 तक		
		9	गेहूँखेड़ी	23 से अंत तक		
		10	नानागांव	1 से 12 तक		
		11	नानागांव	13 से 24 तक		
		12	नानागांव	25 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत करेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	करेड़ी	1	करेड़ी	1 से 24 तक	अजा	2
		2	करेड़ी	25 से 44 तक	अजजा	
		3	करेड़ी	45 से 68 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	करेड़ी	67 से 79 तक	महिला अजा	3
		5	करेड़ी	80 से 101 तक	महिला अजजा	
		6	करेड़ी	102 से 122 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	करेड़ी	123 से 143 तक	महिला सामान्य	4
		8	करेड़ी	144 से 164 तक		
		9	करेड़ी	165 से 175 तक		
		10	करेड़ी	176 से 199 तक		
		11	करेड़ी	200 से 226 तक		
		12	करेड़ी	227 से 244 तक		
		13	करेड़ी	245 से 256 तक		
		14	करेड़ी	257 से 271 तक		
		15	करेड़ी	272 से 283 तक		
		16	करेड़ी	284 से 303 तक		
		17	करेड़ी	304 से 320 तक		
		18	करेड़ी	321 से 338 तक		
		19	करेड़ी	339 से 357 तक		
		20	करेड़ी	358 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कोलूखेड़ी	1	कोलूखेड़ी	1 से 11 तक	अजा	2
		2	कोलूखेड़ी	12 से 21 तक	अजजा	
		3	कोलूखेड़ी	22 से 36 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कोलूखेड़ी	37 से 44 तक	महिला अजा	3
		5	कोलूखेड़ी	45 से 54 तक	महिला अजजा	
		6	कोलूखेड़ी	55 से 62 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	कोलूखेड़ी	63 से 68 तक	महिला सामान्य	3
		8	कोलूखेड़ी	69 से 76 तक		
		9	कोलूखेड़ी	77 से 84 तक		
		10	कोलूखेड़ी	85 से 94 तक		
		11	कोलूखेड़ी	95 से 105 तक		
		12	कोलूखेड़ी	106 से अंत तक		
		13	करेड़ा	1 से 14 तक		
		14	करेड़ा	15 से 26 तक		
		15	करेड़ा	27 से 36 तक		
		16	करेड़ा	37 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत खैरासी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आराक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	खैरासी	1	खैरासी	1 से 14 तक	अजा	1
		2	खैरासी	15 से 23 तक	अजजा	
		3	खैरासी	24 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	खैरासी	41 से 52 तक	महिला अजा	2
		5	खैरासी	53 से 64 तक	महिला अजजा	
		6	खैरासी	65 से 84 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	खैरासी	85 से 98 तक	महिला सामान्य	2
		8	खैरासी	99 से 110 तक		
		9	खैरासी	111 से अंत तक		
		10	टोडरी	1 से 13 तक		
		11	टोडरी	14 से 34 तक		
		12	टोडरी	35 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत तूमड़ियाखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आराक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	तूमड़ियाखेड़ी	1	तूमड़ियाखेड़ी	1 से 13 तक	अजा	1
		2	तूमड़ियाखेड़ी	14 से 22 तक	अजजा	
		3	तूमड़ियाखेड़ी	23 से 32 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	तूमड़ियाखेड़ी	33 से 53 तक	महिला अजा	1
		5	तूमड़ियाखेड़ी	54 से 68 तक	महिला अजजा	
		6	तूमड़ियाखेड़ी	67 से 81 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	तूमड़ियाखेड़ी	82 से 93 तक	महिला सामान्य	3
		8	तूमड़ियाखेड़ी	94 से अंत तक		
		9	गुराड़िया	1 से 17/2 तक		
		10	गुराड़िया	18 से 33 तक		
		11	गुराड़िया	34 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत घोड़ाखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	घोड़ाखेड़ा	1	घोड़ाखेड़ा	1 से 14 तक	अजा	
		2	घोड़ाखेड़ा	15 से 33 तक	अजजा	
		3	घोड़ाखेड़ा	34 से 55 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	घोड़ाखेड़ा	56 से 64 तक	महिला अजा	1
		5	घोड़ाखेड़ा	65 से 94 तक	महिला अजजा	1
		6	घोड़ाखेड़ा	95 से 100 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	घोड़ाखेड़ा	101 से अंत तक	महिला सामान्य	3
		8	लदूरी	1 से 17 तक		
		9	लदूरी	18 से 30 तक		
		10	लदूरी	31 से 38 तक		
		11	लदूरी	39 से 60 तक		
		12	लदूरी	61 से 69 तक		
		13	लदूरी	70 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत रामपुरिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	रामपुरिया	1	रामपुरिया	1 से 11 तक	अजा	1
		2	रामपुरिया	12 से 27 तक	अजजा	
		3	रामपुरिया	28 से 42 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	रामपुरिया	43 से 57 तक	महिला अजा	1
		5	रामपुरिया	58 से 74 तक	महिला अजजा	1
		6	रामपुरिया	75 से 87 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	रामपुरिया	88 से 102 तक	महिला सामान्य	3
		8	रामपुरिया	102 से अंत तक		
		9	मिदूखेड़ी	1 से 10 तक		
		10	मिदूखेड़ी	11 से 22 तक		
		11	मिदूखेड़ी	23 से अंत तक		
		12	नानोरी	1 से 10 तक		
		13	नानोरी	11 से 26 तक		
		14	नानोरी	27 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत गोरखपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	गोरखपुरा	1	गोरखपुरा	1 से 16 तक	अजा	1
		2	गोरखपुरा	17 से 36 तक	अजजा	
		3	गोरखपुरा	37 से 54 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	गोरखपुरा	55 से 70 तक	महिला अजा	1
		5	गोरखपुरा	71 से 83 तक	महिला अजजा	
		6	गोरखपुरा	84 से 98 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	गोरखपुरा	99 से 110 तक	महिला सामान्य	6
		8	गोरखपुरा	111 से 127 तक		
		9	गोरखपुरा	128 से 137 तक		
		10	गोरखपुरा	138 से अंत तक		
		11	रोजड़खुर्द	1 से 18 तक		
		12	रोजड़खुर्द	19 से 36 तक		
		13	रोजड़खुर्द	37 से 54 तक		
		14	रोजड़खुर्द	55 से 63 तक		
		15	रोजड़खुर्द	64 से 74 तक		
		16	रोजड़खुर्द	75 से 102 तक		
		17	रोजड़खुर्द	103 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत खजूरी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	खजूरी	1	खजूरी	1 से 14/1 तक	अजा	2
		2	खजूरी	15 से 31 तक	अजजा	
		3	खजूरी	32 से 54/1 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	खजूरी	55 से 77 तक	महिला अजा	2
		5	खजूरी	78/1 से 95 तक	महिला अजजा	
		6	खजूरी	96 से 110/2 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	खजूरी	111/1 से 129 तक	महिला सामान्य	3
		8	खजूरी	130 से 151 तक		
		9	खजूरी	152 से अंत तक		
		10	जलालिया	1 से 17 तक		
		11	जलालिया	18 से 36 तक		
		12	जलालिया	37 से 55 तक		
		13	जलालिया	56 से 67/2 तक		
		14	जलालिया	68 से अंत तक		

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.

## ग्राम पंचायत चौसला

## परिशिष्ट-5(अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ -तीन वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी। विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्यां स्तम्भ-पाच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व सम्बंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	चौसला	1	चौसला	1 से 17 तक	अजा	1
		2	चौसला	18 से 32 तक	अजजा	
		3	चौसला	33 से 46/2 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	चौसला	47 से 61 तक	महिला अजा	1
		5	चौसला	62 से 77 तक	महिला अजजा	
		6	चौसला	78 से 95 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	चौसला	96 से 108 तक	महिला सामान्य	5
		8	चौसला	109 से 119 तक		
		9	चौसला	120 से 137 तक		
		10	चौसला	138 से अंत तक		
		11	पीपल्या	1 से 16 तक		
		12	पीपल्या	17 से 32/3 तक		
		13	पीपल्या	33 से 48 तक		
		14	पीपल्या	47 से 62/2 तक		
		15	पीपल्या	63 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत नरी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	नरी	1	नरी	1 से 14 तक	अजा	1
		2	नरी	15 से 22 तक	अजजा	
		3	नरी	23 से 33 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	नरी	34 से 44 तक	महिला अजा	2
		5	नरी	45 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	जसापुरा	1 से 11 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	जसापुरा	12 से 23 तक	महिला सामान्य	3
		8	जसापुरा	24 से अंत तक		
		9	भूत्याबे	1 से 23		
		10	भूत्याबे	24 से अंत तक		
		11	माथन्या	1 से 17 तक		
		12	माथन्या	18 से 41 तक		
		13	माथन्या	42 से 56 तक		
		14	माथन्या	57 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कालीतलाई

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कालीतलाई	1	कालीतलाई	1 से 18 तक	अजा	3
		2	कालीतलाई	17 से 44 तक	अजजा	
		3	कालीतलाई	45 से 59 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	कालीतलाई	60 से 82 तक	महिला अजा	3
		5	कालीतलाई	83 से 100 तक	महिला अजजा	1
		6	कालीतलाई	101 से 118 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	कालीतलाई	119 से 135/1 तक	महिला सामान्य	3
		8	कालीतलाई	136 से 148 तक		
		9	कालीतलाई	149 से 166/1 तक		
		10	कालीतलाई	167 से अंत		
		11	किशनपुरिया	1 से 20 तक		
		12	किशनपुरिया	21 से अंत तक		
		13	शाहपुरिया	1 से 11 तक		
		14	शाहपुरिया	12 से 19 तक		
		15	शाहपुरिया	20 से अंत तक		
		16	बलबीरपुरा	1 से अंत तक		
		17	नेसबोरवा	1 से अंत तक		
			(कुशलपुरा वीरान)	1 से अंत तक		
		18	हीरापुरा	1 से 16 तक		
		19	हीरापुरा	17 से 29 तक		
		20	हीरापुरा	30 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत रोज्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	रोज्या	1	रोज्या	1 से 19 तक	अजा	
		2	रोज्या	20 से 37 तक	अजजा	
		3	रोज्या	38 से 61 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	रोज्या	62 से 77 तक	महिला अजा	1
		5	रोज्या	78 से 95 तक	महिला अजजा	1
		6	रोज्या	96 से 112 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	रोज्या	113 से 129/2 तक	महिला सामान्य	3
		8	रोज्या	130 से 144 तक		
		9	रोज्या	145 से 156 तक		
		10	रोज्या	157 से अंत तक		
		11	रोस्या	1 से 8/3 तक		
		12	रोस्या	9/1 से 16 तक		
		13	रोस्या	17 से 22/5 तक		
		14	रोस्या	23 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत मुरारिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	मुरारिया	1	मुरारिया 1 से 13 तक	अजा	
		2	मुरारिया 14 से 30 तक	अजजा	
		3	मुरारिया 31 से 46 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	मुरारिया 47 से 63 तक	महिला अजा	1
		5	मुरारिया 64 से 80 तक	महिला अजजा	
		6	मुरारिया 81 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सिरोजी 1 से 19/2 तक	महिला सामान्य	3
		8	सिरोजी 20 से अंत तक		
		9	खानपुरा 1 से 14 तक		
		10	खानपुरा 15 से 24/2 तक		
		11	खानपुरा 25 से 37/1 तक		
		12	खानपुरा 38 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत चादूखेडा सौध्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	चादूखेडा सौध्या	1	चादूखेडा सौध्या 1 से 20 तक	अजा	1
		2	चादूखेडा सौध्या 21 से 45 तक	अजजा	
		3	चादूखेडा सौध्या 46 से 64 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	चादूखेडा सौध्या 65 से 88 तक	महिला अजा	1
		5	चादूखेडा सौध्या 89 से 110 तक	महिला अजजा	1
		6	चादूखेडा सौध्या 111 से 129 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	चादूखेडा सौध्या 130 से 139 तक	महिला सामान्य	5
		8	चादूखेडा सौध्या 140 से 149 तक		
		9	चादूखेडा सौध्या 150 से 166 तक		
		10	चादूखेडा सौध्या 167 से 179 तक		
		11	चादूखेडा सौध्या 180 से अंत तक		
		12	चादूखेडा दांगी 1 से 17 तक		
		13	चादूखेडा दांगी 18 से 33 तक		
		14	चादूखेडा दांगी 34 से 46/2 तक		
		15	चादूखेडा दांगी 47 से 68 तक		
		16	चादूखेडा दांगी 69 से 82 तक		
		17	चादूखेडा दांगी 83 से 94 तक		
		18	चादूखेडा दांगी 95 से 111 तक		
		19	चादूखेडा दांगी 112 से 130 तक		
		20	चादूखेडा दांगी 131 से अंत तक		
			पुरा चादूखेडा वीरान 1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कोलूखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कोलूखेड़ा	1	कोलूखेड़ा	1 से 13 तक	अजा	
		2	कोलूखेड़ा	14 से 22 तक	अजजा	
		3	कोलूखेड़ा	23 से 34 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	कोलूखेड़ा	35 से 47 तक	महिला अजा	1
		5	कोलूखेड़ा	48 से 56 तक	महिला अजजा	
		6	कोलूखेड़ा	57 से 69 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	कोलूखेड़ा	70 से 83 तक	महिला सामान्य	4
		8	कोलूखेड़ा	84 से अंत तक		
		9	डूंगरपुर	1 से 12 तक		
		10	डूंगरपुर	13 से 25 तक		
		11	डूंगरपुर	26 से 39 तक		
		12	डूंगरपुर	40 से 53 तक		
		13	डूंगरपुर	54 से 63 तक		
		14	डूंगरपुर	64 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बाईहेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बाईहेड़ा	1	बाईहेड़ा	1 से 13 तक	अजा	1
		2	बाईहेड़ा	14 से 24 तक	अजजा	
		3	बाईहेड़ा	25 से 47 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	बाईहेड़ा	48 से 66 तक	महिला अजा	1
		5	बाईहेड़ा	67 से 82 तक	महिला अजजा	
		6	बाईहेड़ा	83 से 96 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	बाईहेड़ा	97 से अंत तक	महिला सामान्य	4
		8	उदपुरिया	1 से 8 तक		
		9	उदपुरिया	9 से 21 तक		
		10	उदपुरिया	22 से 31 तक		
		11	उदपुरिया	32 से 42 तक		
		12	उदपुरिया	43 से अंत तक		
		13	बांसखेड़ी	1 से 14 तक		
		14	बांसखेड़ी	15 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत मांडाखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सोमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	मांडाखेड़ा	1	मांडाखेड़ा	1 से 10 तक	अजा	
		2	मांडाखेड़ा	11 से 19/2 तक	अजजा	
		3	मांडाखेड़ा	20/1 से 33 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	मांडाखेड़ा	34 से 47 तक	महिला अजा	1
		5	मांडाखेड़ा	48 से 58/5 तक	महिला अजजा	
		6	मांडाखेड़ा	59 से 73 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	मांडाखेड़ा	74 से 84 तक	महिला सामान्य	4
		8	मांडाखेड़ा	85 से अंत तक		
		9	लाइनपुर	1 से 9 तक		
		10	लाइनपुर	10 से 19/5 तक		
		11	लाइनपुर	20 से 25/2 तक		
		12	लाइनपुर	26 से 32/2 तक		
		13	लाइनपुर	33 से अंत तक		
		14	सूरजपुरा,	1 से अंत तक		
			हाथीकुमारा वीरान	1 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत मोहनपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सोमा गाव क मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	मोहनपुरा	1	मोहनपुरा	1 से 13 तक	अजा	3
		2	मोहनपुरा	14 से 26 तक	अजजा	
		3	मोहनपुरा	27 से 42 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	मोहनपुरा	43 से 61 तक	महिला अजा	3
		5	मोहनपुरा	62 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	बख्तावरपुरा	1 से 16 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बख्तावरपुरा	17 से 27 तक	महिला सामान्य	2
		8	बख्तावरपुरा	28 से 42 तक		
		9	बख्तावरपुरा	43 से अंत तक		
		10	रायपुरियाघाटा	1 से 19 तक		
		11	रायपुरियाघाटा	20 से 31 तक		
		12	रायपुरियाघाटा	32 से 41/4 तक		
		13	रायपुरियाघाटा	42 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बामलाबे

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सामा गाव क मकान नम्बर	आराक्षत वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बामलाबे	1	बामलाबे	1 से 15 तक	अजा	2
		2	बामलाबे	16 से 30 तक	अजजा	
		3	बामलाबे	31 से 32 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	बामलाबे	33 से 38 तक	महिला अजा	2
		5	बामलाबे	39 से 46/3 तक	महिला अजजा	
		6	बामलाबे	47 से 62 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बामलाबे	63 से 76 तक	महिला सामान्य	1
		8	बामलाबे	77 से अंत तक		
		9	बलवन्तपुरा	1 से 8 तक		
		10	बलवन्तपुरा	9 से अंत तक		
			नवलपुरा,	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत समेली

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सोमा गाव क मकान नम्बर	आराक्षत वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	समेली	1	समेली	1 से 9 तक	अजा	1
		2	समेली	10 से 20 तक	अजजा	
		3	समेली	21 से 28 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	समेली	29 से 38 तक	महिला अजा	2
		5	समेली	37 से 47 तक	महिला अजजा	
		6	समेली	48 से 60 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	समेली	61 से 68 तक	महिला सामान्य	4
		8	समेली	69 से अंत तक		
		9	किशनपुरिया	1 से 5/3 तक		
		10	किशनपुरिया	6 से 10 तक		
		11	किशनपुरिया	11 से 23 तक		
		12	किशनपुरिया	24 से 34 तक		
		13	किशनपुरिया	35 से 41 तक		
		14	किशनपुरिया	42 से अंत तक		
		15	टांडी	1 से 10 तक		
		16	टांडी	11 से 23 तक		
		17	टांडी	24 से अंत तक		
		18	लक्ष्मणपुरा	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत करनवास

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	करनवास	1	करनवास	1 से 16/5 तक	अजा	2
		2	करनवास	17 से 37 तक	अजजा	
		3	करनवास	38 से 54/3 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	करनवास	55 से 73 तक	महिला अजा	2
		5	करनवास	74 से 94 तक	महिला अजजा	
		6	करनवास	95 से 113 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	करनवास	114 से 136 तक	महिला सामान्य	5
		8	करनवास	137 से 153 तक		
		9	करनवास	154 से 177 तक		
		10	करनवास	178 से 195 तक		
		11	करनवास	196 से 218 तक		
		12	करनवास	219 से 241 तक		
		13	करनवास	242 से 259 तक		
		14	करनवास	260 से 270 तक		
		15	करनवास	271 से 295 तक		
		16	करनवास	296 से 307 तक		
		17	करनवास	308 से 322 तक		
		18	करनवास	323 से 337 तक		
		19	करनवास	338 से 350 तक		
		20	करनवास	351 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सीलापानी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सीलापानी	1	सीलापानी	1 से 11 तक	अजा	1
		2	सीलापानी	12 से 21 तक	अजजा	
		3	सीलापानी	22 से 39 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	सीलापानी	40 से 51 तक	महिला अजा	1
		5	सीलापानी	52 से 67 तक	महिला अजजा	
		6	सीलापानी	68 से 79 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सीलापानी	80 से 91 तक	महिला सामान्य	4
		8	सीलापानी	92 से 110 तक		
		9	सीलापानी	111 से अंत तक		
		10	सूरजखेड़ी	1 से 9/3 तक		
		11	सूरजखेड़ी	10 से 23/4 तक		
		12	सूरजखेड़ी	24 से अंत तक		
		13	भोपालपुरा	1 से 12 तक		
		14	भोपालपुरा	13 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत सनखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सनखेड़ी	1	सनखेड़ी	1 से 13 तक	अजा	3
		2	सनखेड़ी	14 से 26 तक	अजजा	
		3	सनखेड़ी	27 से 32 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	सनखेड़ी	33 से 45 तक	महिला अजा	3
		5	सनखेड़ी	46 से 55 तक	महिला अजजा	
		6	सनखेड़ी	56 से 67 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	सनखेड़ी	68 से 72 तक	महिला सामान्य	2
		8	सनखेड़ी	73 से 80 तक		
		9	सनखेड़ी	81 से अंत तक		
		10	छतरी राजगढ़	1 से 14 तक		
		11	छतरी राजगढ़	15 से अंत तक		
		12	छतरी नरसिंहगढ़	1 से 9 तक		
		13	छतरी नरसिंहगढ़	10 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत नाईहेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	नाईहेड़ा	1	नाईहेड़ा	1 से 16 तक	अजा	2
		2	नाईहेड़ा	17 से 28 तक	अजजा	
		3	नाईहेड़ा	29 से 41 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	नाईहेड़ा	42 से 59 तक	महिला अजा	3
		5	नाईहेड़ा	60 से 72 तक	महिला अजजा	
		6	नाईहेड़ा	73 से 84 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	नाईहेड़ा	85 से 102 तक	महिला सामान्य	3
		8	नाईहेड़ा	103 से 114 तक		
		9	नाईहेड़ा	115 से अंत तक		
		10	झूमका	1 से 15 तक		
		11	झूमका	16 से 28 तक		
		12	झूमका	29 से 37 तक		
		13	झूमका	38 से 55 तक		
		14	झूमका	56 से 101 तक		
		15	झूमका	102 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत ओढपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	ओढपुर	1	ओढपुर	1 से 16 तक	अजा	2
		2	ओढपुर	17 से 30 तक	अजजा	
		3	ओढपुर	31 से 42 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	ओढपुर	43 से 63 तक	महिला अजा	3
		5	ओढपुर	64 से 70 तक	महिला अजजा	1
		6	ओढपुर	71 से 86 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	ओढपुर	87 से 101 तक	महिला सामान्य	2
		8	ओढपुर	102 से 116 तक		
		9	ओढपुर	117 से 125 तक		
		10	ओढपुर	126 से 140 तक		
		11	ओढपुर	141 से 156 तक		
		12	ओढपुर	157 से 168 तक		
		13	ओढपुर	169 से 182 तक		
		14	ओढपुर	183 से 193 तक		
		15	ओढपुर	194 से 209 तक		
		16	ओढपुर	210 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बांसखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बांसखेड़ा	1	बांसखेड़ा	1 से 27 तक	अजा	1
		2	बांसखेड़ा	28 से 56 तक	अजजा	
		3	बांसखेड़ा	57 से 74 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	बांसखेड़ा	75 से 91 तक	महिला अजा	2
		5	बांसखेड़ा	92 से 112 तक	महिला अजजा	
		6	बांसखेड़ा	113 से 131/3 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बांसखेड़ा	132 से 153 तक	महिला सामान्य	4
		8	बांसखेड़ा	154 से 188 तक		
		9	बांसखेड़ा	189 से 215 तक		
		10	बांसखेड़ा	216 से 231 तक		
		11	बांसखेड़ा	232 से 256 तक		
		12	बांसखेड़ा	257 से 274 तक		
		13	बांसखेड़ा	275 से 285 तक		
		14	बांसखेड़ा	286 से 309 तक		
		15	बांसखेड़ा	310 से 329 तक		
		16	बांसखेड़ा	330 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत देहरीकराड़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	देहरीकराड़	1	देहरीकराड़	1 से 18 तक	अजा	2
		2	देहरीकराड़	17 से 29 तक	अजजा	
		3	देहरीकराड़	30 से 41/2 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	देहरीकराड़	42 से 53 तक	महिला अजा	2
		5	देहरीकराड़	54 से 70 तक	महिला अजजा	
		6	देहरीकराड़	71 से 86 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	देहरीकराड़	87 से 92 तक	महिला सामान्य	4
		8	देहरीकराड़	93 से 105/4 तक		
		9	देहरीकराड़	106 से 121 तक		
		10	देहरीकराड़	122 से 143 तक		
		11	देहरीकराड़	144 से अंत तक		
		12	ढाबड़ी	1 से 12 तक		
		13	ढाबड़ी	13 से 28 तक		
		14	ढाबड़ी	29 से 44 तक		
		15	ढाबड़ी	45 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत लसूडली धाकड़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	लसूडली धाकड़	1	लसूडली धाकड़	1 से 11/2 तक	अजा	1
		2	लसूडली धाकड़	12 से 18 तक	अजजा	
		3	लसूडली धाकड़	19 से 31 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	लसूडली धाकड़	32 से 44/2 तक	महिला अजा	1
		5	लसूडली धाकड़	45 से 50 तक	महिला अजजा	1
		6	लसूडली धाकड़	51 से 62 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	लसूडली धाकड़	63 से 77 तक	महिला सामान्य	2
		8	लसूडली धाकड़	78 से 90 तक		
		9	लसूडली धाकड़	91 से 97/2 तक		
		10	लसूडली धाकड़	98 से 124 तक		
		11	लसूडली धाकड़	125 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत लाख्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	लाख्या	1	लाख्या	1 से 13 तक	अजा	1
		2	लाख्या	14 से 24 तक	अजजा	
		3	लाख्या	25 से 41 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	लाख्या	42 से 44 तक	महिला अजा	2
		5	लाख्या	45 से 58 तक	महिला अजजा	
		6	लाख्या	59 से 69 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	लाख्या	70 से 81 तक	महिला सामान्य	5
		8	लाख्या	82 से 98 तक		
		9	लाख्या	99 से 108/5 तक		
		10	लाख्या	109 से 120 तक		
		11	लाख्या	121 से अंत तक		
		12	पाटनखुर्द	1 से 9/6 तक		
		13	पाटनखुर्द	10 से 22 तक		
		14	पाटनखुर्द	23 से 29 तक		
		15	पाटनखुर्द	30 से 45 तक		
		16	पाटनखुर्द	46 से 63 तक		
		17	पाटनखुर्द	64 से अंत तक		
			पीथाखेडा वीरान	1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत लिम्बोदा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	लिम्बोदा	1	लिम्बोदा	1 से 9/2 तक	अजा	1
		2	लिम्बोदा	10 से 25 तक	अजजा	
		3	लिम्बोदा	26 से 39 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	लिम्बोदा	40/1 से 54 तक	महिला अजा	2
		5	लिम्बोदा	55 से 70 तक	महिला अजजा	1
		6	लिम्बोदा	71 से 81 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	लिम्बोदा	82 से 104 तक	महिला सामान्य	3
		8	लिम्बोदा	105 से 119 तक		
		9	लिम्बोदा	120 से 140/2 तक		
		10	लिम्बोदा	141 से 154 तक		
		11	लिम्बोदा	155 से 170 तक		
		12	लिम्बोदा	171 से 187 तक		
		13	लिम्बोदा	188 से 206 तक		
		14	लिम्बोदा	207 से 217 तक		
		15	लिम्बोदा	218 से 233 तक		
		16	लिम्बोदा	234 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत खेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	खेड़ी	1	खेड़ी	1 से 7/3 तक	अजा	1
		2	खेड़ी	8 से 14 तक	अजजा	
		3	खेड़ी	15 से 31 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	1
		4	खेड़ी	32 से 42/2 तक	महिला अजा	1
		5	खेड़ी	43 से अंत तक	महिला अजजा	
		6	पाका	1 से 6 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	पाका	7 से 10 तक	महिला सामान्य	3
		8	पाका	11 से 18 तक		
		9	पाका	19 से अंत तक		
		10	राधोखेड़ी	1 से 10 तक		
		11	राधोखेड़ी	11 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पाड़लियाखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पाड़लियाखेड़ी	1	पाड़लियाखेड़ी	1 से 13 तक	अजा	1
		2	पाड़लियाखेड़ी	14 से 28 तक	अजजा	
		3	पाड़लियाखेड़ी	27 से 38 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	पाड़लियाखेड़ी	39 से 47/3 तक	महिला अजा	2
		5	पाड़लियाखेड़ी	48 से 58 तक	महिला अजजा	
		6	पाड़लियाखेड़ी	59 से 67 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	2
		7	पाड़लियाखेड़ी	68 से 83 तक	महिला सामान्य	4
		8	पाड़लियाखेड़ी	84 से 89/2 तक		
		9	पाड़लियाखेड़ी	90 से 102 तक		
		10	पाड़लियाखेड़ी	103 से 112 तक		
		11	पाड़लियाखेड़ी	113 से 127 तक		
		12	पाड़लियाखेड़ी	128 से 143 तक		
		13	पाड़लियाखेड़ी	144 से 161 तक		
		14	पाड़लियाखेड़ी	162 से 173/2 तक		
		15	पाड़लियाखेड़ी	174 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कल्पोनी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कल्पोनी	1	कल्पोनी	1 से 14/2 तक	अजा	2
		2	कल्पोनी	15 से 28 तक	अजजा	1
		3	कल्पोनी	29 से 42 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	कल्पोनी	43 से 59 /1 तक	महिला अजा	2
		5	कल्पोनी	59 /2 से 74 तक	महिला अजजा	2
		6	कल्पोनी	75 से 85 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	कल्पोनी	86 से 100 तक	महिला सामान्य	3
		8	कल्पोनी	101 से 112 तक		
		9	कल्पोनी	113 से 125 तक		
		10	कल्पोनी	126 से अंत तक		
		11	रसूलपुरा	1 से 18 तक		
		12	रसूलपुरा	19 से 39 तक		
		13	रसूलपुरा	40 से 60 तक		
		14	रसूलपुरा	61 से 69 तक		
		15	रसूलपुरा	70 से 77 तक		
		16	रसूलपुरा	78 से 109 तक		
		17	रसूलपुरा	110 से 134 तक		
		18	रसूलपुरा	135 से 148 तक		
		19	रसूलपुरा	149 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बखेड़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बखेड़	1	बखेड़	1 से 20 तक	अजा	1
		2	बखेड़	21 से 39 तक	अजजा	
		3	बखेड़	40 से 50 तक	अन्य पिछड़ावर्ग	2
		4	बखेड़	51 से 66 तक	महिला अजा	1
		5	बखेड़	67 से 93 तक	महिला अजजा	
		6	बखेड़	94 से 115 तक	महिला अन्य पिछड़ावर्ग	3
		7	बखेड़	116 से 135 तक	महिला सामान्य	6
		8	बखेड़	136 से 165 तक		
		9	बखेड़	166 से 183 तक		
		10	बखेड़	184 से 217 तक		
		11	बखेड़	218 से 245 तक		
		12	बखेड़	246 से 266 तक		
		13	बखेड़	267 से 294 तक		
		14	बखेड़	295 से 346 तक		
		15	बखेड़	347 से 375 तक		
		16	बखेड़	376 से 400 तक		
		17	बखेड़	401 से 417 तक		
		18	बखेड़	418 से 448 तक		
		19	बखेड़	449 से 472 तक		
		20	बखेड़	473 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत चौडापुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	चौडापुरा	1	चौडापुरा	1 से 13 तक	अजा	1
		2	चौडापुरा	14 से 23 तक	अजजा	
		3	चौडापुरा	24 से 36 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	चौडापुरा	37 से 52 तक	महिला अजा	1
		5	चौडापुरा	53 से 72 तक	महिला अजजा	1
		6	चौडापुरा	73 से 87 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	चौडापुरा	88 से 110 तक	महिला सामान्य	4
		8	चौडापुरा	111 से 125 तक		
		9	चौडापुरा	126 से 140 तक		
		10	चौडापुरा	141 से अंत तक		
		11	खीमाखेड़ी	1 से 8/3 तक		
		12	खीमाखेड़ी	9 से 13/2 तक		
		13	खीमाखेड़ी	14 से अंत तक		
		14	उदपुरिया	1 से 11 तक		
		15	उदपुरिया	12 से 22 तक		
		16	उदपुरिया	23 से 29 तक		
		17	उदपुरिया	30 से 44 तक		
		18	उदपुरिया	45 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत टूनी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	टूनी	1	टूनी	1 से 18 तक	अजा	
		2	टूनी	17 से 49 तक	अजजा	
		3	टूनी	50 से 65 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	टूनी	66 से 88 तक	महिला अजा	1
		5	टूनी	89 से 111/2 तक	महिला अजजा	1
		6	टूनी	112 से 134 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	टूनी	135 से 156 तक	महिला सामान्य	1
		8	टूनी	157 से 179 तक		
		9	टूनी	180 से 195 तक		
		10	टूनी	196 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कोड़ियाजरगर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कोड़ियाजरगर	1	कोड़ियाजरगर	1 से 14 तक	अजा	1
		2	कोड़ियाजरगर	15 से 29 तक	अजजा	
		3	कोड़ियाजरगर	30 से 45 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	कोड़ियाजरगर	46 से 58 तक	महिला अजा	1
		5	कोड़ियाजरगर	59 से 75 तक	महिला अजजा	
		6	कोड़ियाजरगर	76 से 92 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	कोड़ियाजरगर	93 से 109 तक	महिला सामान्य	2
		8	कोड़ियाजरगर	110 से 123 तक		
		9	कोड़ियाजरगर	124 से 140 तक		
		10	कोड़ियाजरगर	141 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बड़लावदा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बड़लावदा	1	बड़लावदा	1 से 20 तक	अजा	2
		2	बड़लावदा	21 से 35 तक	अजजा	
		3	बड़लावदा	36 से 47 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	बड़लावदा	48 से 58/2 तक	महिला अजा	3
		5	बड़लावदा	59 से अंत तक	महिला अजजा	1
		6	गोपालपुरा	1 से 8 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	गोपालपुरा	9 से 23 तक	महिला सामान्य	1
		8	गोपालपुरा	24 से 32 तक		
		9	गोपालपुरा	33 से अंत तक		
		10	दूबली	1 से 12 तक		
		11	दूबली	13 से 23 तक		
		12	दूबली	24 से 34 तक		
		13	दूबली	35 से 44 तक		
		14	दूबली	45 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत फुन्दिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	फुन्दिया	1	फुन्दिया	1 से 16 तक	अजा	2
		2	फुन्दिया	17 से 30/1 तक	अजजा	
		3	फुन्दिया	31 से 43 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	फुन्दिया	44 से 51/6 तक	महिला अजा	2
		5	फुन्दिया	52 से 67 तक	महिला अजजा	
		6	फुन्दिया	68 से 85 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	फुन्दिया	86 से 101 तक	महिला सामान्य	4
		8	फुन्दिया	102 से 111 तक		
		9	फुन्दिया	112 से अंत तक		
		10	मवासा	1 से 20 तक		
		11	मवासा	21 से 28/4 तक		
		12	मवासा	29 से 47 तक		
		13	मवासा	48 से 71 तक		
		14	मवासा	72 से 88 तक		
		15	मवासा	87 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत गोरियाखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	गोरियाखेड़ा	1	गोरियाखेड़ा	1 से 21 तक	अजा	2
		2	गोरियाखेड़ा	22 से 42 तक	अजजा	
		3	गोरियाखेड़ा	43 से 59 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	गोरियाखेड़ा	60 से 74 तक	महिला अजा	3
		5	गोरियाखेड़ा	75 से 90 तक	महिला अजजा	
		6	गोरियाखेड़ा	91 से 104 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	गोरियाखेड़ा	105 से 128 तक	महिला सामान्य	4
		8	गोरियाखेड़ा	129 से 144 तक		
		9	गोरियाखेड़ा	145 से 159 तक		
		10	गोरियाखेड़ा	160 से अंत तक		
		11	गोकुलपुरा	1 से 12 तक		
		12	गोकुलपुरा	13 से 28 तक		
		13	गोकुलपुरा	29 से 45 तक		
		14	गोकुलपुरा	46 से 62 तक		
		15	गोकुलपुरा	63 से 72 तक		
		16	गोकुलपुरा	73 से अंत तक		
		17	धतूरी	1 से 10 तक		
		18	धतूरी	11 से 21 तक		
		19	धतूरी	22 से 29/3 तक		
		20	धतूरी	30 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पीपलखेड़ा	1	पीपलखेड़ा	1 से 24 तक	अजा	2
		2	पीपलखेड़ा	25 से 43/2 तक	अजजा	1
		3	पीपलखेड़ा	44 से 61 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	पीपलखेड़ा	62 से 76/2 तक	महिला अजा	3
		5	पीपलखेड़ा	77 से 99 तक	महिला अजजा	2
		6	पीपलखेड़ा	100 से 123 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	पीपलखेड़ा	124 से अंत तक	महिला सामान्य	2
		8	गिंदोरी	1 से 16 तक		
		9	गिंदोरी	17 से 27 तक		
		10	गिंदोरी	28 से 43 तक		
		11	गिंदोरी	44 से 57 तक		
		12	गिंदोरी	58 से 70 तक		
		13	गिंदोरी	71 से 89 तक		
		14	गिंदोरी	90 से अंत तक		
		15	धुआखेड़ी	1 से 16 तक		
		16	धुआखेड़ी	17 से 32 तक		
		17	धुआखेड़ी	33 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत चौतरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	चौतरा	1	चौतरा	1 से 15 तक	अजा	1
		2	चौतरा	16 से 24/4 तक	अजजा	
		3	चौतरा	25 से 40 तक	अन्य पिछडावर्ग	1
		4	चौतरा	41 से 48 तक	महिला अजा	1
		5	चौतरा	49 से 58 तक	महिला अजजा	
		6	चौतरा	59 से अंत तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	देवलीचारण	1 से 9 तक	महिला सामान्य	3
		8	देवलीचारण	10 से 19 तक		
		9	देवलीचारण	20 से अंत तक		
		10	धुलैन	1 से 10 तक		
		11	धुलैन	11 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत सुस्तानी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	सुस्तानी	1	सुस्तानी	1 से 12 तक	अजा	1
		2	सुस्तानी	13 से 21/1 तक	अजजा	
		3	सुस्तानी	22 से 29/1 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	सुस्तानी	30 से 41/1 तक	महिला अजा	2
		5	सुस्तानी	42 से 49/2 तक	महिला अजजा	1
		6	सुस्तानी	50 से 57/2 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	सुस्तानी	58 से 68 तक	महिला सामान्य	3
		8	सुस्तानी	67 से 77 तक		
		9	सुस्तानी	78 से 87 तक		
		10	सुस्तानी	88 से 102 तक		
		11	सुस्तानी	103 से 113 तक		
		12	सुस्तानी	114 से 119/1 तक		
		13	सुस्तानी	120 से 126 तक		
		14	सुस्तानी	127 से 139 तक		
		15	सुस्तानी	140 से अंत तक		
		16	कड़ियाखींची	1 से 6 तक		
		17	कड़ियाखींची	7 से 17/5 तक		
		18	कड़ियाखींची	18 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कचनारिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	कचनारिया	1	कचनारिया	1 से 14 तक	अजा	1
		2	कचनारिया	15 से 24 तक	अजजा	
		3	कचनारिया	25 से 33 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	कचनारिया	34 से 44 तक	महिला अजा	2
		5	कचनारिया	45 से 55 तक	महिला अजजा	
		6	कचनारिया	56 से 65 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	कचनारिया	66 से 77 तक	महिला सामान्य	5
		8	कचनारिया	78 से 98 तक		
		9	कचनारिया	97/1 से 104 तक		
		10	कचनारिया	105 से 114 तक		
		11	कचनारिया	115 से 129 तक		
		12	कचनारिया	130 से 146 तक		
		13	कचनारिया	147 से 160 तक		
		14	कचनारिया	161 से अंत तक		
		15	गिन्दोरभट्ट	1 से अंत तक		
		16	रघुनाथपुरा	1 से 13 तक		
		17	रघुनाथपुरा	14 से अंत तक		
		18	गणेशपुरा	1 से 15 तक		
		19	गणेशपुरा	16 से 35 तक		
		20	गणेशपुरा	36 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत देहरीबामन

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	देहरीबामन	1	देहरीबामन	1 से 13 तक	अजा	2
		2	देहरीबामन	14 से 29 तक	अजजा	1
		3	देहरीबामन	30 से 49 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	देहरीबामन	50 से 65 तक	महिला अजा	2
		5	देहरीबामन	66 से 75 तक	महिला अजजा	2
		6	देहरीबामन	76 से 90 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	देहरीबामन	91 से 111 तक	महिला सामान्य	1
		8	देहरीबामन	112 से 126 तक		
		9	देहरीबामन	127 से 139 तक		
		10	देहरीबामन	140 से 149 तक		
		11	देहरीबामन	150 से 163 तक		
		12	देहरीबामन	164 से 171 तक		
		13	देहरीबामन	172 से 192 तक		
		14	देहरीबामन	193 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बादलखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	बादलखेड़ी	1	बादलखेड़ी	1 से 16 तक	अजा	2
		2	बादलखेड़ी	17 से 35 तक	अजजा	
		3	बादलखेड़ी	36 से 53 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	बादलखेड़ी	54 से 67 तक	महिला अजा	3
		5	बादलखेड़ी	68 से 82 तक	महिला अजजा	
		6	बादलखेड़ी	83 से 100 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	2
		7	बादलखेड़ी	101 से 117 तक	महिला सामान्य	3
		8	बादलखेड़ी	118 से अंत तक		
		9	दुपाड़िया	1 से 22 तक		
		10	दुपाड़िया	23 से 43 तक		
		11	दुपाड़िया	44 से 58 तक		
		12	दुपाड़िया	59 से 75 तक		
		13	दुपाड़िया	76 से 90 तक		
		14	दुपाड़िया	91 से 110 तक		
		15	दुपाड़िया	111 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पदमपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
	पदमपुरा	1	पदमपुरा	1 से 6/2 तक	अजा	3
		2	पदमपुरा	7 से 13/1 तक	अजजा	
		3	पदमपुरा	14 से 23/1 तक	अन्य पिछडावर्ग	2
		4	पदमपुरा	24 से 32/4 तक	महिला अजा	3
		5	पदमपुरा	33 से 42/2 तक	महिला अजजा	
		6	पदमपुरा	43 से 55/1 तक	महिला अन्य पिछडावर्ग	3
		7	पदमपुरा	56 से 65/1 तक	महिला सामान्य	4
		8	पदमपुरा	66 से अंत तक		
		9	लालपुरा झाला	1 से 11 तक		
		10	लालपुरा झाला	12 से 24 तक		
		11	लालपुरा झाला	25 से 39 तक		
		12	लालपुरा झाला	40 से 50 तक		
		13	लालपुरा झाला	51 से अंत तक		
		14	अताईखेड़ा	1 से 16 तक		
		15	अताईखेड़ा	17 से 31 तक		
		16	अताईखेड़ा	32 से 41 तक		
		17	अताईखेड़ा	42 से 50 तक		
		18	अताईखेड़ा	51 से 66/3 तक		
		19	अताईखेड़ा	67 से 77 तक		
		20	अताईखेड़ा	78 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत चाठा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
1	चाठा	1	1 चाठा	1 से	14 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	15/1 से	24 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	25 से	36 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	38 से	54 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	55 से	62/2 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	63 से	78 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	79 से	90 तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	91 से	99 तक		
		9	9 --	100 से	110/2 तक		
		10	10 --	111 से	123 तक		
		11	11 --	124 से	136/3 तक		
		12	12 --	137 से	146/2 तक		
		13	13 --	147/1 से	171 तक		

## ग्राम पंचायत खानपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
2	खानपुरा	1	1 खानपुरा	1	से	7/2	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	8	से	14	तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	16	से	22	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	23	से	32	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	34	से	44/1.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	45	से	51	ख तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	52/1.	से	65/2.	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	66	से	71	तक		
		9	9 --	72	से	81	तक		
		10	10 --	82	से	92	तक		
		11	11 --	93	से	107	तक		
		12	12 अरन्या	1	से	13	तक		
		13	13 --	14	से	20	तक		
		14	14 --	21	से	26	तक		
		15	15 --	27	से	37	तक		
		16	16 --	34	से	44/2.	तक		
		17	17 --	45	से	57	अंततक		

## ग्राम पंचायत पीपलबे

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
3	पीपलबे	1	1 पीपलबे	1	से	13/3	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	14/1	से	18/3	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	19/1	से	28	तक	अ.ज.जा. महिला	1
		4	4 --	29	से	44	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	45	से	55/2	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	56	से	65	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	66	से	71	अंततक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 बंजारी	1	से	13	तक		
		9	9 --	14	से	24	तक		
		10	10 --	25	से	38	तक		
		11	11 --	39	से	53/5	अंततक		

## ग्राम पंचायत चन्द्रपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
4	चन्द्रपुरा	1	1 चन्द्रपुरा	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	21	अंततक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 गूजरखेडी	1	से	8	अंततक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 बीन्याखेडी	1	से	11/3	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	12	से	21	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 शिवपुरा	1	से	8/1	अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 बड़लावदा	1	से	9/2	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	10	से	19	अंततक		
		9	9 उम्मेदरपुरा	1	से	5/2	तक		
		10	10 --	6	से	12	अंततक		

## ग्राम पंचायत कटारियाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
5	कटारियाखेडी	1	1 कटारियाखेडी	1	से	11/2	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	12	से	31/2	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	32	से	40/2	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	41	से	52	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	53	से	65	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	66	से	83	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	84	से	96	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	97	से	103/1	तक		
		9	9 --	104	से	126	अंततक		
		10	10 नरसिंहपुरा	1/1	से	20	अंततक		

## ग्राम पंचायत मोया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
6	मोया	1	1 मोया	1 से	13/3.	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	14/1. से	25/1.	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	26 से	34	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	35 से	44	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	46 से	54	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	55 से	62/8.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	65 से	71	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	73 से	84	तक		
		9	9 --	85 से	97	तक		
		10	10 --	98 से	111	अंततक		
		11	11 चमारी	1 से	7	तक		
		12	12 --	8/1. से	25/1.	तक		
		13	13 --	26 से	33/6.	तक		
		14	14 --	34 से	40	तक		
		15	15 --	41 से	48	तक		
		16	16 --	49 से	66	अंततक		

## ग्राम पंचायत बरखेड़ा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
7	बरखेड़ा	1	1 बरखेड़ा	1 से	16/2.	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	16/3. से	20/2.	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	21/1. से	27/3.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	28/1. से	35	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	36 से	45	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	46/1. से	51/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	52 से	60	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	61/1. से	73	तक		
		9	9 --	74/1. से	83/4.	तक		
		10	10 --	84/1. से	95/4.	तक		
		11	11 --	96 से	101/4.	तक		
		12	12 --	102/1. से	104/2.	तक		
		13	13 --	105 से	116	तक		
		14	14 --	117/1. से	131	तक		
		15	15 --	132/1. से	149	तक		
		16	16 --	150 से	174	अंततक		



## ग्राम पंचायत लोदीपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
8	लोदीपुरा	1	1 लोदीपुरा	1	से	11/3	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	13	से	25	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	26	से	35	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	36/2	से	42	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	43	से	58	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	60	से	71	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	73	से	84	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	85	से	97	तक		
		9	9 --	98	से	111	अंततक		
		10	10 रायपुरिया	1	से	9/2	तक		
		11	11 --	10	से	14	तक		
		12	12 --	15	से	21	तक		
		13	13 --	22	से	32	अंततक		
		नरसिंहपुरा वीरान							

## ग्राम पंचायत झरखेड़ा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
9	झरखेड़ा	1	1 झरखेड़ा	1	से	10/6	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	18/2	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	19	से	31	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	32	से	40	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	41/1	से	52	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	54	से	58/2	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	59	से	71/2	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	72	से	81/2	तक		
		9	9 --	82/2	से	92	तक		
		10	10 --	93	से	108	तक		
		11	11 --	109	से	29	अंततक		
		12	12 कोड़ियाखेड़ी	1	से	9	तक		
		13	13 --	10	से	16	तक		
		14	14 --	17	से	24	तक		
		15	15 --	25/1	से	30	तक		
		16	16 --	31	से	43	अंततक		

## ग्राम पंचायत ढकोरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
10	ढकोरा	1	1 ढकोरा	1	से	11/1.	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	12	से	25	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	26	से	41	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	42	से	56	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	57	से	66	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	67	से	77	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	78	से	94	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	95	से	108	तक		
		9	9 --	111	से	122	तक		
		10	10 --	123	से	143	तक		
		11	11 --	144	से	149	तक		
		12	12 --	150	से	160	तक		
		13	13 --	161	से	171	तक		
		14	14 --	172	से	182	तक		
		15	15 --	183	से	190	तक		
		16	16 --	191	से	202	तक		
		17	17 --	203	से	212	तक		
		18	18 --	213	से	222	तक		
		19	19 --	223	से	252	अंततक		

## ग्राम पंचायत हबीपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
11	हबीपुरा	1	1 हबीपुरा	1	से	8/1.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9	से	18/1.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	19	से	30/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	31	से	45	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	46	से	62	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	63	से	73/3.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	74	से	79/2.	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	80	से	86/1.	तक		
		9	9 --	87	से	95/1.	तक		
		10	10 --	96	से	104/1.	तक		
		11	11 --	105	से	117	तक		
		12	12 --	118	से	129	तक		
		13	13 --	130	से	142	तक		
		14	14 --	143	से	160	अंततक		

## ग्राम पंचायत खूरी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
12	खूरी	1	1 खूरी	1	से	16	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	19	से	30/3.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	31	से	43/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	44	से	55/4.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	56	से	63	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	64/1.	से	80	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	82/2.	से	97	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	98	से	109/1.	तक		
		9	9 --	110/1.	से	121	तक		
		10	10 --	122	से	137	तक		
		11	11 --	138/	से	154	तक		
		12	12 --	155	से	179	तक		
		13	13 --	180	से	200	अंततक		
		14	14 मोहनीपुरा	1	से	12	तक		
		15	15 --	13	से	24/1.	तक		
		16	16 --	26	से	42	तक		
		17	17 --	43	से	56	तक		
		18	18 --	57	से	65	तक		
		19	19 --	66	से	87	तक		
		20	20 --	88	से	89	अंततक		
				8		129	अंततक		

## ग्राम पंचायत माल्याहेड़ी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
13	माल्याहेड़ी	1	1 माल्याहेड़ी	1	से	12	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	13	से	23	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	24	से	39	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	40	से	53	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	54	से	68	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	69	से	80/2.	अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 भड़क्या	1	से	8	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	9/1.	से	15	तक		
		9	9 --	16	से	22	तक		
		10	10 --	23	से	28/7.	तक		
		11	11 --	29	से	32/2.	तक		
		12	12 --	33	से	42	तक		
		13	13 अमानपुरा	1	से	8	तक		

## ग्राम पंचायत पडोनिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
14	पडोनिया	1	1 पडोनिया	1	से	13	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	14/1.	से	24	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	25	से	40	तक	अ.जा. महिला	1
		4	4 --	41	से	54	तक	अ.जा. मुक्त	0
		5	5 --	56	से	70	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	71	से	83	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	84	से	97	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	98	से	106	तक		
		9	9 --	107	से	113/3.	तक		
		10	10 --	114/1.	से	126	तक		
		11	11 --	127	से	142/1.	तक		
		12	12 --	143	से	158	तक		
		13	13 --	159	से	169/2.	तक		
		14	14 --	170	से	183	तक		
		15	15 --	184	से	200/4.	तक		
		16	16 --	201	से	216/4.	तक		
		17	17 --	217/1.	से	230/2.	तक		
		18	18 --	231/1.	से	245	तक		
		19	19 --	246	से	257	तक		
		20	20 --	258	से	262	अंततक		
			तलावडाउर्फ चम्पापुरा	9		26/1.	तक		

## ग्राम पंचायत बहादुरपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
15	बहादुरपुरा	1	1 बहादुरपुरा	1	से	5	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	6	से	12/2.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	13/1.	से	16/3.	तक	अ.जा. महिला	0
		4	4 --	17	से	25/4.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		5	5 --	26	से	35	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	36	से	42/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	43	से	48/2.	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	49	से	55/4.	तक		
		9	9 --	56	से	71/2.	तक		
		10	10 --	72	से	81	तक		
		11	11 --	82	से	95	तक		
		12	12 --	96	से	107	तक		
		13	13 --	108	से	113	तक		
		14	14 --	114	से	121	अंततक		
		15	15 मोतीपुरा	1	से	1/9.	तक		
		16	16 मोतीपुरा + बालापुरा	10	से	13/3	अंततक		
			सीडीघाट			वीरान			

## ग्राम पंचायत भूरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
16	भूरा	1	1 भूरा	2	से	17	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	32/3	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	33	से	46/3	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	47	से	55	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	56	से	65/4	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	66	से	75/4	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	74	से	88	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	89	से	99	अंततक		
		9	9 हाड़ाहेड़ी	1	से	10	तक		
		10	10 --	11	से	86	अंततक		
		11	11 लसूड़लियगूर्जर	1/1	से	9	तक		
		12	12 --	10	से	31/2	तक		
		13	13 --	32	से	44	तक		
		14	14 --	45	से	57	तक		
		15	15 --	58	से	68/2	तक		
		16	16 --	69	से	77/2	तक		
		17	17 --	78	से	86	तक		
		18	18 --	87	से	95	तक		
		19	19 --	96	से	105	तक		
		20	20 --	106	से	118	क अंततक		

## ग्राम पंचायत बरखेड़ी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
17	बरखेड़ी	1	1 बरखेड़ी	1	से	8	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9	से	18	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	19/1	से	28	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	29	से	36	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	37	से	43	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	44	से	52	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	53	से	57/1	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	58	से	68	अंततक		
		9	9 लाड़नपुर	1	से	8	अंततक		
		10	10 नालबंदी	1	से	13/3	तक		
		11	11 --	14	से	23/2	तक		
		12	12 --	24/1	से	30/2	तक		
		13	13 --	31	से	38	अंततक		

## ग्राम पंचायत कचनारिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
1	2	3		4		5	
18	कचनारिया	1	1 कचनारिया	1 से	22 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	23 से	36 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	37 से	56 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	57 से	74 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	75 से	89 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	90 से	107 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	108 से	126 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	127 से	142 तक		
		9	9 --	143 से	157 तक		
		10	10 --	158 से	172 तक		
		11	11 --	173 से	182 तक		
		12	12 --	183 से	195 तक		
		13	13 --	196 से	206 तक		
		14	14 --	207 से	217 तक		
		15	15 --	218 से	237 तक		
		16	16 --	238 से	253 तक		
		17	17 --	254 से	267 तक		
		18	18 --	268 से	289 तक		
		19	19 --	290 से	306 तक		
		20	20 --	307 से	323 अंततक		

## ग्राम पंचायत पीपलहेला

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
1	2	3		4		5	
19	पीपलहेला	1	1 पीपलहेला	1 से	13 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	14 से	25/2 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	26/1 से	37 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	38/1 से	46 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	47 से	53 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	54 से	67 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	68 से	80 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	81/1 से	95/3 तक		
		9	9 --	97 से	107 तक		
		10	10 --	108 से	119 तक		
		11	11 --	120 से	132 तक		
		12	12 --	133 से	136 तक		
		13	13 --	137 से	150/2 तक		
		14	14 --	151 से	158/2 तक		
		15	15 --	159 से	170 तक		
		16	16 --	171 से	183/3 तक		
		17	17 --	184 से	194 तक		
		18	18 --	197 से	209 तक		
		19	19 --	210 से	221/2 तक		
		20	20 --	222 से	236 अंततक		

## ग्राम पंचायत खजूरिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
20	खजूरिया	1	1 खजूरिया	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	13 से	19/4 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	20/1 से	28 तक	अ.जा. महिला	0
		4	4 --	30/1 से	35/4 तक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 --	36 से	45 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	46/1 से	56 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	57 से	67 तक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 --	68 से	77 तक		
		9	9 --	78 से	89 तक		
		10	10 --	90 से	100/2 तक		
		11	11 --	101 से	112 तक		
		12	12 --	114 से	124 तक		
		13	13 --	125 से	132/4 तक		
		14	14 --	133/1 से	140 तक		
		15	15 --	141 से	151/4 तक		
		16	16 --	153 से	158 तक		
		17	17 --	159 से	163/4 तक		
		18	18 --	164 से	172 तक		
		19	19 --	173 से	187 तक		
		20	20 --	188 से	208 अंततक		

## ग्राम पंचायत परसूलिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
21	परसूलिया	1	1 परसूलिया	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	13 से	29 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	30 से	42 तक	अ.जा.जा. महिला	0
		4	4 --	44 से	59 तक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 --	62 से	68 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	69 से	74 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	75 से	85 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	86 से	97 तक		
		9	9 --	99 से	108 तक		
		10	10 --	114 से	132 तक		
		11	11 --	133 से	142 तक		
		12	12 --	143 से	150 तक		
		13	13 --	151 से	164 तक		
		14	14 --	166 से	183 तक		
		15	15 --	184 से	205 तक		
		16	16 --	206 से	225 तक		

## ग्राम पंचायत शाहपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
22	शाहपुरा	1	1 शाहपुरा	1 से	11 तक	अ.जा. महिला	6
		2	2 --	12 से	21 तक	अ.जा. मुक्त	5
		3	3 --	22 से	32 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	35 से	42 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	43 से	53 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	0
		6	6 --	54 से	66 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	0
		7	7 --	67 से	73 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	74 से	82/1. तक		
		9	9 --	83 से	95 तक		
		10	10 --	97 से	107 तक		
		11	11 --	108 से	122 अंत तक		
		12	12 बरग्या	1 से	13 तक		
		13	13 --	14 से	25 तक		
		14	14 --	26 से	36 तक		
		15	15 --	39/1. से	50 तक		
		16	16 --	51 से	67 तक		
		17	17 --	69 से	82 तक		
		18	18 --	83 से	99 तक		
		19	19 --	100 से	114 तक		
		20	20 --	115 से	अंत तक		

## ग्राम पंचायत बालचिडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
23	बालचिडी	1	1 बालचिडी	1 से	9 तक	अ.जा. महिला	4
		2	2 --	10 से	16 तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	17 से	27 तक	अ.ज.जा. महिला	0
		4	4 --	28 से	33 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	34 से	42 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	43 से	48 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	49 से	54 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	55 से	59/2. तक		
		9	9 --	60 से	63/6. तक		
		10	10 --	65 से	74/5. अंत तक		
		11	11 सुन्दरहेडा	1 से	6/2. तक		
		12	12 --	7/1. से	12 तक		
		13	13 --	14 से	25 तक		
		14	14 --	26/1. से	31/3. तक		
		15	15 --	32 से	39 तक		
		16	16 --	41 से	46 अंत तक		
		17	17 जोगड़ियाखेडी	1 से	10 तक		
		18	18 --	11 से	19 अंत तक		



## ग्राम पंचायत मोरचाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
24	मोरचाखेडी	1	1 मोरचाखेडी	2 से	10/1.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11/1. से	23/2.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	24 से	31/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	32 से	40	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	41 से	58	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	59 से	69	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	70 से	78	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	79 से	92	तक		
		9	9 --	93 से	102	तक		
		10	10 --	103 से	119	तक		
		11	11 --	120 से		अंततक		
		12	12 कुशलपुरा	1 से	9/2.	तक		
		13	13 --	10 से	15/1.	तक		

## ग्राम पंचायत जरकडियाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
25	जरकडियाखेडी	1	1 जरकडियाखेडी	1 से	5	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	6 से	12	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	13/1. से	16/1.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	17 से	24	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	25 से	33	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	34 से	44	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	45 से	52/1.	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	53 से	60	तक		
		9	9 --	61 से	66/1.	तक		
		10	10 --	67 से		अंततक		
		11	11 आशापुरा	1 से	9	तक		
		12	12 --	10 से	16	अंततक		
		13	13 रूगनाथपुरा	1 से	10	तक		
		14	14 --	11 से	17	अंततक		

## ग्राम पंचायत रलायती

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
26	रलायती	1	1 रलायती	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	24	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	25	से	37	तक	अ.जा. महिला	0
		4	4 --	38	से	51	तक	अ.जा. मुक्त	0
		5	5 --	52	से		अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 राजपुरा	1	से	11	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	12	से	22/1	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	23	से	35	तक		
		9	9 --	36	से	43	अंततक		
		10	10 गैहूखेड़ी	1	से	8	तक		
		11	11 --	9	से	18	तक		
		12	12 --	19	से	26	तक		
		13	13 --	27	से		अंततक		

## ग्राम पंचायत भीलवाडिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
27	भीलवाडिया	1	1 भीलवाडिया	2	से	17/3	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	28	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	29	से	41	तक	अ.जा. महिला	1
		4	4 --	42	से	54	तक	अ.जा. मुक्त	0
		5	5 --	56	से	67	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	68	से	83	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	85	से	98	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	99	से	115/2	तक		
		9	9 --	116	से	130	तक		
		10	10 --	131	से	149	तक		
		11	11 --	150	से	174	तक		
		12	12 --	175	से	191	तक		
		13	13 --	192	से	203	तक		
		14	14 --	204	से	215	तक		
		15	15 --	216	से	228	तक		
		16	16 --	229	से	239	तक		
		17	17 --	241	से	253	तक		
		18	18 --	254	से	270	तक		
		19	19 --	271	से		अंततक		

## ग्राम पंचायत भाटखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
28	भाटखेडी	1	1 भाटखेडी	1	से	17	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	18	से	25/6.	तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	26	से	33/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	34/1.	से	39/2.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	40	से	50	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	51	से	64	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	65	से	72	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	73	से	81/7.	तक		
		9	9 --	82	से	86	तक		
		10	10 --	87	से	98/3.	अंततक		
		11	11 गूजरीबे	1	से	8	तक		
		12	12 --	9	से	17/3.	तक		
		13	13 --	18	से	23/2.	तक		
		14	14 --	24	से	34	तक		
		15	15 -- एवं शेरपुरा	35	से	42	अंततक		

## ग्राम पंचायत दुलतारिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
29	दुलतारिया	1	1 दुलतारिया	1	से	1	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	11	से	22	तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	23	से	38	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	39	से	57	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	58	से	71	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	72	से	87	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	88	से	104	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	105	से	117	तक		
		9	9 --	118	से	138	तक		
		10	10 --	139	से	144/3.	अंततक		
		11	11 दामड़िया	1	से	6/2.	तक		
		12	12 --	7	से	10	तक		
		13	13 --	11/1.	से	16/2.	तक		
		14	14 --	17	से	23/2.	तक		
		15	15 --	25	से	34	तक		
		16	16 --	35	से	70	अंततक		

## ग्राम पंचायत पुनरखेडी

राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एयत् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ दो में अंतिम ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं त अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंतिम अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
30	पुनरखेडी	1	1 पूनरखेडी	1 से	15 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	16 से	29 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	30 से	41 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	42 से	49 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	50 से	62 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	63 से	75 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	76 से	91 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	92 से	98 तक		
		9	9 --	99 से	105 तक		
		10	10 --	106 से	117 तक		
		11	11 --	118 से	127 तक		
		12	12 --	128 से	136 तक		
		13	13 --	137/1. से	146 तक		
		14	14 --	147/1. से	156 तक		
		15	15 --	158 से	अंततक		

## ग्राम पंचायत देवलखेड़ा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
31	देवलखेड़ा	1	1 देवलखेड़ा	3 से	14 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	15 से	24 तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	25 से	31 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	32 से	45 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	46 से	54 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	55 से	66 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	68 से	79 तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	80 से	93 तक		
		9	9 --	94 से	अंततक		
		10	10 नापल्याखेड़ी	3 से	7/2 तक		
		11	11 --	8 से	19 तक		
		12	12 --	20 से	23/4 तक		
		13	13 --	24 से	27 तक		
		14	14 --	29/1 से	34/4 तक		
		15	15 --	31 से	अंततक		

## ग्राम पंचायत तालोडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
32	तालोडी	1	1 तालोडी	1/1 से	7/2 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	8/1 से	14/3 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	15 से	22 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	23/1 से	30 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	30/1 से	35 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	36 से	44 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	45 से	50/2 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	51 से	63 तक		
		9	9 --	64/1 से	77/1 तक		
		10	10 --	78 से	102 तक		
		11	11 धुरला	1/1 से	9 तक		
		12	12 --	10 से	26 तक		
		13	13 --	28 से	42/2 तक		
		14	14 --	43 से	80 तक		
		15	15 सुवाहेड़ी	1 से	5/2 तक		
		16	16 --	6/1 से	3 तक		
		17	17 --	17/1 से	28 अंततक		

## ग्राम पंचायत पगारा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
33	पगारा	1	1 पगारा	1 से	7/2.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9 से	18/3.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	19 से	32/5.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	33 से	49	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	50 से	63	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	64/1. से	78	अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	79 से	90	अंत तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 पगारी	1 से	15	तक		
		9	9 --	18/1. से	26/4.	तक		
		10	10 --	27/1. से	32	तक		
		11	11 --	33 से	45	अंततक		
		12	12 नलखेड़ा	1 से	11	तक		
		13	13 --	12/1. से	19/3.	तक		
		14	14 --	20 से	30	तक		
		15	15 --	31/1. से	39	अंततक		

## ग्राम पंचायत लसूडलीमहाराजा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
34	लसूडलीमहाराजा	1	1 लसूडलीमहा0	1 से	10/2.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11 से	20/2.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	21 से	33	ग तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	34 से	42/2.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	41/1. से	48	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	51/1. से	64/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	65 से	73/2.	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	74/1. से	75/6.	तक		
		9	9 --	76 से	93	तक		
		10	10 --	94 से	101/5.	तक		
		11	11 --	102/2. से	106/5.	तक		
		12	12 --	107/1. से	110/1.	तक		
		13	13 --	111/1. से	115/4.	तक		
		14	14 --	116/1. से	118	अंततक		

## ग्राम पंचायत मुवालियादांगी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
35	मुवालियादांगी	1	1 मुवालियादांगी	1 से	9 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	10 से	19 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	20 से	26/5 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	28 से	34/4 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	35/1 से	72/2 अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 बागड़ियाखेड़ी	1 से	14 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	18 से	32/2 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	33 से	39 अंततक		
		9	9 अंगतपुर	1 से	6/3 तक		
		10	10 --	8/1 से	12/2 तक		
		11	11 --	14/1 से	20/1 अंततक		

## ग्राम पंचायत बारवा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
36	बारवा	1	1 बारवा	1 से	11 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	12 से	28/3 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	29 से	46/3 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	47 से	51/2 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	52 से	58/2 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	59/1 से	66 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	67/1 से	77/1 तक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 --	81 से	96 तक		
		9	9 --	97 से	107 तक		
		10	10 --	108 से	119/2 तक		
		11	11 --	120 से	131 तक		
		12	12 --	132 से	144/2 तक		
		13	13 --	145/1 से	157 तक		
		14	14 --	158/1 से	177 तक		
		15	15 --	178 से	195/2 तक		
		16	16 --	196/3 से	211 तक		
		17	17 --	212 से	227 तक		
		18	18 --	228 से	245 तक		
		19	19 --	246 से	269 तक		
		20	20 --	270/2 से	298 अंततक		

## ग्राम पंचायत बाईहेडा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) का संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
37	बाईहेडा	1	1 बाईहेडा	1 से	8 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9 से	14 तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	15 से	28/4 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	29 से	34/3 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	35 से	50 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	51 से	58/1 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	59 से	70 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	71 से	87 तक		
		9	9 --	88 से	98/1 तक		
		10	10 --	99 से	111 तक		
		11	11 --	112 से	122/2 तक		
		12	12 --	123 से	135 तक		
		13	13 --	136 से	147 तक		
			नवीनआवास कालोनी	90 से	98/1 तक		
14	14 नवीनआवास	99 से	147 अंततक				

## ग्राम पंचायत बागोरी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
38	बागोरी	1	1. बागोरी	1 से	19 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	20/1 से	29/3 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	30/1 से	36 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	37 से	46 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	47 से	58 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	59 से	72 अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 ढकोरी	1 से	3 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	4 से	9/2 तक		
		9	9 --	10/1 से	19 तक		
		10	10 सिलपटीभाई	1 से	10 तक		
		11	11 --	11 से	23 तक		
		12	12 --	24 से	33 तक		
		13	13 --	35 से	42/2 तक		
		14	14 --	43 से	अततक		



## ग्राम पंचायत अतरालिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
39	अतरालिया	1	1 अतरालिया	1/1.	से	5/6.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 -,,-	6	से	15	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 -,,-	16/1.	से	21	तक	अ.जा.जा महिला	0
		4	4 -,,-	23	से	35	तक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 -,,-	36/1.	से	86	ख अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 बाजपुरा	1	से	4/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 -,,-	5	से	8/4.	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 -,,-	10/1.	से	14	अंततक		
		9	9 खेरखेड़ी	2	से	5	ख तक		
		10	10 खाकरागंदी	1	से	12	अंततक		

## ग्राम पंचायत गिन्दोरमीना

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
40	गिन्दोरमीना	1	1 गिन्दोरमीना	1	से	10/2.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 -,,-	11	से	16	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 -,,-	17/1.	से	23/4.	तक	अ.जा.जा महिला	0
		4	4 -,,-	24	से	32	तक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 -,,-	33/1.	से	43	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 -,,-	44/2.	से	51	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 -,,-	52/1.	से	57	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 -,,-	57/2.	से	71	तक		
		9	9 -,,-	72	से	79	तक		
		10	10 -,,-	80/1.	से	89	तक		
		11	11 -,,-	90/1.	से	97/7.	तक		
		12	12 -,,-	98	से	108	तक		
		13	13 -,,-	109	से	129	अंततक		

## ग्राम पंचायत तलावडामहाराजा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
41	तलावडामहाराजा	1	1 तलावडामहा0	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	13 से	21/3 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	22 से	30 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	31 से	41 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	42 से	50 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	51 से	56/2 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	57/1 से	65 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	66 से	76 तक		
		9	9 --	77 से	83 तक		
		10	10 --	84 से	100 अंततक		
		11	11 पाडलीमहाराजा	1 से	7 तक		
		12	12 --	8 से	14 तक		
		13	13 --	15 से	23 तक		
		14	14 --	24 से	33 तक		
		15	15 --	34 से	43 तक		
		16	16 --	44/1 से	56 तक		
		17	17 --	57 से	64/2 तक		
		18	18 --	65/1 से	74 अंततक		

## ग्राम पंचायत बैलास

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
42	बैलास	1	1 बैलास	1 से	11 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	12 से	25/4 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	29 से	50 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	53 से	69/4 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	70 से	76/4 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	78 से	89 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	90 से	103 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	104/1 से	116 तक		
		9	9 --	117 से	128 तक		
		10	10 --	129 से	144 तक		
		11	11 --	145 से	161 तक		
		12	12 --	164 से	177 तक		
		13	13 --	178 से	200 तक		
		14	14 --	201 से	216 तक		
		15	15 --	217 से	229 अंततक		

## ग्राम पंचायत चाचाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
43	चाचाखेडी	1	1 चाचाखेडी	1 से	11 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	12/1 से	20 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	21/1 से	27/4 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	28 से	40 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	41 से	53 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	54 से	68 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	67 से	77/2 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	78 से	90 तक		
		9	9 --	91 से	102 अततक		
		10	10 लुहारी	1/1 से	10/3 तक		
		11	11 --	11/1 से	18/4 तक		
		12	12 --	20/1 से	27/2 तक		
		13	13 --	28/1 से	33/2 तक		
		14	14 --	34/1 से	49/1 तक		
		15	15 --	50 से	68 तक		
		16	16 --	69 से	78 अततक		

## ग्राम पंचायत मानकी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
44	मानकी	1	1 मानकी	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	13 से	24 तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	25/1 से	29 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	30/1 से	36/2 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	38 से	44 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	0
		6	6 --	46/1 से	55 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	3
		7	7 --	56 से	65 अततक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 भगोरा	1 से	11 तक		3
		9	9 --	12 से	20 तक		
		10	10 --	21 से	27/5 तक		
		11	11 --	28 से	36 तक		
		12	12 --	37 से	49 तक		
		13	13 --	50 से	65 तक		
		14	14 --	66 से	78 तक		
		15	15 --	79 से	90 तक		
		16	16 --	91 से	98 अततक		
		17	17 चाखाखेडी	1/1 से	3 तक		
		18	18 --	4/1 से	18 तक		
		19	19 --	20 से	34/2 तक		
		20	20 --	35/1 से	44/1 अततक		

## ग्राम पंचायत जामी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
45	जामी	1	1 जामी	2	से	15	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	16/1	से	26	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	27	से	37/2	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	38/1	से	49	क तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	51/1	से	56	ख तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	58/	ग से	67	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	69	से	76/4	तक	अनारक्षित महिला	1
		8	8 --	81/1	से	97/2	क तक		
		9	9 --	99	से	109/2	तक		
		10	10 --	113/1	से	117	ख तक		
		11	11 --	118/1	से	128/1	तक		
		12	12 --	132	से		अंततक		
		13	13 भोपालपुरा	1	से	10	तक		
		14	14 --	11	से	57/3	अंततक		

## ग्राम पंचायत जामोन्धा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
46	जामोन्धा	1	1 जामोन्धा	1	से	8/4	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9/1	से	15/3	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	16	से	32	तक	अ.ज.जा महिला	2
		4	4 --	33/1	से	42/2	तक	अ.ज.जा. मुक्त	2
		5	5 --	43/1	से	48	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	49	से	54/2	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	55	से	61	अंततक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	62	से	77	तक		
		9	9 --	78	से	93	अंततक		
		10	10 तवड़ियाकापुरा	2	से	4	अंततक		
		11	11 --	5	से	324/1	अंततक		
			शिकारगाह वीरान						
		12	12 जोतपुरा	1	से	10	अंततक		
		13	13 जेमलपुरा	1	से	21	अंततक		
		14	14 भाटपुरा	1	से	11/2	अंततक		
15	15 --	12	से	117/2	अंततक				

## ग्राम पंचायत मलावर

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
47	मलावर	1	1 मलावर	1/3	से	17/1	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	42	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	43	से	64	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	65	से	83	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	85	से	105	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	106	से	124	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	125	से	148	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	149	से	174	तक		
		9	9 --	175	से	199	तक		
		10	10 --	201	से	223/2	तक		
		11	11 --	224	से	256/2	तक		
		12	12 --	257	से	273/2	तक		
		13	13 --	275	से	304	तक		
		14	14 --	305	से	336/1	तक		
		15	15 --	337	से	361/3	तक		
		16	16 --	362	से	395	तक		
		17	17 --	396	से	688	अंततक		
		18	18 मलावरी	1/2	से	24	अंततक		
		19	19 खेड़ीकुशलपुरा	1	से	14	तक		
		20	20 --	15	से	34	अंततक		

## ग्राम पंचायत भगवतीपुर

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
48	भगवतीपुर	1	1 भगवतीपुर	2	से	11/2	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	12/1	से	19/1	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	20	से	32	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	33	से	42/3	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	43/1	से	53	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	54	से	64/2	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	65/1	से	74	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	75/1	से	87	तक		
		9	9 --	88/1	से	101	तक		
		10	10 --	102	से	115	ख अंततक		

## ग्राम पंचायत अरन्या

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
49	अरन्या	1	1 अरन्या	1 से	7/1.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --,-	8/1 से	13	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --,-	16/1. से	20	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --,-	23/1. से	34	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --,-	35 से	47/4.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --,-	48/1. से	50/4.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --,-	51 से	54	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --,-	55 से	66	तक		
		9	9 खेजड़ामीना	1 से	14	तक		
		10	10 --,-	15/3. से	23/2.	तक		
		11	11 --,-	24/1. से	52	तक		
		12	12 बूढाखेड़ा	1 से	8	तक		
		13	13 --,-	9 से	21	तक		
		14	14 --,-	22 से	29/3.	तक		
		15	15 --,-	30 से	38	अंततक		

## ग्राम पंचायत मोतीपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
50	मोतीपुरा	1	1 मोतीपुरा	1 से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --,-	11 रो	19/2.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --,-	20 से	31	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --,-	32 से	43	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --,-	45 से	54	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --,-	55 से	68/4.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --,-	68/5. से	81	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --,-	82 से	95	तक		
		9	9 --,-	96 से	111	तक		
		10	10 --,-	112 से	121/2.	अंततक		
		11	11 खरेटिया कला	1/1. से	5/1.	तक		
		12	12 --,-	5/2. से	19	अंततक		
		13	13 खरेटियाखुर्द	1/1. से	2	तक		
		14	14 --,-	3 से	12	तक		
		15	15 --,-	13 से	20	तक		
		16	16 --,-	21 से	27	अंततक		

## ग्राम पंचायत आमल्याहाट

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
51	आमल्याहाट	1	1 आमल्याहाट	1	से	20	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	21/1.	से	30/3.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	37/2.	से	42	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	44	से	51/2.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	52	से	61/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	62	से	73/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	74	से	83	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	84/1.	से	94/1.	तक		
		9	9 --	96	से	105	तक		
		10	10 --	106	से	122	अतक		
		11	11 बापचा	2/1.	से	8	तक		
		12	12 --	9	से	18/3.	तक		
		13	13 --	19	से	34	अतक		

## ग्राम पंचायत आगर

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
52	आगर	1	1 आगर	1	से	17	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	29	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	30	से	44	तक	अ.ज.जा महिला	5
		4	4 --	45	से	64	तक	अ.ज.जा. मुक्त	4
		5	5 --	65	से	82	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	0
		6	6 --	83	से	94	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	0
		7	7 --	95	से	109	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	110	से	124	तक		
		9	9 --	125	से	137	तक		
		10	10 --	138	से	153	तक		
		11	11 --	154	से	174	तक		
		12	12 --	175	से	187	तक		
		13	13 --	188	से	201	तक		
		14	14 --	202	से	213	तक		
		15	15 --	214	से	226	तक		
		16	16 --	227	से	239	तक		
		17	17 --	240	से	251	तक		
		18	18 --	252	से	265	क अतक		
		19	19 आगरी	1	से	17	तक		
		20	20 --	18	से	34	अतक		

## ग्राम पंचायत चूकल्या

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
53	चूकल्या	1	1 चूकल्या	1	से	5/2	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	6	से	14	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	15	से	23	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	24	से	36	अंततक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 सागपुर	1	से	16	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	18	से	26	अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 गुजारी	1	से	8	अंततक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	9	से	19	अंततक		
		9	9 खजूरखाड़ी	2	से	8	तक		
		10	10 --	9	से	19	अंततक		

## ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
54	सुन्दरपुरा	1	1 सुन्दरपुरा	1	से	15/5	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	22	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	23	से	33/1	तक	अ.ज.जा महिला	2
		4	4 --	34	से	51	तक	अ.ज.जा. मुक्त	1
		5	5 --	52	से	61/3	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	62	से	70/9	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	71/1	से	81/3	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	82	से	92	तक		
		9	9 --	93	से	99/1	तक		
		10	10 --	100/1	से	117	तक		
		11	11 --	118	से	132	अंततक		
		12	12 ढण्ड	1	से	14/3	तक		
		13	13 --	15	से	24	तक		
		14	14 --	25/1	से	38	तक		
		15	15 -- एवं बागरीपुरा	39/1	से	51	अंततक		
		बागरीपुरा	1	से		अंततक			



## ग्राम पंचायत कुण्डीखेडा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
55	कुण्डीखेडा	1	1 कुण्डीखेडा	2	से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	19/2	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	20/1	से	27/2	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	28/1	से	36	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	37	से	46/3	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	47/1	से	53	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	54/1	से	62/2	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	63/1	से	128	तक		
		9	9 लोदीपुरा	1/1	से	15	तक		
		10	10 --	18	से	30	तक		
		11	11 --	31	से	40/3	तक		
		12	12 --	41	से	51/5	तक		
		13	13 --	52	से	62	तक		
		14	14 --	63	से	77	तक		
		15	15 --	78	से	86	अंततक		

## ग्राम पंचायत आमडोर

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
56	आमडोर	1	1 आमडोर	1	से	8/1	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9	से	24	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	25	से		अंततक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 तूमडिया	1	से	8	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	9	से	16	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 दुआखेडी	1	से	6	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	7	से	14	तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	15	से	19	तक		
		9	9 --	20	से	30	अंततक		
		10	10 करौंदिया	1	से	9	अंततक		

## ग्राम पंचायत भंवास

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
57	भंवास	1	1 भवास	1 से	7 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	8 से	14 तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	15 से	21 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	22 से	29 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	31 से	42 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	43 से	52 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	53 से	58 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	59 से	62 तक		
		9	9 --	63 से	69 तक		
		10	10 --	70 से	75 तक		
		11	11 --	76 से	85 तक		
		12	12 --	86 से	97 तक		
		13	13 --	98 से	105 तक		
		14	14 --	107 से	113 अततक		
			एवं नईबस्ती	11 से	111 अंततक		

## ग्राम पंचायत लखनास

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
58	लखनवास	1	1 लखनवास	4/1. से	19/2. तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	19/3. से	30 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	31 से	39 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	40 से	55 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	56 से	61 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	62 से	77 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	78/1. से	96 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	97 से	111 तक		
		9	9 --	112 से	128 तक		
		10	10 --	129 से	143 तक		
		11	11 --	143 से	152 तक		
		12	12 --	153 से	167 तक		
		13	13 --	168 से	183 तक		
		14	14 --	184 से	207 तक		
		15	15 --	208 से	225 तक		
		16	16 --	226 से	244 तक		
		17	17 --	245 से	267 तक		
		18	18 --	269 से	284 तक		
		19	19 --	285 से	301 तक		
		20	20 --	302 से	568 अततक		

## ग्राम पंचायत तरेना

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
59	तरेना	1	1 तरेना	1	से	15/3.	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	16	से	25/1.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	26	से	39	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	40	से	56	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	57	से	65/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	66	से	77	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	78/1.	से	92	अंततक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 तरेनी	1	से	15	तक		
		9	9 --	16	से	25/7.	तक		
		10	10 --	27	से	42	तक		
		11	11 --	43/1.	से	54	तक		
		12	12 --	55	से	66	तक		
		13	13 --	67	से	77/2.	तक		
		14	14 --	78	से	99/4.	तक		
		15	15 --	100/1.	से	113	क अंततक		

## ग्राम पंचायत सीलखेडा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
60	सीलखेडा	1	1 सीलखेडा	1	से	8	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	9	ख	15	ख तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	16	से	24	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	26	से	36	ख तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	38	से	45	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	46	से	53	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	54	से	69	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	70	क	78	ख तक		
		9	9 --	79	से	83	घ तक		
		10	10 --	84	घ	93	क तक		
		11	11 --	102	से	104	तक		
		12	12 --	105	से	116	क तक		
		13	13 --	117	से	122	तक		
		14	14 --	131	से	131	तक		
		15	15 --	136	क	143	तक		
		16	16 --	144	से	156	तक		
		17	17 --	157	से	167/2.	तक		
		18	18 --	168	से	178	तक		
		19	19 --	179	से	414	क अंततक		

## ग्राम पंचायत पाडलीगुसाई

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
61	पाडलीगुसाई	1	1 पाडलीगुसाई	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	11	से	23	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	24	से	29	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	30	से	40	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	42	से	50	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	51	से	63	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	64	से	76	अंततक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 कानरखेडी	4	से	17	तक		
		9	9 --	19	से	22	तक		
		10	10 --	24	से	32	तक		
		11	11 --	33	से	38	तक		
		12	12 --	43	से	55	तक		
		13	13 --	56	से	63	अंततक		
		14	14 शेखनपुर	1	से	11	तक		
		15	15 --	12	से	21	अंततक		

## ग्राम पंचायत बगवाज

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
62	बगवाज	1	1 बगवाज	1	से	9	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	10	से	17	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	22	से	23	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	24	से	32	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	33	से	41	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	42	से	47	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	48	से	56	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	57	से	71	तक		
		9	9 --	72	से	83	तक		
		10	10 --	84	से	86	अंततक		
		11	11 पाडलीठाकुर	1	से	8	तक		
		12	12 --	9	से	18	अंततक		
		13	13 धूपचिडी	1	से	8	तक		
		14	14 --	9	से	16	तक		
		15	15 --	17	से	30	अंततक		

## ग्राम पंचायत बेरियाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
63	बेरियाखेडी	1	1 बेरियाखेडी	1 से	7 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	8 से	16 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	17 से	27 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	28 से	37 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	38 से	46 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	47 से	54 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	55 से	60 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	61 से	69 तक		
		9	9 --	71 से	81 तक		
		10	10 --	82 से	89 अंततक		
		11	11 महाराजखेड़ा	1 से	8 तक		
		12	12 --	9 से	20 तक		
		13	13 --	21 से	30 तक		
		14	14 --	31 से	41 तक		
		15	15 --	43 से	53 तक		
		16	16 --	54 से	63 तक		
		17	17 --	64 से	96 अंततक		
		18	18 लसूडलियामीना	1 से	10 तक		
		19	19 --	11 से	24 अंततक		

## ग्राम पंचायत गांगाहोनी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
64	गांगाहोनी	1	1 गांगाहोनी	2 से	16 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	17 से	32 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	33 से	48/2. तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	50 से	60/2. तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	61 से	69 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	70 से	84/2. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	85 से	97 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	98 से	106/3. तक		
		9	9 --	107 से	115 तक		
		10	10 --	116 से	131 तक		
		11	11 --	132/1. से	136/3. तक		
		12	12 --	137 से	151 तक		
		13	13 --	152/1. से	165 तक		
		14	14 --	166 से	181 तक		
		15	15 --	182 से	191/4. तक		
		16	16 --	192 से	204 तक		
		17	17 --	205 से	215/2. तक		
		18	18 --	216/1. से	231 तक		
		19	19 --	239 से	247/2. तक		
		20	20 --	248 से	327 अंततक		

## ग्राम पंचायत उमरेड

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
65	उमरेड	1	1 उमरेड	1	से 13 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	14	से 27 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	28	से 41 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	42	से 54 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	55	से 60 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	61	से 70 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	71	से 82 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	83	से 90 तक		
		9	9 --	91	से 101 तक		
		10	10 --	102	से 112 तक		
		11	11 --	113	से 124 तक		
		12	12 --	125	से 135 तक		
		13	13 --	136	से 150 तक		
		14	14 --	151	से 159 तक		

## ग्राम पंचायत खेजडामहाराजा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
66	खेजडामहाराजा	1	1 खेजडामहाराजा	1	से 16 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	17	से 22 तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	23	से 29 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	30/1.	से 33/4. तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	34	से 38/1. तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	39 ग	से 46/1. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	47	से 54 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	55	से 86 अंततक		
			एवं नई आबादी	4	से 27 तक		
		9	9 --	28	से 36/1. अंततक		
		10	10 जाटियाखेड़ी	1	से 9 तक		
		11	11 --	15	से 27 तक		
12	12 --	28	से 187 अंततक				

## ग्राम पंचायत हांसरोद

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
67	हांसरोद	1	1 हांसरोद	1	से	14/2.	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	15	से	25	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	26	से	34	तक	अ.जा.जा महिला	1
		4	4 --	35	से	45/1.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	46	से	55	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	56	से	69	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	70	से	81	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	82	से	93	क तक		
		9	9 --	94	से	109	तक		
		10	10 --	110	से	118	तक		
		11	11 --	119	से	130	तक		
		12	12 --	131	से	141/1.	तक		
		13	13 --	142	से	98	तक		
		14	14 --	106	से	158/1.	तक		
		15	15 --	158/2.	से	162/2.	तक		
		16	16 --	166	से	174	तक		
		17	17 --	176	से	188	तक		
		18	18 --	189/1.	से	291	अंततक		

## ग्राम पंचायत सलेहपुर

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
68	सलेहपुर	1	1 सलेहपुर	1	से	11	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	12/1.	से	17/2.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	18/1.	से	23	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	24	से	31	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	32	से	44	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	45	से	53	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	54	से	57	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	58	से	62	तक		
		9	9 --	63	से	66	तक		
		10	10 --	67	से	72	तक		
		11	11 --	73	से	76	तक		
		12	12 --	77	से	85	अंततक		
		13	13 शांशीरपुरा	1	से	19	तक		
		14	14 --	20	से	30/2.	तक		
		15	15 --	31	से	50	तक		
		16	16 --	51	से	63	अंततक		

### ग्राम पंचायत सालरियाखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
69	सालरियाखेडी	1	1 सालरियाखेडी	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11/1.	से	16	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	17/1.	से	24/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	25	से	30/1.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	31/1.	से	65	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	36	से	44/1.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	45	से	52	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	53	से	64/2.	तक		
		9	9 --	65	से	96/2.	अंततक		
		10	10 मोरिखो	1	से	6	तक		
		11	11 --	7	से	15	तक		
		12	12 --	16	से	26	तक		
		13	13 --	27	से	33	तक		
		14	14 --	34	से	38	अंततक		

### ग्राम पंचायत कोलूखेडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
70	कोलूखेडी	1	1 कोलूखेडी	2/1.	से	8/3.	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	9	से	17/4.	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	18/1.	से	29	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	30	से	38	तक	अ.ज.जा. मुक्त	1
		5	5 --	39	से	47/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	48	से	62	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	63	से	76	अंततक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 तुलसीपुरा	1	से	11/1.	तक		
		9	9 --	12	से	18	अंततक		
		10	10 सड़िया	1	से	16	तक		
		11	11 --	17	से	28	तक		
		12	12 --	29	से	41	तक		
		13	13 --	42	से	53/2.	अंततक		



## ग्राम पंचायत नरी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
71	नरी	1	1 नरी	1	से	16	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	18	से	30/3.	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	31	से	41	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	42	से	53	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	54	से	64	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	65	से	73/4.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	74	से	81/2.	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	82	से	94	तक		
		9	9 --	95	से	104/2.	तक		
		10	10 --	105	से	113	अंततक		
		11	11 हरीपुरा	1	से	15/3.	तक		
		12	12 --	16	से	35	कअंततक		
		13	13 परधानीकुण्डल	1	से	13	तक		
		14	14 --	14	से	26	तक		
		15	15 --	27	से	41	तक		
		16	16 --	42	से	57	तक		
		17	17 --	58	से	70	अंततक		

## ग्राम पंचायत मोडबडली

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
72	मोडबडली	1	1 मोठबडली	1	से	9/2.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	10	से	16	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	17	से	24	तक	अ.ज.जा महिला	2
		4	4 --	25/1.	से	34	तक	अ.ज.जा. मुक्त	1
		5	5 --	35	से	43/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	44	से	55/2.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	56	से	154	अंततक	अनारक्षित महिला	2
		.....	शिकारगाइ वीरान	-----	.....	-----	.....		
		8	8 चौकी	1	से	18	तक		
		9	9 --	19	से	36	ग तक		
		10	10 नारबे	1	से	10	तक		
		11	11 --	11	से	17	तक		
		12	12 --	18	से	28	तक		
13	13 --	29	से	36	ग तक				

## ग्राम पंचायत गोलाखेड़ा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
73	गोलाखेड़ा	1	1 गोलाखेड़ा	1/1. से	7 तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	8 से	16/4. तक	अ.जा. मुक्त	1	
		3	3 --	17/1. से	24 तक	अ.ज.जा महिला	1	
		4	4 --	25/1. से	30 तक	अ.ज.जा. मुक्त	1	
		5	5 --	31 से	45 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3	
		6	6 --	46 से	54 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2	
		7	7 --, मोहम्मदपुर	55 से	75 एवं 1से अंततक	अनारक्षित महिला	5	
		8	8 देहरीखेड़ा	1 से	11 तक			
		9	9 --	12/1. से	19 तक			
		10	10 --	20 से	29 तक			
		11	11 --	30 से	40 तक			
		12	12 झिरी	1 से	21 तक			
		13	13 --	22 से	37 तक			
		14	14 झिरी एवं कुन्दनपुर	38 से 1/1.	59 अंततक 7 अंततक			
		15	15 सामरखो	1 से	15 अंततक			
		16	16 नालाझिरी	1 से	9 तक			
		17	17 --	11 से	24 तक			
		18	18 --	25 से	361 तक			
		19	19 --	37 से	47 तक			
		20	20 --	48 से	111 अंततक			

## ग्राम पंचायत गोरधनपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
74	गोरधनपुरा	1	1 गोरधनपुरा	1 से	13 तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	14 से	27 तक	अ.जा. मुक्त	0	
		3	3 --	28 से	39 तक	अ.ज.जा महिला	1	
		4	4 --	40 से	90 ड अंततक	अ.ज.जा. मुक्त	1	
		5	5 बोरदा	1 से	15 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2	
		6	6 --	16 से	25 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2	
		7	7 --	27 से	36 तक	अनारक्षित महिला	4	
		8	8 --	37 से	50 तक			
		9	9 --	51 से	67 तक			
		10	10 --	68 से	79 तक			
		11	11 --	80 से	90 ग अंततक			
		12	12 दलापुरा	1 से	10/2. तक			
		13	13 --	12 से	17/3. तक			
		14	14 --	18 से	30/5. तक			
		15	15 --	31/1. से	79 अंततक			

## ग्राम पंचायत गिन्दौरहाट

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
75	गिन्दौरहाट	1	1 गिन्दौरहाट	1	से	16	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	17	से	36	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	37	से	45	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	46	से	56	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	57	से	69	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	70	से	90	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	91/1.	से	102	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	103	से	118	क तक		
		9	9 --	120	से	135	ख तक		
		10	10 --	136	से	150/2.	तक		
		11	11 --	151	से	168	तक		
		12	12 --	159/1.	से	173	तक		
		13	13 --	174	से	191	तक		
		14	14 --	193	से	205	तक		
		15	15 --	208	से	220	तक		
		16	16 --	221	से	250	तक		
		17	17 --	252	से	292	तक		
		18	18 --	292	से	321	तक		
		19	19 --	322	से	349	तक		
		20	20 --	350	से	372	कअततक		

## ग्राम पंचायत निवानिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
76	निवानिया	1	1 निवानिया	1	से	13	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	14	से	26	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	27/1.	से	41/2.	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	42/1.	से	48/3.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	1
		5	5 --	49/1.	से	59/3.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	60/1.	से	68/4.	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	69	से	80/3.	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	82	से	90/2.	तक		
		9	9 --	95	से	96	तक		
		10	10 --	97	से	113	तक		
		11	11 --	115	से	133/2.	तक		
		12	12 --	134	से	145	तक		
		13	13 --	148	से	159	अततक		
		14	14 तलेनी	2/2.	से	10	तक		
		15	15 -- भाटपुरा वीरान	13/1.	से	24.	अततक		
		16	16 सेमली	1	से	11	तक		
		17	17 --	12	से	20	अततक		

## ग्राम पंचायत तलावली

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
77	तलावली	1	1 तलावली	1 से	65 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	66 से	131 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	132 से	196 तक	अ.जा.जा महिला	1
		4	4 --	197 से	262 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	263 से	326 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	327 से	392 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	393 से	460 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	461 से	524 तक		
		9	9 --	525 से	अततक		
		10	10 दुगापुरा	1 से	अततक		
		11	11 खरेटिया	1 से	11 तक		
		12	12 --	12 से	24 तक		
		13	13 --	25 से	39 तक		
		14	14 --	40 से	47 तक		
		15	15 --	48 से	57 तक		
		16	16 --	58 से	68 तक		
		17	17 --	69 से	79 तक		
		18	18 --	82 से	86 अततक		

## ग्राम पंचायत जेपला

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
78	जेपला	1	1 जैपला	1 से	9 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	10 से	15 तक	अ.जा. मुक्त	3
		3	3 --	16 से	25 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	26 से	36 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	37 से	48 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	49 से	65 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	66 से	73 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --	74 से	85 अततक		
		9	9 जेपली	1 से	11 तक		
		10	10 --	12 से	23 तक		
		11	11 --	25 से	32/1. तक		
		12	12 --	33/1. से	104 अततक		
		13	13 धानियाखेड़ी	1 से	13 तक		
		14	14 --	14 से	23 तक		
		15	15 --	24 से	29 तक		
		16	16 --	30 से	40 तक		
		17	17 --	41 से	47 अततक		

## ग्राम पंचायत कांसोरकला

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर			आराक्षित वार्ड (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	
79	कांसोरकला	1	1 कांसोरकला	1 से	11 तक	अ.जा. महिला	4
		2	2 -,-	13 से	27/2 तक	अ.जा. मुक्त	4
		3	3 -,-	28 से	44 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 -,-	49 से	60/2 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 -,-	61 से	68 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 -,-	70/1 से	80/2 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 -,-	82 से	94 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 -,-	96 से	107 तक		
		9	9 -,-	108 से	119 तक		
		10	10 -,-	120 से	अंततक		
		11	11 डोबड़ा	1 से	12 तक		
		12	12 -,-	13 से	25/3 तक		
		13	13 -,-	26/1 से	37/2 तक		
		14	14 -,-	38 से	43/1 तक		
		15	15 -,-	44 से	50 तक		
		16	16 -,-	51 से	57 तक		
		17	17 -,-	59 से	67 तक		
		18	18 -,-	69 से	76 तक		
		19	19 -,-	77 से	अंततक		
				महुआखेड़ा वीरान			

## ग्राम पंचायत भाटपुरासोध्या

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्ड (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	
80	भाटपुरासोध्या	1	1 भाटपुरासोध्या	1 से	10 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 -,-	11 से	23 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 -,-	24 से	30 अंततक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 चंदेरी	1 से	7/1 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 -,-	8 से	19 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 -,-	20 से	30 अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 कांसोरखुर्द	1 से	12 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 -,-	13 से	24/2 तक		
		9	9 -,-	25 से	39/2 तक		
		10	10 -,-	40 से	49/7 तक		
		11	11 -,-	50 से	66 तक		
		12	12 -,-	67 से	129 अंततक		
		13	13 चौतरा	1/1 से	9 तक		
		14	14 -,-	10/1 से	16 अंततक		
		15	15 कालाकोट	1 से	7 अंततक		

## ग्राम पंचायत टोंका

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
81	टोंका	1	1 टोंका	1 से	15 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 -,,-	16 से	31 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 -,,-	32 से	48 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 -,,-	49 से	60/3 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 -,,-	61 से	72 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 -,,-	73 से	87/2 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 -,,-	88 से	101 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 -,,-	102 से	114 तक		
		9	9 -,,-	115 से	128 तक		
		10	10 -,,-	129 से	144 अंततक		
		11	11 सारस्याबे	1 से	9 तक		
		12	12 -,,-	10 से	22 तक		
		13	13 -,,-	23 से	29 अंततक		
		14	14 सारस्याबे	30 से	36 अंततक		
	ताजपुरा	1 से	2 अंततक				

## ग्राम पंचायत नारियाबे

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
82	नारियाबे	1	1 नारियाबे	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 -,,-	13/1 से	23 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 -,,-	24 से	39 तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 -,,-	48 से	53 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 -,,-	54 से	65 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 -,,-	66 से	72 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 -,,-	73 से	81/1 तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 -,,-	82 से	89/2 तक		
		9	9 -,,-	90/1 से	98 क अंततक		
		10	10 मोई	1 से	19/2 तक		
		11	11 -,,-	20/1 से	24/2 तक		
		12	12 -,,-	26 से	38/1 तक		
		13	13 -,,-	39 से	52 तक		
		14	14 -,,-	53/1 से	63/2 तक		
		15	15 -,,-	64/1 से	76 तक		
		16	16 -,,-	80 से	89 तक		
		17	17 -,,-	90 से	103 तक		
		18	18 -,,-	104 से	118/1 तक		
		19	19 -,,-	119 से	अंततक		

## ग्राम पंचायत आमलपुरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
83	आमलपुरा	1	1 आमलपुरा	1 से	8/1 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	9 से	16 तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	17 से	25 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	26 से	36 अंततक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 जगन्यापुरा	2 से	11 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	12 से	20 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	22 से	50 अंततक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 पालाबे	1 से	10 तक		
		9	9 --	12 से	26 अंततक		
		10	10 बांकपुरा	1 से	11 तक		
		11	11 --	12 से	19 तक		
		12	12 --	20 से	28 तक		
		13	13 --	29 से	36 अंततक		

## ग्राम पंचायत बिसोन्या

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
84	बिसोन्या	1	1 बिसोन्या	1 से	3/3 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	4 से	11/1 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	12 से	18 तक	अ.ज.जा महिला	3
		4	4 --	19 से	24/1 तक	अ.ज.जा. मुक्त	3
		5	5 --	25 से	30 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	31 से	35/2 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	36 से	48/1 तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	49 से	53/4 तक		
		9	9 --	54 से	59 तक		
		10	10 --	60 से	67 तक		
		11	11 --	68 से	78 तक		
		12	12 --	79 से	90 तक		
		13	13 --	91 से	95 तक		
		14	14 --	96 से	100 तक		
		15	15 --	101 से	103 तक		
		16	16 --	104 से	113 तक		
		17	17 --	114 से	123 तक		
		18	18 --	124 से	135 तक		
		19	19 --	136 से	143 तक		
		20	20 --	144 से	155 अंततक		

## ग्राम पंचायत नेटाठारी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
85	नेटाठारी	1	1 नेटाठारी	1/1. से	9 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --,--	10 से	21 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --,--	22 से	35 तक	अ.जा.जा महिला	0
		4	4 --,--	36 से	49 अंततक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 सिलपटीबरवाल	5/1. से	11 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --,--	12 से	21/2. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --,--	22 से	34 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --,--	37 से	48/2. तक		
		9	9 --,--	50 से	59/2. तक		
		10	10 --,--	60/1. से	64/4. तक		
		11	11 --,--	65/1. से	76/3. अंततक		
		12	12 सिंगापुर	1 से	8/2. तक		
		13	13 --,--	9 से	16 तक		
		14	14 --,--	17 से	27 तक		
		15	15 --,--	28 से	50 अंततक		

## ग्राम पंचायत तरेना

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
86	तरेना	1	1 तरेना	1 से	12 तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --,--	13/1 से	20 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --,--	21 से	33/1 तक	अ.जा.जा महिला	0
		4	4 --,--	34/1 से	40 अंत तक	अ.जा.जा. मुक्त	0
		5	5 हयातपुरा	1 से	11 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --,--	12 से	19 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --,--	20 से	26 तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 --,--	27 से	32 तक		
		9	9 --,--	33 से	2/2. अंततक		
		10	10 समेली	1 से	11 तक		
		11	11 --,-- गुलजारपुरा वीरान	12 से	20 अंततक		
		12	12 कानडियाखेड़ी	1 से	8/3. अंततक		
		13	13 --,--	9 से	18 तक		
		14	14 --,--	19 से	27 अंततक		
		15	15 भूकनी	1 से	7 तक		
		16	16 --,--	8 से	18 तक		
		17	17 --,--	19 से	29 तक		
		18	18 --,--	30 से	38 अंततक		



## ग्राम पंचायत अमरगढ़

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के भकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
87	अमरगढ़	1	1 अमरगढ़	1	से	17	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	19	से	33	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	34	से	46	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	48	से	49	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	60	से	72	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 खडिया	1	से	11	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	12	से	22	तक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 --	23	से	28	अंततक		
		9	राजपुर वीरान	ohjku					
		10	10 कडियागुर्जर	1	से	6	तक		
		11	11 --	7	से	14	अंततक		
		12	12 कालीकराड़	1	से	10	अंततक		
		13	13 रतनपुरिया	1	से	7	अंततक		
		14	14 --	8	से	14	अंततक		
		15	15 बरखेड़ी	1	से	14	तक		
		16	16 --	15	से	23	तक		
		17	17 --	24	से	28	तक		
		18	18 --	29	से	35	अंततक		
		19	19 लालपुरिया	1	से	7	अंततक		

## ग्राम पंचायत नापानेरा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के भकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
88	नापानेरा	1	1 नापानेरा	1	से	13	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	14	से	26	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	27	से	40/3.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	43	से	50	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	51	से	65	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	66	से	83	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	84	से	95	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	97	से	107	तक		
		9	9 --	108	से	118	तक		
		10	10 --	119	से	140	तक		
		11	11 --	141	से	149	ग तक		
		12	12 --	150	से	159	तक		
		13	13 --	160	से	174	ख अंततक		
		14	14 तालाबपुरा	1	से	11	तक		
		15	15 --	12	से	20	अंततक		

## ग्राम पंचायत पनाली

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
89	पनाली	1	1 पनाली	1 से	12/2.	तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	13 से	23	तक	अ.जा. मुक्त	0	
		3	3 --	24 से	41	तक	अ.ज.जा. महिला	0	
		4	4 --	42 से	48	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0	
		5	5 --	49 से	59/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2	
		6	6 --	60/1.	से	69	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	70 से	80/2.	अंततक	अनारक्षित महिला	4	
		8	8 केशरियाबेह	1 से	6	तक			
		9	9 --	7 से	11	तक			
		10	10 --	12 से	18	अंततक			
		11	11 बख्तावरपुरा	1 से	10	तक			
		12	12 --	11 से	17	अंततक			
		13	13 माधोपुरा	1 से	3	तक			
		14	14 --	4 से	9	अंततक			

## ग्राम पंचायत नेवली

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
90	नेवली	1	1 नेवली	1 से	9/5.	तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	10/1.	से	16/3.	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	17/1.	से	20/2.	तक	अ.ज.जा. महिला	1
		4	4 --	21/1.	से	36	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	37 से	45	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2	
		6	6 --	46 से	69	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2	
		7	7 --	70 से	81	तक	अनारक्षित महिला	5	
		8	8 --	82/1.	से	93	तक		
		9	9 --	94 से	106/1.	अंततक			
		10	10 नेवज	1 से	10	तक			
		11	11 --	11/1.	से	15	तक		
		12	12 --	16 से	33	तक			
		13	13 --	34 से	41	तक			
		14	14 --	45/1.	से	56	तक		
		15	15 --	57/1.	से	65/4.	तक		
		16	16 --	66 से	73	अंततक			
		17	17 कोदियापुरा	1 से	4/2.	अंततक			
		18	18 नारायणपुरा	4 से	7	अंततक			

## ग्राम पंचायत बांसखो

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
91	बांसखो	1	1 बांसखो	1/1. से	8 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --,--	9/1. से	15 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --,--	16 से	21 तक	अ.ज.जा महिला	5
		4	4 --,--	22 से	31 तक	अ.ज.जा. मुक्त	4
		5	5 --,--	32 से	38 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	0
		6	6 --,--	39 से	47 अंततक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	0
		7	7 ढण्ड	1 से	11/2. तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --,--	12 से	21 तक		
		9	9 --,--	22 से	28 ख अंततक		
		10	10 खूचनी	1 से	13 तक		
		11	11 --,--	14 से	26 तक		
		12	12 --,--	27 से	34/3. तक		
		13	13 --,--	35 से	47 अंततक		
		14	14 अमानपुरा	1 से	15 अंततक		
		15	15 अमृतपुरा	1 से	8 अंततक		
		16	16 नहारगढ़	1 से	21 अंततक		

## ग्राम पंचायत कानेड

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
92	कानेड	1	1 कानेड	1 से	7 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --,--	8/1. से	18/1. तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --,--	20 से	32/2. तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --,--	33/1. से	46 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --,--	48 से	69 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --,--	70/1. से	77/4. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --,--	78/1. से	84/2. तक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 --,--	85/1. से	97 तक		
		9	9 --,--	98/1. से	105 तक		
		10	10 --,--	106 से	277/4. अंततक		
		11	11 रेलाई	1 से	16 तक		
		12	12 --,--	17 से	39 तक		
		13	13 --,--	40 से	55 तक		
		14	14 --,--	56 से	65 अंततक		
		15	15 पीपल्यापेड़ात	1 से	8 तक		
		16	16 --,--	9 से	16 तक		
		17	17 --,--	17 से	34 तक		
		18	18 --,--	35 से	47 तक		
		19	19 --,--	48 से	62 अंततक		

## ग्राम पंचायत रायपुरिया

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक.		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
93	रायपुरिया	1	1 रायपुरिया	1	से	15	ग तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	16	से	25	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	26	क	31	थ तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	32	से	42	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	43	से	72	क तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	74	से	86	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	87	से	94	ड तक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	96	से	105	तक		
		9	9 --	106	से	114	तक		
		10	10 --	115	से	137	अंततक		
		11	11 पाटनपुर	1	से	16	अंततक		

## ग्राम पंचायत खनोटा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
94	खनोटा	1	1 खनोटा	1	से	12	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	13	से	29	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	30/1.	से	40/6.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	41	से	52/3.	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	53	से	66/2.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	67	से	79	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	80	से	92	तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	93	से	100	तक		
		9	9 --	101/1.	से	110/4.	तक		
		10	10 --	111	से	117	तक		
		11	11 --	118	से	123	तक		
		12	12 --	129	से	140	तक		
		13	13 --	143	से	155	तक		
		14	14 --	156	से	170	तक		
		15	15 --	171	से	176	तक		
		16	16 --	177	से	190	तक		
		17	17 --	191	से	193	तक		
		18	18 --	199	से	211	अंततक		
		19	19 देवापुरा	1	से	10	तक		
		20	20 --	12	से	20	अंततक		



## ग्राम पंचायत टोडी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
97	टोडी	1	1 टोडी	1	से 17/2 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	19	से 34 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	35/1.	से 54 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	55	से 72 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	73/1.	से 85/1. तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	86	से 102 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	103	से 114 तक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 --	116/3.	से 134/2. तक		
		9	9 --	135	से 160/2. तक		
		10	10 --	161	से 181 तक		
		11	11 --	179	से 206 तक		
		12	12 --	208	से 226 तक		
		13	13 --	227	से 252 तक		
		14	14 --	253	से 275 तक		
		15	15 --	276/1.	से 299 तक		
		16	16 --	300	से 317 तक		
		17	17 --	318/1.	से 333 तक		
		18	18 --	334/1.	से 355 तक		
		19	19 --	356	से 375 तक		
		20	20 --	376	से 401 अंततक		

## ग्राम पंचायत निवारा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
98	निवारा	1	1 निवारा	1	से 11 तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	12	से 19 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	20	से 25 तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	27	से 34 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	35/1.	से 45 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 --	46	से 54 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	55	से 66 अंततक	अनारक्षित महिला	6
		8	8 बेराड़	1	से 15 तक		
		9	9 --	16	से 26 तक		
		10	10 --	27	से 38 तक		
		11	11 --	40	से 49 तक		
		12	12 --	50	से 62 तक		
		13	13 --	63	से 75 अंततक		
		14	14 गूजरखेड़ीकला	1/1.	से 4 तक		
		15	15 --	5	से 12/2. तक		
		16	16 --	13/1.	से 17/3. तक		
		17	17 --	18	से 22 अंततक		
		18	18 खूजरखेड़ीकला	24	से 31 अंततक		
			एवं गूजरखेड़ी खुर्द	1	से अंततक		

## ग्राम पंचायत कडियाहाट

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
99	कडियाहाट	1	1 कडियाहाट	1 से	15 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	16 से	27 तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	28 से	38 तक	अ.ज.जा. महिला	0
		4	4 --	39 से	50 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	51 से	63 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	64/1. से	69/2. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	71/1. से	72/3. तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	73 से	82/2. तक		
		9	9 --	83 से	96/3. तक		
		10	10 --	97 से	104 तक		
		11	11 --	105 से	111 तक		
		12	12 --	112 से	127 अंततक		
		13	13 नांदनपुर	1 से	10 तक		
		14	14 --	11 से	21 तक		
		15	15 --	22 से	31 तक		
		16	16 --	32 से	41 तक		
		17	17 --	42 से	58 तक		
		18	18 --	59 से	67 तक		
		19	19 --	68 से	77 तक		
		20	20 --	78 से	90 अंततक		

## ग्राम पंचायत सेमलापार

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर		आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4		5	
100	सेमलापार	1	1 सेमलापार	2 से	14 तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	15 से	25 तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	26 से	38 तक	अ.ज.जा. महिला	0
		4	4 --	39 से	51 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	52 से	61 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	3
		6	6 --	62 से	73 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	74 से	92 तक	अनारक्षित महिला	5
		8	8 --	93/1. से	103 अंततक		
		9	9 काकरियगूर्जर	1 से	11 तक		
		10	10 --	12 से	19/2. तक		
		11	11 --	20 से	28/2. तक		
		12	12 --	29 से	37 तक		
		13	13 --	38 से	47 तक		
		14	14 --	48 से	53 तक		
		15	15 --	54 से	60 तक		
		16	16 --	61 से	67/2. तक		
		17	17 --	68 से	110 अंततक		
		18	18 हूडा	1 से	17 तक		
		19	19 --	18 से	30/2. तक		
		20	20 --	31 से	101 अंततक		

### ग्राम पंचायत जामोन्याघाटा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
101	जामोन्याघाटा	1	1 जामोन्याघाटा	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	11/1	से	20/2	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	21	से	28	अंततक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 नयापुरा	1	से	14	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	15	से	28	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 खांकरासबला	1	से	6/3	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	7	से	11	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	12	से	25	तक		
		9	9 --	26	से	34	तक		
		10	10 --	35	से	40/3	अंततक		

### ग्राम पंचायत खाकरातेजा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
102	खांकरातेजा	1	1 खांकरातेजा	1	से	9	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	10	से	20/3	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	21	से	25/2	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	26	से	32/4	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	34	से	73/3	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 कमल्यखेड़ी	1/1	से	17	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	18/1	से	26	अंततक	अनारक्षित महिला	3
		8	8 अमरपुरा	1/1	से	10	तक		
		9	9 --	11	से	16	अंततक		
		10	10 हिंगोना	1	से	6/2	अंततक		



## ग्राम पंचायत बोरदा

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
103	बोरदा	1	1 बोरदा	1	से	18	तक	अ.जा. महिला	3
		2	2 --	19/1.	से	28	तक	अ.जा. मुक्त	2
		3	3 --	29/1.	से	35/2.	तक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 --	36	से	46	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	47	से	55 एवं 104 ख	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 कांदियाखेड़ी	1	से	9	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	2
		7	7 --	11	से	80	तक	अनारक्षित महिला	4
		8	8 भीलखेड़ी	1/1.	से	8/2.	तक		
		9	9 --	9/1.	से	15	तक		
		10	10 --	16	से	26	तक		
		11	11 --	27	से	41	तक		
		12	12 देवखेड़ी	1	से	5	तक		
		13	13 --	6	से	11/2.	तक		
		14	14 --	12/1.	से	20	तक		
		15	15 --	21	से	38.	तक		
		16	16 --	39	से	48	तक		
		17	17 -- गोकलपुरा	50	से	58	अंततक अंततक		

## ग्राम पंचायत बरखेड़ी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
104	बरखेड़ी	1	1 बरखेड़ी	1/1.	से	10/2.	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	19	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	20	से	29	अंततक	अ.ज.जा महिला	0
		4	4 बमूल्या	1	से	8	तक	अ.ज.जा मुक्त	0
		5	5 --	9/1.	से	12/1.	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	13	से	23	ग अंत	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 अमृतपुरा	1/1.	से	8/2.	अंत	अनारक्षित महिला	3
		8	8 --	10	से	16	ख अंततक		
		9	9 रामपुरिया	1	से	7	अंत		
		10	10 सुखझर	1	से	11	अंत		

## ग्राम पंचायत किशनगढ़

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
105	किशनगढ़	1	1 किशनगढ़	1	से	10	तक	अ.जा. महिला	1
		2	2 --	11	से	26	तक	अ.जा. मुक्त	0
		3	3 --	27	से	34	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 सड़ली	1	से	8	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	9	से	21	अंततक	अन्य पि.वर्ग महिला	2
		6	6 मुवालिया	1	से	10	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 नालियाखेड़ी	4	से	11	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	12	से	25	तक		
		9	9 --	26	से	35	तक		
		10	10 --	36	से	39	तक		
		11	11 --	40	से	63	ख अंततक		

## ग्राम पंचायत बेड़ाबे

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
106	बेड़ाबे	1	1 बेड़ाबे	1	से	7	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	8	से	13	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	14	से	19/2	तक	अ.ज.जा महिला	1
		4	4 --	20	से	26	तक	अ.ज.जा. मुक्त	0
		5	5 --	27	से	31	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	32	से	38	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	39	से	46	तक	अनारक्षित महिला	1
		8	8 --	47	से	56	तक		
		9	9 --	57	से	69	अंततक		
		10	10 हरनाथपुरा	1	से	42	अंततक		

## ग्राम पंचायत पीपल्याखेड़ी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
107	पीपल्याखेड़ी	1	1 पीपल्याखेड़ी	1/1. से	10 तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	11 से	23/2. तक	अ.जा. मुक्त	0	
		3	3 --	24 से	34 तक	अ.ज.जा महिला	2	
		4	4 --	33 से	45 तक	अ.ज.जा. मुक्त	2	
		5	5 --	46 से	57 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2	
		6	6 --	58 से	70/2. तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1	
		7	7 --	71 से	85 तक	अनारक्षित महिला	1	
		8	8 --	86/1. से	98 अंततक			
		9	9 बाल्यापुरा	1/1. से	13 तक			
		10	10 --	14/1. से	26 तक			
		11	11 --	27 से	38/2. तक			
		12	12 --	39/1. से	50 अंततक			

## ग्राम पंचायत पारसाना

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4			5	
108	पारसाना	1	1 पारसाना	1 से	7/2. तक	अ.जा. महिला	1	
		2	2 --	9 से	19/1. तक	अ.जा. मुक्त	1	
		3	3 --	22 से	27/3. तक	अ.ज.जा महिला	1	
		4	4 --	28 से	35 तक	अ.ज.जा. मुक्त	0	
		5	5 --	37 से	44 तक	अन्य पि.वर्ग महिला	2	
		6	6 --	45 से	53 तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1	
		7	7 --	54 से	61 अंततक	अनारक्षित महिला	2	
		8	8 भगवानपुरा	1 से	11 तक			
		9	9 --	12 से	18 तक			
		10	10 --	19 से	28 तक			
		11	11 लालपुरिया	1 से	8 तक			
		12	12 --	9 से	14 अंततक			

### ग्राम पंचायत पातलापानी

अनुक्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक		सीमा गांव के मकान नम्बर			आरक्षित वार्डों (ग्राम पंचायत) की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3		4			5		
109	पातलापानी	1	1 पातलापानी	1	से	9	तक	अ.जा. महिला	2
		2	2 --	10	से	18/6	तक	अ.जा. मुक्त	1
		3	3 --	19	से	28/3	तक	अ.जा. महिला	0
		4	4 --	29	से	38/2	तक	अ.जा. मुक्त	0
		5	5 --	39	से	44/4	तक	अन्य पि.वर्ग महिला	1
		6	6 --	45	से	57/4	तक	अन्य पि. वर्ग मुक्त	1
		7	7 --	58/1	से	65/3	तक	अनारक्षित महिला	2
		8	8 --	66	से	73	तक		
		9	9 --	74	से	78/3	तक		
		10	10 --	79	से	86	अंततक		

### ग्राम पंचायत धियाखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
1	धियाखेड़ी	1	धियाखेड़ी	1 से 15/2	अ0जा0	1
1		2	धियाखेड़ी	16/2 से 23	अ0ज0जा0	-
1		3	धियाखेड़ी	24 से 41	अन्य पिछडा वर्ग	2
1		4	दौलतपुरा	1 से 10	महिला अ0जा0	1
1		5	दौलतपुरा	11/1 से 17	महिला अ0ज0जा0	-
1		6	दौलतपुरा	18से 26/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
1		7	दौलतपुरा	27/1 से 31/2	महिला सामान्य	3
1		8	दौलतपुरा	32/1 से 44		
1		9	दौलतपुरा	45/1 से 52		
1		10	बुखारी	1 से 9/2		
1		11	बुखारी	10 से 17/1		
1		12	बुखारी	17/2 से 23		

## ग्राम पंचायत भैसाना

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
2	भैसाना	1	भैसाना	6 से 20/2	अ0जा0	2
2		2	भैसाना	21 से 33/2	अ0ज0जा0	-
2		3	भैसाना	35 से 47/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
2		4	भैसाना	47/3 से 60	महिला अ0जा0	2
2		5	भैसाना	61 से 72/1	महिला अ0ज0जा0	-
2		6	भैसाना	72/2 से 89	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
2		7	भैसाना	91 से 107/1	महिला सामान्य	5
2		8	भैसाना	107/3 से 133/1		
2		9	भैसाना	133/2 से 147		
2		10	भैसाना	148 से 164		
2		11	भैसाना	165 से 179/1		
2		12	भैसाना	179/2 से 192		
2		13	भैसाना	194 से 209/1		
2		14	भैसाना	209/2 से 218		
2		15	भैसाना	219 से 231		
2		16	भैसाना	235 से 253		
2		17	भैसाना	254 से 266		
2		18	भैसाना	268 से 294		
2		19	भैसाना	295 से 317/1		
2		20	भैसाना	318 से 328		

## ग्राम पंचायत ताजपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
3	ताजपुरा	1	ताजपुरा	1/1 से 5	अ0जा0	2
3		2	ताजपुरा	6 से 12/2	अ0ज0जा0	-
3		3	ताजपुरा	13/1 से 21/2	अन्य पिछडा वर्ग	1
3		4	ताजपुरा	22/1 से 29	महिला अ0जा0	2
3		5	ताजपुरा	30 से 38	महिला अ0ज0जा0	-
3		6	ताजपुरा	39 से 57/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
3		7	ताजपुरा	58 से 60/2	महिला सामान्य	2
3		8	ताजपुरा	61 से 75		
3		9	किशोरपुरा	1 से 15		
3		10	किशोरपुरा	17 से 31		
3		11	किशोरपुरा	33 से 40/2		
3		12	किशोरपुरा	41 से 52/2		

### ग्राम पंचायत नून्याहेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
4	नून्याहेड़ी	1	नून्याहेड़ी	3/क से 9/ख	अ0जा0	1
4		2	नून्याहेड़ी	11/क से 18	अ0ज0जा0	-
4		3	नून्याहेड़ी	19 से 25ड	अन्य पिछडा वर्ग	2
4		4	नून्याहेड़ी	26 से 42	महिला अ0जा0	1
4		5	नून्याहेड़ी	43 से 54 ख	महिला अ0ज0जा0	-
4		6	नून्याहेड़ी	55 से 67	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
4		7	नून्याहेड़ी	69/क से 78	महिला सामान्य	5
4		8	नून्याहेड़ी	79/क से 87		
4		9	नून्याहेड़ी	88 से 96		
4		10	नून्याहेड़ी	97 से 105		
4		11	मूडलानारायण	1 से 18		
4		12	मूडलानारायण	19 से 25		
4		13	मूडलानारायण	26 से 36		
4		14	मूडलानारायण	41 से 57		
4		15	मूडलानारायण	61 से 87		

### ग्राम पंचायत कुराड़ियाखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
5	कुराड़ियाखेड़ी	1	कुराड़ियाखेड़ी	1 से 10	अ0जा0	2
5		2	कुराड़ियाखेड़ी	12 से 26	अ0ज0जा0	-
5		3	कुराड़ियाखेड़ी	28 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
5		4	कुराड़ियाखेड़ी	41 से 49	महिला अ0जा0	1
5		5	कुराड़ियाखेड़ी	50 से 68	महिला अ0ज0जा0	-
5		6	कुराड़ियाखेड़ी	69 से 81	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
5		7	कुराड़ियाखेड़ी	82 से 553	महिला सामान्य	4
5		8	जोगीपुरा	1 से 9		
5		9	जोगीपुरा	10 से 23		
5		10	जोगीपुरा	24 से 34		
5		11	जोगीपुरा	35 से 48		
5		12	जोगीपुरा	49 से 60		
5		13	जोगीपुरा	61 क से 75		
5		14	जोगीपुरा	76 क से 89		

## ग्राम पंचायत हरलाय

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
6	हरलाय	1	हरलाय	1से 9	अ०जा०	1
6		2	हरलाय	10क से 19	अ०ज०जा०	1
6		3	हरलाय	20 से 27ख	अन्य पिछडा वर्ग	2
6		4	हरलाय	28 से 44क	महिला अ०जा०	2
6		5	हरलाय	44ख से 56	महिला अ०ज०जा०	-
6		6	हरलाय	57से 70	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
6		7	हरलाय	71क से 88ग	महिला सामान्य	3
6		8	हरलाय	90क से 100		
6		9	भैसानी	2 से 14		
6		10	भैसानी	15क से 34		
6		11	भैसानी	35क से 55ड		
6		12	भैसानी	56 से 82		

## ग्राम पंचायत मंडावर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
7	मंडावर	1	मंडावर	3क से 25/1	अ०जा०	1
7		2	मंडावर	26 से 40	अ०ज०जा०	-
7		3	मंडावर	41 से 56	अन्य पिछडा वर्ग	3
7		4	मंडावर	57 से 71	महिला अ०जा०	2
7		5	मंडावर	73 से 93/2	महिला अ०ज०जा०	1
7		6	मंडावर	94/1 से 119	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7		7	मंडावर	120 से 145/1	महिला सामान्य	6
7		8	मंडावर	146 से 177/4		
7		9	मंडावर	178/202/2		
7		10	मंडावर	207 से 228		
7		11	मंडावर	229 से 247/2		
7		12	मंडावर	249 से 280		
7		13	मंडावर	285 से 315/2		
7		14	मंडावर	316/1 से 344		
7		15	मंडावर	345/1 से 380		
7		16	मंडावर	381 से 418/2		
7		17	मंडावर	419 से 460		
7		18	मंडावर	461 से 513/2		
7		19	मंडावर	514 से 570		
7		20	मंडावर	571 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत उदपुरिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
8	उदपुरिया	1	उदपुरिया	3/1 से 9	अ०जा०	2
8		2	उदपुरिया	10 से 18	अ०ज०जा०	-
8		3	उदपुरिया	19 से 25	अन्य पिछडा वर्ग	2
8		4	उदपुरिया	29 से 41/1	महिला अ०जा०	2
8		5	उदपुरिया	43 से 51	महिला अ०ज०जा०	-
8		6	उदपुरिया	52 से 103	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		7	रणजीतपुरा	1 से 13	महिला सामान्य	5
8		8	रणजीतपुरा	14 से 23		
8		9	रणजीतपुरा	24 से 37		
8		10	रणजीतपुरा	38 से 52		
8		11	रणजीतपुरा	53 से 73		
8		12	गाडरियाखेड़ी	2 से 15		
8		13	गाडरियाखेड़ी	16/1 से 22		
8		14	गाडरियाखेड़ी	23/1 से 40		
8		15	गाडरियाखेड़ी	41 से 56/1		
8		16	गाडरियाखेड़ी	57 से 62/5		
8		17	गाडरियाखेड़ी	64 से 78		

### ग्राम पंचायत रनावा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
9	रनावा	1	रनावा	6 से 24	अ०जा०	-
9		2	रनावा	30 से 42	अ०ज०जा०	-
9		3	रनावा	43 से 61	अन्य पिछडा वर्ग	2
9		4	रनावा	62 से 84	महिला अ०जा०	1
9		5	रनावा	85/1 से 99	महिला अ०ज०जा०	-
9		6	रनावा	101 से 110	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
9		7	रनावा	111/1 से 128/2	महिला सामान्य	4
9		8	रनावा	130 से 144		
9		9	रनावा	146 से 161		
9		10	रनावा	163 से 176		
9		11	रनावा	177 से 192		



### ग्राम पंचायत कांकरवाल

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
10	कांकरवाल	1	कांकरवाल	2 से 15/3	अ०जा०	1
10		2	कांकरवाल	16 से 28/4	अ०ज०जा०	1
10		3	कांकरवाल	29 से 36	अन्य पिछडा वर्ग	2
10		4	कांकरवाल	37 से 54	महिला अ०जा०	2
10		5	कांकरवाल	55 से 68	महिला अ०ज०जा०	2
10		6	कांकरवाल	69 से 87	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
10		7	कांकरवाल	88/1 से 198	महिला सामान्य	3
10		8	होशियारखेड़ी	1 से 17		
10		9	होशियारखेड़ी	18 से 110		
10		10	भगोर	10 से 26		
10		11	भगोर	27/1 से 34		
10		12	भीलखेड़ी	1 से 17		
10		13	भीलखेड़ी	18 से 30		
10		14	भीलखेड़ी	31 से 40		
10		15	भीलखेड़ी	41 से 52		
10		16	भीलखेड़ी	55 से 66		

### ग्राम पंचायत बेरसिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
11	बेरसिया	1	बेरसिया	1 से 8/2	अ०जा०	1
11		2	बेरसिया	9/1 से 13/2	अ०ज०जा०	-
11		3	बेरसिया	14 से 26/2	अन्य पिछडा वर्ग	3
11		4	बेरसिया	27 से 47/2	महिला अ०जा०	2
11		5	बेरसिया	47/3 से 70	महिला अ०ज०जा०	-
11		6	बेरसिया	71 से 87/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
11		7	बेरसिया	90 से 105/1	महिला सामान्य	6
11		8	बेरसिया	105/1 से 119/1		
11		9	बेरसिया	119/2 से 147		
11		10	बेरसिया	150 से 177		
11		11	बेरसिया	178 से 187/1		
11		12	बेरसिया	187/3 से 212/1		
11		13	बेरसिया	213/1 से 231/2		
11		14	बेरसिया	232/1 से 248		
11		15	बेरसिया	252 से 265/3		
11		16	बेरसिया	267/2 से 279/1		
11		17	बेरसिया	281 से 303/21		
11		18	बेरसिया	305 से 337/2		
11		19	बेरसिया	338 से 371/2		
11		20	बेरसिया	371/5 से 396/2		

### ग्राम पंचायत चांदबड़

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
12	चांदबड़	1	चांदबड़	1 से 4	अ०जा०	1
12		2	चांदबड़	5 से 11	अ०ज०जा०	-
12		3	करणपुरा	1/1 से 7	अन्य पिछडा वर्ग	1
12		4	करणपुरा	8 से 16	महिला अ०जा०	1
12		5	किल्ला	1 से 9	महिला अ०ज०जा०	-
12		6	किल्ला	11 से 24	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
12		7	अम्बापुरा	1 से 10/2	महिला सामान्य	3
12		8	पीपल्याधाकड़	1 से 15/5		
12		9	पीपल्याधाकड़	16 से 24/2		
12		10	पीपल्याधाकड़	25 से 34		
12		11	पीपल्याधाकड़	35 से 48		
12		12	पीपल्याधाकड़	49/1 से 226		

### ग्राम पंचायत खानपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
13	खानपुरा	1	खानपुरा	1 से 14/3	अ०जा०	1
13		2	खानपुरा	15 से 27/4	अ०ज०जा०	1
13		3	खानपुरा	28 से 38	अन्य पिछडा वर्ग	3
13		4	खानपुरा	39 से 49	महिला अ०जा०	1
13		5	खानपुरा	50/1 से 62/5	महिला अ०ज०जा०	2
13		6	खानपुरा	63 से 73	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
13		7	खानपुरा	74 से 84	महिला सामान्य	5
13		8	खानपुरा	85 से 94/3		
13		9	खानपुरा	96/2 से 107		
13		10	खानपुरा	108 से 115/3		
13		11	खानपुरा	116/1 से 127/2		
13		12	खानपुरा	128 से 142		
13		13	खानपुरा	143 से 154ड		
13		14	खानपुरा	155/1 से 218/2		
13		15	मोई	1/1 से 8		
13		16	मोई	9 से 16		
13		17	मोई	17/1 से 21		
13		18	मोई	22/1 से 29/2		
13		19	मोई	30 से 48		
13		20	मोई	51/1 से 66		

## ग्राम पंचायत पलासी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
14	पलासी	1	पलासी	2 से 21	अ०जा०	2
14		2	पलासी	24 से 42	अ०ज०जा०	-
14		3	पलासी	44/1 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
14		4	पलासी	56/1 से 58/5	महिला अ०जा०	2
14		5	पलासी	59 से 70	महिला अ०ज०जा०	-
14		6	बंजारी	1 से 21	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
14		7	भोजपुरिया	1 से 6/2	महिला सामान्य	5
14		8	भोजपुरिया	7 से 14		
14		9	भोजपुरिया	15/2 से 21		
14		10	भोजपुरिया	22 से 26/3		
14		11	भोजपुरिया	27/1 से 35/2		
14		12	भोजपुरिया	36 से 42/2		
14		13	भोजपुरिया	43 से 49		
14		14	भोजपुरिया	50/1 से 58/3		
14		15	भोजपुरिया	60/1 से 68/1		
14		16	भोजपुरिया	69 से 72/1		
14		17	कालियादेह	1/1 से 13/2		
14		18	कालियादेह	14 से 36/3		
14		19	कालियादेह	37/1 से 41/3		

## ग्राम पंचायत सोनकच्छ

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
15	सोनकच्छ	1	सोनकच्छ	3/1 से 14/3	अ०जा०	1
15		2	सोनकच्छ	14/4 से 22/1	अ०ज०जा०	-
15		3	सोनकच्छ	22/2 से 34/2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
15		4	सोनकच्छ	35 से 49/3	महिला अ०जा०	1
15		5	सोनकच्छ	50 से 58/4	महिला अ०ज०जा०	-
15		6	सोनकच्छ	58/5 से 63	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
15		7	सोनकच्छ	64/1 से 72/1	महिला सामान्य	5
15		8	सोनकच्छ	72/2 से 85		
15		9	सोनकच्छ	86/1 से 99		
15		10	सोनकच्छ	100/2 से 118		
15		11	सोनकच्छ	119 से 138/4		
15		12	सोनकच्छ	138/5 से 157		
15		13	सोनकच्छ	158 से 172/2		
15		14	सोनकच्छ	175 से 182		
15		15	सोनकच्छ	183 से 191/2		
15		16	सोनकच्छ	192 से 198		
15		17	सोनकच्छ	199 से 208		
15		18	सोनकच्छ	209 से 221		

## ग्राम पंचायत पाड़ल्याबना

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
16	पाड़ल्याबना	1	पाड़ल्याबना	1 से 12 क	अ0जा0	1
16		2	पाड़ल्याबना	13 से 19	अ0ज0जा0	-
16		3	पाड़ल्याबना	20 से 26घ	अन्य पिछडा वर्ग	1
16		4	पाड़ल्याबना	27 से 37	महिला अ0जा0	1
16		5	पाड़ल्याबना	37 से 54	महिला अ0ज0जा0	1
16		6	पाड़ल्याबना	54 से 63	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
16		7	पाड़ल्याबना	65 से 72	महिला सामान्य	3
16		8	कड़ियामित्रसेन	0 से 9		
16		9	कड़ियामित्रसेन	10 से 22		
16		10	कड़ियामित्रसेन	23 से 35		
16		11	कड़ियामित्रसेन	36 से 47/2		
16		12	कड़ियामित्रसेन	48/2 से 58		
16		13	कड़ियामित्रसेन	60 से 66		

## ग्राम पंचायत आंदलहेड़ा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
17	आंदलहेड़ा	1	आंदलहेड़ा	1 से 14	अ0जा0	2
17		2	आंदलहेड़ा	15 से 36	अ0ज0जा0	-
17		3	आंदलहेड़ा	37 से 50/1	अन्य पिछडा वर्ग	3
17		4	आंदलहेड़ा	51/1 से 64	महिला अ0जा0	2
17		5	आंदलहेड़ा	65 से 71	महिला अ0ज0जा0	-
17		6	आंदलहेड़ा	72 से 74/6	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
17		7	आंदलहेड़ा	74/7 से 85	महिला सामान्य	6
17		8	आंदलहेड़ा	86 से 101/1		
17		9	आंदलहेड़ा	103 से 115		
17		10	आंदलहेड़ा	116 से 130		
17		11	आंदलहेड़ा	133/1 से 148		
17		12	आंदलहेड़ा	149 से 163		
17		13	आंदलहेड़ा	164 से 178		
17		14	आंदलहेड़ा	179 से 188		
17		15	आंदलहेड़ा	189 से 204		
17		16	आंदलहेड़ा	205/2 से 219		
17		17	आंदलहेड़ा	222 से 237		
17		18	अचलपुरा	1/1 से 9		
17		19	अचलपुरा	10/1 से 20/1		
17		20	अचलपुरा	20/2 से 27		

## ग्राम पंचायत पीपल्याबाग

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
18	पीपल्याबाग	1	पीपल्याबाग	3 से 12	अ०जा०	1
18		2	पीपल्याबाग	12 से 25	अ०जा०जा०	-
18		3	पीपल्याबाग	26 से 33	अन्य पिछडा वर्ग	1
18		4	पीपल्याबाग	34 से 44	महिला अ०जा०	1
18		5	पीपल्याबाग	46 से 64	महिला अ०जा०जा०	-
18		6	पीपल्याबाग	65 से 72घ	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
18		7	पीपल्याबाग	72घ से 90	महिला सामान्य	4
18		8	कोलूखेड़ी	1 से 17		
18		9	कोलूखेड़ी	19 से 27 ग		
18		10	कोलूखेड़ी	29 से 42		
18		11	कोलूखेड़ी	44 से 63		
18		12	कोलूखेड़ी	64 से 76		
18		13	कोलूखेड़ी	77 से 89		

## ग्राम पंचायत कड़ियाचन्द्रावत

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
19	कड़ियाचन्द्रावत	1	कड़ियाचन्द्रावत	4 से 20	अ०जा०	2
19		2	कड़ियाचन्द्रावत	21 से 33	अ०जा०जा०	-
19		3	कड़ियाचन्द्रावत	34 से 42	अन्य पिछडा वर्ग	2
19		4	कड़ियाचन्द्रावत	45 से 55/1	महिला अ०जा०	2
19		5	कड़ियाचन्द्रावत	55/2 से 60	महिला अ०जा०जा०	-
19		6	नरसिंहपुरा	1 से 16	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
19		7	नरसिंहपुरा	17 से 36/4	महिला सामान्य	3
19		8	सागपुरा	1 से 8		
19		9	सागपुरा	9 से 18		
19		10	सागपुरा	19 से 47/2		
19		11	धामधोर	2 से 13		
19		12	धामधोर	14/1 से 22		
19		13	धामधोर	24/1 से 37/1		
19		14	धामधोर	37/2 से 43/2		

### ग्राम पंचायत चैनपुराकलॉ

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
20	चैनपुराकलॉ	1	चैनपुराकलॉ	2 से 15/2	अ०जा०	2
20		2	चैनपुराकलॉ	15/4 से 22/2	अ०ज०जा०	-
20		3	चैनपुराकलॉ	25 से 38	अन्य पिछडा वर्ग	2
20		4	चैनपुराकलॉ	39 से 45	महिला अ०जा०	2
20		5	पालजागीर	1 से 7	महिला अ०ज०जा०	-
20		6	पालजागीर	8 से 14/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
20		7	पालजागीर	15 से 24	महिला सामान्य	3
20		8	मदोरा	1 से 6/1		
20		9	मदोरा	7 से 12/4		
20		10	मदोरा	13 से 26		
20		11	बांडी	1 से 15/2		
20		12	बांडी	16 से 22		
20		13	बांडी	23 से 31		
20		14	कहारपुरा	1 से 8		

### ग्राम पंचायत चारपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
21	चारपुरा	1	चारपुरा	1 से 10	अ०जा०	1
21		2	चारपुरा	11 से 20	अ०ज०जा०	-
21		3	चारपुरा	22 से 31	अन्य पिछडा वर्ग	2
21		4	चारपुरा	35 से 44	महिला अ०जा०	1
21		5	चारपुरा	45 से 61	महिला अ०ज०जा०	-
21		6	चारपुरा	62 से 84	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
21		7	चारपुरा	85 से 92	महिला सामान्य	5
21		8	चारपुरा	93 से 104		
21		9	चारपुरा	106 से 114		
21		10	चारपुरा	115 से 126		
21		11	चारपुरा	127 से 137		
21		12	चारपुरा	140 से 148		
21		13	चारपुरा	150 से 222		
21		14	शंकरपुरा	1 से 12		
21		15	शंकरपुरा	13 से 29		
21		16	शंकरपुरा	30 से 47		

### ग्राम पंचायत मानपुरादेव

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
22	मानपुरादेव	1	मानपुरादेव	1 से 11	अ०जा०	-
22		2	मानपुरादेव	12/1 से 28	अ०ज०जा०	-
22		3	मानपुरादेव	29/1 से 33/1	अन्य पिछडा वर्ग	2
22		4	मानपुरादेव	33/3 से 37/3	महिला अ०जा०	-
22		5	मानपुरादेव	38 से 50	महिला अ०ज०जा०	-
22		6	मानपुरादेव	51 से 65	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
22		7	मानपुरादेव	66 से 80	महिला सामान्य	6
22		8	मानपुरादेव	81 से 88		
22		9	मानपुरादेव	89 से 99		
22		10	बारीगादिया	2 से 2		
22		11	बावडिया	1 से 8		
22		12	बावडिया	9 से 19		
22		13	बावडिया	20 से 33/2		
22		14	बावडिया	34 से 48		
22		15	बावडिया	49 से 57		
22		16	बावडिया	59 से 72		

### ग्राम पंचायत गादिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
23	गादिया	1	गादिया	1 से 5	अ०जा०	-
23		2	गादिया	6 से 15	अ०ज०जा०	1
23		3	गादिया	16 से 29	अन्य पिछडा वर्ग	2
23		4	गादिया	31/2 से 42	महिला अ०जा०	1
23		5	गादिया	42 से 59	महिला अ०ज०जा०	-
23		6	गादिया	59 से 73	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
23		7	गादिया	73 से 86	महिला सामान्य	4
23		8	गादिया	86 से 97		
23		9	गादिया	97 से 108		
23		10	गादिया	108 से 120		
23		11	गादिया	120 से 129		
23		12	गादिया	129 से 145		
23		13	गादिया	145 से 161		
23		14	गादिया	161 से 225		

### ग्राम पंचायत पंजारा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
24	पंजारा	1	पंजारा	1 से 18	अ०जा०	-
24		2	पंजारा	19 से 33	अ०ज०जा०	-
24		3	पंजारा	35/1 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	3
24		4	पंजारा	42 से 50	महिला अ०जा०	1
24		5	पंजारा	53 से 64/1	महिला अ०ज०जा०	-
24		6	पंजारा	65 से 72	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
24		7	पंजरी	1 से 6/2	महिला सामान्य	7
24		8	पंजरी	6/3 से 9/2		
24		9	पंजरी	9/3 से 16		
24		10	पंजरी	17 से 24		
24		11	पंजरी	25 से 39		
24		12	पंजरी	40 से 41/1		
24		13	पंजरी	41/2 से 53		
24		14	हेदापुरा	2 से 11		
24		15	हेदापुरा	12 से 29		
24		16	हेदापुरा	30 से 39/1		
24		17	हेदापुरा	39/2 से 40/2		
24		18	लक्ष्मणपुरा	1 से 11/3		
24		19	लक्ष्मणपुरा	11/4 से 30		

### ग्राम पंचायत पुराबरायठा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
25	पुराबरायठा	1	पुराबरायठा	1 से 15	अ०जा०	2
25		2	पुराबरायठा	16/1 से 28	अ०ज०जा०	-
25		3	पुराबरायठा	29 से 37/3	अन्य पिछडा वर्ग	2
25		4	पुराबरायठा	38/1 से 45/3	महिला अ०जा०	2
25		5	पुराबरायठा	46 से 60/1	महिला अ०ज०जा०	-
25		6	पुराबरायठा	60/2 से 69/4	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
25		7	पुराबरायठा	70 से 86	महिला सामान्य	5
25		8	बरायठा	1 से 13/1		
25		9	बरायठा	14 से 24		
25		10	बरायठा	25 से 30/3		
25		11	बरायठा	31 से 41/3		
25		12	बरायठा	42 से 47/5		
25		13	बरायठा	49 से 53/5		
25		14	बरायठा	54 से 66		
25		15	लकड़िया	2 से 12		
25		16	लकड़िया	13/1 से 19		
25		17	लकड़िया	20/1 से 30/3		
25		18	लकड़िया	31 से 41		
25		19	लकड़िया	42 से 48		



## ग्राम पंचायत संवासी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
26	संवासी	1	संवासी	1 से 17	अ०जा०	1
26		2	संवासी	18 से 27	अ०ज०जा०	-
26		3	संवासी	28 से 36	अन्य पिछडा वर्ग	2
26		4	संवासी	38 से 51/3	महिला अ०जा०	1
26		5	संवासी	52/1 से 67	महिला अ०ज०जा०	-
26		6	संवासी	68 से 83	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
26		7	संवासी	84 से 101/2	महिला सामान्य	5
26		8	संवासी	102 से 114		
26		9	संवासी	115/1 से 122		
26		10	संवासी	123 से 140/2		
26		11	संवासी	142 से 152		
26		12	बडोदियाजागीर	1 से 7/2		
26		13	बडोदियाजागीर	8 से 21		
26		14	बडोदियाजागीर	22 से 38		
26		15	बडोदियाजागीर	39/1 से 50		
26		16	बडोदियाजागीर	51/2 से 58		

## ग्राम पंचायत मुआल्याखेर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
27	मुआल्याखेदर	1	मुआल्याखेदर	1 से 18	अ०जा०	2
27		2	मुआल्याखेदर	22 से 39	अ०ज०जा०	-
27		3	मुआल्याखेदर	41/1 से 51/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
27		4	मुआल्याखेदर	53 से 62	महिला अ०जा०	3
27		5	पंचतलाई	1/2 से 16	महिला अ०ज०जा०	-
27		6	मिटठनपुर	1 से 15	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
27		7	मिटठनपुर	16 से 23	महिला सामान्य	3
27		8	मिटठनपुर	24 से 37		
27		9	मिटठनपुर	38 से 54		
27		10	हिनोती	5 से 16		
27		11	हिनोती	21 से 48		
27		12	हिनोती	49 से 60		
27		13	हिनोती	62/1 से 74		
27		14	हिनोती	74 से 83		
27		15	हिनोती	83 से 61		

### ग्राम पंचायत रामगढ़

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
28	रामगढ़	1	रामगढ़	4 से 16	अ०जा०	1
28		2	रामगढ़	17 से 36	अ०ज०जा०	-
28		3	रामगढ़	37 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	2
28		4	रामगढ़	52 से 63	महिला अ०जा०	2
28		5	रामगढ़	64 से 73	महिला अ०ज०जा०	1
28		6	बावडीखेड़ा	1 से 11	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
28		7	बावडीखेड़ा	12 से 18	महिला सामान्य	3
28		8	नीनौर	2 से 9		
28		9	नीनौर	10क से 17		
28		10	नीनौर	18 से 23		
28		11	नीनौर	24 से 32		
28		12	नीनौर	33 से 40		
28		13	नीनौर	42 से 54		

### ग्राम पंचायत विजयगढ़

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
29	विजयगढ़	1	विजयगढ़	1 से 11	अ०जा०	1
29		2	विजयगढ़	12 से 20	अ०ज०जा०	1
29		3	विजयगढ़	21 से 30/2	अन्य पिछडा वर्ग	3
29		4	विजयगढ़	31/1 से 38	महिला अ०जा०	1
29		5	विजयगढ़	39 से 52	महिला अ०ज०जा०	2
29		6	विजयगढ़	53 से 69	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
29		7	विजयगढ़	70 से 90	महिला सामान्य	5
29		8	विजयगढ़	1 से 10		
29		9	ईलाहीपुरा	11 से 20		
29		10	ईलाहीपुरा	22 से 33		
29		11	ईलाहीपुरा	1 से 16		
29		12	डूंगापुरा	17 से 30		
29		13	डूंगापुरा	1 से 104		
29		14	रघुनाथपुरा	104 से 125/2		
29		15	रघुनाथपुरा	126 से 148/1		
29		16	रघुनाथपुरा	149 से 174		
29		17	रघुनाथपुरा	175 से 185		
29		18	रघुनाथपुरा	186 से 229		
29		19	बरखेडावीर	0 से 22		
29		20	बरखेडावीर	22 से 32		

## ग्राम पंचायत बरखेडीगढ़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
30	बरखेडीगढ़ी	1	बरखेडीगढ़ी	1 से 12ग	अ0जा0	1
30		2	बरखेडीगढ़ी	13क से 24क	अ0ज0जा0	-
30		3	बरखेडीगढ़ी	25 से 32	अन्य पिछडा वर्ग	2
30		4	बरखेडीगढ़ी	33/क से 41	महिला अ0जा0	1
30		5	बरखेडीगढ़ी	42 से 242	महिला अ0ज0जा0	1
30		6	चैनपुराखुर्द	1/1 से 9	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
30		7	चैनपुराखुर्द	10 से 20	महिला सामान्य	3
30		8	रसीदखेडी	1/1 से 5/1		
30		9	रसीदखेडी	6 से 10		
30		10	हनापुरा	1 से 8/6		
30		11	हनापुरा	9/1 से 12		
30		12	चारपुरा	1 से 8		
30		13	भोपालपुरा	1 से 13/3		

## ग्राम पंचायत कोटरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
31	कोटरा	1	कोटरा	1/9 से 8	अ0जा0	2
31		2	कोटरा	9 से 15	अ0ज0जा0	-
31		3	कोटरा	16 से 21/1	अन्य पिछडा वर्ग	2
31		4	कोटरा	22 से 33	महिला अ0जा0	3
31		5	कोटरा	73 से 40	महिला अ0ज0जा0	1
31		6	कोटरा	41/1 से 46/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
31		7	कोटरा	47 से 54	महिला सामान्य	3
31		8	कोटरा	55 से 63		
31		9	कोटरा	64 से 75		
31		10	कोटरा	76 से 89		
31		11	कोटरा	90 से 99		
31		12	कोटरा	100 से 106		
31		13	कोटरा	107 से 123		
31		14	कोटरा	124 से 156क		
31		15	छाबड़	1/1 से 10/2		
31		16	छाबड़	11/1 से 30/1		

### ग्राम पंचायत तिंदोनिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
32	तिंदोनिया	1	तिंदोनिया	1 से 17	अ०जा०	2
32		2	तिंदोनिया	18 से 41	अ०ज०जा०	-
32		3	तिंदोनिया	41 से 50	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
32		4	तिंदोनिया	51 से 65	महिला अ०जा०	3
32		5	तिंदोनिया	66 से 71	महिला अ०ज०जा०	-
32		6	तिंदोनिया	72 से 92	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
32		7	तिंदोनिया	92 से 102	महिला सामान्य	5
32		8	तिंदोनिया	102 से 120		
32		9	तिंदोनिया	121 से 134		
32		10	तिंदोनिया	135 से 148		
32		11	तिंदोनिया	149 से 167		
32		12	तिंदोनिया	168 से 188		
32		13	तिंदोनिया	189 से 204		
32		14	तिंदोनिया	206 से 224		
32		15	तिंदोनिया	225 से 240		
32		16	तिंदोनिया	242 से 260		
32		17	तिंदोनिया	260 से 277		
32		18	देवगढ़	1 से 22		
32		19	देवगढ़	23 से 36		
32		20	देवगढ़	37 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बिहार

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
33	बिहार	1	बिहार	1 से 6	अ०जा०	2
33		2	बिहार	7 से 12/1	अ०ज०जा०	-
33		3	बिहार	13 से 19	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
33		4	बिहार	20 से 29	महिला अ०जा०	2
33		5	बिहार	30 से 214	महिला अ०ज०जा०	-
33		6	बिहार काछीपुरा	1 से 15	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
33		7	बिहार काछीपुरा	16 से 30	महिला सामान्य	5
33		8	बिहार काछीपुरा	31 से 49		
33		9	बिहार काछीपुरा	50 से 62		
33		10	बिहार काछीपुरा	63 से 70		
33		11	बिहार रुकनियाखेड़ी	1 से 5		
33		12	बिहार रुकनियाखेड़ी	6 से 11		
33		13	बिहार रुकनियाखेड़ी	12 से 17		
33		14	बिहार पीपलटोन	1 से 8		
33		15	बिहार पीपलटोन	9 से 13/1		
33		16	बिहार प्रतापपुरा	1 से 11		
33		17	भेरुपुरा	1 से 8		

### ग्राम पंचायत बडोदियातालाब

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
34	बडोदियातालाब	1	बडोदियातालाब	1/1 से 11	अ0जा0	1
34		2	बडोदियातालाब	12 से 22	अ0ज0जा0	3
34		3	बडोदियातालाब	24 से 34	अन्य पिछडा वर्ग	2
34		4	बडोदियातालाब	38 से 53	महिला अ0जा0	2
34		5	बडोदियातालाब	54 से 69	महिला अ0ज0जा0	2
34		6	बडोदियातालाब	70 से 79	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
34		7	बडोदियातालाब	80 से 92	महिला सामान्य	4
34		8	बडोदियातालाब	93 से 110		
34		9	बडोदियातालाब	111 से 127		
34		10	बडोदियातालाब	128 से 142		
34		11	बडोदियातालाब	143 से 153		
34		12	बडोदियातालाब	154 से 168		
34		13	बडोदियातालाब	170 से 188		
34		14	बडोदियातालाब	189 से 206		
34		15	बडोदियातालाब	207 से 216		
34		16	बडोदियातालाब	218 से 228		
34		17	बडोदियातालाब	229 से 248		
34		18	बडोदियातालाब	249 से 265		
34		19	बडोदियातालाब	266 से 280		
34		20	बडोदियातालाब	281 से 306		

### ग्राम पंचायत सराना

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
35	सराना	1	सराना	2 से 10	अ0जा0	4
35		2	सराना	12 से 23	अ0ज0जा0	-
35		3	सराना	24 से 32	अन्य पिछडा वर्ग	3
35		4	सराना	33 से 45	महिला अ0जा0	5
35		5	सराना	47 से 57	महिला अ0ज0जा0	-
35		6	सराना	58 से 66	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
35		7	सराना	67 से 77	महिला सामान्य	3
35		8	सराना	78 से 93		
35		9	सराना	94 से 110		
35		10	सराना	110 से 123		
35		11	गांधी ग्राम	1 से 10		
35		12	गांधी ग्राम	11 से 26		
35		13	गांधी ग्राम	27 से 39		
35		14	गांधी ग्राम	40 से 53		
35		15	गांधी ग्राम	54 से 62		
35		16	गांधी ग्राम	63 से 89		
35		17	गांधी ग्राम	90 से 119		
35		18	सलाय	1 से 16		
35		19	सलाय	17 से 48		

### ग्राम पंचायत खेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
36	खेड़ी	1	खेड़ी	1 से 19	अ०जा०	2
36		2	खेड़ी	20 से 34	अ०जा०जा०	-
36		3	खेड़ी	34 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
36		4	खेड़ी	40 से 47	महिला अ०जा०	2
36		5	खेड़ी	48 से 55	महिला अ०जा०जा०	-
36		6	खेड़ी	56 से 65	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
36		7	खेड़ी	66 से 78	महिला सामान्य	4
36		8	धर्म्याखेड़ी	1 से 15/2		
36		9	धर्म्याखेड़ी	16 से 24		
36		10	धर्म्याखेड़ी	26 से 35/1		
36		11	धर्म्याखेड़ी	35/1 से 43		
36		12	धर्म्याखेड़ी	25क से 50		
36		13	श्यामपुरा	1 से 15		
36		14	श्यामपुरा	19 से 28		
36		15	श्यामपुरा	30 से 37ड		

### ग्राम पंचायत गनियारी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
37	गनियारी	1	गनियारी	1 से 11/2	अ०जा०	2
37		2	गनियारी	14 से 31	अ०जा०जा०	-
37		3	गनियारी	32 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	2
37		4	गनियारी	47 से 59	महिला अ०जा०	2
37		5	गनियारी	60 से 73	महिला अ०जा०जा०	-
37		6	गनियारी	74 से 85/3	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
37		7	गनियारी	86 से 93/3	महिला सामान्य	5
37		8	गनियारी	94 से 109/2		
37		9	गनियारी	109/3 से 116/1		
37		10	गनियारी	117 से 129		
37		11	गनियारी	130 से 142		
37		12	गनियारी	143 से 154/1		
37		13	गनियारी	154/2 से 166		
37		14	गनियारी	167 से 179		
37		15	गनियारी	180/1 से 195		
37		16	गनियारी	196 से 211		
37		17	गनियारी	212 से 228/2		
37		18	गनियारी	229 से 242		
37		19	गनियारी	245 से 332		

### ग्राम पंचायत खजूरिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
38	खजूरिया	1	खजूरिया	1/1 से 17	अ०जा०	1
38		2	खजूरिया	18/2 से 29	अ०ज०जा०	-
38		3	खजूरिया	30 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
38		4	खजूरिया	45 से 56/1	महिला अ०जा०	2
38		5	खजूरिया	56/2 से 63/3	महिला अ०ज०जा०	-
38		6	बडबेली बिहार	1ग से 7	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
38		7	बडबेली बिहार	8/1 से 13	महिला सामान्य	3
38		8	बडबेली बिहार	17 से 23		
38		9	बडबेली बिहार	25 से 31/1		
38		10	बडबेली बिहार	33/2 से 45		
38		11	बडबेली बिहार	46 से 58/2		
38		12	सौभागपुरा	1 से 15		
38		13	सौभागपुरा	18 से 30		
38		14	सौभागपुरा	32क से 36घ		

### ग्राम पंचायत जामोन्धाजौहार

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
39	जामोन्धाजौहार	1	जामोन्धाजौहार	5 से 29	अ०जा०	2
39		2	जामोन्धाजौहार	29 से 49/ग	अ०ज०जा०	-
39		3	जामोन्धाजौहार	50 से 56	अन्य पिछडा वर्ग	2
39		4	जामोन्धाजौहार	57 से 70	महिला अ०जा०	2
39		5	जामोन्धाजौहार	72 से 84	महिला अ०ज०जा०	1
39		6	जामोन्धाजौहार	85 से 96ख	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
39		7	जामोन्धाजौहार	99 से 116	महिला सामान्य	2
39		8	जामोन्धाजौहार	116/1 से 131ग		
39		9	जामोन्धाजौहार	132क से 151		
39		10	जामोन्धाजौहार	152 से 173		
39		11	जामोन्धाजौहार	174 से 192/2		
39		12	जामोन्धाजौहार	193/क से 200/2		
39		13	जामोन्धाजौहार	200/2 से 211		
39		14	जामोन्धाजौहार	214 से 237घ		

### ग्राम पंचायत जामोन्यागणेश

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
40	जामोन्यागणेश	1	जामोन्यागणेश	2 से 18	अ०जा०	1
40		2	जामोन्यागणेश	19 से 24	अ०ज०जा०	-
40		3	जामोन्यागणेश	25 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
40		4	जामोन्यागणेश	41 से 54	महिला अ०जा०	2
40		5	जामोन्यागणेश	54/ख से 66	महिला अ०ज०जा०	-
40		6	जामोन्यागणेश	68 से 75ख	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
40		7	जामोन्यागणेश	79 से 85/च	महिला सामान्य	5
40		8	जामोन्यागणेश	85/ज से 98		
40		9	जामोन्यागणेश	100/ख से 112ग		
40		10	जामोन्यागणेश	112घ से 121		
40		11	जामोन्यागणेश	122 से 133		
40		12	जामोन्यागणेश	134 से 144		
40		13	जामोन्यागणेश	145 से 153		
40		14	जामोन्यागणेश	154/क से 162/क		
40		15	जामोन्यागणेश	162/ख से 172		
40		16	जामोन्यागणेश	173 से 182		
40		17	जामोन्यागणेश	183/क से 195		
40		18	जामोन्यागणेश	196 से 207		
40		19	जामोन्यागणेश	208 से 321		

### ग्राम पंचायत बरखेड़ा अमरदास

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
41	बरखेड़ा अमरदास	1	बरखेड़ा अमरदास	3 से 19	अ०जा०	1
41		2	बरखेड़ा अमरदास	20 / 1 से 28	अ०ज०जा०	-
41		3	बरखेड़ा अमरदास	28/2 से 37	अन्य पिछडा वर्ग	1
41		4	बरखेड़ा अमरदास	38 से 49	महिला अ०जा०	2
41		5	बरखेड़ा अमरदास	50 से 58	महिला अ०ज०जा०	-
41		6	बरखेड़ा अमरदास	59 से 69	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
41		7	बरखेड़ा अमरदास	70 से 82	महिला सामान्य	2
41		8	बरखेड़ा अमरदास	82 से 93		
41		9	बरखेड़ा अमरदास	94 से 105		
41		10	बरखेड़ा अमरदास	106 से 127		



### ग्राम पंचायत मवासा

११/११

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
42	मवासा	1	मवासा	4 से 19	अ०जा०	1
42		2	मवासा	19/1 से 35	अ०ज०जा०	1
42		3	मवासा	39 से 50	अन्य पिछडा वर्ग	1
42		4	मवासा	51 से 65	महिला अ०जा०	1
42		5	मवासा	67 से 80/ 1	महिला अ०ज०जा०	1
42		6	मवासा	82 से 90	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
42		7	मवासा	91 से 99	महिला सामान्य	3
42		8	मवासा	100 से 112		
42		9	मवासा	113 से 122		
42		10	मवासा	123 से 133		
42		11	मवासा	134 से 141		
42		12	मवासा	142 से 150 / 1		
42		13	मवासा	151 से 208		

### ग्राम पंचायत बरखेड़ा नन्दगांव

११/११

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
43	नन्दगांव	1	नन्दगांव	1 से 24	अ०जा०	1
43		2	नन्दगांव	24 से 30	अ०ज०जा०	-
43		3	नन्दगांव	30/ 1 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	1
43		4	नन्दगांव	41 से 53	महिला अ०जा०	1
43		5	नन्दगांव	54 से 70	महिला अ०ज०जा०	-
43		6	उंकारपुरा	1 से 14/ 1	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
43		7	उंकारपुरा	15 से 23	महिला सामान्य	4
43		8	उंकारपुरा	23/ 1 से 36		
43		9	उंकारपुरा	36/ 1 से 48		
43		10	उंकारपुरा	49 से 68		
43		11	उंकारपुरा	69 से 84		
43		12	उंकारपुरा	85 से 97		
43		13	उंकारपुरा	98 से 105/ 2		

### ग्राम पंचायत लसूडल्यापाता

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
44	लसूडल्यापाता	1	लसूडल्यापाता	3 से 9	अ०जा०	1
44		2	लसूडल्यापाता	10 से 17	अ०ज०जा०	-
44		3	लसूडल्यापाता	18 से 28	अन्य पिछडा वर्ग	2
44		4	लसूडल्यापाता	29 से 40	महिला अ०जा०	2
44		5	लसूडल्यापाता	41 से 50	महिला अ०ज०जा०	-
44		6	लसूडल्यापाता	52 से 56/1	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
44		7	जसापुरा	1 से 7	महिला सामान्य	4
44		8	जसापुरा	8 से 13		
44		9	जसापुरा	13/1 से 19		
44		10	पाडल्याखेडी	1 से 5/ 2		
44		11	पाडल्याखेडी	6 से 13		
44		12	पाडल्याखेडी	14 से 23/ 2		
44		13	पाडल्याखेडी	24 से 33		
44		14	पाडल्याखेडी	34 से 42		
44		15	पाडल्याखेडी	43 से 52		
44		16	कांकरियाखुर्द	1 से 8/1		

### ग्राम पंचायत भवानीपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
45	भवानीपुरा	1	भवानीपुरा	1 से 6	अ०जा०	1
45		2	भवानीपुरा	7 से 15	अ०ज०जा०	-
45		3	भवानीपुरा	16 से 21/ 2	अन्य पिछडा वर्ग	2
45		4	भवानीपुरा	23 /1 से 30	महिला अ०जा०	1
45		5	भवानीपुरा	31/ 1 से 40/ 3	महिला अ०ज०जा०	-
45		6	मदोरी	1 से 9	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
45		7	मदोरी	10 से 30/3	महिला सामान्य	4
45		8	मूडली	30/ 3 से 12		
45		9	मूडली	12 से 18		
45		10	मूडली	18 से 20		
45		11	मूडली	21 से 29		
45		12	मूडली	29 से 40		
45		13	मूडली	40 से 48		
45		14	मूडली	48 से 77		

### ग्राम पंचायत कुंवरकोटरी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
46	कुंवरकोटरी	1	कुंवरकोटरी	3 से 9/ 2	अ०जा०	1
46		2	कुंवरकोटरी	10 से 19	अ०जा०जा०	-
46		3	कुंवरकोटरी	28 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	2
46		4	कुंवरकोटरी	46 से 64	महिला अ०जा०	1
46		5	कुंवरकोटरी	65 से 80/ 2	महिला अ०जा०जा०	-
46		6	कुंवरकोटरी	80/3 से 86	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
46		7	कुंवरकोटरी	87 से 93 /3	महिला सामान्य	6
46		8	कुंवरकोटरी	94 से 104		
46		9	कुंवरकोटरी	105 से 125		
46		10	कुंवरकोटरी	125/ 1 से 242		
46		11	कुंवरकोटरी	145 से 145		
46		12	कुंवरकोटरी	168 से 282/ 3		
46		13	कुंवरकोटरी	183 से 183		
46		14	कुंवरकोटरी	200/ 2 से 201/1		
46		15	कुंवरकोटरी	226 से 233/1		
46		16	कुंवरकोटरी	236 से 250		
46		17	कुंवरकोटरी	251 से 268		
46		18	कुंवरकोटरी	273 से 287		
46		19	कुंवरकोटरी	289 से 301		
46		20	कुंवरकोटरी	302/ 1 से 331/1		

### ग्राम पंचायत निपान्यागढी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
47	निपान्यागढी	1	निपान्यागढी	2/2 से 16	अ०जा०	-
47		2	निपान्यागढी	17 से 31	अ०जा०जा०	2
47		3	निपान्यागढी	33 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
47		4	निपान्यागढी	41 से 55	महिला अ०जा०	1
47		5	निपान्यागढी	57/1 से 69/ 1	महिला अ०जा०जा०	1
47		6	निपान्यागढी	69/2 से 91	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
47		7	निपान्यागढी	92 से 109	महिला सामान्य	5
47		8	निपान्यागढी	110 से 117/ 1		
47		9	निपान्यागढी	117/2 से 126/ 2		
47		10	निपान्यागढी	126/ 3 से 136		
47		11	निपान्यागढी	137 से 150		
47		12	निपान्यागढी	151 से 172		
47		13	निपान्यागढी	174 से 180/ 5		
47		14	निपान्यागढी	183 से 202		
47		15	निपान्यागढी	203 से 213/ 2		
47		16	निपान्यागढी	214 से 232		
47		17	निपान्यागढी	237 से 277/ 8		

### ग्राम पंचायत चाठा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
48	चाठा	1	चाठा	2/ 1 से 14/ 1	अ0जा0	1
48		2	चाठा	15 से 22/ 2	अ0ज0जा0	-
48		3	चाठा	23 से 32	अन्य पिछडा वर्ग	3
48		4	चाठा	33 से 42/2	महिला अ0जा0	2
48		5	चाठा	43 से 53	महिला अ0ज0जा0	-
48		6	चाठा	54 से 61	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
48		7	चाठा	64/1 से 78	महिला सामान्य	5
48		8	चाठा	79 से 95		
48		9	चोरखेडी	1/ 1 से 7		
48		10	चोरखेडी	8 से 14		
48		11	चोरखेडी	15 से 23 / 1		
48		12	चोरखेडी	23/ 2 से 31		
48		13	चोरखेडी	32 / 1 से 39		
48		14	चोरखेडी	40 से 51		
48		15	रूपारेल	1 से 21/ 1		
48		16	रूपारेल	21/ 2 से 36		
48		17	रूपारेल	37/ 1 से 47		
48		18	रूपारेल	51 से 66 ड		

### ग्राम पंचायत आंकखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
49	आंकखेडी कला	1	आंकखेडी कला	1 से 13/ 1	अ0जा0	1
49		2	आंकखेडी कला	14 से 22/ 1	अ0ज0जा0	-
49		3	आंकखेडी कला	22/ 2 से 34	अन्य पिछडा वर्ग	2
49		4	आंकखेडी कला	35/ 1 से 39/3	महिला अ0जा0	2
49		5	आंकखेडी कला	40 से 50/ 2	महिला अ0ज0जा0	1
49		6	आंकखेडी कला	50/ 3 से 70	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
49		7	आंकखेडी कला	71/ 1 से 85	महिला सामान्य	3
49		8	आंकखेडी कला	86 से 117		
49		9	चापाखेडा	1 से 11/ 2		
49		10	चापाखेडा	12/ 1 से 18 /2		
49		11	चापाखेडा	18/ 3 से 31		
49		12	चापाखेडा	32 से 46 / 2		
49		13	चापाखेडा	49/ 1 से 61		
49		14	चापाखेडा	62 से 74/ 1		
49		15	चापाखेडा	74/ 2 से 491 क		

### ग्राम पंचायत कौडियागौड

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
50	कौडियागौड	1	कौडियागौड	1/1 से 3	अ0जा0	1
50		2	कौडियागौड	4 से 8	अ0ज0जा0	-
50		3	कौडियागौड	3 से 24	अन्य पिछडा वर्ग	1
50		4	कौडियागौड	25 से 36/ 3	महिला अ0जा0	1
50		5	कौडियागौड	37 से 45/ 2	महिला अ0ज0जा0	-
50		6	कौडियागौड	45/ 3 से 62/ 2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
50		7	कौडियागौड	62/ 3 से 75	महिला सामान्य	4
50		8	कौडियागौड	77 से 85		
50		9	कौडियागौड	86 / 2 से 99/ 1		
50		10	कौडियागौड	99/ 2 से 105/ 1		
50		11	कौडियागौड	106 से 117/ 3		
50		12	पीथाखेडा	1 से 14/ 1		
50		13	पीथाखेडा	14/ 2 से 22/ 4		

### ग्राम पंचायत कुकल्याखेडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
51	कुकल्याखेडी	1	कुकल्याखेडी	1/1 से 18	अ0जा0	1
51		2	कुकल्याखेडी	19 से 28	अ0ज0जा0	-
51		3	कुकल्याखेडी	29 से 39/ 1	अन्य पिछडा वर्ग	1
51		4	कुकल्याखेडी	39/ 2 से 51	महिला अ0जा0	1
51		5	कुकल्याखेडी	52 से 76	महिला अ0ज0जा0	-
51		6	कोलूखेडी	1/ 2 से 5	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
51		7	कोलूखेडी	6/ 1 से 22	महिला सामान्य	4
51		8	कोलूखेडी	23 से 33/ 5		
51		9	कोलूखेडी	35/ 1 से 60		
51		10	रूपाहेडा	1 से 12/ 2		
51		11	रूपाहेडा	12/ 3 से 19		
51		12	रूपाहेडा	20 से 34/ 2		
51		13	रूपाहेडा	35/ 1 से 43		

### ग्राम पंचायत लसूडल्या जागीर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
52	लसूडल्या जागीर	1	लसूडल्या जागीर	1 से 24	अ०जा०	1
52		2	लसूडल्या जागीर	25 से 36/3	अ०जा०जा०	-
52		3	लसूडल्या जागीर	36/4 से 53/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
52		4	लसूडल्या जागीर	54 से 65/2	महिला अ०जा०	1
52		5	लसूडल्या जागीर	66/1 से 78/2	महिला अ०जा०जा०	-
52		6	लसूडल्या जागीर	79 से 87	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
52		7	लसूडल्या जागीर	88 से 108	महिला सामान्य	4
52		8	लसूडल्या जागीर	109/1 से 124/3		
52		9	लसूडल्या जागीर	124/4 से 132		
52		10	लसूडल्या जागीर	133 से 143		
52		11	भोपालपुरा	1 से 14		
52		12	भोपालपुरा	15 से 27		
52		13	भोपालपुरा	28 से 48		
52		14	भोपालपुरा	49 से 107		

### ग्राम पंचायत पनिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
53	पनिया	1	पनिया	1/1 से 12	अ०जा०	1
53		2	पनिया	14 से 22	अ०जा०जा०	-
53		3	पनिया	23 से 36	अन्य पिछडा वर्ग	3
53		4	पनिया	37 से 50	महिला अ०जा०	2
53		5	पनिया	51 से 61	महिला अ०जा०जा०	-
53		6	पनिया	63 से 77	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
53		7	पनिया	78 से 89/2	महिला सामान्य	6
53		8	पनिया	91 से 100/3		
53		9	पनिया	103 से 115		
53		10	पनिया	116/1 से 129		
53		11	पनिया	130 से 143		
53		12	पनिया	144 से 157		
53		13	पनिया	158 से 174		
53		14	पनिया	175 से 189		
53		15	पनिया	190 से 202		
53		16	पनिया	203/1 से 219		
53		17	पनिया	223 से 237		
53		18	पनिया	238 से 253		
53		19	पनिया	254 से 265		
53		20	पनिया	266 से 275/2		

## ग्राम पंचायत उमरिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
54	उमरिया	1	उमरिया	1 से 16	अ0जा0	2
54		2	उमरिया	17 से 27	अ0ज0जा0	-
54		3	उमरिया	28 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
54		4	उमरिया	47 से 58	महिला अ0जा0	2
54		5	उमरिया	59 से 69	महिला अ0ज0जा0	1
54		6	उमरिया	70 से 81	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
54		7	उमरिया	82 से 95	महिला सामान्य	2
54		8	उमरिया	96 से 107		
54		9	उमरिया	108/1 से 124		
54		10	उमरिया	125 से 148		
54		11	उमरिया	149 से 825/1		
54		12	मोहनपुरा	1 से 20		
54		13	मोहनपुरा	21 से 33		
54		14	मोहनपुरा	34 से 47		

## ग्राम पंचायत पीपल्यारसौडा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
55	पीपल्यारसौडा	1	पीपल्यारसौडा	1 से 19	अ0जा0	2
55		2	पीपल्यारसौडा	20 से 32/2	अ0ज0जा0	1
55		3	पीपल्यारसौडा	33 से 47	अन्य पिछडा वर्ग	3
55		4	पीपल्यारसौडा	48 से 64	महिला अ0जा0	3
55		5	पीपल्यारसौडा	65 से 81	महिला अ0ज0जा0	1
55		6	पीपल्यारसौडा	81 से 96	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
55		7	पीपल्यारसौडा	96 से 116	महिला सामान्य	4
55		8	पीपल्यारसौडा	116 से 134		
55		9	पीपल्यारसौडा	134 से 147/2		
55		10	पीपल्यारसौडा	147/2 से 158		
55		11	पीपल्यारसौडा	158 से 174/2		
55		12	पीपल्यारसौडा	174/2 से 190		
55		13	पीपल्यारसौडा	190 से 206		
55		14	पीपल्यारसौडा	206 से 223		
55		15	पीपल्यारसौडा	223 से 244		
55		16	पीपल्यारसौडा	244 से 261		
55		17	पीपल्यारसौडा	261 से 278		
55		18	पीपल्यारसौडा	278 से 291		
55		19	पीपल्यारसौडा	291 से 313		
55		20	पीपल्यारसौडा	313 से 727		

### ग्राम पंचायत बोकडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
56	बोकडी	1	बोकडी	1 से 14/2	अ0जा0	2
56		2	बोकडी	15 से 24/2	अ0ज0जा0	-
56		3	बोकडी	25 से 33	अन्य पिछडा वर्ग	3
56		4	बोकडी	34 से 38/1	महिला अ0जा0	3
56		5	बोकडी	39 से 47	महिला अ0ज0जा0	-
56		6	बोकडी	48 से 52	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
56		7	बोकडी	53 से 60/3	महिला सामान्य	4
56		8	बोकडी	62 से 68/7		
56		9	बोकडी	71 से 75/5		
56		10	बोकडी	76 से 82/2		
56		11	बोकडी	89 से 3		
56		12	बरेडी	3 से 27		
56		13	बरेडी	28 से 42/1		
56		14	बरेडी	42/1 से 53		
56		15	बरेडी	53 से 64/2		
56		16	बरेडी	64/2 से 73/3		
56		17	बरेडी	78/1 से 89/2		
56		18	बरेडी	89/3 से 110		

### ग्राम पंचायत रलायती

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
57	रलायती	1	रलायती	1 से 11	अ0जा0	-
57		2	रलायती	13 से 22	अ0ज0जा0	-
57		3	रलायती	23 से 37	अन्य पिछडा वर्ग	2
57		4	रलायती	38 से 46	महिला अ0जा0	1
57		5	रलायती	49 से 59	महिला अ0ज0जा0	-
57		6	पनवाडी	2/1 से 9	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
57		7	पनवाडी	10 से 19	महिला सामान्य	4
57		8	पनवाडी	20 से 26		
57		9	पनवाडी	27 से 32		
57		10	पनवाडी	33 से 41		
57		11	अंतरालिया	1/1 से 9		
57		12	अंतरालिया	12 से 19		
57		13	अंतरालिया	20 से 30		
57		14	अंतरालिया	31 से 37		



### ग्राम पंचायत करौदी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
58	करौदी	1	करौदी	1 से 9	अ०जा०	7
58		2	करौदी	10 से 20	अ०ज०जा०	-
58		3	करौदी	21 से 34	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
58		4	करौदी	35 से 43	महिला अ०जा०	7
58		5	करौदी	44 से 55	महिला अ०ज०जा०	1
58		6	करौदी	56 से 66	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
58		7	करौदी	67 से 77	महिला सामान्य	1
58		8	करौदी	1 से 12		
58		9	जाटखेड़ी	13 से 30		
58		10	जाटखेड़ी	35 से 43		
58		11	जाटखेड़ी	46 से 54		
58		12	जाटखेड़ी	57 से 63		
58		13	जाटखेड़ी	66 से 78		
58		14	जाटखेड़ी	80 से 88		
58		15	जाटखेड़ी	91 से 104		
58		16	जाटखेड़ी	105 से 108		
58		17	जाटखेड़ी	122 से 131		
58		18	जाटखेड़ी	133 से 142		

### ग्राम पंचायत कडिया सांसी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
59	कडिया सांसी	1	कडिया चौरसिया	2 से 19	अ०जा०	8
59		2	कडिया चौरसिया	21 से 36	अ०ज०जा०	-
59		3	कडिया चौरसिया	38 से 52	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
59		4	कडिया चौरसिया	54 से 65	महिला अ०जा०	8
59		5	कडिया चौरसिया	67 से 84	महिला अ०ज०जा०	1
59		6	कडिया सांसी	1 से 23	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
59		7	कडिया सांसी	25 से 37	महिला सामान्य	1
59		8	कडिया सांसी	39 से 54		
59		9	कडिया सांसी	55 से 74		
59		10	कडिया सांसी	75 से 98		
59		11	कडिया सांसी	99 से 116		
59		12	कडिया सांसी	117 से 138		
59		13	कडिया सांसी	145 से 163		
59		14	कडिया सांसी	165 से 178		
59		15	कडिया सांसी	180 से 198		
59		16	कडिया सांसी	200 से 221		
59		17	कडिया सांसी	222 से 235		
59		18	कडिया सांसी	237 से 254		
59		19	कडिया सांसी	256 से 276		

### ग्राम पंचायत महुआ

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
60	महुआ	1	महुआ	1 से 17	अ०जा०	1
60		2	महुआ	18 से 49	अ०ज०जा०	-
60		3	महुआ	50 से 73	अन्य पिछडा वर्ग	1
60		4	महुआ	75 से 92	महिला अ०जा०	1
60		5	महुआ	92/1 से 102	महिला अ०ज०जा०	1
60		6	महुआ	103 से 121	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
60		7	महुआ	126 से 140	महिला सामान्य	2
60		8	महुआ	141 से 154		
60		9	महुआ	154 से 168/1		
60		10	महुआ	168/2 से 180		
60		11	महुआ	181 से 196		

### ग्राम पंचायत रोसलाजागीर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
61	रोसलाजागीर	1	रोसलाजागीर	1 से 12	अ०जा०	2
61		2	रोसलाजागीर	13 से 35	अ०ज०जा०	-
61		3	रोसलाजागीर	36 से 54	अन्य पिछडा वर्ग	2
61		4	रोसलाजागीर	55 से 69	महिला अ०जा०	2
61		5	रोसलाजागीर	70 से 85	महिला अ०ज०जा०	1
61		6	रोसलाजागीर	86 से 103	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
61		7	रोसलाजागीर	104 से 125	महिला सामान्य	4
61		8	रोसलाजागीर	126 से 137		
61		9	रोसलाजागीर	140 से 150/2		
61		10	रोसलाजागीर	152 से 168		
61		11	रोसलाजागीर	169 से 185		
61		12	रोसलाजागीर	187 से 201		
61		13	रोसलाजागीर	203 से 215		
61		14	रोसलाजागीर	216 से 229		
61		15	रोसलाजागीर	231 से 251		
61		16	रोसलाजागीर	252 से 269/2		
61		17	रोसलाजागीर	270 से 288		
61		18	रोसलाजागीर	289 से 311		
61		19	रोसलाजागीर	312 से 400		

### ग्राम पंचायत भीलखेडा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
62	भीलखेडा	1	भीलखेडा	1 से 19	अ0जा0	2
62		2	भीलखेडा	21 से 25	अ0ज0जा0	-
62		3	भीलखेडा	45 से 58	अन्य पिछडा वर्ग	3
62		4	भीलखेडा	59 से 77	महिला अ0जा0	3
62		5	भीलखेडा	78 से 94	महिला अ0ज0जा0	-
62		6	भीलखेडा	95 से 108	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
62		7	भीलखेडा	109 से 125	महिला सामान्य	5
62		8	भीलखेडा	125 से 137		
62		9	भीलखेडा	140 से 161		
62		10	भीलखेडा	165 से 174		
62		11	भीलखेडा	175/क से 182/घ		
62		12	भरेड	2 से 5		
62		13	भरेड	6 से 13		
62		14	भरेड	14 से 21		
62		15	भरेड	22 से 31		
62		16	भरेड	32 से 41		
62		17	भरेड	42 से 55		
62		18	भरेड	56 से 70		
62		19	भरेड	72 से 82		
62		20	भरेड	83 से 91		

### ग्राम पंचायत चौमा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
63	चौमा	1	चौमा	1 से 15	अ0जा0	-
63		2	चौमा	16 से 30	अ0ज0जा0	-
63		3	चौमा	31 से 43	अन्य पिछडा वर्ग	2
63		4	चौमा	44 से 53/ड	महिला अ0जा0	1
63		5	चौमा	54/क से 63/घ	महिला अ0ज0जा0	-
63		6	चौमा	64/क से 70/ख	महिला अन्य पिछडा वर्ग	1
63		7	चौमा	71 से 89/ग	महिला सामान्य	4
63		8	चौमा	90 से 103		
63		9	चौमा	104/क से 121		
63		10	चौमा	122/क से 129		
63		11	चौमा	130 से 149		
63		12	चौमा	151 से 165		

### ग्राम पंचायत गिदौली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
64	गिदौली	1	गिदौली	2 से 15	अ०जा०	5
64		2	गिदौली	16/1 से 31	अ०ज०जा०	-
64		3	गिदौली	34 से 42	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
64		4	गिदौली	43 से 53	महिला अ०जा०	6
64		5	गिदौली	53 से 67	महिला अ०ज०जा०	-
64		6	गिदौली	68 से 86	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
64		7	अब्दापुर	1 से 10	महिला सामान्य	4
64		8	अब्दापुर	10 से 24		
64		9	अब्दापुर	25 से 41		
64		10	अब्दापुर	42 से 54		
64		11	अब्दापुर	55 से 69		
64		12	अब्दापुर	70 से 84		
64		13	सरसखेडी	1 से 9		
64		14	सरसखेडी	9 से 20		
64		15	सरसखेडी	21 से 31		
64		16	सरसखेडी	32 से 42		
64		17	सरसखेडी	43 से 57		
64		18	सरसखेडी	58 से 67		
64		19	सरसखेडी	68 से अंत तक		
64						

### ग्राम पंचायत बांरवाखुरम

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
65	बांरवाखुरम	1	बांरवाखुरम	2 से 16	अ०जा०	3
65		2	बांरवाखुरम	17 से 29/1	अ०ज०जा०	-
65		3	बांरवाखुरम	31 से 39/3	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
65		4	बांरवाखुरम	40 से 52	महिला अ०जा०	4
65		5	बांरवाखुरम	53 से 59	महिला अ०ज०जा०	-
65		6	बांरवाखुरम	60 से 71/2	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
65		7	बांरवाखुरम	72 से 85	महिला सामान्य	3
65		8	बांरवाखुरम	87 से 106		
65		9	बांरवाखुरम	108 से 123		
65		10	बांरवाखुरम	124 से 138		
65		11	बांरवाखुरम	140 से 157		
65		12	बांरवाखुरम	158 से 175		
65		13	बांरवाखुरम	176 से 191		
65		14	बांरवाखुरम	192 से 206		
65		15	बांरवाखुरम	207 से 224/1		
65		16	बांरवाखुरम	225/1 से 239		
65		17	बांरवाखुरम	241 से 259		
65		18	बांरवाखुरम	260 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत गेहूखेडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
66	गेहूखेडी	1	गेहूखेडी	2 से 16	अ0जा0	1
66		2	गेहूखेडी	17/1 से 32	अ0ज0जा0	-
66		3	गेहूखेडी	33 से 45/3	अन्य पिछडा वर्ग	1
66		4	गेहूखेडी	46 से 57	महिला अ0जा0	1
66		5	गेहूखेडी	58 से 71	महिला अ0ज0जा0	-
66		6	गेहूखेडी	72 से 83	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
66		7	गेहूखेडी	84/1 से 89	महिला सामान्य	3
66		8	मूडलारेती	1/1 से 9/3		
66		9	मूडलारेती	10/1 से 25		
66		10	मूडलारेती	27 से 34/3		
66		11	मूडलारेती	35 से 53		
66		12	मूडलारेती	56/1 से 102		

### ग्राम पंचायत बमोरी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
67	बमोरी	1	बमोरी	1 से 14	अ0जा0	4
67		2	बमोरी	15/1 से 22	अ0ज0जा0	-
67		3	बमोरी	23/1 से 39	अन्य पिछडा वर्ग	3
67		4	बमोरी	40 से 53/3	महिला अ0जा0	4
67		5	बमोरी	54 से 70	महिला अ0ज0जा0	1
67		6	बमोरी	71 से 88	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
67		7	बमोरी	89 से 102	महिला सामान्य	3
67		8	बमोरी	103 से 116		
67		9	बमोरी	117 से 134		
67		10	बमोरी	135 से 148/3		
67		11	बमोरी	148/4 से 180		
67		12	धुआखेडी	1 से 12		
67		13	धुआखेडी	12 से 25		
67		14	धुआखेडी	26 से 41		
67		15	धुआखेडी	43 से 56		
67		16	धुआखेडी	57 से 58		
67		17	धुआखेडी	59 से 62 ग		
67		18	धुआखेडी	63 से 80		
67		19	धुआखेडी	82/1 से 89		

## ग्राम पंचायत बडबेली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
68	बडबेली	1	बडबेली	1 से 10	अ०जा०	1
68		2	बडबेली	12 से 22	अ०ज०जा०	-
68		3	बडबेली	25 से 41	अन्य पिछडा वर्ग	2
68		4	बडबेली	42 से 48	महिला अ०जा०	1
68		5	बडबेली	50 से 62	महिला अ०ज०जा०	-
68		6	आंकखेडी खुर्द	1 से 14	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
68		7	आंकखेडी खुर्द	15 से 23	महिला सामान्य	6
68		8	आंकखेडी खुर्द	24 से 34		
68		9	प्रतापपुरा	1 से 12		
68		10	प्रतापपुरा	14/1 से 30		
68		11	प्रतापपुरा	31 से 42		
68		12	प्रतापपुरा	43 से 59		
68		13	प्रतापपुरा	60 से 71		
68		14	प्रतापपुरा	72 से 85		
68		15	प्रतापपुरा	86 से 91		
68		16	प्रतापपुरा	92 से 107		
68		17	प्रतापपुरा	108 से 119		

## ग्राम पंचायत कांसरोद

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
69	कांसरोद	1	कांसरोद	1 से 28	अ०जा०	1
69		2	कांसरोद	29 से 65	अ०ज०जा०	-
69		3	कांसरोद	66 से 92	अन्य पिछडा वर्ग	2
69		4	कांसरोद	93 से 111	महिला अ०जा०	2
69		5	कांसरोद	112 से 139	महिला अ०ज०जा०	-
69		6	कांसरोद	141 से 173	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
69		7	कांसरोद	175 से 183/3	महिला सामान्य	4
69		8	कांसरोद	184 से 202		
69		9	कांसरोद	203 से 220		
69		10	कांसरोद	221 से 243		
69		11	कांसरोद	244 से 266		
69		12	कांसरोद	268 से 277		
69		13	कांसरोद	278 से 300		
69		14	कांसरोद	301 से 318		
69		15	कांसरोद	319 से 330		

### ग्राम पंचायत पीपल्यातव्वकुल

५११-१

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
70	पीपल्यातव्वकुल	1	पीपल्यातव्वकुल	5 से 33/2	अ०जा०	3
70		2	पीपल्यातव्वकुल	39 से 63	अ०ज०जा०	-
70		3	पीपल्यातव्वकुल	64 से 84	अन्य पिछडा वर्ग	2
70		4	पीपल्यातव्वकुल	86 से 97	महिला अ०जा०	3
70		5	पीपल्यातव्वकुल	99 से 120	महिला अ०ज०जा०	1
70		6	पीपल्यातव्वकुल	121 से 131	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
70		7	पीपल्यातव्वकुल	132 से 154	महिला सामान्य	2
70		8	बरुखेडी	1 से 12		
70		9	बरुखेडी	14 से 35/1		
70		10	बरुखेडी	35/2 से 47		
70		11	बरुखेडी	49 से 56		
70		12	बरुखेडी	57 से 73		
70		13	बरुखेडी	76 से 93		
70		14	बरुखेडी	94/1 से 106		
70		15	बरुखेडी	1 से 12		
70		16	लाखाखेडी	14 से 23		

### ग्राम पंचायत पाडल्यादान

५११-१

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
71	पाडल्यादान	1	पाडल्यादान	1 से 11	अ०जा०	2
71		2	पाडल्यादान	12 से 31	अ०ज०जा०	-
71		3	पाडल्यादान	32 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
71		4	पाडल्यादान	46 से 63/1	महिला अ०जा०	2
71		5	पाडल्यादान	64 से 88	महिला अ०ज०जा०	-
71		6	पाडल्यादान	90 से 110	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
71		7	पाडल्यादान	111 से 124	महिला सामान्य	4
71		8	पाडल्यादान	125 से 139/1		
71		9	पाडल्यादान	140 से 1021		
71		10	खेडा	1 से 8		
71		11	खेडा	9 से 17/3		
71		12	खेडा	18 से 28/2		
71		13	खेडा	29 से 40		
71		14	खेडा	41 से 106		
71		15	गोकलपुरा	1/1 से 12		
71		16	गोकलपुरा	13 से 18		
71		17	गोकलपुरा	19/1 से 28/1		
71		18	गोकलपुरा	28/2 से 46		

### ग्राम पंचायत टीकरिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
72	टीकरिया	1	टीकरिया	1 से 13	अ०जा०	3
72		2	टीकरिया	14 से 22	अ०ज०जा०	-
72		3	टीकरिया	23 से 31	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
72		4	टीकरिया	32 से 44	महिला अ०जा०	3
72		5	टीकरिया	45 से 56	महिला अ०ज०जा०	1
72		6	टीकरिया	57 से 69	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
72		7	टीकरिया	70 से 81	महिला सामान्य	3
72		8	टीकरिया	82 से 91		
72		9	मालाखेडी	1 से 12		
72		10	मालाखेडी	13 से 25		
72		11	मालाखेडी	26 से 37		
72		12	मालाखेडी	38 से 46		
72		13	मालाखेडी	47 से 62		
72		14	सेहवाजपुरा	1/1 से 6		
72		15	सेहवाजपुरा	8 से 21/3		
72		16	सेहवाजपुरा	22/1 से 32		
72		17	सेहवाजपुरा	33/1 से 41		
72		18	सेहवाजपुरा	42 से 51		



## ग्राम पंचायत अमलार

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
73	अमलार	1	अमलार	2 से 20	अ०जा०	4
73		2	अमलार	21 से 40 ख	अ०ज०जा०	-
73		3	अमलार	43 से 58। ग	अन्य पिछडा वर्ग	3
73		4	अमलार	59 से 86	महिला अ०जा०	4
73		5	अमलार	87 से 113	महिला अ०ज०जा०	1
73		6	अमलार	114 से 138	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
73		7	अमलार	140 से 162	महिला सामान्य	3
73		8	अमलार	163 से 190 घ		
73		9	अमलार	191 से 220		
73		10	अमलार	221 से 237		
73		11	अमलार	238 से 273		
73		12	अमलार	274 से 291		
73		13	अमलार	293 से 311		
73		14	अमलार	315 से 331		
73		15	अमलार	332 से 350		
73		16	अमलार	351 से 372		
73		17	अमलार	373 से 410 ड		
73		18	अमलार	412 से 429		
73		19	अमलार	430 से 447		
73		20	अमलार	449 से 475		

### ग्राम पंचायत बावडीखेडा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
74	बावडीखेडा	1	बावडीखेडा	8 से 27	अ०जा०	1
74		2	बावडीखेडा	28 से 49/3	अ०ज०जा०	-
74		3	बावडीखेडा	50 से 80	अन्य पिछडा वर्ग	3
74		4	बावडीखेडा	81 से 101	महिला अ०जा०	2
74		5	बावडीखेडा	102 से 122	महिला अ०ज०जा०	-
74		6	बावडीखेडा	123 से 140	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
74		7	बावडीखेडा	140 से 157	महिला सामान्य	6
74		8	बावडीखेडा	158 से 175 घ		
74		9	बावडीखेडा	175 ड से 189		
74		10	बावडीखेडा	190 से 203		
74		11	बावडीखेडा	203 घ से 212		
74		12	बावडीखेडा	213 से 227		
74		13	बावडीखेडा	228 से 245		
74		14	फुलपुरा	1 से 13/2		
74		15	फुलपुरा	14 से 22		
74		16	फुलपुरा	24 से 37		
74		17	फुलपुरा	38 से 54		
74		18	फुलपुरा	55 से 68		
74		19	फुलपुरा	69 से 80/2		
74		20	फुलपुरा	81 से 421		

## ग्राम पंचायत बेजड

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
75	बेजड	1	बेजड	1 से 23	अ०जा०	1
75		2	बेजड	24 से 38	अ०ज०जा०	-
75		3	बेजड	39 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	2
75		4	बेजड	52 से 66	महिला अ०जा०	2
75		5	बेजड	67 से 86	महिला अ०ज०जा०	-
75		6	बेजड	90 से 99	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
75		7	बेजड	102 से 309	महिला सामान्य	4
75		8	बमोराजागीर	1 से 12		
75		9	बमोराजागीर	13 से 16		
75		10	बमोराजागीर	17 से 22		
75		11	बमोराजागीर	23 से 32		
75		12	बमोराजागीर	33 से 43		
75		13	बमोराजागीर	44 से 5		
75		14	बमोराजागीर	6 से 18		
75		15	बमोराजागीर	19 से 32		

## ग्राम पंचायत बरनावद

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
76	बरनावद	1	बरनावद	3 से 25	अ०जा०	2
76		2	बरनावद	26 से 47	अ०ज०जा०	-
76		3	बरनावद	48 से 60	अन्य पिछडा वर्ग	3
76		4	बरनावद	62 से 80	महिला अ०जा०	2
76		5	बरनावद	81 से 100	महिला अ०ज०जा०	1
76		6	बरनावद	101 से 120	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
76		7	बरनावद	122 से 138	महिला सामान्य	5
76		8	बरनावद	139 से 159		
76		9	बरनावद	161 से 171		
76		10	बरनावद	174 से 188		
76		11	बरनावद	189 से 204		
76		12	बरनावद	205 से 222		
76		13	बरनावद	1 से 17		
76		14	बरनावद	18 से 35		
76		15	बरनावद	37 से 59		
76		16	अबाडा	61 से 79		
76		17	अबाडा	80/1 से 92		
76		18	अबाडा	93 से 108		
76		19	अबाडा	109 से 125		
76		20	अबाडा	126 से 152		

### ग्राम पंचायत इकलेरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
77	इकलेरा	1	इकलेरा	3 से 41	अ0जा0	2
77		2	इकलेरा	42 से 72	अ0ज0जा0	-
77		3	इकलेरा	73/1 से 117	अन्य पिछडा वर्ग	3
77		4	इकलेरा	118 से 159	महिला अ0जा0	3
77		5	इकलेरा	160 से 195	महिला अ0ज0जा0	-
77		6	इकलेरा	196 से 233	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
77		7	इकलेरा	234 से 275	महिला सामान्य	5
77		8	इकलेरा	276 से 358		
77		9	इकलेरा	359 से 352		
77		10	इकलेरा	358 से 381		
77		11	इकलेरा	382 से 415		
77		12	इकलेरा	417 से 567		
77		13	इकलेरा	568 से 614		
77		14	इकलेरा	657 से 654		
77		15	इकलेरा	657 से 705		
77		16	इकलेरा	710 से 766		
77		17	इकलेरा	767 से 812		
77		18	इकलेरा	845 से 836		
77		19	इकलेरा	929 से 983		
77		20	इकलेरा	984 से 1083		

### ग्राम पंचायत जंगीबड़

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
78	जंगीबड़	1	जंगीबड़	1 से 17	अ०जा०	2
78		2	जंगीबड़	18 से 36	अ०ज०जा०	-
78		3	जंगीबड़	37 से 47	अन्य पिछडा वर्ग	2
78		4	जंगीबड़	52 से 73	महिला अ०जा०	3
78		5	जंगीबड़	75 से 91	महिला अ०ज०जा०	-
78		6	जंगीबड़	92 से 110	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
78		7	जंगीबड़	112 से 126	महिला सामान्य	3
78		8	जंगीबड़	126घ से 136 क		
78		9	जंगीबड़	138 से 157		
78		10	जंगीबड़	159 से 169		
78		11	हीरापुरा	1 से 15		
78		12	हीरापुरा	16 से 29		
78		13	हीरापुरा	31 से 53		
78		14	हीरापुरा	53/1 से 67		
78		15	हीरापुरा	68 से 76		
78		16	हीरापुरा	77/1 से 85		

### ग्राम पंचायत नाहली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
79	नाहली	1	नाहली	1 से 25	अ०जा०	3
79		2	नाहली	26 से 44/2	अ०ज०जा०	-
79		3	नाहली	45/1 से 68	अन्य पिछडा वर्ग	3
79		4	नाहली	69 से 88	महिला अ०जा०	3
79		5	नाहली	90 से 112	महिला अ०ज०जा०	1
79		6	नाहली	114 से 136	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
79		7	नाहली	138 से 174	महिला सामान्य	4
79		8	नाहली	175 से 198		
79		9	नाहली	199 से 227/2		
79		10	नाहली	228/2 से 261/1		
79		11	नाहली	262 से 284		
79		12	नाहली	285 से 306		
79		13	नाहली	308/1 से 325		
79		14	नाहली	327 से 352		
79		15	नाहली	354 से 379		
79		16	नाहली	381 से 408		
79		17	नाहली	409 से 450		
79		18	नाहली	452 से 504		
79		19	राधानपुरा	2/1 से 27		
79		20	राधानपुरा	28/1 से 62		

### ग्राम पंचायत शहदखेडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
80	शहदखेडी	1	शहदखेडी	4/1 से 10	अ0जा0	2
80		2	शहदखेडी	11/1 से 32/2	अ0ज0जा0	-
80		3	शहदखेडी	40 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
80		4	शहदखेडी	48 से 74	महिला अ0जा0	2
80		5	शहदखेडी	76 से 95	महिला अ0ज0जा0	-
80		6	शहदखेडी	97 से 112	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
80		7	शहदखेडी	113 से 131	महिला सामान्य	3
80		8	रावतपुरा	1/1 से 13		
80		9	रावतपुरा	14 से 26		
80		10	हाल्याहेडी	2 से 18/1		
80		11	हाल्याहेडी	18/2 से 33		
80		12	हाल्याहेडी	34 से 53/2		
80		13	हाल्याहेडी	55/2 से 79/1		
80		14	हाल्याहेडी	85 से 99/3		

### ग्राम पंचायत बूचाखेडी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
81	बूचाखेडी	1	बूचाखेडी	1 से 19	अ0जा0	1
81		2	बूचाखेडी	20 से 32	अ0ज0जा0	-
81		3	बूचाखेडी	33 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
81		4	बूचाखेडी	45 से 56	महिला अ0जा0	2
81		5	बूचाखेडी	57 से 63	महिला अ0ज0जा0	-
81		6	बूचाखेडी	64 से 73	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
81		7	बूचाखेडी	74 से 87	महिला सामान्य	4
81		8	बूचाखेडी	88 से 101		
81		9	बूचाखेडी	102 से 191		
81		10	खजूरी	1 से 17		
81		11	खजूरी	19 से 26		
81		12	खजूरी	27 से 38		
81		13	खजूरी	39 से 46		
81		14	खजूरी	47 से 56		
81		15	खजूरी	57 से 71/1		
81		16	खजूरी	72 से 89		

## ग्राम पंचायत झाड़पीपल्या

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
82	झाड़पीपल्या	1	झाड़पीपल्या	1 से 8	अ0जा0	1
82		2	झाड़पीपल्या	9 से 12	अ0ज0जा0	-
82		3	झाड़पीपल्या	13 से 16/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
82		4	झाड़पीपल्या	17/1 से 23	महिला अ0जा0	2
82		5	झाड़पीपल्या	25से 29	महिला अ0ज0जा0	-
82		6	झाड़पीपल्या	30 से 36/3	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
82		7	झाड़पीपल्या	37 से 48	महिला सामान्य	4
82		8	झाड़पीपल्या	49 से 58		
82		9	झाड़पीपल्या	59 से 71		
82		10	झाड़पीपल्या	72 से 82		
82		11	झाड़पीपल्या	84 से 92		
82		12	झाड़पीपल्या	93 से 99/8		
82		13	झाड़पीपल्या	100 से 110		
82		14	झाड़पीपल्या	111 से 126		
82		15	झाड़पीपल्या	127 से 149		

## ग्राम पंचायत बकानी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
83	बकानी	1	बकानी	1/1 से 5/3	अ0जा0	1
83		2	बकानी	6 से 13	अ0ज0जा0	1
83		3	बकानी	14 से 16	अन्य पिछडा वर्ग	2
83		4	बकानी	17 से 26	महिला अ0जा0	1
83		5	बकानी	27 से 33/2	महिला अ0ज0जा0	1
83		6	बकानी	34 से 38/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
83		7	बकानी	39 से 50	महिला सामान्य	5
83		8	बकानी	51 से 69		
83		9	गाथला	1/1 से 9/1		
83		10	गाथला	9/2 से 11/2		
83		11	गाथला	12 से 19/1		
83		12	गाथला	19/2 से 27/1		
83		13	गाथला	27/2 से 31/1		
83		14	गाथला	31/2 से 38/1		
83		15	गाथला	38/2 से 43/3		
83		16	गाथला	44/1 से 47		
83		17	गाथला	49 से 65/3		

### ग्राम पंचायत ढ़ाबला

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
84	ढ़ाबला	1	ढ़ाबला	1 से 11	अ०जा०	2
84		2	ढ़ाबला	12/1 से 24	अ०ज०जा०	-
84		3	ढ़ाबला	25/1 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	3
84		4	ढ़ाबला	41 से 49	महिला अ०जा०	3
84		5	ढ़ाबला	50 से 58	महिला अ०ज०जा०	-
84		6	ढ़ाबला	59 से 70	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
84		7	ढ़ाबला	71 से 79/2	महिला सामान्य	5
84		8	ढ़ाबला	80 से 93/1		
84		9	ढ़ाबला	94/1 से 101		
84		10	ढ़ाबला	102 से 112		
84		11	ढ़ाबला	114 से 128/1		
84		12	ढ़ाबला	129/2 से 136		
84		13	ढ़ाबला	136 से 148		
84		14	ढ़ाबला	148 से 164/1		
84		15	ढ़ाबला	164/2 से 178		
84		16	ढ़ाबला	180 से 200		
84		17	ढ़ाबला	201 से 221		
84		18	ढ़ाबला	222 से 241		
84		19	ढ़ाबला	242 से 999		

### ग्राम पंचायत पनवाड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
85	पनवाड़ी	1	पनवाड़ी	3/1 से 15	अ०जा०	1
85		2	पनवाड़ी	16 से 26	अ०ज०जा०	-
85		3	पनवाड़ी	28 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
85		4	पनवाड़ी	41 से 55	महिला अ०जा०	1
85		5	पनवाड़ी	56/1 से 70/2	महिला अ०ज०जा०	1
85		6	पनवाड़ी	71/1 से 82	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
85		7	पनवाड़ी	83 से 88	महिला सामान्य	3
85		8	पनवाड़ी	89/1 से 97		
85		9	पनवाड़ी	98 से 107/3		
85		10	पनवाड़ी	108 से 117		
85		11	पनवाड़ी	118 से 130		
85		12	पनवाड़ी	131 से 140		
85		13	पनवाड़ी	141 से 153		
85		14	पनवाड़ी	154 से 171		



## ग्राम पंचायत हिनोत्या

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
86	हिनोत्या	1	हिनोत्या	1 से 10	अ0जा0	1
86		2	हिनोत्या	11 से 21	अ0ज0जा0	-
86		3	हिनोत्या	22 से 29	अन्य पिछडा वर्ग	2
86		4	हिनोत्या	30 से 41	महिला अ0जा0	1
86		5	हिनोत्या	42 से 55	महिला अ0ज0जा0	-
86		6	हिनोत्या	56 से 71	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
86		7	हिनोत्या	72/1 से 83	महिला सामान्य	5
86		8	हिनोत्या	84 से 93		
86		9	हिनोत्या	94 से 107		
86		10	हिनोत्या	108 से 120		
86		11	हिनोत्या	121 से 132		
86		12	हिनोत्या	133 से 147		
86		13	हिनोत्या	148 से 161		
86		14	हिनोत्या	162 से 174		
86		15	हिनोत्या	175 से 186		

## ग्राम पंचायत बरखेड़ाडोर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
87	बरखेड़ाडोर	1	बरखेड़ाडोर	1 से 8/2	अ0जा0	1
87		2	बरखेड़ाडोर	9 से 18/1	अ0ज0जा0	-
87		3	बरखेड़ाडोर	19 से 23	अन्य पिछडा वर्ग	2
87		4	बरखेड़ाडोर	24 से 33	महिला अ0जा0	2
87		5	बरखेड़ाडोर	35 से 41	महिला अ0ज0जा0	-
87		6	बरखेड़ाडोर	42 से 52	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
87		7	बरखेड़ाडोर	53 से 66	महिला सामान्य	5
87		8	खलेली	1 से 8		
87		9	खलेली	9 से 15		
87		10	खलेली	16 से 22		
87		11	खलेली	23 से 30		
87		12	खलेली	31 से 37		
87		13	बिसारती	1 से 13		
87		14	बिसारती	14 से 24		
87		15	बिसारती	25 से 39		
87		16	बिसारती	40 से 51		
87		17	बिसारती	1 से 7		
87		18	पखरी	8 से 15		
87		19	पखरी	16 से 22		

## ग्राम पंचायत आंवली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
88	आंवली	1	आंवली	2 से 21	अ0जा0	1
88		2	आंवली	23 से 30/1	अ0ज0जा0	-
88		3	आंवली	31 से 50/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
88		4	आंवली	51/68	महिला अ0जा0	2
88		5	आंवली	69 से 85	महिला अ0ज0जा0	-
88		6	आंवली	86 से 110	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
88		7	आंवली	111 से 116	महिला सामान्य	3
88		8	आंवली	117 से 129		
88		9	झूमका	1 से 4		
88		10	झूमका	5 से 12		
88		11	झूमका	14 से 21/1		
88		12	झूमका	22 से 24		
88		13	झूमका	26 से 31		
88		14	झूमका	32 से 43		

## ग्राम पंचायत सूकल्या

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
89	सूकल्या	1	सूकल्या	1 से 5	अ0जा0	1
89		2	सूकल्या	6 से 19	अ0ज0जा0	2
89		3	सूकल्या	22 से 38	अन्य पिछडा वर्ग	2
89		4	सूकल्या	39 से 46	महिला अ0जा0	2
89		5	सूकल्या	47 से 57	महिला अ0ज0जा0	1
89		6	सूकल्या	58/1 से 67	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
89		7	सूकल्या	68 से 90	महिला सामान्य	3
89		8	हीकमी	3 से 12		
89		9	हीकमी	13 से 31		
89		10	हीकमी	32 से 50		
89		11	हीकमी	53 से 66		
89		12	हीकमी	67 से 81		
89		13	हीकमी	82 से 108		
89		14	हीकमी	110 से 126		
89		15	हीकमी	127/1 से 155		
89		16	पीपल्या जीया	1/1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत मूडलाबारोल

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
90	मूडलाबारोल	1	मूडलाबारोल	1 से 7/5	अ०जा०	1
90		2	मूडलाबारोल	8 से 18	अ०ज०जा०	-
90		3	मूडलाबारोल	20 से 28	अन्य पिछडा वर्ग	2
90		4	मूडलाबारोल	29 से 48/3	महिला अ०जा०	1
90		5	मूडलाबारोल	49 से 69	महिला अ०ज०जा०	-
90		6	मूडलाबारोल	71 से 91/1	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
90		7	मूडलाबारोल	92 से 109	महिला सामान्य	4
90		8	मूडलाबारोल	112 से 127/2		
90		9	मूडलाबारोल	128 से 147		
90		10	मूडलाबारोल	148 से 163		
90		11	मूडलाबारोल	164 से 191		
90		12	मूडलाबारोल	193/1 से 210		
90		13	मूडलाबारोल	211 से 237		
90		14	कलाली	1/2 से 12		

## ग्राम पंचायत मेंगलादीप

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
91	मेंगलादीप	1	मेंगलादीप	5 से 15	अ०जा०	-
91		2	मेंगलादीप	16 से 22	अ०ज०जा०	-
91		3	मेंगलादीप	23/1 से 33	अन्य पिछडा वर्ग	2
91		4	मेंगलादीप	34 से 45/3	महिला अ०जा०	1
91		5	मेंगलादीप	46 से 58	महिला अ०ज०जा०	-
91		6	मेंगलादीप	58 से 70	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
91		7	मेंगलादीप	70 से 87	महिला सामान्य	5
91		8	मेंगलादीप	88 से 101/1		
91		9	मेंगलादीप	101/2 से 113		
91		10	मेंगलादीप	116 से 129		
91		11	मेंगलादीप	130 से 139/1		
91		12	मेंगलादीप	139/2 से 4		
91		13	मस्तुखेडी	1 से 17		
91		14	मस्तुखेडी	18 से 32		
91		15	अगवानी	1 से 50/1		

### ग्राम पंचायत कोटरीकला

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
92	कोटरीकला	1	कोटरीकला	1 से 33	अ०जा०	1
92		2	कोटरीकला	34 से 66	अ०ज०जा०	-
92		3	कोटरीकला	67 से 91	अन्य पिछडा वर्ग	2
92		4	कोटरीकला	92 से 123	महिला अ०जा०	1
92		5	कोटरीकला	125 से 164	महिला अ०ज०जा०	-
92		6	कोटरीकला	165 से 204	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
92		7	कोटरीकला	205 से 225	महिला सामान्य	6
92		8	कोटरीकला	226 से 253		
92		9	कोटरीकला	255 से 290		
92		10	कोटरीकला	296 से 322		
92		11	कोटरीकला	329 से 341		
92		12	कोटरीकला	342 से 369		
92		13	कोटरीकला	370 से 398		
92		14	कोटरीकला	400 से 433		
92		15	कोटरीकला	434 से 477		
92		16	कोटरीकला	478 से 498		
92		17	कोटरीकला	500 ख से 529		
92		18	कोटरीकला	531 से 566		
92		19	कोटरीकला	567 से 600		
92		20	कोटरीकला	601 से 617		

### ग्राम पंचायत पीपल्या बीरम

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
93	पीपल्या बीरम	1	पीपल्या बीरम	1 से 16	अ०जा०	1
93		2	पीपल्या बीरम	17/1 से 40/2	अ०ज०जा०	-
93		3	पीपल्या बीरम	41 से 56	अन्य पिछडा वर्ग	1
93		4	पीपल्या बीरम	57 से 72	महिला अ०जा०	2
93		5	पीपल्या बीरम	73 से 98	महिला अ०ज०जा०	-
93		6	पीपल्या बीरम	99 से 124	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
93		7	पीपल्या बीरम	125 से 141	महिला सामान्य	3
93		8	पीपल्या बीरम	142 से 162		
93		9	पीपल्या बीरम	169 से 191		
93		10	पीपल्या बीरम	192/1 से 210/2		
93		11	पीपल्या बीरम	211 से 232/7		
93		12	पीपल्या बीरम	233/1 से 251		
93		13	पीपल्या बीरम	252 से 1301/1		

## ग्राम पंचायत कण्डाराकोटरी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
94	कण्डाराकोटरी	1	कण्डाराकोटरी	2 से 13	अ0जा0	2
94		2	कण्डाराकोटरी	14/2 से 22	अ0ज0जा0	-
94		3	कण्डाराकोटरी	23 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
94		4	कण्डाराकोटरी	47 से 72	महिला अ0जा0	3
94		5	कण्डाराकोटरी	73/2 से 94	महिला अ0ज0जा0	-
94		6	कण्डाराकोटरी	100 से 115	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
94		7	कण्डाराकोटरी	116 से 139	महिला सामान्य	4
94		8	कण्डाराकोटरी	141 से 155/2		
94		9	कण्डाराकोटरी	156 से 199		
94		10	गुराडिया	1 से 26		
94		11	गुराडिया	27 से 41		
94		12	गुराडिया	42 से 52		
94		13	गुराडिया	54 से 64		
94		14	गुराडिया	65 से 71		
94		15	गुराडिया	72 से 87		
94		16	गुराडिया	98 से 111		
94		17	गुराडिया	114 से 132		

## ग्राम पंचायत हूलखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
95	हूलखेड़ी	1	हूलखेड़ी	1 से 15	अ0जा0	2
95		2	हूलखेड़ी	16 से 32	अ0ज0जा0	1
95		3	हूलखेड़ी	33 से 49	अन्य पिछडा वर्ग	-
95		4	हूलखेड़ी	50 से 66	महिला अ0जा0	3
95		5	हूलखेड़ी	67/1 से 75	महिला अ0ज0जा0	1
95		6	हूलखेड़ी	76 से 93	महिला अन्य पिछडा वर्ग	-
95		7	हूलखेड़ी	94 से 110	महिला सामान्य	3
95		8	हूलखेड़ी	111 से 130		
95		9	हूलखेड़ी	136 से 155		
95		10	हूलखेड़ी	156 से 169		
95		11	हूलखेड़ी	170 से 189		
95		12	हूलखेड़ी	190 से 205		
95		13	हूलखेड़ी	206 से 224		

### ग्राम पंचायत ताजीपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
96	ताजीपुरा	1	ताजीपुरा	1 से 14	अ०जा०	-
96		2	ताजीपुरा	15 से 29	अ०ज०जा०	-
96		3	ताजीपुरा	31 से 47	अन्य पिछडा वर्ग	3
96		4	ताजीपुरा	48 से 70	महिला अ०जा०	1
96		5	ताजीपुरा	71 से 88	महिला अ०ज०जा०	1
96		6	ताजीपुरा	90 से 106	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
96		7	ताजीपुरा	109 से 124	महिला सामान्य	5
96		8	ताजीपुरा	125 से 134		
96		9	मोतीपुरा	3 से 31		
96		10	मोतीपुरा	32 से 42		
96		11	मोतीपुरा	43 से 56		
96		12	मोतीपुरा	58 से 68		
96		13	मोतीपुरा	70/1 से 78/2		
96		14	मोतीपुरा	80 से 88		
96		15	मोतीपुरा	91/1 से 99/1		
96		16	मोतीपुरा	100/1 से 106		
96		17	मोतीपुरा	108/1 से 127		
96		18	मोतीपुरा	128 से 144		

## ग्राम पंचायत बोरखेड़ा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
97	बोरखेड़ा	1	बोरखेड़ा	1 से 23	अ0जा0	1
97		2	बोरखेड़ा	24 से 32	अ0ज0जा0	-
97		3	बोरखेड़ा	34 से 42	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
97		4	बोरखेड़ा	43 से 54	महिला अ0जा0	1
97		5	बोरखेड़ा	55 से 66	महिला अ0ज0जा0	-
97		6	बोरखेड़ा	67 से 77	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
97		7	बोरखेड़ा	79 से 89	महिला सामान्य	5
97		8	बोरखेड़ा	90 से 101		
97		9	बोरखेड़ा	102 से 117		
97		10	बोरखेड़ा	118 से 140		
97		11	बोरखेड़ा	143/1 से 152		
97		12	बोरखेड़ा	153 से 169		
97		13	बोरखेड़ा	170 से 184		
97		14	बोरखेड़ा	185 से 202		
97		15	बोरखेड़ा	203 से 215		
97		16	बोरखेड़ा	216 से 240		
97		17	बोरखेड़ा	241 से 252		
97		18	बोरखेड़ा भगवानपुरा	253 से 262 1 से 8		

### ग्राम पंचायत धनखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
98	धनखेड़ी	1	धनखेड़ी	1 से 18	अ0जा0	1
98		2	धनखेड़ी	19 से 31	अ0ज0जा0	-
98		3	धनखेड़ी	32 से 46	अन्य पिछडा वर्ग	2
98		4	धनखेड़ी	48 से 54	महिला अ0जा0	1
98		5	धनखेड़ी	62 से 77/2	महिला अ0ज0जा0	-
98		6	धनखेड़ी	79 से 87	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
98		7	धनखेड़ी	88 से 99	महिला सामान्य	6
98		8	धनखेड़ी	100 से 107		
98		9	धनखेड़ी	108 से 115		
98		10	धनखेड़ी	117/1 से 125		
98		11	धनखेड़ी	126 से 138		
98		12	लूलाखाल	1 से 15		
98		13	लूलाखाल	16 से 31		
98		14	लूलाखाल	32 से 40		
98		15	लूलाखाल	43 से 51		
98		16	लूलाखाल	53 से 66		
98		17	लूलाखाल	67 से 74		
98		18	लूलाखाल	75 से 83		
98		19	लूलाखाल	84 से 94		
98		20	लूलाखाल	95/क से 115		



### ग्राम पंचायत तुर्कीपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
99	तुर्कीपुरा	1	तुर्कीपुरा	1 से 14	अ०जा०	-
99		2	तुर्कीपुरा	16 से 32	अ०ज०जा०	-
99		3	तुर्कीपुरा	33 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	3
99		4	तुर्कीपुरा	46/1 से 52/5	महिला अ०जा०	1
99		5	तुर्कीपुरा	53 से 68	महिला अ०ज०जा०	1
99		6	तुर्कीपुरा	70 से 81	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
99		7	तुर्कीपुरा	83 से 96	महिला सामान्य	6
99		8	तुर्कीपुरा	97/1 से 107/2		
99		9	तुर्कीपुरा	108 से 114/2		
99		10	तुर्कीपुरा	118 से 130		
99		11	तुर्कीपुरा	131/1 से 139		
99		12	तुर्कीपुरा	140 से 148		
99		13	तुर्कीपुरा	149/1 से 155		
99		14	तुर्कीपुरा	156 से 165/2		
99		15	तुर्कीपुरा	166 से 175		
99		16	तुर्कीपुरा	176 से 194/4		
99		17	तुर्कीपुरा	196 से 213/2		
99		18	तुर्कीपुरा	214 से 227		
99		19	तुर्कीपुरा	228 से 255		
99		20	तुर्कीपुरा	256 से 332 तक		

### ग्राम पंचायत पटेलपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
100	पटेलपुरा	1	पटेलपुरा	1 से 16	अ०जा०	-
100		2	पटेलपुरा	17 से 35/4	अ०ज०जा०	-
100		3	पटेलपुरा	38 से 53/3	अन्य पिछडा वर्ग	2
100		4	पटेलपुरा	54 से 67	महिला अ०जा०	1
100		5	पटेलपुरा	68 से 84	महिला अ०ज०जा०	-
100		6	चौधरीपुरा	1 से 15	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
100		7	चौधरीपुरा	16 से 37	महिला सामान्य	5
100		8	चौधरीपुरा	39 से 45		
100		9	चौधरीपुरा	46 से 57		
100		10	चौधरीपुरा	58 से 192		
100		11	बामनपुरा	1 से 8/3		
100		12	बामनपुरा	9 से 18/3		
100		13	बामनपुरा	19/1 से 33/2		
100		14	दौलतपुरा	2 से 10		
100		15	दौलतपुरा	11 से 31		

### ग्राम पंचायत बनापुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
101	बनापुरा	1	बनापुरा	1 से 11	अ०जा०	2
101		2	बनापुरा	12 से 23	अ०ज०जा०	-
101		3	बनापुरा	24 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	2
101		4	बनापुरा	46 से 59	महिला अ०जा०	3
101		5	बनापुरा	60 से 78	महिला अ०ज०जा०	-
101		6	बनापुरा	79 से 96	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
101		7	बनापुरा	98 से 120	महिला सामान्य	4
101		8	बनापुरा	121 से 133		
101		9	बिरालखेड़ी	1 से 27		
101		10	बिरालखेड़ी	30 से 52		
101		11	बिरालखेड़ी	55 से 74		
101		12	बिरालखेड़ी	75 से 90		
101		13	बिरालखेड़ी	91 से 101		
101		14	बिरालखेड़ी	103 से 118		
101		15	बिरालखेड़ी	122 से 144		
101		16	बिरालखेड़ी	145 से 160		
101		17	बिरालखेड़ी	161 से 176/डू		

## ग्राम पंचायत बिरगड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
102	बिरगड़ी	1	बिरगड़ी	1 से 20	अ०जा०	1
102		2	बिरगड़ी	21 से 30	अ०ज०जा०	-
102		3	बिरगड़ी	31 से 48/2	अन्य पिछडा वर्ग	2
102		4	बिरगड़ी	49 से 57/2	महिला अ०जा०	1
102		5	बिरगड़ी	58 से 70	महिला अ०ज०जा०	1
102		6	बिरगड़ी	72 से 102	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
102		7	बावरोन	1/1 से 13	महिला सामान्य	4
102		8	बावरोन	14 से 26		
102		9	बावरोन	27 से 35/1		
102		10	बावरोन	39 से 48		
102		11	बावरोन	49 से 66		
102		12	कथीरी	2 से 9		
102		13	कथीरी	12 से 30		
102		14	कथीरी	31 से 44/2		
102		15	कथीरी	45 से 57		

## ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
103	पीपलखेड़ा	1	पीपलखेड़ा	1/1 से 5/1	अ०जा०	1
103		2	पीपलखेड़ा	5/2 से 16	अ०ज०जा०	-
103		3	पीपलखेड़ा	17 से 29/1	अन्य पिछडा वर्ग	3
103		4	पीपलखेड़ा	29/2 से 36	महिला अ०जा०	2
103		5	पीपलखेड़ा	37 से 46/2	महिला अ०ज०जा०	-
103		6	पीपलखेड़ा	47 से 61/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
103		7	पीपलखेड़ा	62 से 76	महिला सामान्य	6
103		8	पीपलखेड़ा	77 से 92		
103		9	पीपलखेड़ा	93 से 100		
103		10	पीपलखेड़ा	101 से 117		
103		11	पीपलखेड़ा	118/4 से 134		
103		12	पीपलखेड़ा	135 से 150		
103		13	पीपलखेड़ा	151 से 167		
103		14	ललोती	1 से 14		
103		15	ललोती	15 से 32		
103		16	ललोती	33 से 46		
103		17	ललोती	47/2 से 68/2		
103		18	ललोती	70 से 88		
103		19	ललोती	90 से 100		
103		20	ललोती	101 से 189ब		

### ग्राम पंचायत मानपुरा गुजराती

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
104	मानपुरा गुजराती	1	मानपुरा गुजराती	1 से 15	अ०जा०	1
104		2	मानपुरा गुजराती	16 से 26	अ०ज०जा०	-
104		3	मानपुरा गुजराती	28 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
104		4	मानपुरा गुजराती	49 से 64	महिला अ०जा०	1
104		5	मानपुरा गुजराती	67 से 87/3	महिला अ०ज०जा०	-
104		6	मानपुरा गुजराती	90/2 से 98	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
104		7	मानपुरा गुजराती	100 से 110	महिला सामान्य	4
104		8	मानपुरा गुजराती	111 से 119/6		
104		9	मानपुरा गुजराती	120 से 137		
104		10	मानपुरा गुजराती	138/1 से 125		
104		11	मानपुरा गुजराती	153 से 170/2		
104		12	मानपुरा गुजराती	171 से 187/1		
104		13	मानपुरा गुजराती	188 से 195 इ		
104		14	मानपुरा गुजराती	196/1 से 230/1		

### ग्राम पंचायत मुगलखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
105	मुगलखेड़ी	1	मुगलखेड़ी	1 से 15	अ०जा०	5
105		2	मुगलखेड़ी	16 से 31	अ०ज०जा०	-
105		3	मुगलखेड़ी	32 से 46	अन्य पिछडा वर्ग	-
105		4	मुगलखेड़ी	47 से 62	महिला अ०जा०	5
105		5	मुगलखेड़ी	63 से 76	महिला अ०ज०जा०	-
105		6	मुगलखेड़ी	77 से 93	महिला अन्य पिछडा वर्ग	-
105		7	मुगलखेड़ी	94 से 113	महिला सामान्य	4
105		8	मुगलखेड़ी	114 से 144		
105		9	लसूडिया भामा	1 से 19		
105		10	लसूडिया भामा	20 से 30		
105		11	लसूडिया भामा	31 से 50/2		
105		12	लसूडिया भामा	51 से 63		
105		13	लसूडिया भामा	66/1 से 76		
105		14	लसूडिया भामा	78 से 87		
105		15	लसूडिया भामा	88 से 102/1		
105		16	लसूडिया भामा	102/2 से 121		
105		17	लसूडिया भामा	122 से 131		

### ग्राम पंचायत साहूखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
106	साहूखेड़ी	1	साहूखेड़ी	1 से 10	अ0जा0	1
106		2	साहूखेड़ी	11 से 23	अ0ज0जा0	-
106		3	साहूखेड़ी	24 से 30	अन्य पिछडा वर्ग	2
106		4	साहूखेड़ी	32 से 39	महिला अ0जा0	1
106		5	साहूखेड़ी	40 से 46	महिला अ0ज0जा0	-
106		6	साहूखेड़ी	47 से 59	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
106		7	साहूखेड़ी	60 से 69	महिला सामान्य	5
106		8	साहूखेड़ी	70 से 76		
106		9	साहूखेड़ी	77/1 से 84/1		
106		10	साहूखेड़ी	85 से 95/3		
106		11	निपान्या बैला	1 से 6		
106		12	निपान्या बैला	7 से 17		
106		13	निपान्या बैला	18 से 23		
106		14	निपान्या बैला	24/1 से 28		
106		15	निपान्या बैला	29 से 46		
106		16	निपान्या बैला	47 से 56		

### ग्राम पंचायत बिजोरी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
107	बिजोरी	1	बिजोरी	1 से 15/1	अ0जा0	2
107		2	बिजोरी	16 से 25/2	अ0ज0जा0	-
107		3	बिजोरी	26/1 से 34/1	अन्य पिछडा वर्ग	2
107		4	बिजोरी	34/1 से 40/2	महिला अ0जा0	2
107		5	बिजोरी	41/1 से 49	महिला अ0ज0जा0	-
107		6	बिजोरी	51 से 64	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
107		7	बिजोरी	65 से 74	महिला सामान्य	5
107		8	बिजोरी	75 से 88		
107		9	बिजोरी	90 से 102		
107		10	बिजोरी	103 से 116		
107		11	बिजोरी	117 से 126		
107		12	सेमलागोगा	1 से 13		
107		13	सेमलागोगा	14 से 27		
107		14	सेमलागोगा	28 से 38/3		
107		15	सेमलागोगा	39 से 45		
107		16	सेमलागोगा	46 से 58		
107		17	सेमलागोगा	60 से 71		
107		18	सेमलागोगा	73 से 80		
107		19	सेमलागोगा	81 से 86		
107		20	सेमलागोगा	87/1 से 101		

### ग्राम पंचायत मानपिछोड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
108	मानपिछोड़ी	1	मानपिछोड़ी	1 से 5/2	अ0जा0	-
108		2	मानपिछोड़ी	6 से 14	अ0ज0जा0	-
108		3	मानपिछोड़ी	15 से 20	अन्य पिछडा वर्ग	2
108		4	मानपिछोड़ी	21 से 27	महिला अ0जा0	1
108		5	मानपिछोड़ी	27/1 से 36	महिला अ0ज0जा0	-
108		6	छापरीकलां	1 से 13	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
108		7	छापरीकलां	15 से 31	महिला सामान्य	4
108		8	छापरी खुर्द	1 से 7		
108		9	बड़ल्या	1 से 14		
108		10	बड़ल्या	15 से 35		
108		11	मोयली खुर्द	1 से 14		
108		12	मोयली खुर्द	17 से 28		
108		13	मोयली खुर्द	29 से 43		
108		14	कल्याणपुरा	1 से 27		

### ग्राम पंचायत झाड़ला

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
109	झाड़ला	1	झाड़ला	1 से 17	अ0जा0	2
109		2	झाड़ला	18 से 40	अ0ज0जा0	1
109		3	झाड़ला	41 से 58	अन्य पिछडा वर्ग	2
109		4	झाड़ला	60 से 77	महिला अ0जा0	2
109		5	झाड़ला	78 से 95	महिला अ0ज0जा0	1
109		6	झाड़ला	97 से 115	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
109		7	झाड़ला	117 से 135	महिला सामान्य	4
109		8	झाड़ला	136 से 157		
109		9	झाड़ला	158 से 178		
109		10	झाड़ला	178 ग से 196		
109		11	झाड़ला	197 से 219		
109		12	झाड़ला	219 क से 235		
109		13	झाड़ला	236 से 275		
109		14	झाड़ला	277 से 295 क		
109		15	झाड़ला	296 से 315		
109		16	झाड़ला	317 से 328		
109		17	झाड़ला	329 से 346		
109		18	झाड़ला	349 से 396		
109		19	जानूखेड़ी	2 से 15		
109		20	जानूखेड़ी	16 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत जामोन्यागोप चौहान

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
110	जामोन्यागोप चौहान	1	जामोन्यागोप चौहान	2 से 18	अ०जा०	2
110		2	जामोन्यागोप चौहान	20 से 28क	अ०ज०जा०	-
110		3	जामोन्यागोप चौहान	34 से 51	अन्य पिछडा वर्ग	2
110		4	जामोन्यागोप चौहान	52 से 69	महिला अ०जा०	2
110		5	जामोन्यागोप चौहान	70 से 81	महिला अ०ज०जा०	-
110		6	जामोन्यागोप चौहान	82 से 98	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
110		7	जामोन्यागोप चौहान	99 से 110/ग	महिला सामान्य	5
110		8	जामोन्यागोप चौहान	115क से 120		
110		9	जामोन्यागोप चौहान	121 से 128		
110		10	जामोन्यागोप चौहान	129 से 144/1		
110		11	जामोन्यागोप चौहान	145से 155		
110		12	जामोन्यागोप चौहान	156 से 165		
110		13	जामोन्यागोप चौहान	166 से 176		
110		14	जामोन्यागोप चौहान	177क से 190ख		
110		15	जामोन्यागोप चौहान	196 क से 208		
110		16	जामोन्यागोप चौहान	209 से 221		
110		17	जामोन्यागोप चौहान	222 से 236		
110		18	जामोन्यागोप चौहान	237 से 262		
110		19	जामोन्यागोप चौहान	263 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत मोयलीकलां

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
111	मोयलीकलां	1	मोयलीकलां	1 से 19	अ०जा०	1
111		2	मोयलीकलां	19क से 31	अ०ज०जा०	-
111		3	मोयलीकलां	32 से 46	अन्य पिछडा वर्ग	2
111		4	मोयलीकलां	49 से 54	महिला अ०जा०	1
111		5	मोयलीकलां	55 से 74	महिला अ०ज०जा०	-
111		6	मोयलीकलां	76 से 91	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
111		7	मोयलीकलां	92 से 112	महिला सामान्य	6
111		8	मोयलीकलां	114 से 128		
111		9	मोयलीकलां	129 से 140		
111		10	मोयलीकलां	141 से 153		
111		11	मोयलीकलां	162 से 179		
111		12	मोयलीकलां	180 से 202		
111		13	मोयलीकलां	204 से 209 भ		
111		14	मोयलीकलां	213 से 227		
111		15	मोयलीकलां	228 से 243		
111		16	मोयलीकलां	244 से 270		
111		17	मोयलीकलां	271 से 296		
111		18	मोयलीकलां	301 से 304		
111		19	मोयलीकलां	305 से 323		
111		20	मोयलीकलां	323क से 492		



## ग्राम पंचायत पालखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
112	पालखेड़ी	1	पालखेड़ी	2 से 14/2	अ०जा०	1
112		2	पालखेड़ी	18 से 30	अ०ज०जा०	-
112		3	पालखेड़ी	32 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
112		4	पालखेड़ी	44/1 से 52/1	महिला अ०जा०	1
112		5	बीजवा	1 से 16	महिला अ०ज०जा०	-
112		6	बीजवा	17 से 34	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
112		7	बीजवा	35 से 40	महिला सामान्य	6
112		8	बीजवा	41 से 51		
112		9	बीजवा	53 से 62		
112		10	बीलवा भट्ट	3 से 25		
112		11	बीलवा भट्ट	26 से 41		
112		12	बीलवा भट्ट	42 से 50/2		
112		13	मीरुखेड़ी	1 से 12		
112		14	मीरुखेड़ी	13 से 24/2		
112		15	मीरुखेड़ी	24/3 से 33		
112		16	मीरुखेड़ी	36 से 56		
112		17	मीरुखेड़ी	57 से 77		
112		18	पीपल्याकाजी	1 से 7		
112		19	पीपल्याकाजी	8 से 15		

## ग्राम पंचायत झागरिया

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
113	झागरिया	1	झागरिया	1/1 से 12	अ०जा०	1
113		2	झागरिया	13 से 27	अ०ज०जा०	-
113		3	झागरिया	28 से 43	अन्य पिछडा वर्ग	1
113		4	झागरिया	45 से 55	महिला अ०जा०	1
113		5	झागरिया	57 से 74	महिला अ०ज०जा०	1
113		6	झागरिया	76/1 से 94/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
113		7	झागरिया	94/3 से 116	महिला सामान्य	3
113		8	झागरिया	117 से 135/1		
113		9	चन्दरपुरा	1 से 16		
113		10	चन्दरपुरा	18 से 33		
113		11	चन्दरपुरा	35/1 से 44/1		
113		12	चन्दरपुरा	45 से 50/2		
113		13	चन्दरपुरा	58 से 74/		

### ग्राम पंचायत साँकाजागीर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
114	साँकाजागीर	1	साँकाजागीर	1 से 13	अ०जा०	-
114		2	साँकाजागीर	14 से 30	अ०ज०जा०	-
114		3	साँकाजागीर	31 से 47	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
114		4	साँकाजागीर	48 से 69	महिला अ०जा०	1
114		5	साँकाजागीर	70 से 82	महिला अ०ज०जा०	-
114		6	साँकाजागीर	83 से 92/क	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
114		7	साँकाजागीर	92 ख से 107	महिला सामान्य	5
114		8	साँकाजागीर	108 से 118		
114		9	साँकाजागीर	119 से 134		
114		10	साँकाजागीर	135 से 151		
114		11	फतेहपुर भाटपुरा	1/क से 12		
114		12	रेसई	1/1 से 18		
114		13	आमाल्याघाटा	1 से 8/2		
114		14	आमाल्याघाटा	9 से 17		

### ग्राम पंचायत लसूडल्याहाजी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
115	लसूडल्याहाजी	1	लसूडल्याहाजी	1/1 से 27	अ०जा०	1
115		2	लसूडल्याहाजी	28 से 49	अ०ज०जा०	-
115		3	लसूडल्याहाजी	50/1 से 57/1	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
115		4	लसूडल्याहाजी	57/2 से 71	महिला अ०जा०	2
115		5	लसूडल्याहाजी	75 से 89	महिला अ०ज०जा०	-
115		6	लसूडल्याहाजी	90/1 से 102	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
115		7	लसूडल्याहाजी	103 से 112	महिला सामान्य	3
115		8	लसूडल्याहाजी	113 से 126/2		
115		9	लसूडल्याहाजी	130 से 144		
115		10	लसूडल्याहाजी	145 से 157/2		
115		11	नाईहेडी	2 से 16		
115		12	मंगतपुर	1 से 14		
115		13	मंगतपुर	15 से 26		
115		14	मंगतपुर	27 से 37		

## ग्राम पंचायत लशकपुर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
116	लशकपुर	1	लशकपुर	1 से 15/1	अ०जा०	2
116		2	लशकपुर	16 से 24/1	अ०ज०जा०	-
116		3	लशकपुर	24/2 से 44	अन्य पिछडा वर्ग	2
116		4	लशकपुर	45 से 69	महिला अ०जा०	2
116		5	लशकपुर	70 से 84/2	महिला अ०ज०जा०	-
116		6	लशकपुर	85/1 से 104	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
116		7	लशकपुर	105 से 121	महिला सामान्य	4
116		8	सूण्डी	1 से 5		
116		9	सूण्डी	6 से 11क		
116		10	सूण्डी	11ग से 17		
116		11	सूण्डी	19क से 20		
116		12	सूण्डी	20ख से 45		
116		13	बरोड़ी	2/1 से 9/2		
116		14	बरोड़ी	9/3 से 25/4		
116		15	बरोड़ी	26 से 33		
116		16	बरोड़ी	34 से 50		

## ग्राम पंचायत तरेनीधाकड़

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
117	तरेनीधाकड़	1	तरेनीधाकड़	2 से 15/3	अ०जा०	1
117		2	तरेनीधाकड़	15/4 से 27	अ०ज०जा०	-
117		3	तरेनीधाकड़	28 से 40	अन्य पिछडा वर्ग	2
117		4	तरेनीधाकड़	42/1 से 54	महिला अ०जा०	2
117		5	तरेनीधाकड़	55 से 68	महिला अ०ज०जा०	-
117		6	तरेनीधाकड़	70 से 79	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
117		7	तरेनीधाकड़	80/1 से 87	महिला सामान्य	3
117		8	तरेनीधाकड़	88 से 93/1		
117		9	तरेनीधाकड़	93/2 से 102		
117		10	हिरनखेड़ी	1 से 12		
117		11	हिरनखेड़ी	13/1 से 19		
117		12	शिवपुरा	1 से 9		
117		13	शिवपुरा	10/1 से 21		
117		14	शिवपुरा	22 से 30		

### ग्राम पंचायत झाड़क्या

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
118	झाड़क्या	1	झाड़क्या	2 से 14	अ०जा०	2
118		2	झाड़क्या	15 से 19/7	अ०ज०जा०	-
118		3	झाड़क्या	19/8 से 28	अन्य पिछडा वर्ग	2
118		4	झाड़क्या	29 से 36/1	महिला अ०जा०	2
118		5	झाड़क्या	37 से 41/2	महिला अ०ज०जा०	-
118		6	झाड़क्या	42 से 51	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
118		7	झाड़क्या	52 से 63/2	महिला सामान्य	3
118		8	झाड़क्या	64/1 से 68		
118		9	झाड़क्या	67/3 से 79		
118		10	झाड़क्या	80 से 91		
118		11	झाड़क्या	92 से 102/2		
118		12	झाड़क्या	2 से 14		
118		13	झाड़क्या	16 से 31		
118		14	झाड़क्या	32 से 44		

### ग्राम पंचायत कांकरिया मीना

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
119	कांकरिया मीना	1	कांकरिया मीना	1 से 10/1	अ०जा०	1
119		2	कांकरिया मीना	10/2 से 23	अ०ज०जा०	-
119		3	कांकरिया मीना	23/2 से 34	अन्य पिछडा वर्ग	2
119		4	कांकरिया मीना	35 से 49	महिला अ०जा०	2
119		5	कांकरिया मीना	50 से 63	महिला अ०ज०जा०	-
119		6	कांकरिया मीना	64 से 80/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
119		7	कांकरिया मीना	81 से 103/1	महिला सामान्य	5
119		8	कांकरिया मीना	104 से 129		
119		9	कांकरिया मीना	130 से 138		
119		10	कांकरिया मीना	139 से 157		
119		11	कांकरिया मीना	159 से 181		
119		12	कांकरिया मीना	183 से 194		
119		13	कांकरिया मीना	198 से 1177		
119		14	चौकी	1 से 14		
119		15	चौकी	15 से 24		
119		16	चौकी	25 से 44		
119		17	चौकी	44/1 से 61		

## ग्राम पंचायत माना

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव	सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या.		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
120	माना	1	माना	1 से 18	अ०जा०	2
120		2	माना	19/1 से 42क	अ०ज०जा०	-
120		3	माना	43 से 59	अन्य पिछडा वर्ग	2
120		4	माना	60 से 69	महिला अ०जा०	2
120		5	माना	69 ख से 69म	महिला अ०ज०जा०	-
120		6	माना	76 से 94/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
120		7	माना	95 से 106/6	महिला सामान्य	5
120		8	माना	107/1 से 115/2		
120		9	माना	115/3 से 126/2		
120		10	माना	127 से 138		
120		11	माना	139 से 154/2		
120		12	माना	154/3 से 172/2		
120		13	माना	174 से 189		
120		14	माना	190/1 से 207		
120		15	माना	209/1 से 227		
120		16	माना	229 से 240/3		
120		17	माना	241 से 250/1		
120		18	माना	250/2 से 266		
120		19	माना	268/2 से 289		
120		20	माना	291 से 307		

## ग्राम पंचायत बड़नगर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
121	बड़नगर	1	बड़नगर	0 से 11/2	अ0जा0	-
121		2	बड़नगर	11/3 से 16	अ0ज0जा0	-
121		3	बड़नगर	17 से 26	अन्य पिछडा वर्ग	2
121		4	बड़नगर	31 से 33	महिला अ0जा0	1
121		5	बड़नगर	37 से 48	महिला अ0ज0जा0	-
121		6	बड़नगर	51 से 61	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
121		7	बड़नगर	62 से 67	महिला सामान्य	6
121		8	बड़नगर	69 से 78		
121		9	बड़नगर	81 से 87		
121		10	बड़नगर	88 से 94/1		
121		11	बड़नगर	94/3 से 105		
121		12	बड़नगर	106 से 120		
121		13	बड़नगर	121 से 162/1		
121		14	बिलेहरी	0 से 12		
121		15	बिलेहरी	15 से 27		
121		16	बिलेहरी	28 से 42/2		
121		17	बिलेहरी	42/3 से 50		

## ग्राम पंचायत गीलाखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
122	गीलाखेड़ी	1	गीलाखेड़ी	1 से 7	अ०जा०	2
122		2	गीलाखेड़ी	8 से 15/2	अ०ज०जा०	-
122		3	गीलाखेड़ी	16 से 32/1	अन्य पिछडा वर्ग	3
122		4	गीलाखेड़ी	32/2 से 36	महिला अ०जा०	3
122		5	गीलाखेड़ी	37 से 47	महिला अ०ज०जा०	-
122		6	गीलाखेड़ी	48 से 57/4	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
122		7	गीलाखेड़ी	57/5 से 63/3	महिला सामान्य	5
122		8	गीलाखेड़ी	64 से 76		
122		9	गीलाखेड़ी	76 क से 89		
122		10	गीलाखेड़ी	91/1 से 106/2		
122		11	गीलाखेड़ी	107 से 112 ख		
122		12	गीलाखेड़ी	113 से 122		
122		13	गीलाखेड़ी	123/1 से 135		
122		14	गीलाखेड़ी	136/2 से 148		
122		15	गीलाखेड़ी	149 से 274/2		
122		16	सेमलखेड़ी	7/2 से 23/4		
122		17	सेमलखेड़ी	26 से 40/1		
122		18	सेमलखेड़ी	40/2 से 57/1		
122		19	सेमलखेड़ी	57/2 से 72/2		
122		20	सेमलखेड़ी	72 क से 81/4		

### ग्राम पंचायत खेर खेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
123	खेर खेड़ी	1	खेर खेड़ी	2 से 15/2	अ0जा0	-
123		2	खेर खेड़ी	16/2 से 25	अ0ज0जा0	-
123		3	खेर खेड़ी	28 से 36/1	अन्य पिछडा वर्ग	2
123		4	खेर खेड़ी	39 से 46	महिला अ0जा0	1
123		5	खेर खेड़ी	50 से 56	महिला अ0ज0जा0	-
123		6	नाईहेड़ी	2/ 1 से 11/3	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
123		7	नाईहेड़ी	12 से 17	महिला सामान्य	4
123		8	नाईहेड़ी	18 से 30		
123		9	नाईहेड़ी	31/1 से 39		
123		10	नाईहेड़ी	41 से 54		
123		11	नाईहेड़ी	55 से 66/1		
123		12	छतरपुरा	1 से 11/1		
123		13	छतरपुरा	11/2 से 17		
123		14	छतरपुरा	18 से 28		

### ग्राम पंचायत शिवपुरा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न0 से मकान न0 तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
124	शिवपुरा	1	शिवपुरा	1 से 27	अ0जा0	1
124		2	शिवपुरा	28/1 से 34	अ0ज0जा0	-
124		3	शिवपुरा	35 से 42	अन्य पिछडा वर्ग	2
124		4	शिवपुरा	43 से 56	महिला अ0जा0	1
124		5	शिवपुरा	57 से 67	महिला अ0ज0जा0	-
124		6	शिवपुरा	70 से 85	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
124		7	शिवपुरा	86 से 96	महिला सामान्य	6
124		8	शिवपुरा	97/1 से 104/2		
124		9	शिवपुरा	105 से 105/3		
124		10	गडूपुरा	1/1 से 10/1		
124		11	गडूपुरा	10/2 से 22		
124		12	गेहूखेड़ीकलां	1 से 10		
124		13	गेहूखेड़ीकलां	12 से 22		
124		14	गेहूखेड़ीकलां	23 से 29		
124		15	गेहूखेड़ीकलां	30 से 39		
124		16	गेहूखेड़ीकलां	41 से 51		
124		17	गेहूखेड़ीकलां	52 से 63		
124		18	गेहूखेड़ीखुर्द	1 से 13		
124		19	गेहूखेड़ीखुर्द	14 से 22		
124		20	गेहूखेड़ीखुर्द	26 से 37		



## ग्राम पंचायत सूकली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
125	सूकली	1	सूकली	2 से 15	अ०जा०	-
125		2	सूकली	16 से 29/2	अ०जा०जा०	1
125		3	सूकली	30 से 46/3	अन्य पिछडा वर्ग	1
125		4	सूकली	48/1 से 60/1	महिला अ०जा०	1
125		5	सूकली	60/2 से 67/4	महिला अ०जा०जा०	-
125		6	सूकली	68/1 से 80	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
125		7	सूकली	83 से 99	महिला सामान्य	4
125		8	सूकली	100 से 117		
125		9	सूकली	118 से 132		
125		10	सूकली	133 से 143/3		
125		11	सूकली	148 से 157/2		
125		12	सूकली	157/3 से 168/2		
125		13	सूकली	169/1 से 179		

## ग्राम पंचायत बमोरा सूखा

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
126	बमोरा सूखा	1	बमोरा सूखा	2 से 25	अ०जा०	2
126		2	बमोरा सूखा	26 से 38	अ०जा०जा०	1
126		3	बमोरा सूखा	40 से 58	अन्य पिछडा वर्ग	2
126		4	बमोरा सूखा	59 से 77	महिला अ०जा०	3
126		5	बमोरा सूखा	85से 103/2	महिला अ०जा०जा०	1
126		6	बमोरा सूखा	110 से 122	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
126		7	बमोरा सूखा	124 से 146	महिला सामान्य	4
126		8	बमोरा सूखा	148 से 190		
126		9	चूमली	1 से 24		
126		10	चूमली	25 से 40		
126		11	चूमली	43 से 54		
126		12	सेदरी	2 से 19		
126		13	सेदरी	20 से 37		
126		14	सेदरी	38 से 55		
126		15	सेदरी	56 से 66 क		
126		16	करवां	5 से 26		
126		17	करवां	28 से 50		
126		18	करवां	51/1 से 63/2		
126		19	करवां	65 से 74		
126		20	करवां	75 से 78		

## ग्राम पंचायत गागर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
127	गागर	1	गागर	3 से 20	अ०जा०	1
127		2	गागर	25 से 46	अ०ज०जा०	-
127		3	गागर	47 से 66	अन्य पिछडा वर्ग	2
127		4	गागर	66/1 से 70/8	महिला अ०जा०	2
127		5	गागर	70/9 से 90	महिला अ०ज०जा०	-
127		6	गागर	92 से 113/6	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
127		7	गागर	114/1 से 132	महिला सामान्य	3
127		8	गागर	134 से 319		
127		9	तूती	6/2 से 37		
127		10	तूती	41 से 73		
127		11	तूती	75 से 96		
127		12	तूती	98 से 114		
127		13	तूती	115 से 130		
127		14	तूती	131 से 195		

## ग्राम पंचायत उमरी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
128	उमरी	1	उमरी	1/1 से 12	अ०जा०	2
128		2	उमरी	13 से 24	अ०ज०जा०	-
128		3	उमरी	25 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	2
128		4	उमरी	47 से 60	महिला अ०जा०	2
128		5	उमरी	61 से 77/1	महिला अ०ज०जा०	1
128		6	उमरी	77/2 से 95	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
128		7	उमरी	96 से 113	महिला सामान्य	2
128		8	उमरी	114 से 125		
128		9	उमरी	126 से 139		
128		10	उमरी	140 से 154		
128		11	उमरी	155 से 176		
128		12	आखखेड़ा	1 से 24		
128		13	आखखेड़ा	29/1 से 42		
128		14	आखखेड़ा	42/2 से 94/3		

## ग्राम पंचायत कुदाली

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
129	कुदाली	1	कुदाली	1 से 12/1	अ०जा०	1
129		2	कुदाली	13 से 22/1	अ०ज०जा०	-
129		3	कुदाली	22/2 से 28	अन्य पिछडा वर्ग	2
129		4	कुदाली	29 से 37/2	महिला अ०जा०	2
129		5	कुदाली	37/3 से 47/3	महिला अ०ज०जा०	-
129		6	कुदाली	48/1 से 56/2	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
129		7	कुदाली	56/3 से 67/1	महिला सामान्य	4
129		8	कुदाली	67/2 से 75/2		
129		9	कुदाली	75/3 से 86		
129		10	मूण्डलाबजरंग	1 से 12/2		
129		11	मूण्डलाबजरंग	12/3 से 20/1		
129		12	मूण्डलाबजरंग	20/2 से 31/1		
129		13	मूण्डलाबजरंग	31/2 से 40		
129		14	मूण्डलाबजरंग	41 से 48		
129		15	मूण्डलाबजरंग	49 से 65		

## ग्राम पंचायत निपान्याचेतन

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
130	निपान्याचेतन	1	निपान्याचेतन	1 से 20	अ०जा०	1
130		2	निपान्याचेतन	21 से 32	अ०ज०जा०	-
130		3	निपान्याचेतन	33 से 45	अन्य पिछडा वर्ग	2
130		4	निपान्याचेतन	46 से 55	महिला अ०जा०	1
130		5	निपान्याचेतन	60 से 74	महिला अ०ज०जा०	-
130		6	निपान्याचेतन	76 से 88	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
130		7	निपान्याचेतन	90 से 104	महिला सामान्य	5
130		8	निपान्याचेतन	109 से 120		
130		9	निपान्याचेतन	121 से 202		
130		10	चाँद बड़ली	1 से 14		
130		11	चाँद बड़ली	15 से 25		
130		12	चाँद बड़ली	27 से 41		
130		13	चाँद बड़ली	42 से 50/1		
130		14	चाँद बड़ली	50/3 से 60		
130		15	चाँद बड़ली	62/1 से 73		

### ग्राम पंचायत पीलूखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
131	पीलूखेड़ी	1	पीलूखेड़ी	1 से 18/6	अ०जा०	1
131		2	पीलूखेड़ी	22 से 42/1	अ०ज०जा०	-
131		3	पीलूखेड़ी	42/3 से 60	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
131		4	पीलूखेड़ी	65 से 81/2	महिला अ०जा०	1
131		5	पीलूखेड़ी	85 से 110/1	महिला अ०ज०जा०	-
131		6	पीलूखेड़ी	111 से 129	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
131		7	पीलूखेड़ी	130 से 139/3	महिला सामान्य	6
131		8	पीलूखेड़ी	140 से 151		
131		9	पीलूखेड़ी	153/1 से 159/2		
131		10	पीलूखेड़ी	161/3 से 176/1		
131		11	पीलूखेड़ी	177 से 193/1		
131		12	पीलूखेड़ी	194 से 223		
131		13	पीलूखेड़ी	228 से 237/1		
131		14	पीलूखेड़ी	238 से 247		
131		15	पीलूखेड़ी	248 से 377		
131		16	तुर्कीपुरा	4 से 32		
131		17	तुर्कीपुरा	35/1 से 91/1		
131		18	सेवास	3 से 22		
131		19	सेवास	23 से 56		
131		20	सेवास	57 से 93		

### ग्राम पंचायत परसूखेड़ी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक/गांव		सीमा गांव के मकान न० से मकान न० तक	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3		4	5	6
132	परसूखेड़ी	1	परसूखेड़ी	4 से 33/1	अ०जा०	-
132		2	परसूखेड़ी	33/2 से 41	अ०ज०जा०	-
132		3	परसूखेड़ी	43 से 56/2	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
132		4	परसूखेड़ी	57 से 80	महिला अ०जा०	1
132		5	परसूखेड़ी	82 से 104	महिला अ०ज०जा०	1
132		6	परसूखेड़ी	110 से 132	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
132		7	परसूखेड़ी	133 से 161	महिला सामान्य	3
132		8	परसूखेड़ी	162 से 180		
132		9	परसूखेड़ी	183 से 199		
132		10	परसूखेड़ी	200 से 209/1		
132		11	परसूखेड़ी	209/2 से 224		

## ग्राम पंचायत कालापीपल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कालापीपल	1-कालापीपल	1से 7/2	अजा	1
		2	8 से 17/3	अजजा	1
		3	18 से 32	अ.पि.वर्ग	2
		4	33 से 42	महिला अजा	2
		5	43 से 54	महिला अजजा	1
		6	55 से 62	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	63 से 71	महिला अनारक्षित	3
		8	72 से अंत तक		
		9-बुडनपुर	1 से 10 तक		
		10	11 से 21 क		
		11	22 से 30		
		12	31 से 38 क		
		13	40 से 50		
		14	51 से अंत तक		
		15-टोलीघांटा	1 से 8/2		
		16	9 से अंत तक		
	राजपुरा	वीरान			

## ग्राम पंचायत खजूरियाहरी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
2	खजूरियाहरी	1-खजूरियाहरी	1 से 12	अजा	1
		2	13 से 25	अजजा	1
		3	26 क से 40	अ.पि.वर्ग	2
		4	41 से 50 ड	महिला अजा	1
		5	51 से 63	महिला अजजा	1
		6	64 से अंत तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7-घोसला	1 से 14	महिला अनारक्षित	4
		8	15 से 29		
		9	30 से 43		
		10	44 से अंत तक		
		11-सुल्तानियाखुर्द	1 से 12		
		12	13 से अंत तक		
		13-झांझाहेडी	01 से 12		
		14	14 से 27		
		15	28 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत देवलीमान जाँगीर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
3	देवलीमान जाँगीर	1-देवलीमानजागीर	2 से 11 ख	अजा	1
		2	12 से 23 ग	अजजा	0
		3	24 से 34	अ.पि.वर्ग	2
		4	35 से 46	महिला अजा	1
		5	47 ख से 59 ख	महिला अजजा	0
		6	60 से 68 अंत तक	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7-देवलीमानखालसा	1 क से 10 ख	महिला अनारक्षित	6
		8	11 क से 21		
		9	22 क से 33		
		10	34 से अंत तक		
		11-चांदनीजागीर	1 से 14		
		12	15 से 24/2		
		13	25 से 35		
		14	36/1 से अंत तक		
		15-पीपल्याभोची	1 से 3/1		
		16	3/2 से 10 घ		
		17	11 से 21		
		18	21 क से 29		
		19	29/1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत मूडलालोदा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
4	मूडलालोदा	1-मूडलालोदा	1 से 12/11	अजा	1
		2	13/2 से 21	अजजा	0
		3	22 से 26	अ.पि.वर्ग	2
		4	27 से 35 क	महिला अजा	2
		5	36 से 50	महिला अजजा	1
		6	51 से 69	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	72 से 81	महिला अनारक्षित	4
		8	82 से 95		
		9	96 से 104		
		10	105 से 113		
		11	114 से 128		
		12	129 से 138/1		
		13	138/2 से 149/3		
		14	150 से 161		
		15	162 से 172		
		16	174 से 183		
		17	184 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत झिरी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
5	झिरी	1-झिरी	1 से 10 तक	अजा	1
		2	11 से 18	अजजा	1
		3	19 से 33/ख	अ.पि.वर्ग	1
		4	34 ख से 48 ख	महिला अजा	1
		5	51 से 62	महिला अजजा	1
		6	63 से 78	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	79 से 93	महिला अनारक्षित	3
		8	94 से अंत तक		
		9-निधान्याबीका	2 से 20		
		10	20 क से 42		
		11	43 से 57 ख		
		12	58 क से 73		
		13	74 क से अंत तक		

### ग्राम पंचायत भूमका

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
6	भूमका	1-भूमका	1 से 17	अजा	2
		2	18 से 28	अजजा	0
		3	29 से 38	अ.पि.वर्ग	2
		4	40 से 47	महिला अजा	2
		5	48 से 58	महिला अजजा	0
		6	59 से 70	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	71 से 83	महिला अनारक्षित	5
		8	84 से 101		
		9	103 से 117		
		10	120 से 134		
		11	135 से अंत तक		
		12-सुस्थाहेडी	1 से 11 ख तक		
		13	12 क से 21 ख		
		14	25 से 40		
		15	42 से 50 छ		
		16	51 से 60		
		17	61 से 75		
		18	76 से 89 ग		
		19	90 से 103		
		20	104 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत साबरस्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
7	साबरस्या	1-साबरस्या	1 से 21	अजा	2
		2	22 से 38	अजजा	0
		3	40 से 59	अ.पि.वर्ग	1
		4	60 से 75	महिला अजा	2
		5	76 से 90	महिला अजजा	0
		6	91 से 107	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	108 से 128	महिला अनारक्षित	3
		8	129/1 से 141		
		9	142 से 161		
		10	162 से 178		
		11	179 से 198/3		
		12	199 से 213		
		13	214 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत सिमरोल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
8	सिमरोल	1-सिमरोल	1 से 11/2	अजा	1
		2	12 से 29/2	अजजा	0
		3	31 से 48	अ.पि.वर्ग	2
		4	49 से 59	महिला अजा	1
		5	60 से 71	महिला अजजा	1
		6	72 से 83/3	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	84 से 101	महिला अनारक्षित	4
		8	102 से 117/3		
		9	118 से 134		
		10	137 से अंत तक		
		11-भीकनपुर	1 से 17		
		12	19/1 से 31		
		13	35 से 52		
		14	53 से अंत तक		
		15-मेहरीछोटी	1 से 19		
		16	20/1 से 36/1		
		17	37/1 से 52		
		18	53 से 74 तक		



## ग्राम पंचायत कडलावद

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
9	कडलावद	1--कडलावद	1 से 23/2	अजा	3
		2	24 से 39	अजजा	0
		3	40 से 58	अ.पि.वर्ग	2
		4	62 से 85	महिला अजा	4
		5	86 से 99	महिला अजजा	1
		6	100 से 116	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	117 से 133	महिला अनारक्षित	2
		8	134/1 से 149/3		
		9	150 से 169		
		10	171/1 से 176/3		
		11	177 से 192		
		12	193 से 208		
		13	209 से 223		
		14	224 से 235		
		15	236 से 251		
		16	252 से 264		
		17	265 से अंत		

## ग्राम पंचायत शामगीघाटा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
10	शामगीघाटा	1--शामगीघाटा	1 से 18	अजा	1
		2	18 क से 32/2	अजजा	1
		3	33 से 42	अ.पि.वर्ग	2
		4	42/1 से 54	महिला अजा	1
		5	55 से 70	महिला अजजा	2
		6	71 से 86	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	87 से अंत तक	महिला अनारक्षित	4
		8--तिसाई	1 से 17		
		9	18 से 32		
		10	33 से 45		
		11	46 से अंत तक		
		12--खेरखेडी	1 से 23/1		
		13	24 से 40		
		14	41 से अंत तक		
		15--तितरी	1 से 18		
		16	19 से 32/2		
		17	33/1 से 46		
		18	47 से 60		
		19	61 से 75		
		20	76 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत खजुरियाघाट

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
11	खजुरियाघाटा	1--खजुरियाघाटा	1 से 11	अजा	1
		2	12 से 22	अजजा	1
		3	23 से 34	अ.पि.वर्ग	1
		4	35 से 44	महिला अजा	1
		5	45 से 59	महिला अजजा	2
		6	60 से 72	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	73 से 83	महिला अनारक्षित	1
		8	84 से 90		
		9	91 से 100		
		10	101 से 110		
		11	111 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बारोल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
12	बारोल	1--बारोल	1 से 9	अजा	1
		2	10 से 19	अजजा	1
		3	20 से 33	अ.पि.वर्ग	2
		4	34 से 45	महिला अजा	2
		5	46 से 55	महिला अजजा	2
		6	56 से 65	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	66 से 75	महिला अनारक्षित	2
		8	76 से 96		
		9--खेरवाखेडी	1 से 16		
		10	17 से 26		
		11	27 से 39		
		12	40 से 50		
		13	51 से 62		
		14	63 से 74		
		15	75 से 83		
		16	84 से अंत		

### ग्राम पंचायत निपान्यातुला

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
13	निपान्यातुला	1-निपान्यातुला	1 से 16	अजा	1
		2	17 से 28	अजजा	0
		3	29 से 47	अ.पि.वर्ग	1
		4	48 से 65	महिला अजा	2
		5	66 से 87	महिला अजजा	0
		6	88 से 104	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	105 से 119	महिला अनारक्षित	3
		8	120 से 135		
		9	136 से 151		
		10	152 से 169		
		11	170 से 186		
		12	187 से 205		
		13	206 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत देदला

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
14	देदला	1-देदला	1 से 18	अजा	1
		2	19 से 37	अजजा	1
		3	38 से 54	अ.पि.वर्ग	1
		4	55 से 71	महिला अजा	1
		5	72 से 92	महिला अजजा	2
		6	93 से 112	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	113 से अंत तक	महिला अनारक्षित	1
		8-दयाखेडी	1 से 16		
		9	18 से 33		
		10	34 से 59/2		
		11	60 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत सेमलीलोडा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
15	सेमलीलोडा	1-सेमलीलोडा	1 से 14	अज्ञा	1
		2	17 से 37	अजजा	0
		3	38 से 50	अ.पि.वर्ग	2
		4	51 से 66	महिला अज्ञा	1
		5	67 से 89	महिला अजजा	0
		6	90 से 101/2	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	102 से 114	महिला अनारक्षित	4
		8	116 से 132		
		9	133 से 145		
		10	146 से 159/3		
		11	160 से 174/1		
		12	175 से 195		
		13	196 से 212		
		14	213 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत संडावता

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
16	संडावता	1-संडावता	1 क से 25 क	अज्ञा	1
		2	26 क से 52	अजजा	1
		3	53 क से 83 क	अ.पि.वर्ग	2
		4	84 से 113	महिला अज्ञा	1
		5	114 से 146	महिला अजजा	1
		6	147 क से 179	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	180 से 204	महिला अनारक्षित	5
		8	206 से 231		
		9	232 से 260		
		10	261 क से 291		
		11	292 से 328		
		12	329 से 364		
		13	365 से 382		
		14	383 से 418		
		15	422 से 449		
		16	451 से 467 अ		
		17(मिलकाना)	468 ट से 482		
		18	483 क से 500 ख		
		19	502 से 523		
		20	524 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बरखेडाखुरम

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
17	बरखेडाखुरम	1-बरखेडाखुरम	1 से 21	अजा	2
		2	22 से 43 ख	अजजा	0
		3	44 से 58	अ.पि.वर्ग	2
		4	59 से 68/1	महिला अजा	2
		5	68/2 से 69/3	महिला अजजा	0
		6	70/1 से 74/3	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	75/1 से 83	महिला अनारक्षित	4
		8	84 से अंत तक		
		9-मूंडलामउ	1 से 17		
		10	18 से 33		
		11	36/1 से 48		
		12	49 से अंत तक		
		13-खंजरपुर	1 से 10		
		14	11 से 23		
		15	23/1 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत काल्याखेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
18	काल्याखेडी	1-काल्याखेडी	2/1 से 8	अजा	1
		2	9 से 18/1	अजजा	0
		3	18/2 से 37/1	अ.पि.वर्ग	2
		4	38/1 से 49/2	महिला अजा	1
		5	50 से 57/3	महिला अजजा	0
		6	59/1 से 71	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	72/1 से 86	महिला अनारक्षित	4
		8	86/1 से 91		
		9	92/1 से 100/1		
		10	100/2 से 126 तक		
		11-घाटाखेडी	1 से 6		
		12	7 से 16		
		13	17 से 25		
		14	26/1 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत डोबडाजोगी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
19	डोबडाजोगी	1-डोबडाजोगी	1 से 19	अजा	2
		2	20 से 36	अजजा	0
		3	37 से 48	अ.पि.वर्ग	2
		4	50 से 77	महिला अजा	3
		5-भीलखेडा	1 से 7	महिला अजजा	0
		6	8/1 से 11	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	12 से 19	महिला अनारक्षित	4
		8	20 से 28 ख		
		9	29 से 41		
		10	42 से 64		
		11	55 से 66		
		12	67 से 75		
		13-जयनगरजोधाना	1 से 17		
		14	19 से 33		
		15	35 से 54		
		16	55 से 80 तक		
		17-खैरासी	1 से 15 तक		

## ग्राम पंचायत भ्याना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
20	भ्याना	1-भ्याना	1 से 25/2	अजा	2
		2	26/1 से 51	अजजा	1
		3	53 से 83	अ.पि.वर्ग	2
		4	84 से 111	महिला अजा	2
		5	113 से 137	महिला अजजा	1
		6	138 से 164	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	165 से 187	महिला अनारक्षित	4
		8	188 से 217		
		9	218 से 242		
		10	243 से 266/1		
		11	266/2 से 286		
		12	287 से 308		
		13	309 से 334		
		14	335 से 359		
		15	360 से 381		
		16	383 से 405		
		17	406 से 432		
		18	433 से 456/2		
		19	457 से 481/2		
		20	482 से 522 तक		

## ग्राम पंचायत हराना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
21	हराना	1-हराना	1 से 32	अज्ञा	2
		2	33 से 49	अज्ञा	0
		3	50 से 70	अ.पि.वर्ग	2
		4	71 से 85	महिला अज्ञा	3
		5	86 से 112	महिला अज्ञा	0
		6	113 से 135	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	136 से 160	महिला अनारक्षित	4
		8	161 से 175		
		9	176 से 192		
		10	193 से 210		
		11	211 से 226		
		12	227 से 246		
		13	247 से 270		
		14	271 से 285		
		15	286 से 297		
		16	298 से 316		
		17	317 से 325		
		18	326 से 366		
		19	371 से 393		
		20	394 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत दराना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
22	दराना	1-दराना	1 से 11	अज्ञा	2
		2	12/1 से 22	अज्ञा	0
		3	23 से 36	अ.पि.वर्ग	2
		4	37/1 से 51	महिला अज्ञा	2
		5	52 से 64	महिला अज्ञा	0
		6	65/1 से 75	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	75/1 से 83	महिला अनारक्षित	3
		8	84/1 से 101/3		
		9	102 से 116		
		10	117 से 132		
		11	133 से 143		
		12	147 से 165		
		13-देवीपुरा	1 से 11		
		14	12 से 27		

### ग्राम पंचायत लीमाचौहान

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
23	लीमाचौहान	1-लीमाचौहान	2 से 26	अजा	1
		2	27 क से 42	अजजा	0
		3	43 से 70	अ.पि.वर्ग	2
		4	71 क से 89	महिला अजा	2
		5	91 से 111	महिला अजजा	0
		6	112 से 138 ख	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	139 से 152	महिला अनारक्षित	5
		8	153 से 181 ख		
		9	183 से 210		
		10	212 से 221		
		11	224 से 258		
		12	259 से 299		
		13	300 से 337 ख		
		14	338 से 372		
		15	373 से 400		
		16	401 से अंत तक		
		17-पठारी	1 क से 18/2		
		18	19/1 से 44		
		19	45 से 71/2		
		20	72 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत भाटखेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
24	भाटखेडी	1-भाटखेडी	1 से 9 ग	अजा	1
		2	14 से 36	अजजा	0
		3	37 से 58	अ.पि.वर्ग	2
		4	59 से 72	महिला अजा	2
		5	75 से 86	महिला अजजा	0
		6	88 से 104	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	105 से 122	महिला अनारक्षित	3
		8	123 से 144		
		9	145 से 162		
		10	163 से 180 क		
		11	183 से 206		
		12	210 से 226		
		13	227 से 234क		
		14	236 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत काचरियाभाई

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
25	काचरियाभाई	1-काचरियाभाई	1 से 11 तक	अजा	2
		2	12 से 26 तक	अजजा	2
		3	27 से 41	अ.पि.वर्ग	2
		4	44 से 62	महिला अजा	2
		5	63 से 86	महिला अजजा	3
		6	87 से 104	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	105 से 124	महिला अनारक्षित	2
		8	125 से 143		
		9	144 से 172 ग		
		10-बापच्या	1 क से 10		
		11	11 से 19		
		12	20 से 35		
		13	36 से 54		
		14	57 क से 69 क		
		15	70 से 88 क तक		
		16	89 से अंत तक		
		17-बिरगडी	1 से 23		
		18	23 क से 42 क तक		
		19-मेहताबपुरा	1 से 15 तक		
		20	16 से 2 अंत तक		

## ग्राम पंचायत कूपा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
26	कूपा	1-कूपा	1 क से 19	अजा	1
		2	20 से 37	अजजा	1
		3	39 से 49	अ.पि.वर्ग	3
		4	51 से 61	महिला अजा	2
		5	62 से 75	महिला अजजा	1
		6	76 से 88	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	90 से 110	महिला अनारक्षित	1
		8	112 से 123		
		9	124 से 142		
		10	143 से 172		
		11-बिरजीपुरा	1 से 16/1		
		12	17 से 31		
		13	32 से 44		
		14	44/1 से 61		
		15	62 से 74 क तक		

### ग्राम पंचायत दुग्गा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
27	दुग्गा	1-दुग्गा	1 से 20 तक	अजा	3
		2	21 से 53	अजजा	0
		3	54 से 72	अ.पि.वर्ग	2
		4	73 से 86	महिला अजा	3
		5	87 से 101	महिला अजजा	1
		6	102 से 119	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	120 से 136	महिला अनारक्षित	2
		8	137 से 157		
		9	158 से 175		
		10	176 से 185/3		
		11-सुल्तानपुरा	1 से 13		
		12	14 से 24		
		13	25 से 35		
		14	36 से 43		
		15	44 से 55		
		16	56 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत ब्यावरामाण्डू

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
28	ब्यावरामाण्डू	1-ब्यावरामाण्डू	1 से 30	अजा	2
		2	31 से 46	अजजा	1
		3	47 से 67 क/1	अ.पि.वर्ग	2
		4	68 से 92	महिला अजा	2
		5	93 से 114	महिला अजजा	1
		6	115 से 130	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	131 से 149	महिला अनारक्षित	4
		8	150 से 169		
		9	170 से 190		
		10	191 से 209		
		11	210 से 234/1		
		12	235 से 253		
		13	254 से 279		
		14	280 से 294		
		15	295 से अंत तक		
		16-विदेशी	1 से 22		
		17	23 से 41		
		18	53 से 59		
		19	60 से 84		
		20	85 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बालोडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
29	बालोडी	1-बालोडी	1 से 8 क तक	अजा	3
		2	9 से 14 तक	अजजा	1
		3	16 से 22 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	23 से 27 तक	महिला अजा	3
		5	28 से 38 तक	महिला अजजा	1
		6	39/1 से 44 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	45 से 49/3	महिला अनारक्षित	2
		8	50 से 53 तक		
		9	54 से 60 तक		
		10	61 से 68 तक		
		11	69 से 76 तक		
		12	78 से 83 तक		
		13	84 से 91 तक		
		14	92 से 98 तक		
		15	98 से 104 तक		
		16	105 से 124/4 तक		

### ग्राम पंचायत बिगनोदीपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
30	बिगनोदीपुरा	1-बिगनोदीपुरा	1 से 15 ग	अजा	2
		2	16 से 28 ग	अजजा	1
		3	29 से 43	अ.पि.वर्ग	1
		4	44 से 59	महिला अजा	2
		5	60 से 70	महिला अजजा	1
		6	71 से 89	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	90 से 120	महिला अनारक्षित	2
		8-जीवाजीपुरा	1 से 19		
		9	21 से 34 तक		
		10-खासापुरा	1 से 8		
		11	9 से 13		
		12	14 से 20		
		13	25 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत आमगढा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
31	आमगढा	1-आमगढा	1 से 12	अजा	1
		2	13 से 28	अजजा	1
		3	29 से 46	अ.पि.वर्ग	2
		4	47 से 68/1	महिला अजा	1
		5	69 से 81	महिला अजजा	1
		6	82 से 97	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	98 से 121	महिला अनारक्षित	4
		8	122 से अंत तक		
		9-जमनागंज	1 से 24		
		10	25 से 40		
		11	41 से अंत तक		
		12-बिलोदापाल	1 से 10		
		13	11 से 23		
		14	24 से 33/1		
		15	34 से 50		
		16	51 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत ढाकनी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
32	ढाकनी	1-ढाकनी	1 से 11	अजा	2
		2	12 से 21	अजजा	1
		3	23 से 30	अ.पि.वर्ग	2
		4	33 से 39	महिला अजा	2
		5	41 से 50	महिला अजजा	2
		6	51 से 76	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	77 से 101	महिला अनारक्षित	3
		8	102 से 127/1		
		9	129 से 149		
		10	151 से 169/1		
		11	170 से 193 तक		
		12-चापनी	1 से 11/2		
		13	12 से 18		
		14	19 से 29		
		15	30/2 से 55		
		16	56 से 81/2		
		17	84 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पाडल्यामाता

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
33	पाडल्यामाता	1-पाडल्यामाता	1 से 44/2	अजा	2
		2	47 से 68	अजजा	0
		3	69 से 99	अ.पि.वर्ग	2
		4	100 से 135 क	महिला अजा	2
		5	137 से 174	महिला अजजा	0
		6	175 से 225	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	227 से 269	महिला अनारक्षित	5
		8	270 से 306		
		9	307 से 343		
		10	345 से 385		
		11	386 से 448/1		
		12	449 से 481 ग		
		13	484 से 524		
		14	527 से 546/1		
		15	547 से 598		
		16	599 से 647		
		17	648 से 719		
		18	720 से 777		
		19	778 से 789		
		20	790 से 799		

## ग्राम पंचायत भैंसवामाता

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
34	भैंसवामाता	1-भैंसवामाता	1 से 31	अजा	2
		2	32 से 50	अजजा	2
		3	51 से 68	अ.पि.वर्ग	2
		4	70 से 86	महिला अजा	2
		5	87 से 104	महिला अजजा	2
		6	105 से 125	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	126 से 147	महिला अनारक्षित	3
		8	150 से 166		
		9	168 से 182		
		10	185 से 204		
		11	205 से 217		
		12	220 से 238		
		13	239 से 617क तक		
		14-भवानीपुरा	1 से 33		
		15	34 से 92 अंत तक		
		16-कलाली	1 से 24		
		17	25 से 49		
		18	51 से 75		
		19	76 से 93		
		20	94 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत अरन्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
35	अरन्या	1-अरन्या	1 से 16	अजा	1
		2	17 से 25/2	अजजा	1
		3	26/1 से 47	अ.पि.वर्ग	1
		4	50 से 60	महिला अजा	2
		5	61 से 71	महिला अजजा	2
		6	73 से 83	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	86 से 101	महिला अनारक्षित	1
		8	102 से 116		
		9	118/1 से अंत तक		
		10-लौटिया	1 से 6		
		11	7 से 14		
		12	15 से 22		
		13	23 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत टुटियाहेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
36	टुटियाहेडी	1-टुटियाहेडी	1 से 18	अजा	1
		2	19/1 से 26/2	अजजा	0
		3	27 से 44	अ.पि.वर्ग	1
		4	45 से 59/2	महिला अजा	1
		5	60 से 68/2	महिला अजजा	1
		6	73 से 101	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	102 से 130तक	महिला अनारक्षित	1
		8-सुगरियाहेडी	1 से 15		
		9	16 से 39		
		10	40 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पान्दा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
37	पान्दा	1-पान्दा	1 से 17	अजा	1
		2	18 से 39/1	अजजा	0
		3	41 से 57	अ.पि.वर्ग	2
		4	58 से 70/3	महिला अजा	2
		5	72 से 99	महिला अजजा	1
		6	100 से 128/2	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	129 से 156	महिला अनारक्षित	4
		8	157 से 190		
		9	191 से 215		
		10	216 से 225		
		11	226 से 259 तक		
		12-बावली	1 से 21/5		
		13	22 से 42/3		
		14	43 से 54/4		
		15	55 से 71/4		
		16	72 से 86/3		
		17	88/1 से अंत तक		
		18-पान्दी	1 से 9/2		
		19	11 से 25/1		
		20	26र से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पाटक्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
38	पाटक्या	1-पाटक्या	1 से 18	अजा	1
		2	19 से 39	अजजा	0
		3	41 से 61	अ.पि.वर्ग	2
		4	62 से 86	महिला अजा	1
		5	87 से 119	महिला अजजा	0
		6	120 से 146/2	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	151 से 164	महिला अनारक्षित	4
		8	166 से 181		
		9	182 से 199		
		10	200/1 से 216		
		11	218 से 244		
		12	245 से 254		
		13	255 से 274		
		14	279 से 307 तक		

### ग्राम पंचायत चाटक्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
39	चाटक्या	1-चाटक्या	1 से 29	अज्ञा	1
		2	33 से 43	अज्ञा	0
		3	45 से 65	अ.पि.वर्ग	1
		4	66 से 84	महिला अज्ञा	1
		5	90 से 108	महिला अज्ञा	0
		6	109 से 139	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	140 से 168	महिला अनारक्षित	4
		8	169 से 184		
		9	185 से 202		
		10	204 से 226		
		11	227 से 259		
		12	263 से 286		
		13	291 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत डोबडाजमीदार

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
40	डोबडाजमीदार	1-डोबडाजमीदार	1 से 23	अज्ञा	1
		2	24 से 40	अज्ञा	0
		3	41 से 50	अ.पि.वर्ग	2
		4	55 से 70	महिला अज्ञा	1
		5	71 से 90	महिला अज्ञा	1
		6	91/1 से 109	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	110 से 129	महिला अनारक्षित	4
		8	130 से 243		
		9-मेहरीमोटी	2 से 27		
		10	28 से 37		
		11	38 से 49		
		12	52 से 71		
		13	72 से 104/1		
		14	106 से 121		
		15	125 से 146		
		16	147 से अंत तक		



## ग्राम पंचायत चिडलावनियां

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
41	चिडलावनियां	1-चिडलावनियां	1 से 16	अजा	1
		2	17 से 23	अजजा	0
		3	24 से 39	अ.पि.वर्ग	2
		4	40 से 63	महिला अजा	1
		5	64 से 89	महिला अजजा	0
		6	91 से 111	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	113 से 126	महिला अनारक्षित	5
		8	127 से 146		
		9	148 से 162		
		10	164 से 180		
		11	181 से 199		
		12	200 से 218		
		13	219 से 235		
		14	236 से 248		
		15	249 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत रायपुरिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
42	रायपुरिया	1-रायपुरिया	1/2 से 16	अजा	2
		2	17 से 36	अजजा	0
		3	37 से 46	अ.पि.वर्ग	2
		4	48 से 61	महिला अजा	3
		5	62 से 75	महिला अजजा	1
		6	76 से 86/3	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	87 से 96	महिला अनारक्षित	2
		8	97 से 111		
		9	112/1 से 130 तक		
		10-भीलखेड़ी	1 से 14		
		11	15 से 36		
		12	38 से 67		
		13	68 से 91		
		14	94 से 113		
		15	115 से 150		
		16	151 से 172		
		17	173 से 195		
		18	196 से 219 तक		

### ग्राम पंचायत बाबल्दा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
43	बाबल्दा	1-बाबल्दा	1 से 13	अज्ञा	1
		2	14 से 18	अज्ञा	0
		3	20 से 38	अ.पि.वर्ग	1
		4	39 से 51	महिला अज्ञा	2
		5	52 से 61	महिला अज्ञा	1
		6	62 से 78	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	79 से 85	महिला अनारक्षित	1
		8	86 से 94/2		
		9	95 से 98/2		
		10	99 से 110		
		11	116 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बाबल्दी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
44	बाबल्दी	1-बाबल्दी	1 से 15	अज्ञा	0
		2	16 से 25	अज्ञा	0
		3	26 से 41	अ.पि.वर्ग	1
		4	43 से 59	महिला अज्ञा	1
		5	60 से 72/1	महिला अज्ञा	0
		6	73 से 85	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	86 से 99	महिला अनारक्षित	3
		8	100/2 से अंत तक		
		9-छायन	1 से 14		
		10	15 से 31		
		11	32 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत गायन

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
45	गायन	1-गायन	1 से 20 तक	अजा	1
		2	21 से 39	अजजा	0
		3	40 से 50 तक	अ.पि.वर्ग	1
		4	51 से 58 तक	महिला अजा	1
		5	59 से 71 तक	महिला अजजा	0
		6	72 से 88 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7-पट्टी	1 से 16 तक	महिला अनारक्षित	3
		8	17 से 33 तक		
		9	34 से अंत तक		
		10-मकसूदी	1 से 16 तक		
		11	17 से 21 तक		
		12	22 से 54 तक		

## ग्राम पंचायत आमलारोड

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
46	आमलारोड	1-आमलारोड	1 से 15	अजा	1
		2	16 से 29	अजजा	0
		3	30 से 40/1	अ.पि.वर्ग	2
		4	40/2 से 49/2	महिला अजा	2
		5	49/3 से 61	महिला अजजा	1
		6	62 से 81/3	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	82 से 103	महिला अनारक्षित	4
		8	104 से 117		
		9	118 से 132		
		10	133 से 153		
		11	154 से 164		
		12	165 से 180		
		13	181 से 191		
		14	200 से 220		
		15	222 से 238		
		16	238 से 254		
		17	254/2 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत धामन्दा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
47	धामन्दा	1-धामन्दा	1 से 17	अजा	2
		2	18 से 29	अजजा	0
		3	30/1 से 58/2	अ.पि.वर्ग	2
		4	59 से 72	महिला अजा	2
		5	73/1 से 87	महिला अजजा	0
		6	88 से 103	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	104 से 120	महिला अनारक्षित	4
		8	121 से 150		
		9	152 से 166		
		10	167 से 206		
		11	208 से 238		
		12	239 से 259		
		13	262/1 से 275 क		
		14	276 से 291		
		15	292 से 306		
		16	307 से 323		
		17	324 से 345		
		18	346 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत घट्टिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
48	घट्टिया	1-घट्टिया	1 से 6 तक	अजा	0
		2	7 से 14 ख	अजजा	0
		3	17 से 24 ख	अ.पि.वर्ग	2
		4	25 से 29	महिला अजा	1
		5	31 क से 36	महिला अजजा	0
		6	37 से 47	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	48 से 61	महिला अनारक्षित	4
		8	62 से 72 तक		
		9-रोजडकला	1 से 14		
		10	15 से 22		
		11	23 से 32		
		12	33 से 43		
		13	44 से 51		
		14	52 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत ईचिवाडा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
49	ईचिवाडा	1-ईचिवाडा	2 क से 22 क	अजा	2
		2	22 ख से 39 तक	अजजा	0
		3	40 से 56 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	57 से 75 ख तक	महिला अजा	3
		5	75 ग से 83 तक	महिला अजजा	0
		6	84 से 104 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	106 से अंत तक	महिला अनारक्षित	3
		8-शंकरनगर	1 से 21 तक		
		9	22 से 40 तक		
		10	41 से अंत तक		
		11-पटाडियाडाबी	1 से 11 तक		
		12	12 से 24 तक		
		13	25 से 36		
		14	37 से 44 ख		
		15	45 से 52		
		16	53 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत शेरपुरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
50	शेरपुरा	1-शेरपुरा	1 से 13 तक	अजा	2
		2	14 से 23	अजजा	0
		3	24 से 31	अ.पि.वर्ग	2
		4	32 से 45	महिला अजा	3
		5	46 से 60	महिला अजजा	1
		6	61 से 70 ग	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	72 से 87	महिला अनारक्षित	3
		8	88 से 99		
		9	100 क से 109		
		10	110 क से 125		
		11	126 से 139		
		12	140 से अंत तक		
		13-डिंगलपुर	1 से 16 तक		
		14	18 से 28		
		15	29 क से 34 क		
		16	35 से 41 ख		
		17	42 घ से 50		
		18	51 से 59		
		19	60 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत पीपल्यापाल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
51	पीपल्यापाल	1-पीपल्यापाल	1 से 8 तक	अजा	2
		2	8 क से 25	अजजा	1
		3	26 क से 37	अ.पि.वर्ग	2
		4	38 से 52	महिला अजा	3
		5	53 से 69	महिला अजजा	1
		6	70 से 84	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	85 से 100	महिला अनारक्षित	3
		8	101 क से 113		
		9	114 से 130		
		10	131 से 140		
		11	141 से 152		
		12-अमलावता	1 क से 9		
		13	10 से 16		
		14	17 से 22 ड		
		15	23 से 37		
		16	38 से 49		
		17	50 से 64		
		18	65 से 75 घ		
		19	76 से 83 ग		
		20	84 से 88 तक		

### ग्राम पंचायत गुलावता

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
52	गुलावता	1-गुलावता	2 से 10 तक	अजा	2
		2	11 से 22 तक	अजजा	1
		3	23 से 35 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	36 से 46	महिला अजा	3
		5	47 से 62	महिला अजजा	1
		6	63 से 74	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	75 से 85	महिला अनारक्षित	3
		8	86 से 100		
		9	101 से 114		
		10	115 से 131		
		11	132 से 143		
		12	144 से 155		
		13	156 से 166		
		14	167 से 179		
		15	180 से 193		
		16	194 से 200		
		17	201 से 215		
		18	216 से 228		
		19	230 से 249		
		20	250 से 269 तक		

## ग्राम पंचायत बाबडल्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
53	बाबडल्या	1-बाबडल्या	3 से 13	अजा	1
		2	15 से 22	अजजा	0
		3	23 से 30	अ.पि.वर्ग	1
		4	31 से 42	महिला अजा	2
		5	43 से 52	महिला अजजा	0
		6	53 से 61	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	62 से 70	महिला अनारक्षित	2
		8	71 से 87		
		9	89 से 101		
		10	102 से 119		
		11	120 से 139		
		12	140 से 161		

## ग्राम पंचायत दिग्वाड

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
54	दिग्वाड	1-दिग्वाड	1 से 9/1	अजा	2
		2	10 से 20	अजजा	1
		3	21 से 28/5	अ.पि.वर्ग	2
		4	29 से 37 घ	महिला अजा	2
		5	38 से 44	महिला अजजा	2
		6	45 से 51	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	52 से 62/2	महिला अनारक्षित	3
		8	63 से अंत तक		
		9-डेण्डी	1 से 11		
		10	12 से 20		
		11	21 से 32		
		12	33 से 40		
		13	41 से 50		
		14-निटडली	1 से 9		
		15	10 से 19		
		16	20/1 से 31		
		17	33 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत भूराखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
55	भूराखेड़ी	1-भूराखेड़ी	1 से 6/2	अजा	2
		2	7 से 15/2	अजजा	0
		3	16 से 22/3	अ.पिवर्ग	2
		4	23 से 32	महिला अजा	2
		5	33 से 43	महिला अजजा	1
		6	44 से 54	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	55 से 64	महिला अनारक्षित	3
		8	65 से 88 तक		
		9-इकलेरा	1 से 11		
		10	12/1 से 22/2		
		11	23 से 31		
		12	32 से 42		
		13	43 से 53		
		14	53/1 से 66		
		15	67 से 88/2 तक		

## ग्राम पंचायत तरलाखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
56	तरलाखेड़ी	1-तरलाखेड़ी	1 से 8 तक	अजा	2
		2	9 से 17 तक	अजजा	0
		3	20 से 34 तक	अ.पिवर्ग	1
		4	36 से 45/3 तक	महिला अजा	2
		5	45/4 से 60/1 तक	महिला अजजा	1
		6	60/2 से 66 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	67 से 91 तक	महिला अनारक्षित	1
		8-चौडल्या	4 से 15 तक		
		9	18 से 29 तक		
		10	31 से 37/2 तक		
		11	42 से 51 तक		
		12	51/1 से 63 तक		



## ग्राम पंचायत निहाल

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
57	निहाल	1-निहाल	1 से 13	अजा	0
		2	14 से 25	अजजा	0
		3	26 से 48	अ.पि.वर्ग	1
		4	49 से 62	महिला अजा	1
		5	63 से 78	महिला अजजा	0
		6	79 से 92	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	95 से 118	महिला अनारक्षित	3
		8	119 से 136 तक		
		9-एहसानपुरा	1 से 9/1		
		10	9/2 से 26		
		11	27 से 45		
		12	46 से 61/1 तक		

## ग्राम पंचायत सईदाबाग

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
58	सईदाबाग	1-सईदाबाग	2 से 17	अजा	0
		2	18 से 34	अजजा	0
		3	35 से 60	अ.पि.वर्ग	2
		4	62 से 87	महिला अजा	1
		5	88 से 98	महिला अजजा	0
		6	99 से 102 स	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	102 घ से अंत तक	महिला अनारक्षित	5
		8-होजीपुर	1 से 22 तक		
		9	23 से 43		
		10	44 से 64		
		11	65 से 83		
		12	85 से 103 तक		
		13-किशनपुरा	1 से 19		
		14	20 से 36		
		15	37 से 46 तक		

### ग्राम पंचायत काछीखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
59	काछीखेड़ी	1-काछीखेड़ी	1 से 14 ख	अजा	1
		2	15 से 28	अजजा	0
		3	29 से 35	अ.पि.वर्ग	2
		4	36 से 44	महिला अजा	1
		5	45 से 53 घ	महिला अजजा	0
		6	54 से 64	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	66 से 74	महिला अनारक्षित	4
		8	75 से 86		
		9	87 से 100		
		10	101 से 118		
		11	119 से अंत तक		
		12-रेवागंज	1 से 10 तक		
		13	11 ख से 23 तक		
		14	24 से 41		
		15	42 से अंत तक		
	कालूखेड़ाचक	विरान			

### ग्राम पंचायत कालूखेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
60	कालूखेड़ा	1-कालूखेड़ा	1 से 19 तक	अजा	2
		2	20 से 35 क	अजजा	1
		3	38 से 53 ख	अ.पि.वर्ग	0
		4	53 ग से 74	महिला अजा	3
		5	75 से 87	महिला अजजा	1
		6	88 से 98	महिला अ.पि.वर्ग	0
		7	101 से 116	महिला अनारक्षित	3
		8	117 से अंत तक		
		9-बख्तारपुरा	1 से 8/3		
		10	9/2 से 15/2		
		11	16 से 27		
		12	28 से 37		
		13	38 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत कांकरिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
61	कांकरिया	1-कांकरिया	1 से 10/2 तक	अजा	3
		2	12 से 22 क तक	अजजा	1
		3	23 से 38 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	41 से 53 तक	महिला अजा	2
		5	54 से 61 तक	महिला अजजा	1
		6	62/1 से 73/1 तक	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	74 से 88 तक	महिला अनारक्षित	4
		8	89 से 112 अंत तक		
		9-कांकरियापुरोहित	1 से 16 तक		
		10	17 से 42 तक		
		11	43 से 60 तक		
		12	61 से 70 तक		
		13	71 से 78 तक		
		14	79/1 से अंत तक		
		15-गल्लाहरगंज	1 से अंत तक		
		16-बिलोदापूर्विया	2 से 13/1 तक		
		17	15 से 24 क तक		
		18	26 से 36 तक		
		19	36/1 से 43 तक		
		20	44 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत नारायणपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
62	नारायणपुर	1-नारायणपुर	1 से 12 ग	अजा	3
		2	13 से 25	अजजा	2
		3	28 से 41 क	अ.पि.वर्ग	0
		4	41/2 से 54/1	महिला अजा	4
		5	55 से 70 क	महिला अजजा	3
		6	71 क से 80	महिला अ.पि.वर्ग	0
		7	81 से 88 क	महिला अनारक्षित	2
		8	90 से 111		
		9	112 से 264 ग तक		
		10-बरुखेडी	1 से 12 ग		
		11	13 से 26		
		12	27 से 36		
		13	37 से 52		
		14	53 से 69		
		15	70 से 83		
		16	84 से 97		
		17	98 से 116		
		18	117 से 132		

## ग्राम पंचायत धनोरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
63	धनोरा	1-धनोरा	1 से 9/1	अजा	2
		2	10 से 23	अजजा	1
		3	24 से 32	अ.पिवर्ग	2
		4	33 से 42	महिला अजा	2
		5	43 से 60	महिला अजजा	1
		6	61 से 82	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	83 से 96	महिला अनारक्षित	3
		8	97 से 112/2		
		9	114 से 129		
		10	130 से 141		
		11	142 से 154		
		12	155 से 170		
		13	171 से 180		
		14	181 से 197		
		15	199 से 220		
		16	224 से 263		
		17	265 से 275		
		18	276 से 301		

## ग्राम पंचायत तुकोगंज

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
64	तुकोगंज	1-तुकोगंज	1 से 15	अजा	2
		2	17 से 34	अजजा	0
		3	37 से 54 क	अ.पिवर्ग	1
		4	55 से 66	महिला अजा	3
		5	67 से 76	महिला अजजा	0
		6	79 से 94	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	95 से 106	महिला अनारक्षित	1
		8	107 अ से 114		
		9	115 से 122		
		10	125 से 144 तक		
		11-सदाशिवगंज	1 से 6 अ		
		12	6 ब से 97 तक		

### ग्राम पंचायत चतरूखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
65	चतरूखेड़ी	1-चतरूखेड़ी	1 से 5	अजा	0
		2	6 से 11	अजजा	0
		3	12 से 15	अ.पिवर्ग	1
		4	16 से 20/1	महिला अजा	0
		5	21 से 24	महिला अजजा	0
		6	25 से 30/1	महिला अ.पिवर्ग	2
		7	31 से 35/1	महिला अनारक्षित	4
		8	36 से 41		
		9	41/1 से 46		
		10	47 से 54		
		11	55 से 101/1		

### ग्राम पंचायत मउ

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
66	मउ	1-मउ	1 से 10	अजा	2
		2	11 से 37 क	अजजा	1
		3	37 ख से 48 तक	अ.पिवर्ग	2
		4	48 ख से 59 ख तक	महिला अजा	2
		5	61 क से 72 ख तक	महिला अजजा	1
		6	72 ग से 89 तक	महिला अ.पिवर्ग	3
		7	94 क से 115	महिला अनारक्षित	4
		8	117 से 149		
		9	153 से 165		
		10	170 से 191		
		11	192 से 205		
		12	207 से 223		
		13	225 से 243 ख		
		14	243 ग से 260 ख		
		15	261 क से 265/1		
		16	265 क से 272 ख		
		17	273 से 288/3		
		18	288 ख से 299		
		19	300 से 308		
		20	308 से 581 तक		

### ग्राम पंचायत नैनवाड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
67	नैनवाड़ा	1-नैनवाड़ा	1 से 9	अजा	2
		2	10 से 16 घ तक	अजजा	1
		3	17 से 24	अ.पि.वर्ग	2
		4	25 से 46 तक	महिला अजा	3
		5	47 से 62 ग तक	महिला अजजा	1
		6	63 से 80 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	81 से 91 तक	महिला अनारक्षित	1
		8	92 से 102 ख		
		9	103 से 115		
		10	116 से 132		
		11	133 से 151		
		12	151 क से 166		
		13	167 से 187		
		14	188 से 237 तक		

### ग्राम पंचायत कमलसरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
68	कमलसरा	1-कमलसरा	1 से 14	अजा	2
		2	16 से 27	अजजा	1
		3	28 से 50	अ.पि.वर्ग	2
		4	51 से 63/2	महिला अजा	2
		5	64 से 78	महिला अजजा	1
		6	79 से 89	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	91 से 109	महिला अनारक्षित	3
		8	110/1 से 129		
		9	130 से 145/2		
		10	146 से 170		
		11	173 से अंत तक		
		12-किशनखेड़ी	1 से 11/2		
		13	12 से 18/1		
		14	18/2 से 34/2		
		15	36 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत छापरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
69	छापरा	1-छापरा	0 से 15 ख	अजा	2
		2	17 से 29	अजजा	1
		3	30 से 37 क	अ.पि.वर्ग	2
		4	38 से 47	महिला अजा	2
		5	48 से 59	महिला अजजा	1
		6	60 से 73	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	74 से 85	महिला अनारक्षित	2
		8	86 से 99		
		9	100 से 121		
		10	123 से 138		
		11	139 से 371 क		
		12-(खामपुरा)	153 से 163		
		13	164 से 176		
		14-जोगीपुरा	0 से 50		

## ग्राम पंचायत सुल्तानिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
70	सुल्तानिया	1-सुल्तानिया	1 से 23	अजा	1
		2	24 से 53	अजजा	0
		3	54 से 75	अ.पि.वर्ग	3
		4	76 से 96	महिला अजा	2
		5	98 से 119	महिला अजजा	1
		6	121 से 152	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	153 से 190	महिला अनारक्षित	4
		8	191 से 228 तक		
		9	231 से 250 ख		
		10	251 से 268 ग		
		11	269 से 298 तक		
		12	301 से 322 तक		
		13	323 से 355 तक		
		14	356 से 387 तक		
		15	388 से 408 तक		
		16	409 से 443 तक		
		17	444 से 459		
		18	460 से 485		
		19	486 से 508		
		20	511 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत भण्डावद

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
71	भण्डावद	1-भण्डावद	1 से 20/1	अजा	0
		2	21 से 33/2	अजजा	0
		3	34 से 45	अ.पि.वर्ग	1
		4	46 से 54	महिला अजा	1
		5	55 से 64	महिला अजजा	1
		6	65 से 87	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	88/1 से 108	महिला अनारक्षित	1
		8	109 से 122		
		9	123/2 से 136		
		10	137 से 168 अंत तक		

### ग्राम पंचायत सेमलीधाकड

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
72	सेमलीधाकड	1-सेमलीधाकड	1 से 20	अजा	0
		2	21 से 38	अजजा	0
		3	39 से 54	अ.पि.वर्ग	1
		4	56/1 से 70/3	महिला अजा	1
		5	71 से 88	महिला अजजा	0
		6	89 से 109	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	110 से 137	महिला अनारक्षित	2
		8	139 से 162 क		
		9	163 से 183		
		10	184 से 202 तक		



## ग्राम पंचायत सरेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
73	सरेडी	1-सरेडी	1 से 10 तक	अजा	1
		2	11 से 17 तक	अजजा	1
		3	18 से 29 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	30 से 37	महिला अजा	2
		5	38 से 48 तक	महिला अजजा	2
		6	49 से 58/4 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	59 से 72 तक	महिला अनारक्षित	2
		8	73 से 82 तक		
		9	83 से 99 तक		
		10	100 से 109 तक		
		11	110 से 118 तक		
		12	119 से 123/2		
		13	124 से 130 अंत तक		
		14-भिठनपुर	10 से 27 तक		
		15	28 से 46 तक		

## ग्राम पंचायत गुलखेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
74	गुलखेडी	1-गुलखेडी	1 से 13 तक	अजा	1
		2	14 से 32 तक	अजजा	1
		3	33 से 43 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	44 से 57 तक	महिला अजा	2
		5	58 से 76 तक	महिला अजजा	1
		6	77 से 96 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	97 से 106 तक	महिला अनारक्षित	3
		8	107 से 118 ख		
		9	119 से अंत तक		
		10-निपान्यारूहेला	1 से 10 तक		
		11	11 से 29 तक		
		12	30 से 43 तक		
		13	44 से 50 क		
		14	50 ख से 54 क		
		15	54 ख से 59		
		16	60 से 98		

## ग्राम पंचायत नारान्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
75	नारान्या	1-नारान्या	2 से 21 तक	अजा	1
		2	22 से 37 तक	अजजा	0
		3	38 से 59 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	60 से 77 तक	महिला अजा	2
		5	78 से 87 तक	महिला अजजा	1
		6	88 से 105 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	107 से 120 तक	महिला अनारक्षित	3
		8	121 से 130 तक		
		9	131 से 149 तक		
		10-पीपल्यादेव	1 से 26 तक		
		11	29 से 43 तक		
		12	44 से 55 तक		
		13	56 से 72 तक		
		14	73 से 96 तक		
		15	98 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत उदनखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
76	उदनखेड़ी	1-उदनखेड़ी	1 से 19 तक	अजा	2
		2	20/2 से 48 तक	अजजा	0
		3	49 से 75 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	76 से 90 तक	महिला अजा	2
		5	91 से 113 तक	महिला अजजा	1
		6	114 से 133 तक	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	134 से 160 तक	महिला अनारक्षित	4
		8	161 से 187 तक		
		9	189 से 215 तक		
		10	216 से 245 तक		
		11	246 से 312 क		
		12	280 से 300		
		13	300/1 से 322 तक		
		14	323 से 337 ख तक		
		15	338 से 346 तक		
		16	346 क से 359 तक		
		17	360 से 379 तक		
		18	379 क से 391 तक		
		19	392 से 403 घ		
		20	404 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत ग्वाडा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
77	ग्वाडा	1-ग्वाडा	1 से 18 तक	अजा	1
		2	19 से 29 तक	अजजा	0
		3	30 से 56 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	57 से 71 तक	महिला अजा	2
		5	73 से 94 तक	महिला अजजा	1
		6	95 से 110 तक	महिला अ.पि.वर्ग	0
		7	112 से 122 तक	महिला अनारक्षित	4
		8	123 से 143 तक		
		9	144 से 155 तक		
		10	156 से 171 तक		
		11	173 से 183 तक		
		12	184 से 206 तक		
		13	207 से 218 तक		
		14	219 से 236/3		
		15	239 से 272 तक		
		16	275 से 286 तक		

## ग्राम पंचायत पढाना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
78	पढाना	1-पढाना	1 से 25 तक	अजा	2
		2	26 से 60 तक	अजजा	0
		3	61 से 106 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	107 से 146 तक	महिला अजा	2
		5	147 से 188 तक	महिला अजजा	0
		6	189 से 222 तक	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	223 से 258 तक	महिला अनारक्षित	5
		8	260 से 303 तक		
		9	306 से 339 तक		
		10	340 से 383 तक		
		11	383 से 430 तक		
		12	433 से 474 तक		
		13	475 से 539 तक		
		14	539 से 593 तक		
		15	594 से 634 तक		
		16	635 से 668 तक		
		17	668 से 720 तक		
		18	721 से 744 तक		
		19	746 से 789 तक		
		20	790 से 886 तक		

### ग्राम पंचायत मगराना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
79	मगराना	1-मगराना	1 से 12 तक	अजा	4
		2	14 से 27	अजजा	0
		3	28 क से 45	अ.पि.वर्ग	2
		4	47 से 62 तक	महिला अजा	4
		5	64 से 80 तक	महिला अजजा	0
		6	81 क से 97 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	98 से 112 तक	महिला अनारक्षित	4
		8	113 से 138		
		9	139 से 148 ख		
		10	150 से 156		
		11	158 से 169 ख		
		12	170 से 179		
		13	180 से 191		
		14	195 से 201		
		15	202 से 217		
		16	218 से 232		
		17	233 से 247		
		18	248 से 264		
		19	265 से 281		
		20	282 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत रामपुरिया

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
80	रामपुरिया	1-रामपुरिया	1 से 10 ख तक	अजा	3
		2	11 से 22 तक	अजजा	0
		3	22 क से 35 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	36 क से 45 ख	महिला अजा	3
		5	45 ग से 52 तक	महिला अजजा	0
		6	58 से 80	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	82 से 99	महिला अनारक्षित	4
		8-अकन्याखेडी	1 से 13 तक		
		9	14 से 24		
		10	25 से 33		
		11	34 से 42		
		12	43 से 59		
		13	60 से 87		
		14-सादनखेडी	1 से 11 तक		
		15	12 से 20		
		16	21 से 28		
		17	29/1 से 34 तक		

## ग्राम पंचायत करोंदी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
81	करोंदी	1-करोंदी	1 से 21 तक	अजा	1
		2	22 से 33	अजजा	1
		3	34 से 45	अ.पि.वर्ग	1
		4	46 से 65	महिला अजा	1
		5	66 से 86	महिला अजजा	2
		6	90 से 108	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	109 से 127 क	महिला अनारक्षित	1
		8	129 से 144		
		9	145 से 153		
		10	155 से 207		
		11	242 क से 271 क तक		
		12	272 क से 296 तक		

## ग्राम पंचायत आसारेटापंवार

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
82	आसारेटापंवार	1-आसारेटापंवार	1 से 20	अजा	2
		2	21 से 45	अजजा	1
		3	47 से 71	अ.पि.वर्ग	2
		4	72 से 92	महिला अजा	2
		5	94 से 122	महिला अजजा	1
		6	123 से 151	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	152 से 177	महिला अनारक्षित	4
		8	178 से 196		
		9	197 से 218		
		10	219 से 248		
		11	249 से 274		
		12	275 से 301		
		13	302 से 331		
		14	332 से 405 तक		
		15-आसारेटारावत	1 से 21 तक		
		16	22 से 38		
		17	39 से 63		
		18	64 से 84 तक		
		19-नारायणगढ	1 से 14/2		
		20	15 से 30 तक		

### ग्राम पंचायत मंग्याखेड़ी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
83	मंग्याखेड़ी	1-मंग्याखेड़ी	1 से 14 तक	अजा	1
		2	15 से 30	अजजा	1
		3	32 से 45	अ.पि.वर्ग	1
		4	46 से 58	महिला अजा	1
		5	59 से 70	महिला अजजा	1
		6	71 से 88	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	89 से 101	महिला अनारक्षित	1
		8	102 से 111		
		9	112 से 129		
		10	130 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत सराली

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
84	सराली	1-सराली	1 से 14 तक	अजा	1
		2	15 से 25	अजजा	0
		3	26 से 33	अ.पि.वर्ग	2
		4	35 से 47	महिला अजा	1
		5	48 से 54	महिला अजजा	1
		6	55 से 64	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	65 से 74	महिला अनारक्षित	5
		8	75 से 80		
		9	81 से 89		
		10	90 से 102		
		11	103 से 116		
		12	117 से 126		
		13	127 से 138		
		14	139 से 149		
		15	150 से 159		
		16	160 से 175		
		17	176 से 183 क		
		18	183 ग से 192 तक		
		19	193 से 199 तक		

## ग्राम पंचायत रोश्या

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
85	रोश्या	1-रोश्या	1 से 17 तक	अजा	1
		2	18 से 39	अजजा	0
		3	40 से 59	अ.पि.वर्ग	2
		4	61 से 89	महिला अजा	2
		5	90 से 103 ग	महिला अजजा	1
		6	104 से 108 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	111 से अंत तक	महिला अनारक्षित	3
		8-कल्याणपुर	1 से 23 ख		
		9	24 से 38 तक		
		10	39 से 51 तक		
		11	52 से 65 क		
		12	66 से 81		
		13	82 से 97		
		14	98 से 108		
		15	109 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत पटाडियाधाकड़

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
86	पटाडियाधाकड़	1-पटाडियाधाकड़	1 से 16 तक	अजा	2
		2	17 क से 26	अजजा	0
		3	27 क से 38	अ.पि.वर्ग	2
		4	39 से 53 तक	महिला अजा	3
		5	54 से 72	महिला अजजा	0
		6	73 से 85	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	86 से 103	महिला अनारक्षित	4
		8	104 से 114 ग तक		
		9	114घ से 131 तक		
		10	132 क से 139 ख		
		11	141 से 155 तक		
		12	156 से 166 तक		
		13	168 से 181 तक		
		14	182 से 201		
		15	203 से 220		
		16	221 से 235		
		17	236 से 255		
		18	256 से 272		
		19	273 से 285 अंत तक		
		20			

### ग्राम पंचायत हालूहेडीकला

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
87	हालूहेडीकला	1-हालूहेडीकला	1 से 10 तक	अजा	2
		2	11 से 25	अजजा	0
		3	26 से 42	अ.पि.वर्ग	2
		4	43 से 54	महिला अजा	2
		5	55 से 67	महिला अजजा	0
		6	68 से 80	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	81 से 89	महिला अनारक्षित	3
		8	90 से 105		
		9	106 से अंत तक		
		10-हालूहेडीखुर्द	1 से 7 तक		
		11	8 से 21		
		12	22 से 35		
		13	36 से 51		
		14	52 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत लखेसरा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
88	लखेसरा	1-लखेसरा	1 से 6 तक	अजा	1
		2	7 से 11	अजजा	0
		3	12 से 18	अ.पि.वर्ग	1
		4	19 से 24 तक	महिला अजा	2
		5	25 से 31/3	महिला अजजा	0
		6	32 से 38	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	39 से 46 तक	महिला अनारक्षित	2
		8-लक्षणपुरा	1 से 9 तक		
		9	10 से 22		
		10	24 से 34		
		11	35 से 41		
		12	42 से 55/1 तक		



## ग्राम पंचायत चाकरोद

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिले राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ -दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ -5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

### सारणी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
89	चाकरोद	1-चाकरोद	1 से 8 तक	अजा	1
		2	9 से 17	अजजा	0
		3	18 से 25	अ.पि.वर्ग	1
		4	26 से 33	महिला अजा	1
		5	34 से अंत तक	महिला अजजा	1
		6-पाडली	1 से 13 तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	14 से 28	महिला अनारक्षित	3
		8	29 से 42		
		9	43 से अंत तक		
		10-लालपुरा	1 से 12 तक		
		11	13 से 20		
		12	21/1 से 30		
		13	31 से 40		
		14	41 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत पाडल्याआंजना

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
90	पाडल्याआंजना	1-पाडल्याआंजना	1 से 15 तक	अजा	0
		2	17 से 30	अजजा	0
		3	31 से 43	अ.पि.वर्ग	1
		4	44 से 57	महिला अजा	1
		5	58 से 64	महिला अजजा	0
		6	65 से 73	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	74 से 86	महिला अनारक्षित	2
		8	87 से 93 ग		
		9	94 से 103		
		10	104 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत कुडलासा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
91	कुडलासा	1-कुडलासा	1 से 13 तक	अजा	2
		2	15 क से 26 क	अजजा	0
		3	27 से 41	अ.पि.वर्ग	1
		4	42 क से 53 ग	महिला अजा	2
		5	54 से 69 ख	महिला अजजा	0
		6	70 से 84	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	85 से 101	महिला अनारक्षित	2
		8	102 क से 119 ख		
		9	120 से 135 ख तक		
		10	136 से 154 ग		
		11	161 से 183 तक		

## ग्राम पंचायत कोडियाखेडी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
92	कोडियाखेडी	1-कोडियाखेडी	1 से 11 तक	अजा	1
		2	12 क से 22	अजजा	0
		3	23 से 32 च	अ.पि.वर्ग	1
		4	33 क से 38	महिला अजा	1
		5	39 से 48 ख	महिला अजजा	1
		6	49 से अंत तक	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7-अलूनी	1 से 13 तक	महिला अनारक्षित	2
		8	14 से 28		
		9	29 से 43 क		
		10	44 से 61		
		11	62 से 78		
		12	80 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत बुढनपुर

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
93	बुढनपुर	1-बुढनपुर	1 से 10 तक	अजा	1
		2	11 से 15	अजजा	5
		3	16 से 24	अ.पि.वर्ग	0
		4	25 से 32	महिला अजा	2
		5	36 से 48	महिला अजजा	5
		6	49 से 63	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	64 से 68	महिला अनारक्षित	0
		8	69 से 78		
		9	79 से 94		
		10	95 से 102		
		11	103 से 107		
		12	108 से 113		
		13	114 से 120		
		14	121 से अंत तक		
		15-निशाना	1 से 14 तक		
		16	15 से 22		
		17	23 से 61		
		18	62 से 95		
		19	98 से 127 तक		
		20	128 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत इटावा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
94	इटावा	1-ईटावा	1 से 11 तक	अजा	1
		2	13 से 23	अजजा	1
		3	24 से 31	अ.पि.वर्ग	1
		4	33 से 38	महिला अजा	2
		5	39 से 51	महिला अजजा	2
		6	52 से 66	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	67 से 85	महिला अनारक्षित	1
		8	88 से 102 तक		
		9	103 से अंत तक		
		10-लाखाखेडी	1 से 8 तक		
		11	9 क से 14 इ तक		
		12	15 से 23		
		13	24 से अंत तक		

### ग्राम पंचायत बनी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
95	बनी	1-बनी	1 से 28 तक	अजा	6
		2	29 से 54	अजजा	0
		3	55 से 77	अ.पि.वर्ग	0
		4	78 से 96	महिला अजा	7
		5	97 से 121	महिला अजजा	1
		6	122 से 142	महिला अ.पि.वर्ग	0
		7	143 से 160	महिला अनारक्षित	
		8	161 से 174		
		9	175 से 193		
		10	194 से अंत तक		
		11-निद्राखेडी	1 से 11 घ		
		12	12 क से 30 ख		
		13	31 से 47		
		14	48 से 59 तक		
		15	60 से 75 क अंत तक		

## ग्राम पंचायत लाटाहेड़ा

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
96	लाटाहेड़ी	1-लाटाहेड़ी	1 से 23 तक	अजा	2
		2	27 से 40 तक	अजजा	0
		3	41 से 74	अ.पि.वर्ग	1
		4	75 से 89	महिला अजा	2
		5	93 से 108/1	महिला अजजा	0
		6	109 से 123	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	125 से 142	महिला अनारक्षित	5
		8	144 से 158 तक		
		9	159 से 176 तक		
		10	177 से 190		
		11	191 से अंत तक		
		12-रेठानी	5 से 13 तक		
		13	14 से 38 तक		
		14	39 से 62		
		15	63 से 71 तक		
		16	78 से 93 क		
		17	96 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत टिकोद

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
97	टिकोद	1-टिकोद	1 से 26 तक	अजा	1
		2	27 से 41	अजजा	0
		3	42 से 54	अ.पि.वर्ग	2
		4	54 से 71	महिला अजा	1
		5	75 से 95	महिला अजजा	1
		6	97 से 121	महिला अ.पि.वर्ग	3
		7	122 से 148	महिला अनारक्षित	5
		8	149 से 169		
		9	171 से 197		
		10	198 से 218		
		11	219 से 240		
		12	241 से 251		
		13	252 से 268		
		14	269 से 285		
		15	286 से 298		
		16	300 से 322		
		17	323 से 344		
		18	346 से अंत तक		

## ग्राम पंचायत जबरदी

अनु.क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
98	जबरदी	1-जबरदी	1 से 17 तक	अजा	1
		2	18 से 29 तक	अजजा	0
		3	30 से 53 तक	अ.पि.वर्ग	2
		4	54 से 61 क	महिला अजा	2
		5	64 से 94	महिला अजजा	0
		6	96 से 120	महिला अ.पि.वर्ग	2
		7	121 से 140	महिला अनारक्षित	4
		8	141 से 196 क		
		9-निनोर	2 से 9 तक		
		10	10 से 25 तक		
		11	26 से 45 तक		
		12	46 से 73 तक		
		13	74 से 90		
		14	91 से 117		
		15	107 से अंत तक		

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.

राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ - 3 में वर्णित वार्ड क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
1	1	करकरी	01 से 14	अ.जा. महिला	1	
	2	करकरी	15 से 28	अ.जा. मुक्त	0	
	3	करकरी	29 से 44	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	करकरी	45 से 60	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	करकरी	61 से 74	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2	
	6	करकरी	75 से 88	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	1	
	7	झलामड़िया	01 से 13	अनारक्षित महिला	2	
	8	झलामड़िया	14 से 32	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	चैनपुरिया	01 से 10		कुल योग	10
	10	मोतीपुरा	01 से 14			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
2	1	बावडीखेडा	02 से 20	अ.जा. महिला	1
	2	बावडीखेडा	21 से 40	अ.जा. मुक्त	1
	3	बावडीखेडा	40 से 49	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बावडीखेडा	50 से 67	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	कुमारा	1 से 10	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	कुमारा	11 से 17	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	कडेला	1 से 13	अनारक्षित महिला	3
	8	कडेला	14 से 25	अनारक्षित मुक्त	4
	9	कडेला	26 से 38	कुल योग	12
	10	फतेहपुर	01 से 13		
	11	गंगापुरा	01 से 08		
	12	गंगापुरा	09 से 21		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
3	1	हिम्मतपुरा	1 से 16	अ.जा. महिला	1
	2	हिम्मतपुरा	17 से 27	अ.जा. मुक्त	0
	3	हिम्मतपुरा	29 से 41	अ.ज.जा. महिला	1
	4	सेमला	1 से 10	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	सेमला	11 से 20	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	सेमला	21 से 34	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	मोतीपुरा	1 से 15	अनारक्षित महिला	2
	8	मोतीपुरा	16 से 17	अनारक्षित मुक्त	3
	9	श्रीपुरा	4 से 17	कुल योग	11
	10	श्रीपुरा	18 से 31		
	11	पुराकुमारा	1 से 15		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
4	1	सेमलीकलां	01 से 23	अ.जा. महिला	1	
	2	सेमलीकलां	24 से 42 क	अ.जा. मुक्त	1	
	3	सेमलीकलां	44 से 64	अ.ज.जा. महिला	2	
	4	सेमलीकलां	65 से 85	अ.ज.जा. मुक्त	1	
	5	सेमलीकलां	86 से 99	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	सेमलीकलां	100 से 116	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	सेमलीकलां	117 से 136	अनारक्षित महिला	3	
	8	सेमलीकलां	137 से 158	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	सेमलीकलां	159 से 179		कुल योग	17
	10	सेमलीकलां	180 से 201			
	11	सेमलीकलां	202 से 220			
	12	सेमलीकलां	221 से 237			
	13	सेमलीकलां	238 से 251			
	14	सेमलीकलां	252 से 268			
	15	सेमलीकलां	259 से 286			
	16	सेमलीकलां	286A से 299 ख			
	17	सेमलीकलां	301 से 310			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
5	1	भोजपुर	01 से 18	अ.जा. महिला	2	
	2	भोजपुर	19 से 34	अ.जा. मुक्त	2	
	3	भोजपुर	35 से 49ख	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	भोजपुर	51 से 64	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	भोजपुर	66 से 84	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	भोजपुर	84 से 99	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	भोजपुर	100 से 119	अनारक्षित महिला	5	
	8	भोजपुर	120 से 139	अनारक्षित मुक्त	6	
	9	भोजपुर	141 से 157		कुल योग	20
	10	भोजपुर	158 से 181			
	11	भोजपुर	182 से 197			
	12	भोजपुर	198 से 210क			
	13	भोजपुर	211 से 230घ			
	14	भोजपुर	231 से 254			
	15	भोजपुर	254 से 267			
	16	भोजपुर	267 से 282			
	17	भोजपुर	283 से 304			
	18	भोजपुर	305 से 319			
	19	भोजपुर	320 से 336			
	20	भोजपुर	339 से 353			



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
6	1	चीबडकलां	01क से 16ख	अ.जा. महिला	1	
	2	चीबडकलां	17 से 32	अ.जा. मुक्त	0	
	3	चीबडकलां	33 से 47	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	चीबडकलां	48 से 62	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	चीबडकलां	63 से 80	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	चीबडकलां	81 से 92	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	चीबडकलां	94 से 112	अनारक्षित महिला	4	
	8	चीबडकलां	113 से 130	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	चीबडखुर्द	01 से 10 / 1		कुल योग	13
	10	चीबडखुर्द	11 से 22			
	11	चीबडखुर्द	23 से 37			
	12	चीबडखुर्द	37 से 01			
	13	लक्ष्मणपुरा	01 से 12			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
7	1	धामन्यां	01 से 08	अ.जा. महिला	1	
	2	धामन्या	10 से 13	अ.जा. मुक्त	0	
	3	धामन्या	21 से 27ड	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	धामन्या	38 से 50	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	धामन्या	51 से 70	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	शिवपुरा	01 से 15	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	शिवपुरा	16क से 26	अनारक्षित महिला	4	
	8	शिवपुरा	26 से 66	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	अमरपुरा	01 से 14		कुल योग	13
	10	रुगनाथपुरा	02 / 1 से 15			
	11	रुगनाथपुरा	16 / 1 से 27			
	12	रुगनाथपुरा	28 से 39			
	13	दौलतपुरा	01 से 8 / ख			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
8	1	ढाबलीकलां	01 से 16क	अ.जा. महिला	1	
	2	ढाबलीकलां	17 से 34	अ.जा. मुक्त	1	
	3	ढाबलीकलां	35 से 51	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	ढाबलीकलां	52 से 66	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	ढाबलीकलां	66 से 75	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	ढाबलीकलां	76 से 85	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	ढाबलीकलां	86 से 98 /3	अनारक्षित महिला	4	
	8	ढाबलीकलां	98 /5 से 112	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	ढाबलीकलां	112 से 128		कुल योग	14
	10	ढाबलीकलां	129 से 149			
	11	ढाबलीखुर्द	01 से 17			
	12	ढाबलीखुर्द	18 से 36			
	13	मोतीपुरा	01 से 8A			
	14	मोतीपुरा	10 से 16			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
9	1	रूपाहेडा	01 से 15 /1	अ.जा. महिला	1	
	2	रूपाहेडा	15 /2 से 26	अ.जा. मुक्त	1	
	3	रूपाहेडा	27क से 39	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	रूपाहेडा	40 से 50 /2	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	रूपाहेडा	51 से 58	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	रूपाहेडा	60 से 69	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	गणेशपुरा	01 से 40	अनारक्षित महिला	3	
	8	मोग्यापुरा	01 से 12	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	मेलूखेडा	01 से 14		कुल योग	12
	10	मेलूखेडा	15 से 30			
	11	मेलूखेडा	31 से 43			
	12	मेलूखेडा	44 से 270A			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
10	1	गादियामेर	01 से 10	अ.जा. महिला	1
	2	गादियामेर	11/1 से 17/4	अ.जा. मुक्त	0
	3	गादियामेर	18 से 25/2	अ.ज.जा. महिला	0
	4	गादियामेर	26/1 से 32	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गादियामेर	33 से 42क	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गादियामेर	42 से 55	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	गादियामेर	55 से 69	अनारक्षित महिला	3
	8	पुरारूपाहेडा	1/1 से 11/5	अनारक्षित मुक्त	4
	9	पुरारूपाहेडा	12 से 103	कुल योग	11
	10	अम्बाबेह	01 से 10		
	11	गादियाखुर्द	01 से 5ख		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
11	1	दिलावरी	01 से 14	अ.जा. महिला	1
	2	दिलावरी	15 से 28	अ.जा. मुक्त	0
	3	दिलावरी	29 से 38	अ.ज.जा. महिला	0
	4	दिलावरी	39 से 53	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	दिलावरी	54 से 72	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	खेडी	01 से 10	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	खेडी	11 से 16	अनारक्षित महिला	3
	8	खेडी	17 से 29	अनारक्षित मुक्त	4
	9	खेडी	30 से 43	कुल योग	11
	10	भंवरपुरा	01 से 4		
	11	भंवरपुरा	11 से 875		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
12	1	गादियाकलां	01 से 12	अ.जा. महिला	1	
	2	गादियाकलां	13 से 28	अ.जा. मुक्त	1	
	3	गादियाकलां	29 से 46	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	गादियाकलां	47 से 60	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	गादियाकलां	61 से 74	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	कोडक्या	01 से 19	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	कोडक्या	21 से 32	अनारक्षित महिला	3	
	8	कोडक्या	33 से 67	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	कोडकी	01 से 15ख		कुल योग	11
	10	हिम्मतपुरा	01 से 49क			
	11	रामगंज	01 से 18			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
13	1	दौलाज	1/1 से 11	अ.जा. महिला	2	
	2	दौलाज	12 से 27	अ.जा. मुक्त	1	
	3	दौलाज	28 से 34	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	दौलाज	35 से 43	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	दौलाज	44 से 50	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	दौलाज	51 से 58	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	दौलाज	59 से 65	अनारक्षित महिला	2	
	8	दौलाज	66 से 68घ	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	दौलाज	69 से 88		कुल योग	11
	10	दुर्जनपुरा	0 से 13			
	11	दुर्जनपुरा	14 से 142			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
14	1	सतनखेडी	1 से 9	अ.जा. महिला	1	
	2	सतनखेडी	10 से 21	अ.जा. मुक्त	0	
	3	सतनखेडी	22 से 36	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	सतनखेडी	37 से 49	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	सतनखेडी	50 से 58	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	सतनखेडी	59 से 72	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	मानपुरा	1 से 18	अनारक्षित महिला	3	
	8	मानपुरा	19 से 30	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	मदनपुरा	1 से 17		कुल योग	11
	10	मदनपुरा	18 से 32			
	11	मदनपुरा	33 से 45			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
15	1	समेली	1/क से 11	अ.जा. महिला	1	
	2	समेली	12 से 18	अ.जा. मुक्त	1	
	3	समेली	20 से 34	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	समेली	34 से 42	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	कांदलखेडी	1 से 13	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	कांदलखेडी	14 से 26	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	कांदलखेडी	27 से 39	अनारक्षित महिला	4	
	8	सेदरी	1 से 12ख	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	सेदरी	13 से 24		कुल योग	14
	10	सेदरी	25 से 33			
	11	सेदरी	34 से 49			
	12	सेदरी	50 से 66	अनारक्षित मुक्त		
	13	सेदरी	67 से 77	अनारक्षित महिला		
	14	सेदरी	78 से 90	अन्य पिछडा वर्ग महिला		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
16	1	खोखेडा	2 से 16	अ.जा. महिला	1	
	2	खोखेडा	17 से 27	अ.जा. मुक्त	1	
	3	खोखेडा	28 से 38	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	राजपुरा	1 से 12	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	कालाकुण्डल	1 से 71	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	कालाकुण्डल	8 से 171	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	कालाकुण्डल	18 से 31	अनारक्षित महिला	3	
	8	कालाकुण्डल	32 से 47	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	गुलखेडी	1 से 10		कुल योग	11
	10	गुलखेडी	11 से 21			
	11	पीपल्या	1 से 18			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
17	1	मोकमपुरा	1 से 12	अ.जा. महिला	1	
	2	मोकमपुरा	13 से 20	अ.जा. मुक्त	1	
	3	मोकमपुरा	21 से 32	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	मोकमपुरा	33 से 43	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बाल्यापुरा	1 से 14	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	पीपलखेडी	1 से 10	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	पीपलखेडी	11 से 20	अनारक्षित महिला	3	
	8	पीपलखेडी	21 से 30	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	गणेशपुरा	1 से 5		कुल योग	11
	10	गणेशपुरा	6 से 9			
	11	ढाबला	1 से 15			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
18	1	सेदरा	11 से 10	अ.जा. महिला	2
	2	सेदरा	12 से 23	अ.जा. मुक्त	2
	3	सेदरा	24 से 37	अ.ज.जा. महिला	0
	4	सेदरा	38 से 48	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	सेदरा	49 से 61	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	सेदरा	62 से 71	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	सेदरा	72 से 85	अनारक्षित महिला	2
	8	सेदरा	88 से 97	अनारक्षित मुक्त	2
	9	सेदरा	98 से 111	कुल योग	11
	10	पुरासेदरा	1 से 19		
	11	पुरादुर्गपुरा	1 से 22		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
19	1	रिछडिया	1 से 30	अ.जा. महिला	0
	2	रिछडिया	31 से 6	अ.जा. मुक्त	0
	3	डोरियाखेडी	1 से 14	अ.ज.जा. महिला	0
	4	डोरियाखेडी	15 से 24	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	डोरियाखेडी	25 से 43	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	डोरियाखेडी	44 से 43	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	अंतरालिया	1 से 11	अनारक्षित महिला	5
	8	बेदर	1 से 21	अनारक्षित मुक्त	4
	9	कडीखेडा	1 से 8	कुल योग	13
	10	कडीखेडा	9 से 13		
	11	अचलपुरा	1 से 9		
	12	अचलपुरा	10 से 22		
	13	अचलपुरा	23 से 44		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
20	1	ढण्ड	1 से 11	अ.जा. महिला	1	
	2	ढण्ड	12 से 28	अ.जा. मुक्त	0	
	3	ढण्ड	29 से 43	अ.ज.जा. महिला	2	
	4	ढण्ड	44 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	2	
	5	ढण्ड	56 से 71	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	ढण्ड	72 से 88	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	बिनायकबेह	1 से 61	अनारक्षित महिला	3	
	8	बिनायकबेह	7 से 14	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	बिनायकबेह	15 से 25		कुल योग	16
	10	बिनायकबेह	26 से 33ड			
	11	बोरदाश्रीजी	1 से 8			
	12	बोरदाश्रीजी	9 से 17			
	13	बोरदाश्रीजी	17/क से 28			
	14	बोरदाश्रीजी	29 से 38			
	15	बोरदा छतरपुरा	39 से 44			
	16	करणपुरा एवं हरिपुरा	1 से 10			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
21	1	भूमरिया	1 से 15	अ.जा. महिला	2	
	2	भूमरिया	15 से 25	अ.जा. मुक्त	1	
	3	भूमरिया	26 से 39	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	भूमरिया	40 से 54	अ.ज.जा. मुक्त	1	
	5	भूमरिया	55 से 69	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	भूमरिया	69 से 80	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	भूमरिया	81 से 90	अनारक्षित महिला	4	
	8	भूमरिया	91 से 102	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	भूमरिया	103 से 119/क		कुल योग	16
	10	भूमरिया	120 से 133			
	11	भूमरिया	133 से 149			
	12	भूमरिया	150 से 163			
	13	भूमरिया	165 से 180			
	14	भूमरिया	181 से 192			
	15	भूमरिया	193 से 210			
	16	भूमरिया	1 से 10			



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
22	1	खेरखेडी	1 से 11	अ.जा. महिला	2
	2	खेरखेडी	12 से 20	अ.जा. मुक्त	1
	3	खेरखेडी	21 से 31	अ.ज.जा. महिला	0
	4	खेरखेडी	31 से 40	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	खेरखेडी	41 से 52	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गोरधनपुरा	1 से 6	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	गोरधनपुरा	7 से 14	अनारक्षित महिला	3
	8	गोरधनपुरा	15 से 25	अनारक्षित मुक्त	3
	9	गोरधनपुरा	26 से 4	कुल योग	13
	10	गोरधन	1 से 14		
	11	गोरधन	14 से 28		
	12	गोरधन	28 से 41		
	13	गोरधन	41 से 52		
	लक्ष्मणपुरा	01 से 5			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
23	1	रामपुरिया	1 से 13	अ.जा. महिला	1
	2	रामपुरिया	14 से 24	अ.जा. मुक्त	1
	3	रामपुरिया	25 से 32	अ.ज.जा. महिला	0
	4	रामपुरिया	33 से 43	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	रामपुरिया	44 से 53	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	रामपुरिया	54 से 63	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	हरिपुरा	1 से 13	अनारक्षित महिला	5
	8	हरिपुरा	13 से 22	अनारक्षित मुक्त	4
	9	हरिपुरा	22 से 35	कुल योग	15
	10	हरिपुरा	35 से 47		
	11	हरिपुरा	47 से 61		
	12	हरिपुरा	61 से 71/क		
	13	गोकुलपुरिया	1 से 9		
	14	गोकुलपुरिया	9 से 14		
	15	नारायणराज	1 से 10		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
24	1	पपडेल	1 से 9	अ.जा. महिला	1
	2	पपडेल	10 से 19	अ.जा. मुक्त	1
	3	पपडेल	23 से 31	अ.ज.जा. महिला	1
	4	पपडेल	32 से 43	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	पपडेल	44 से 54	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	पपडेल	55 से 60	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	पपडेल	61 से 73	अनारक्षित महिला	4
	8	पपडेल	74 से 86	अनारक्षित मुक्त	5
	9	पपडेल	87 से 100	कुल योग	17.
	10	पपडेल	101 से 109		
	11	पपडेल	110 से 117		
	12	पपडेल	118 से 139		
	13	बामन्याखेडी	1 से 12		
	14	बामन्याखेडी	13 से 25		
	15	नयापुरा	1 से 29		
	16	नयापुरा	29 से 15		
	17	छतरपुरा	15 से 27		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
25	1	गोपालपुरा	1 से 18	अ.जा. महिला	1
	2	गोपालपुरा	19 से 30	अ.जा. मुक्त	0
	3	गोपालपुरा	32 से 41	अ.ज.जा. महिला	0
	4	गोपालपुरा	43 से 56	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गोपालपुरा	57 से 73	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गोपालपुरा	74 से 83	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	गोपालपुरा	84 से 96	अनारक्षित महिला	3
	8	गोपालपुरा	98 से 108	अनारक्षित मुक्त	4
	9	गोपालपुरा	109 से 382	कुल योग	11
	10	पाटडीखेडा	1 से 9		
	11	पाटडीखेडा	10 से 17		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
26	1	बरखेडा	1 से 13	अ.जा. महिला	1	
	2	बरखेडा	14 से 23	अ.जा. मुक्त	0	
	3	बरखेडा	24 से 32	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	बरखेडा	33 से 41	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	परसपुरा	1 से 13	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	परसपुरा	14 से 23	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	परसपुरा	25 से 36	अनारक्षित महिला	3	
	8	टिमरनी	1 से 11	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	कोयला	1 से 15		कुल योग	11
	10	कोयला	16 से 35			
	11	रुगनाथपुरा	1 से 20			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
27	1	खाजली	1 से 14/2/1	अ.जा. महिला	1	
	2	खाजली	16 से 27/2	अ.जा. मुक्त	0	
	3	खाजली	28/1 से 36/1	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	खाजली	36/2 से 43/1	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	खाजली	43/1 से 56/1	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	रामपुरिया	1 से 19	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	उदयपुरिया	2 से 10	अनारक्षित महिला	3	
	8	उदयपुरिया	10 से 101	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	पातलापानी	1 से 10		कुल योग	11
	10	पातलापानी	11 से 4/4			
	11	तलावडा	6 से 14/2			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
28	1	खाजला	1 से 20	अ.जा. महिला	0	
	2	खाजला	21 से 33	अ.जा. मुक्त	0	
	3	खाजला	34 से 45	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	खेमापुरा	1 से 17	अ.ज.जा. मुक्त	1	
	5	गुन्दीपुरा	1 से 16	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	मोकमपुरा	1 से 12	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	घाटाखेडी	1 से 19	अनारक्षित महिला	2	
	8	घाटाखेडी	20 से 39	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	भवानीपुरा	1 से 17		कुल योग	10
	10	बेहडीबेह	1 से 21			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
29	1	कुशलपुरा	1 से 5	अ.जा. महिला	1	
	2	कुशलपुरा	6 से 16	अ.जा. मुक्त	0	
	3	कुशलपुरा	17 से 27	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	कुशलपुरा	28 से 36	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	कुशलपुरा	37 से 50	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	लखोनी	1 से 17	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	लखोनी	19 से 32	अनारक्षित महिला	3	
	8	कुलीपुरा	1 से 11	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	कुलीपुरा	12 से 17		कुल योग	12
	10	पुराखाजला	1 से 19			
	11	पुराखाजला	20 से 3			
	12	खेतियाखेडी	1 से 5		अनारक्षित महिला	

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
30	1	भवानीपुरापुस्त ढण्ड	1 से 10	अ.जा. महिला	0	
	2	भवानीपुरापुस्त ढण्ड	11 से 20	अ.जा. मुक्त	0	
	3	भवानीपुरापुस्त ढण्ड	21 से 31	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	ढाबलीखुर्द	1 से 11	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	ढाबलीखुर्द	12 से 21	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	हटेपुर	2 से 5	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
		बाडिया	1 से 5	अनारक्षित महिला	3	
	7	पीपल्याखास	7 से 29	अनारक्षित मुक्त	4	
	8	श्यामपुरा	1 से 13		कुल योग	10
	9	अमरपुरा	1 से 9क			
10	अमरपुरा	10 से 16				

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
31	1	देहरा	1 से 10	अ.जा. महिला	1	
	2	देहरा	11 से 18	अ.जा. मुक्त	0	
	3	देहरा	19 से 28	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	देहरा	29 से 37	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	देहरा	38 से 46	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	परसपुरा	3 से 4	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	परसपुरा	5 से 6	अनारक्षित महिला	4	
	8	कोटड़ा	1 से 15	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	कोटड़ा	16 से 43		कुल योग	14
	10	राघोपुर	1 से 15			
	11	राघोपुर एवं पुरकुलीपुरा	16 से 7			
	12	पुराखेरखेडी	2 से 12			
	13	खुटियाबेह	1 से 12			
	14	खुटियाबेह	13 से 19			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
32	1	बारोल	1 से 13/क	अ.जा. महिला	0
	2	बारोल	14 से 30	अ.जा. मुक्त	0
	3	बारोल	31 से 46	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बारोल	47 से 61	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	बारोल	62 से 7	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	देवाखेडी	0/1 से 6A	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	देवाखेडी	7 से 15	अनारक्षित महिला	6
	8	देवाखेडी	15 से 23/2	अनारक्षित मुक्त	6
	9	देवाखेडी	23/3 से 29/क	कुल योग	17
	10	देवाखेडी	30 से 38		
	11	देवाखेडी	39 से 49		
	12	देवाखेडी	50 से 56/1		
	13	सेमलखेडी	1 से 53		
	14	सिंगनपुर	1 से 33		
	15	पुराबारोल	1 से 11		
	16	पुराबारोल	12 से 22		
	17	हीरापुरी	1 से 17		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
33	1	सुआहेडी	1 से 11	अ.जा. महिला	0
	2	सुआहेडी	12 से 22	अ.जा. मुक्त	0
	3	सुआहेडी	23 से 32	अ.ज.जा. महिला	0
	4	सुआहेडी	34 से 42	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	सूरजपुरा	1 से 10	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	खण्डारबेह	1 से 9ख	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	परसपुरा	1 से 14ख	अनारक्षित महिला	4
	8	झरन्या	1 से 10	अनारक्षित मुक्त	5
	9	झण्डापट्टी	1 से 9	कुल योग	12
	10	झण्डापट्टी	10 से 31		
	11	किशनपुरिया	1 से 13/6		
	12	दोबडीखेडा	1 से 56/7		
	टीलापुरा				
	लालपुरिया				

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
34	1	सड़ियाकुआ	2 से 19	अ.जा. महिला	1
	2	सड़ियाकुआ	19A से 25/1	अ.जा. मुक्त	0
	3	सड़ियाकुआ	26 से 39	अ.ज.जा. महिला	0
	4	सड़ियाकुआ	40 से 59	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	सड़ियाकुआ	70 से 75	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	सड़ियाकुआ	79 से 82	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	1
	7	सड़ियाकुआ	83 से 98	अनारक्षित महिला	2
	8	पीपल्यापुस्त, मंगलपुरा	1 से 2	अनारक्षित मुक्त	4
	9	मंगलपुरा, पुरखेरखेडा	3 से 13	कुल योग	10
	10	बिसलाई	1 से 13		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
35	1	बोरकापानी	1 से 15	अ.जा. महिला	1
	2	बोरकापानी	16 से 30	अ.जा. मुक्त	0
	3	बोरकापानी	31 से 39	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बोरकापानी	40 से 53	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	तलावड़ा	1 से 11	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	तलावड़ा	12 से 20	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
	7	तलावड़ा	21 से 33	अनारक्षित महिला	3
	8	तलावड़ा	34 से 43	अनारक्षित मुक्त	4
	9	नेगड़िया	44 से 16	कुल योग	12
	10	मोतीपुरा	1 से 10		
	11	मोतीपुरा	11 से 16		
	12	मोतीपुरा, पुरातलावड़ा	17 से 12	अनारक्षित महिला	

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
36	1	डालूपुरा	1 से 15	अ.जा. महिला	1
	2	डालूपुरा	16 से 30	अ.जा. मुक्त	0
	3	डालूपुरा	31 से 44	अ.ज.जा. महिला	0
	4	डालूपुरा	45 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	डालूपुरा	56 से 69	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	डालूपुरा	70 से 80	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	डालूपुरा	81 से 94	अनारक्षित महिला	2
	8	सेदरा	1 से 16	अनारक्षित मुक्त	4
	9	सेदरा	17 से 39	कुल योग	10
	10	अमरपुरा	1 से 20		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
37	1	बघेला	1 से 8	अ.जा. महिला	2
	2	बघेला	11 से 19	अ.जा. मुक्त	2
	3	बघेला	20 से 31	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बघेला	32 से 41	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	बघेला	42 से 53	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	बघेला	54 से 67	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	पीथापुरा	1 से 9	अनारक्षित महिला	4
	8	पीथापुरा	10 से 24	अनारक्षित मुक्त	3
	9	छावनी	25 से 42	कुल योग	15
	10	छावनी	1 से 6		
	11	छावनी	6 से 15		
	12	छावनी	16 से 25		
	13	छावनी	26 से 44		
	14	बोरदा नजदीक	1 से 16		
	15	बोरदा नजदीक	16 से 45		



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
38	1	माण्डाखेडा	1 से 18	अ.जा. महिला	1	
	2	माण्डाखेडा	19 से 34	अ.जा. मुक्त	0	
	3	माण्डाखेडा	35 से 55	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	जगन्नाथपुरा	1 से 15	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	जगन्नाथपुरा	16 से 33	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	पुराजगन्नाथपुरा	1 से 17	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	पुराजगन्नाथपुरा	18 से 30	अनारक्षित महिला	4	
	8	पाटडीखेडा	1 से 14	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	गिरधरपुरा	1 से 6		कुल योग	13
	10	खोखरिया	1 से 14			
	11	रूगनाथपुरा	1 से 4			
	12	रूगनाथपुरा	5 से 11			
	13	मायापुरा	1 से 9			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
39	1	चांदपुरा	1 से 13	अ.जा. महिला	1	
	2	चांदपुरा	14 से 23	अ.जा. मुक्त	0	
	3	चांदपुरा	24 से 412	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	गोपालपुरा	1 से 61	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	गोपालपुरा	7 से 15	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	बावडीबेह	1 से 12	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	बावडीबेह	13 से 108	अनारक्षित महिला	3	
	8	प्रेमपुरा	1 से 24	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	प्रेमपुरा	25 से 45		कुल योग	11
	10	धामन्दा	1 से 10/1			
	11	सेमलाबेह	2 से 9			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
40	1	बड़बेली	1 से 7/1	अ.जा. महिला	1	
	2	बड़बेली	8 से 14	अ.जा. मुक्त	1	
	3	बड़बेली	15 से 20/1	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	बड़बेली	21 से 31	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बड़बेली	32 से 40/2	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	बड़बेली	41 से 51	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	गौरधनपुरा	1 से 2/1	अनारक्षित महिला	2	
	8	करकरा	1 से 12	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	करकरा	14 से 23		कुल योग	10
	10	करकरा	24 से 43			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
41	1	धामन्याजोगी	1 से 8	अ.जा. महिला	1	
	2	धामन्याजोगी	9 से 17	अ.जा. मुक्त	0	
	3	धामन्याजोगी	18 से 33	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	धामन्याजोगी	34 से 45	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	धामन्याजोगी	46 से 62	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	भरतपुरा	1 से 9/2	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	भरतपुरा	10 से 18	अनारक्षित महिला	2	
	8	भरतपुरा	18/1 से 29	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	कल्याणपुरा	1 से 13		कुल योग	10
	10	कल्याणपुरा	14 से 21			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
42	1	सेमलीकांकड	1 से 13	अ.जा. महिला	1
	2	सेमलीकांकड	14 से 25	अ.जा. मुक्त	1
	3	सेमलीकांकड	26 से 36	अ.ज.जा. महिला	0
	4	सेमलीकांकड	37 से 51	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गादियाचारण	1 से 14	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गादियाचारण	15 से 27	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	गादियाचारण	28 से 40	अनारक्षित महिला	2
	8	गादियाचारण	41 से 60	अनारक्षित मुक्त	3
	9	गादियाचारण	61 से 63	कुल योग	10
	10	बोरदाखुर्द	6 से 63		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
43	1	पानखेडी	1 से 9	अ.जा. महिला	1
	2	पानखेडी	10 से 21	अ.जा. मुक्त	0
	3	पानखेडी	22 से 33	अ.ज.जा. महिला	0
	4	पानखेडी	34 से 44	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	पानखेडी	45 से 63	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	ब्यावराखुर्द	1 से 11	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	मन्नीपुरा	1 से 8	अनारक्षित महिला	2
	8	मन्नीपुरा	12 से 17	अनारक्षित मुक्त	4
	9	मन्नीपुरा	18 से 22	कुल योग	10
	10	मन्नीपुरा	23 से 28		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
44	1	हिनोत्या	1 से 13	अ.जा. महिला	1	
	2	हिनोत्या	14 से 22	अ.जा. मुक्त	1	
	3	हिनोत्या	23 से 33	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	हिनोत्या	34 से 44	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	हिनोत्या	46 से 56	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	हिनोत्या	57 से 62	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	हिनोत्या	62 से 74	अनारक्षित महिला	4	
	8	हिनोत्या	76 से 87	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	हिनोत्या	87 से 96		कुल योग	13
	10	हिनोत्या	97 से 110			
	11	हिनोत्या	111 से 128			
	12	तखतपुरा	1 से 4			
	13	तखतपुरा	5 से 11			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
45	1	लक्ष्मणपुरा	1 से 18	अ.जा. महिला	1	
	2	लक्ष्मणपुरा	18 से 25	अ.जा. मुक्त	0	
	3	लक्ष्मणपुरा	26 से 36	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	लक्ष्मणपुरा	37 से 47	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	लक्ष्मणपुरा	48 से 60	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	मुण्डला	1 से 9	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	मुण्डला	10 से 16	अनारक्षित महिला	4	
	8	मुण्डला	17 से 29	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	मुण्डला	30 से 45		कुल योग	13
	10	मुण्डला	46 से 54			
	11	मुण्डला	55 से 61			
	12	तड़तड़ा	1/2 से 9/2			
	13	तड़तड़ा	10 से 23			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
46	1	लिम्बोदा	1 से 12A	अ.जा. महिला	1
	2	लिम्बोदा	13 से 26	अ.जा. मुक्त	0
	3	लिम्बोदा	27 से 39	अ.ज.जा. महिला	0
	4	सालरी	1 से 7	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	सालरी	8 से 17A	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	सालरी	18 से 23	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	चांदपुरा	1 से 10	अनारक्षित महिला	3
	8	चांदपुरा	11 से 17	अनारक्षित मुक्त	4
	9	पुराचांदपुरा	1 से 13	कुल योग	11
	10	पुराचांदपुरा	1 से 15		
	11	भौनीपुरा	16 से 50		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
47	1	फतेहपुर	2 से 68	अ.जा. महिला	1
	2	फतेहपुर	8/4 से 13/2	अ.जा. मुक्त	1
	3	फतेहपुर	14 से 19/4	अ.ज.जा. महिला	0
	4	फतेहपुर	20/1 से 30	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	फतेहपुर	31 से 37/3	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	फतेहपुर	38/1 से 40/5	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	फतेहपुर	41 से 462	अनारक्षित महिला	4
	8	कुण्डीबेह	1/1 से 11	अनारक्षित मुक्त	3
	9	कुण्डीबेह	12 से 25/1	कुल योग	13
	10	कुण्डीबेह	25/1 से 33/6		
	11	कुण्डीबेह	33/6 से 37/2		
	12	कुण्डीबेह	37/2 से 42/1		
	13	कुण्डीबेह	42/2 से 49/3		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
48	1	जामोन्या	1 से 10	अ.जा. महिला	1
	2	जामोन्या	11 से 24	अ.जा. मुक्त	0
	3	जामोन्या	25 से 32A	अ.ज.जा. महिला	0
	4	जामोन्या	32A से 44A	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	जामोन्या	44A से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	जामोन्या	56 से 73	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
	7	जामोन्या	74 से 82	अनारक्षित महिला	5
	8	जामोन्या	83 से 94A	अनारक्षित मुक्त	6
	9	जामोन्या	95 से 110	कुल योग	16
	10	जामोन्या	111 से 121A		
	11	जामोन्या	122 से 131		
	12	जामोन्या	132 से 150		
	13	जामोन्या	151 से 156A		
	14	जामोन्या	157 से 163क		
	15	जामोन्या	164 से 175		
	16	पुराजामोन्या	176 से 184		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
49	1	बावडीखेडा जागीर	2 से 14	अ.जा. महिला	1
	2	बावडीखेडा जागीर	16 से 28	अ.जा. मुक्त	1
	3	बावडीखेडा जागीर	29 से 43/3	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बावडीखेडा जागीर	44 से 48	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	बावडीखेडा जागीर	49 से 56	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	बावडीखेडा जागीर	57 से 73	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
	7	देवरिया	1 से 19	अनारक्षित महिला	3
	8	देवरिया	20 से 96	अनारक्षित मुक्त	3
	9	शिवनाथपुरा	/2 से 10/1	कुल योग	12
	10	शिवनाथपुरा	11 से 20		
	11	शिवनाथपुरा	21 से 30		
	12	शिवनाथपुरा	31 से 41/1		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
50	1	अमानपुरा	1 से 7/5	अ.जा. महिला	1	
	2	अमानपुरा	8 से 15	अ.जा. मुक्त	0	
	3	अमानपुरा	16 से 29	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	अमानपुरा	30 से 43	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	देवपुर	1 से 10	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	देवपुर	11 से 24	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	देवपुर	25 से 33	अनारक्षित महिला	2	
	8	छतरपुरा	1 से 12	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	मोहनपुरा	1 से 7		कुल योग	10
	10	मोहनपुरा	8 से 16			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
51	1	जेतपुराकलां	1 से 14	अ.जा. महिला	1	
	2	जेतपुराकलां	15 से 24	अ.जा. मुक्त	1	
	3	जेतपुराकलां	25 से 39	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	जेतपुराकलां	40 से 47	अ.ज.जा. मुक्त	1	
	5	जेतपुराकलां	48 से 57	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	जेतपुराकलां	58 से 65	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	जेतपुराकलां	66 से 74क	अनारक्षित महिला	4	
	8	जेतपुराकलां	75 से 88	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	जेतपुराकलां	89 से 99		कुल योग	18
	10	जेतपुराकलां	100 से 112			
	11	जेतपुराकलां	113 से 124			
	12	जेतपुराकलां	125 से 132			
	13	जेतपुराकलां	133 से 142			
	14	जेतपुराकलां	143 से 151			
	15	जेतपुराकलां	152 से 157/2			
	16	जेतपुराकलां	158 से 163/3			
	17	जेतपुराकलां	164 से 172			
	18	जेतपुराकलां	173 से 187			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
52	1	गुजरखेडी	1 से 10	अ.जा. महिला	1
	2	गुजरखेडी	11 से 20	अ.जा. मुक्त	0
	3	गुजरखेडी	21 से 29	अ.ज.जा. महिला	0
	4	गुजरखेडी	30 से 39	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गुजरखेडी	40 से 49	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गुजरखेडी	50 से 59	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	गुजरखेडी	60 से 69	अनारक्षित महिला	4
	8	गुजरखेडी	70 से 78	अनारक्षित मुक्त	4
	9	गुजरखेडी	1 से 23	कुल योग	13
	10	गुराडिया	24 से 31		
	11	गुराडिया	32 से 40/3		
	12	गुराडिया	41 से 48		
	13	गुराडिया	49 से 63		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
53	1	पीपल्याकलां	1 से 14	अ.जा. महिला	1
	2	पीपल्याकलां	14/1 से 29/1	अ.जा. मुक्त	1
	3	पीपल्याकलां	30 से 41/1	अ.ज.जा. महिला	1
	4	पीपल्याकलां	42 से 54/2	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	पीपल्याकलां	55 से 67	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	पीपल्याकलां	68 से 84	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	पीपल्याकलां	85 से 97	अनारक्षित महिला	5
	8	पीपल्याकलां	98 से 111	अनारक्षित मुक्त	7
	9	पीपल्याकलां	112 से 130	कुल योग	20
	10	पीपल्याकलां	130 से 137/1		
	11	पीपल्याकलां	131 से 136		
	12	पीपल्याकलां	140 से 159/1		
	13	पीपल्याकलां	160 से 177/3		
	14	पीपल्याकलां	177/4 से 206		
	15	पीपल्याकलां	207/क से 230		
	16	पीपल्याकलां	231 से 244		
	17	पीपल्याकलां	232 से 250		
	18	पीपल्याकलां	250 से 266		
	19	पीपल्याकलां	267 से 282		
	20	पीपल्याकलां	283 से 162		



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
54	1	चितावल्या	1 से 9	अ.जा. महिला	0
	2	चितावल्या	9 से 16	अ.जा. मुक्त	0
	3	चितावल्या	17 से 29	अ.ज.जा. महिला	0
	4	चितावल्या	29 से 40	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	चितावल्या	41 से 55	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	चितावल्या	56 से 63	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	चितावल्या	64 से 76	अनारक्षित महिला	5
	8	चितावल्या	78 से 90	अनारक्षित मुक्त	4
	9	चितावल्या	90 से 99	कुल योग	13
	10	चितावल्या	99 से 108		
	11	चितावल्या	108 से 122		
	12	चितावल्या	122 से 137		
	13	हिम्मतगढ़	1 से 206/1		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
55	1	देवाखेडी	1 से 51	अ.जा. महिला	1
	2	देवाखेडी	6 से 16	अ.जा. मुक्त	0
	3	देवाखेडी	17 से 27	अ.ज.जा. महिला	0
	4	देवाखेडी	28 से 42	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	देवाखेडी	43 से 52	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	देवाखेडी	53 से 59	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	माधोपुर	1 से 8	अनारक्षित महिला	3
	8	मोयाखेडी	1 से 16	अनारक्षित मुक्त	4
	9	मोयाखेडी	17 से 29	कुल योग	11
	10	मोयाखेडी	30 से 141		
	11	मोयाखेडी	42 से 50		

## राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ - 3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
56	1	रूपारेल	1 से 11घ	अ.जा. महिला	1
	2	रूपारेल	12 से 25	अ.जा. मुक्त	0
	3	रूपारेल	26 से 39	अ.ज.जा. महिला	0
	4	रूपारेल	40 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	रूपारेल	56 से 71	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	मोयाखेड़ा	1 से 10	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	1
	7	मोयाखेड़ा	11 से 53	अनारक्षित महिला	3
	8	देवरी	1 से 15	अनारक्षित मुक्त	4
	9	देवरी	17 से 28	कुल योग	11
	10	देवरी	30 से 38		
	11	देवरी	39 से 64		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
57	1	बिसन्या	1 से 7	अ.जा. महिला	0
	2	बिसन्या	8/1 से 14A	अ.जा. मुक्त	0
	3	बिसन्या	15/1 से 27	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बिसन्या	28 से 35/2	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	बिसन्या	35/3 से 44A	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	बिसन्या	45 से 55	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
	7	मोई	1/1 से 10	अनारक्षित महिला	4
	8	मोई	11 से 21	अनारक्षित मुक्त	4
	9	मोई	22 से 31/1	कुल योग	12
	10	आंकखेडी	1 से 15A		
	11	आंकखेडी	16 से 28		
	12	आंकखेडी	28 से 41A		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
58	1	कछोटियां	1 से 9	अ.जा. महिला	0
	2	कछोटिया	10 से 16क	अ.जा. मुक्त	0
	3	कछोटिया	17 से 31	अ.ज.जा. महिला	0
	4	कछोटिया	32 से 41	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	कछोटिया	41घ से 50	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	कछोटिया	51 से 59	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	कछोटिया	60 से 67	अनारक्षित महिला	6
	8	कछोटिया	67 से 72	अनारक्षित मुक्त	5
	9	कछोटिया	72 से 77	कुल योग	15
	10	कछोटिया	78 से 83		
	11	कछोटिया	84 से 87		
	12	कछोटिया	88 से 94		
	13	कछोटिया	95 से 104I		
	14	कछोटिया	105 से 113		
	15	कछोटिया	113 से 118		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
59	1	अमावता	1 से 9	अ.जा. महिला	1
	2	अमावता	10 से 18	अ.जा. मुक्त	0
	3	अमावता	19 से 26	अ.ज.जा. महिला	0
	4	अमावता	27 से 34I	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	अमावता	34I से 42	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	अमावता	43 से 58	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	अमावता	59 से 64घ	अनारक्षित महिला	3
	8	अमावता	65 से 77	अनारक्षित मुक्त	3
	9	अमावता	78 से 87	कुल योग	11
	10	अमावता	88 से 95		
	11	बोरखेडी	1 से 14		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
60	1	मेहराजपुरा	1 से 14क	अ.जा. महिला	0	
	2	मेहराजपुरा	15 से 26/3	अ.जा. मुक्त	0	
	3	मेहराजपुरा	27 से 37/2	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	मेहराजपुरा	39/1 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	मेहराजपुरा	57 से 60/21	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	मेहराजपुरा	61 से 76	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	मेहराजपुरा	77 से 127	अनारक्षित महिला	3	
	8	बरखेडा	1 से 10/3	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	बरखेडा	12 से 17		कुल योग	10
	10	बरखेडा	19/1 से 29			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
61	1	कुलीखेडा	1 से 9	अ.जा. मुक्त	0	
	2	कुलीखेडा	10/1 से 19/5	अ.ज.जा. महिला	0	
	3	कुलीखेडा	20 से 33	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	4	कुलीखेडा	34 से 44	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	5	कुलीखेडा	45 से 55/2	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	6	कुलीखेडा	55/3 से 63	अनारक्षित महिला	4	
	7	कुलीखेडा	63/1 से 77	अनारक्षित मुक्त	5	
	8	कुलीखेडा	78 से 91/1		कुल योग	13
	9	कुलीखेडा	91/2 से 98/1			
	10	कुलीखेडा	98/2 से 111			
	11	कुलीखेडा	112 से 121/4			
	12	कुलीखेडा	121/5 से 127/2			
	13	कुलीखेडा	128 से 5513			
	14	मोतीपुरा	1 से 10			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
62	1	दूदाहेड़ी	1 से 14	अ.जा. महिला	1	
	2	दूदाहेड़ी	15 से 27	अ.जा. मुक्त	0	
	3	दूदाहेड़ी	28 से 42/3	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	दूदाहेड़ी	43 से 56	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	दूदाहेड़ी	57 से 69/4	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	दूदाहेड़ी	70 से 81	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	दूदाहेड़ी	82 से 88	अनारक्षित महिला	5	
	8	मल्हारपुरा	1 से 136/2	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	भैरवांखेडी	1/1 से 6/4		कुल योग	15
	10	भैरवांखेडी	7 से 17			
	11	भैरवांखेडी	18 से 33			
	12	भैरवांखेडी	34 से 51/4			
	13	भैरवांखेडी	52 से 62			
	14	गुमानीपुरा	1 से 8			
	15	गुमानीपुरा	8 से 21			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
63	1	ब्यावराकलां	1 से 14	अ.जा. महिला	0	
	2	ब्यावराकलां	15 से 26/2	अ.जा. मुक्त	0	
	3	ब्यावराकलां	27 से 40	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	ब्यावराकलां	41 से 50	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	ब्यावराकलां	51 से 68	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	ब्यावराकलां	69 से 85	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	ब्यावराकलां	86 से 102	अनारक्षित महिला	5	
	8	ब्यावराकलां	103 से 112	अनारक्षित मुक्त	7	
	9	ब्यावराकलां	113 से 129		कुल योग	18
	10	ब्यावराकलां	130 से 138/2			
	11	ब्यावराकलां	139 से 154			
	12	ब्यावराकलां	156 से 172			
	13	ब्यावराकलां	173 से 185			
	14	ब्यावराकलां	186 से 194ड			
	15	ब्यावराकलां	195 से 99/99			
	16	ब्यावराकलां	24 से 951			
	17	ब्यावराकलां	96 से 154			
	18	ब्यावराकलां	156 से 9999			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
64	1	हालाहेडी	1 से 10	अ.जा. महिला	1	
	2	हालाहेडी	11 से 18	अ.जा. मुक्त	0	
	3	हालाहेडी	19 से 30	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	हालाहेडी	31 से 39क	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	हालाहेडी	40 से 48	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	हालाहेडी	49 से 57	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	हालाहेडी	58 से 67	अनारक्षित महिला	3	
	8	हालाहेडी	68 से 70	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	बरगुलिया	1 से 10/1		कुल योग	12
	10	बरगुलिया	10/2 से 24/2			
	11	बरगुलिया	25 से 36/1			
	12	बरगुलिया	36/2 से 46			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
65	1	कुआखेड़ा	1 से 18	अ.जा. महिला	1	
	2	कुआखेड़ा	19 से 31	अ.जा. मुक्त	0	
	3	कुआखेड़ा	33 से 43	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	कुआखेड़ा	46 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	कुआखेड़ा	55 से 67	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	कुआखेड़ा	68 से 74	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	कुआखेड़ा	74घ से 93	अनारक्षित महिला	4	
	8	कुआखेड़ा	94 से 105	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	कुआखेड़ा	106 से 115		कुल योग	15
	10	कुआखेड़ा	115 से 122			
	11	कुआखेड़ा	123 से 135			
	12	कुआखेड़ा	136 से 147			
	13	कुआखेड़ा	148 से 167			
	14	कुआखेड़ा	168 से 177			
	15	कुआखेड़ा	177 से 196			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
66	1	नाटाराम	1 से 13	अ.जा. महिला	1
	2	नाटाराम	14 से 27	अ.जा. मुक्त	0
	3	नाटाराम	28 से 38	अ.ज.जा. महिला	0
	4	नाटाराम	39 से 50	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	नाटाराम	51 से 65	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	3
	6	नाटाराम	66 से 79	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
	7	नाटाराम	80 से 96	अनारक्षित महिला	5
	8	नाटाराम	97 से 109	अनारक्षित मुक्त	7
	9	नाटाराम	110 से 119	कुल योग	18
	10	नाटाराम	120 से 129		
	11	नाटाराम	130 से 139		
	12	नाटाराम	140 से 148		
	13	नाटाराम	149 से 157		
	14	नाटाराम	158 से 170		
	15	नाटाराम	171 से 179		
	16	नाटाराम	180 से 191		
	17	नाटाराम	192 से 203		
	18	नाटाराम	204 से 9999		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
94	1	बादरी	1 से 11	अ.जा. महिला	1
	2	बादरी	13 से 21	अ.जा. मुक्त	0
	3	बादरी	22 से 30	अ.ज.जा. महिला	0
	4	कुण्डीखेडा	2 से 12	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	कुण्डीखेडा	13 से 24	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	2
	6	कुण्डीखेडा	25 से 36	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त	1
	7	डोब	1 से 14	अनारक्षित महिला	2
	8	डोब	15 से 26	अनारक्षित मुक्त	4
	9	भेरुगढ	1 से 11	कुल योग	10
	10	विजयपुर	1 से 13		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
68	1	बाजरोन	1 से 12	अ.जा. महिला	1
	2	बाजरोन	15 से 29	अ.जा. मुक्त	0
	3	बाजरोन	30 से 41	अ.ज.जा. महिला	0
	4	बाजरोन	42 से 53	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	बाजरोन	56 से 69	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	बाजरोन	70 से 81	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	बाजरोन	82 से 95	अनारक्षित महिला	4
	8	बाजरोन	96 से 117	अनारक्षित मुक्त	5
	9	डगल्या	1 से 13	कुल योग	14
	10	डगल्या	14 से 28		
	11	डगल्या	29 से 39		
	12	डगल्या	40 से 48		
	13	डगल्या	49 से 62		
	14	डगल्या	63 से 71		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
67	1	धुआखेडी	1 से 9	अ.जा. महिला	0
	2	धुआखेडी	10 से 20	अ.जा. मुक्त	0
	3	धुआखेडी	21 से 27	अ.ज.जा. महिला	1
	4	धुआखेडी	28 से 36	अ.ज.जा. मुक्त	1
	5	धुआखेडी	37 से 52	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	धुआखेडी	53 से 66	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	धुआखेडी	67 से 82	अनारक्षित महिला	5
	8	धुआखेडी	83 से 97	अनारक्षित मुक्त	6
	9	धुआखेडी	99 से 111	कुल योग	18
	10	धुआखेडी	112 से 127		
	11	शेखनपुर	1 से 12		
	12	शेखनपुर	13 से 18		
	13	शेखनपुर	19 से 25		
	14	शेखनपुर	29 से 41		
	15	शेखनपुर	42 से 50		
	16	डिगल्याखेडी	1 से 8		
	17	डिगल्याखेडी	9 से 15		
	18	डिगल्याखेडी	15/क से 23		



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
69	1	रनारा	1/1 से 15	अ.जा. महिला	1
	2	रनारा	16 से 31	अ.जा. मुक्त	1
	3	रनारा	31 से 43/2	अ.ज.जा. महिला	0
	4	रनारा	44 से 60	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	रनारा	61 से 70	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	रनारा	70/1 से 93	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	रनारा	94 से 105I	अनारक्षित महिला	6
	8	रनारा	107 से 120	अनारक्षित मुक्त	7
	9	रनारा	121 से 135	कुल योग	20
	10	रनारा	136 से 150		
	11	रनारा	151 से 160/1		
	12	रनारा	161 से 174		
	13	रनारा	174/क से 184		
	14	रनारा	185 से 191/क		
	15	रनारा	192 से 203		
	16	रनारा	204 से 210/क		
	17	रनारा	211 से 134		
	18	पीपाखेडी	1 से 10		
	19	पीपाखेडी	11 से 22		
	20	पीपाखेडी	23 से 143		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
70	1	खजुरीगोकुल	1 से 14	अ.जा. महिला	2
	2	खजुरीगोकुल	16 से 25	अ.जा. मुक्त	1
	3	खजुरीगोकुल	26 से 41	अ.ज.जा. महिला	1
	4	खजुरीगोकुल	42 से 55	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	खजुरीगोकुल	56 से 65	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	खजुरीगोकुल	66 से 85	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	खजुरीगोकुल	86 से 95	अनारक्षित महिला	4
	8	खजुरीगोकुल	96 से 104	अनारक्षित मुक्त	7
	9	खजुरीगोकुल	105 से 115	कुल योग	20
	10	खजुरीगोकुल	116 से 125		
	11	खजुरीगोकुल	126 से 140		
	12	खजुरीगोकुल	141 से 155		
	13	खजुरीगोकुल	156 से 165		
	14	खजुरीगोकुल	166 से 180		
	15	खजुरीगोकुल	181 से 200		
	16	खजुरीगोकुल	201 से 210		
	17	खजुरीगोकुल	211 से 227		
	18	खजुरीगोकुल	228 से 241		
	19	खजुरीगोकुल	242 से 260		
	20	खजुरीगोकुल	261 से 9999		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण :		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
71	1	खाताखेडी	1 से 10	अ.जा. महिला	2	
	2	खाताखेडी	11 से 20	अ.जा. मुक्त	1	
	3	खाताखेडी	21 से 30	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	खाताखेडी	31 से 45	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	खाताखेडी	46 से 55	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	खाताखेडी	56 से 64	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	खाताखेडी	66 से 83	अनारक्षित महिला	2	
	8	खाताखेडी	84 से 95	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	खाताखेडी	96 से 105		कुल योग	12
	10	खाताखेडी	106 से 121ड			
	11	तेलीखेडा	1 से 9			
	12	तेलीखेडा	10 से 25			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
72	1	जटामडी	1 से 12	अ.जा. महिला	1	
	2	जटामडी	13 से 21	अ.जा. मुक्त	0	
	3	जटामडी	22 से 33	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	जटामडी	34 से 39	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	जटामडी	40 से 48	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	जटामडी	50 से 63	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	जटामडी	64 से 75	अनारक्षित महिला	5	
	8	जटामडी	76 से 91	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	संदरा	2 से 13		कुल योग	15
	10	संदरा	14 से 26			
	11	संदरा	27 से 36			
	12	संदरा	37 से 44			
	13	संदरा	45 से 54			
	14	संदरा	55 से 60			
	15	संदरा	61 से 69			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
73	1	भाटखेडा	1 से 24	अ.जा. महिला	1	
	2	भाटखेडा	25 से 40	अ.जा. मुक्त	0	
	3	भाटखेडा	42 से 64	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	भाटखेडा	65 से 83	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	भाटखेडा	84 से 102	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	भाटखेडा	103 से 115घ	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	भाटखेडा	116 से 133	अनारक्षित महिला	5	
	8	भाटखेडा	135 से 157	अनारक्षित मुक्त	8	
	9	भाटखेडा	158 से 180		कुल योग	20
	10	भाटखेडा	181 से 198			
	11	भाटखेडा	199 से 9999			
	12	भाटखेडा	224 से 246			
	13	भाटखेडा	247 से 268			
	14	भाटखेडा	269 से 290			
	15	भाटखेडा	290ख से 312			
	16	भाटखेडा	313 से 329			
	17	भाटखेडा	329 से 356			
	18	भाटखेडा	356 से 369A			
	19	भाटखेडा	372 से 419घ			
	20	भाटखेडा	419च से 9999			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
74	1	गुनाखेडी	2 से 7ग	अ.जा. महिला	1	
	2	गुनाखेडी	8 से 13	अ.जा. मुक्त	0	
	3	गुनाखेडी	14 से 18	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	गुनाखेडी	19 से 25ड	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	गुनाखेडी	26 से 31	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	गुनाखेडी	33 से 39	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	गुनाखेडी	40 से 49क	अनारक्षित महिला	3	
	8	गुनाखेडी	51 से 55	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	गुनाखेडी	56 से 66ग		कुल योग	11
	10	गुनाखेडी	67 से 77			
	11	गुनाखेडी	78 से 84/2			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
75	1	भादाहेडी	1 से 9	अ.जा. महिला	2
	2	भादाहेडी	10 से 20	अ.जा. मुक्त	1
	3	भादाहेडी	21 से 38	अ.ज.जा. महिला	1
	4	भादाहेडी	39 से 48	अ.ज.जा. मुक्त	1
	5	भादाहेडी	49 से 59	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	भादाहेडी	61 से 71	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	भादाहेडी	72 से 79A	अनारक्षित महिला	2
	8	भादाहेडी	80 से 92	अनारक्षित मुक्त	3
	9	भादाहेडी	92 से 106	कुल योग	14
	10	भादाहेडी	106 से 114		
	11	भादाहेडी	114A से 125		
	12	भादाहेडी	126 से 137		
	13	भादाहेडी	138 से 143		
	14	भादाहेडी	144 से 152		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
76	1	जेतपुराखुर्द	1 से 15	अ.जा. महिला	2
	2	जेतपुराखुर्द	18/1 से 26/2	अ.जा. मुक्त	1
	3	जेतपुराखुर्द	27/1 से 51/1	अ.ज.जा. महिला	1
	4	जेतपुराखुर्द	53 से 69	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	जेतपुराखुर्द	70 से 81	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	जेतपुराखुर्द	85 से 107	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	जेतपुराखुर्द	109 से 118	अनारक्षित महिला	3
	8	जेतपुराखुर्द	119 से 127	अनारक्षित मुक्त	5
	9	जेतपुराखुर्द	128 से 134/2	कुल योग	16
	10	जेतपुराखुर्द	135 से 142		
	11	जेतपुराखुर्द	143 से 155/2		
	12	जेतपुराखुर्द	156 से 168		
	13	छतरपुरा	1/1 से 9		
	14	करणपुरा	1 से 14/2		
	15	करणपुरा	14/3 से 28		
	16	करणपुरा	29 से 48		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
77	1	शेरपुरा	1 से 8	अ.जा. महिला	1
	2	शेरपुरा	9 से 19	अ.जा. मुक्त	0
	3	शेरपुरा	20 से 29A	अ.ज.जा. महिला	0
	4	घाटाखेडी	1 से 9	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	श्यामपुरा	1 से 7B	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	खुरच्चन्याखुर्द	1 से 15A	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	खुरच्चन्याखुर्द	16 से 26	अनारक्षित महिला	2
	8	कमालपुरा	1 से 7	अनारक्षित मुक्त	3
	9	रुगनाथपुरा	1 से 8	कुल योग	10
	10	रुगनाथपुरा	8 से 22/3		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
78	1	लसूडली	1 से 7/1	अ.जा. महिला	1
	2	लसूडली	7/2 से 21	अ.जा. मुक्त	0
	3	लसूडली	22 से 35	अ.ज.जा. महिला	0
	4	लसूडली	36/1 से 42	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	लसूडली	43/1 से 50/2	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	लसूडली	50/3 से 57	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	लसूडली	58 से 68	अनारक्षित महिला	4
	8	लसूडली	69 से 75	अनारक्षित मुक्त	4
	9	लसूडली	76 से 82	कुल योग	13
	10	हिरापुर	1 से 12		
	11	हिरापुर	13 से 25		
	12	नगपुरिया	1 से 9		
	13	नगपुरिया	10 से 25		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
79	1	गाडाहेट	1 से 11	अ.जा. महिला	1
	2	गाडाहेट	12 से 23	अ.जा. मुक्त	1
	3	गाडाहेट	24 से 35	अ.ज.जा. महिला	0
	4	गाडाहेट	36 से 40	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गाडाहेट	51 से 57	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गाडाहेट	59 से 69	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	गाडाहेट	70 से 81	अनारक्षित महिला	3
	8	गाडाहेट	82 से 76	अनारक्षित मुक्त	4
	9	गाडाहेट	95 से 107	कुल योग	12
	10	रतनपुरिया	— से 15		
	11	रतनपुरिया	16 से 30		
	12	लटूरी	1 से 4		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
80	1	सिकन्दरी	क से 12	अ.जा. महिला	1	
	2	सिकन्दरी	13 से 30	अ.जा. मुक्त	0	
	3	सिकन्दरी	31 से 45	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	सिकन्दरी	46 से 60	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	सिकन्दरी	61 से 73	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	सिकन्दरी	74 से 90	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	सिकन्दरी	91 से 103	अनारक्षित महिला	2	
	8	सिकन्दरी	104 से 120	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	मीनागांव	1 से 17		कुल योग	12
	10	मीनागांव	18 से 35			
	11	मीनागांव	36 से 48			
	12	मीनागांव	49 से 59			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
81	1	बरखेडाभोजा	2 से 15	अ.जा. महिला	1	
	2	बरखेडाभोजा	16/1 से 30	अ.जा. मुक्त	1	
	3	बरखेडाभोजा	31 से 45	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	बरखेडाभोजा	43 से 60	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बरखेडाभोजा	61 से 75	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	बरखेडाभोजा	76 से 95/2	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	बरखेडाभोजा	96 से 108	अनारक्षित महिला	1	
	8	बरखेडाभोजा	111 से 128	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	देवाखेडी	1 से 11ड		कुल योग	10
	10	देवाखेडी	15 से 23			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
82	1	गुगाहेडा	1 से 9	अ.जा. महिला	2	
	2	गुगाहेडा	13 से 31	अ.जा. मुक्त	1	
	3	गुगाहेडा	31/1 से 59	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	गुगाहेडा	60/1 से 69	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	गुगाहेडा	70 से 79	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	गुगाहेडा	80/1 से 87/4	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	गुगाहेडा	88 से 99	अनारक्षित महिला	4	
	8	गुगाहेडा	100/1 से 108	अनारक्षित मुक्त	5	
	9	गुगाहेडा	110/ख से 114/5		कुल योग	16
	10	गुगाहेडा	115/1 से 126			
	11	गुगाहेडा	128 से 137			
	12	गुगाहेडा	138 से 151	अन्य पिछडा वर्ग महिला		
	13	गुगाहेडा	152 से 162	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त		
	14	गुगाहेडा	163/1 से 173/3	अन्य पिछडा वर्ग महिला		
	15	गुगाहेडा	174 से 187	अ.जा. मुक्त		
	16	गुगाहेडा	188 से 190	अनारक्षित मुक्त		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
83	1	चमारी	1 से 8	अ.जा. महिला	1	
	2	चमारी	10 से 12/2	अ.जा. मुक्त	1	
	3	चमारी	14 से 18	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	चमारी	19 से 23/1	अ.ज.जा. मुक्त	1	
	5	चमारी	24 से 35	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	हरियाली	1 से 18	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	हरियाली	19 से 30	अनारक्षित महिला	3	
	8	हरियाला	1 से 10/4	अनारक्षित मुक्त	2	
	9	हरियाला	10/5 से 16/1		कुल योग	13
	10	हरियाला	17 से 24			
	11	हरियाला	25 से 41			
	12	बीजपडी	1 से 10/1			
	13	बीजपडी	11 से 21			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
84	1	बामनगांव	1 से 14/1	अ.जा. महिला	1	
	2	बामनगांव	14/1 से 27	अ.जा. मुक्त	0	
	3	बामनगांव	27 से 41	अ.ज.जा. महिला	1	
	4	बामनगांव	42 से 58	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बामनगांव	60 से 73/2	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	बामनगांव	73/2 से 82	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	बामनगांव	83 से 100	अनारक्षित महिला	3	
	8	बामनगांव	101 से 112	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	बामनगांव	113 से 126		कुल योग	13
	10	बामनगांव	127 से 138			
	11	बामनगांव	138/1 से 150			
	12	बामनगांव	151 से 162			
	13	बामनगांव	162 से 9999			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	5		
85	1	सोनखेडाकलां	1 से 14	अ.जा. महिला	2	
	2	सोनखेडाकलां	15/घ से 27	अ.जा. मुक्त	2	
	3	सोनखेडाकलां	28/क से 36	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	सोनखेडाकलां	37 से 49	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	सोनखेडाकलां	50 से 65घ	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3	
	6	सोनखेडाकलां	66 से 69ख	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2	
	7	सोनखेडाकलां	75 से 83ा	अनारक्षित महिला	4	
	8	सोनखेडाकलां	84 से 96	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	सोनखेडाकलां	97 से 98ग		कुल योग	17
	10	सोनखेडाकलां	105/क से 115			
	11	सोनखेडाकलां	116 से 127			
	12	सोनखेडाकलां	128 से 150/ख			
	13	सोनखेडाकलां	139 से 153			
	14	सोनखेडाकलां	154 से 163			
	15	सोनखेडाखुर्द	2 से 9क			
	16	सोनखेडाखुर्द	13/क से 28			
	17	सोनखेडाखुर्द	29 से 41			



अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
86	1	देवलीसांगा	1 से 16	अ.जा. महिला	2
	2	देवलीसांगा	17 से 28	अ.जा. मुक्त	2
	3	देवलीसांगा	29 से 38	अं.ज.जा. महिला	0
	4	देवलीसांगा	40 से 57	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	देवलीसांगा	58 से 69	अन्य पिछडा वर्ग महिला	3
	6	देवलीसांगा	71 से 80	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	2
	7	देवलीसांगा	81 से 98	अनारक्षित महिला	4
	8	देवलीसांगा	99 से 119	अनारक्षित मुक्त	4
	9	देवलीसांगा	120 से 137	कुल योग	17
	10	छतरपुरा	1 से 12		
	11	छतरपुरा	13 से 26क		
	12	छतरपुरा	27 से 38		
	13	छतरपुरा	39 से 58		
	14	पुंवारखेडी	1 से 15		
	15	पुंवारखेडी	16 से 27		
	16	पुंवारखेडी	28 से 38		
	17	पुंवारखेडी	39 से 60		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	5	
87	1	दरियापुर	1 से 12	अ.जा. महिला	1
	2	दरियापुर	12 से 24	अ.जा. मुक्त	1
	3	दरियापुर	27 से 40	अ.ज.जा. महिला	0
	4	दरियापुर	41 से 45	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	दरियापुर	46 से 81	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	दरियापुर	82 से 91	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	कायरी	1 से 12	अनारक्षित महिला	4
	8	कायरी	13 से 27	अनारक्षित मुक्त	4
	9	कायरी	28 से 40	कुल योग	13
	10	कायरी	41 से 50		
	11	कायरी	51 से 63ग		
	12	कायरी	64 से 78		
	13	कायरी	78 से 94		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
89	1	छीपीपुरा	1 से 14	अ.जा. महिला	1
	2	छीपीपुरा	16 से 33	अ.जा. मुक्त	1
	3	छीपीपुरा	34 से 45	अ.ज.जा. महिला	0
	4	छीपीपुरा	46 से 61	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	गादियालुहार	1 से 11	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	गादियालुहार	12 से 21	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	गादियालुहार	22 से 35	अनारक्षित महिला	3
	8	गादियालुहार	36 से 51	अनारक्षित मुक्त	4
	9	गादियालुहार	51 से 66	कुल योग	12
	10	पुराछीपीपुरा	1 से 12		
	11	पुराछीपीपुरा	13 से 22		
	12	पुराछीपीपुरा	24 से 57		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
90	1	खुरचन्याकलां	1 से 20	अ.जा. महिला	1
	2	खुरचन्याकलां	21 से 35	अ.जा. मुक्त	0
	3	खुरचन्याकलां	36 से 50	अ.ज.जा. महिला	0
	4	खुरचन्याकलां	51 से 63	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	खुरचन्याकलां	64 से 77	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	कांगनीखेडा	1 से 15	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	कांगनीखेडा	16 से 34	अनारक्षित महिला	2
	8	कांगनीखेडा	35 से 52	अनारक्षित मुक्त	4
	9	नरभापुरा	1 से 10	कुल योग	10
	10	नरभापुरा	11 से 23		

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
91	1	रूपपुरा	1 से 10	अ.जा. महिला	1	
	2	रूपपुरा	11 से 20	अ.जा. मुक्त	0	
	3	रूपपुरा	21 से 30	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	बघेली	1 से 13	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बघेली	14 से 24ग	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1	
	6	राजपुरा	1 से 15	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	राजपुरा	16 से 30	अनारक्षित महिला	3	
	8	नेस	1 से 12	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	औदपुर	1 से 9		कुल योग	10
	10	रामपुरिया	1 से 14			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
92	1	अभयपुर	1 से 12	अ.जा. महिला	1	
	2	अभयपुर	13 से 22	अ.जा. मुक्त	1	
	3	अभयपुर	23 से 32	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	अभयपुर	33 से 41	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	बरुखेडी	1 से 10	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	बरुखेडी	11 से 19	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	बरुखेडी	19 से 28	अनारक्षित महिला	2	
	8	बरुखेडी	29 से 33	अनारक्षित मुक्त	3	
	9	जालमपुरा	1 से 13		कुल योग	10
	10	जालमपुरा	14/1 से 20/2			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक			
1	2	3	4	6		
93	1	दुर्गपुरा	1 से 13	अ.जा. महिला	1	
	2	दुर्गपुरा	14/1 से 24	अ.जा. मुक्त	0	
	3	दुर्गपुरा	25/1 से 30	अ.ज.जा. महिला	0	
	4	दुर्गपुरा	31 से 40	अ.ज.जा. मुक्त	0	
	5	दुर्गपुरा	41 से 51	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2	
	6	सेवनी	1 से 16	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1	
	7	पुरासेवनी	1 से 10	अनारक्षित महिला	2	
	8	पुरासेवनी	11 से 16	अनारक्षित मुक्त	4	
	9	नाईहेडा	1 से 15		कुल योग	10
	10	नाईहेडा	16 से 36			

अनु.क्रमांक	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम पंचायत एवं ग्राम का नाम	मकान नम्बर ..... से ..... तक		
1	2	3	4	6	
95	1	हरिपुरा नजीदक	0 से 9	अ.जा. महिला	1
	2	हरिपुरा नजीदक	10 से 19	अ.जा. मुक्त	1
	3	हरिपुरा नजीदक	20 से 30	अ.ज.जा. महिला	0
	4	हरिपुरा नजीदक	31 से 42	अ.ज.जा. मुक्त	0
	5	हरिपुरा नजीदक	43 से 49क	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
	6	रामपुरिया	1 से 13A	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त	1
	7	रामपुरिया	14 से 17	अनारक्षित महिला	2
	8	खेरखेडा	1 से 10	अनारक्षित मुक्त	3
	9	खेरखेडा	11 से 19		कुल योग 10
	10	खेरखेडीखुर्द	1 से 18		

### खण्ड-जीरापुर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धानोदा	1	1 से 14/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	15 से 22 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	23 से 32 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	33 से 37 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	38 से 45 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	46 से 58 तक	अजजा. महिला	1
7	—	7	59 से 69 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	70 से 81 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	82 से 97 तक		
10	—	10	98 से 108 तक		
11	—	11	109 से 121 तक		
12	—	12	122 से 133 तक		
13	—	13	134 से 152 तक		
14	—	14	153 से 169 तक		
15	—	15	170 से 184 तक		
16	—	16	185 से 194 तक		
17	—	17	195 से 211 तक		
18	—	18	212 से 228 तक		
19	—	19	229 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जैथली	1	1 से 10 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	11 से 16/4 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	17/1 से 27 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	28 से 42 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	43 से 57 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	58 से 73 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	74 से 90 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	91 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	जामगाव	9	1 से 7/2 तक		
10	—	10	8 से 14 तक		
11	—	11	15 से 32 तक		
12	—	12	33 से अन्त तक		
13	जीरियाखडी	13	1 से 9 तक		
14	—	14	10 से 20 तक		
15	—	15	21 से 28 तक		
16	—	16	29 से 40 तक		
17	—	17	41 से 65 तक		
18	—	18	66 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोधटपुर	1	1 से 24 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	25 से 52 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	53 से 75 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	76 से 90 तक	पिछडा वर्ग महिला	4
5	—	5	91 से 109 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	110 से 143 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	144 से 163/1 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	163/2 से 181 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	182 से 207 तक		
10	—	10	208 से 230 तक		
11	—	11	231 से 259 तक		
12	—	12	260 से 292/2 तक		
13	—	13	293 से 313 तक		
14	—	14	314 से 340 तक		
15	—	15	341 से 376 तक		
16	—	16	377 से 401 तक		
17	—	17	402 से 433 तक		
18	—	18	434 से 457 तक		
19	—	19	458 से 489 तक		
20	—	20	490 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	भगोरा	1	1 से 20 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	21 से 36 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	37/1 से 50 ख तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	51/1 से 60 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	61 से 82 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	83 से 99 तक	अजजा. महिला	1
7	—	7	100 से 119 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	120 से 135 तक	अनारक्षित मुक्त	7
9	—	9	136/1 से 152 तक		
10	—	10	153 से 161 तक		
11	—	11	162 से 181 तक		
12	—	12	182 से 199 तक		
13	—	13	200 से 215 तक		
14	—	14	216 से 232 तक		
15	—	15	233 से 247/2 तक		
16	—	16	248 से 259 तक		
17	—	17	259 क से 272/2 तक		
18	—	18	273 से 284 तक		
19	—	19	285 से 299 तक		
20	—	20	300 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	भगोरी	1	1 से 11/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	12 से 31 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	32 से 45 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	46 से 63 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	64 से 79 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	80 से 88 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	89 से 101/1 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	102 से 112/2 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	112/3 से अन्त तक		
10	डोब	10	1 से अन्त तक		
11	बामनियाखेडी	11	1 से 9 तक		
12	—	12	10 से अन्त तक		
13	भारुगढ	13	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पोलखेडा	1	1 से 29 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	30 से 41 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	42 से 59 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	60 से 82 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	83 से 101 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	102 से 119 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	120 से 144 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	145 से 175 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	176 से 193 तक		
10	—	10	194 से 215 तक		
11	—	11	216 से 238 तक		
12	—	12	239 से 256 तक		
13	—	13	257 से 274/3 तक		
14	—	14	275 से 307 तक		
15	—	15	308 से 331 तक		
16	—	16	332 से 344 तक		
17	—	17	345 से अन्त तक		
18	मल्हारगढ	18	1 से 17 तक		
19	—	19	18 से 31 तक		
20	—	20	32 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खेडी	1	1 से 4/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	5 से 7/2 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	8 से 13 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	13/1 से 17 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	17/1 से 21/1 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	22 से 26 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	27 से 31/1 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	32 से 36 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	37 से अन्त तक		
10	लक्ष्मीपुरा	10	1 से 15 तक		
11	—	11	16 से 28 तक		
12	—	12	29 से 48 तक		
13	—	13	49 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लिम्बोदा	1	1 से 24 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	25 से 36 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	37 से 42 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	43 से 60 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	61 से 72 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	73 से 98 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	99 से 111/1 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	111/2 से 125 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	126 से अन्त तक		
10	सूलीपुरा	10	1 से 10 तक		
11	—	11	11 से 19 तक		
12	—	12	20 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मोहली	1	1 से 25/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	26/1 से 36/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	36/2 से 43/1 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	43/2 से 57 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	58 से 67 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	68 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	मल्हारपुरा	7	1 से 11 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	12 से 32/1 तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	—	9	33 से 51/2 तक		
10	—	10	52 से 73 तक		
11	—	11	74 से अन्त तक		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लसूडल्या	1	1 से 17/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	18 से 28/4 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	29 से 45 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	46 से 63 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	64 से 77	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	78 से 86 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	87 से 99 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	100 से 111 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	112 से 124 तक		
10	—	10	125 से 139 तक		
11	—	11	139/4 से 152/2 तक		
12	—	12	152 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मीनागांव	1	1 से 9 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	10 से 19/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	19/2 से 32 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	33 से 54 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	55 से 69/2 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	69/3 से 87 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	88 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	4
8	भाटखेडी	8	1 से 11 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	12 से 22 तक		
10	—	10	23 से 43 तक		
11	—	11	44 से 58 तक		
12	—	12	58 ख से अन्त तक		
13	मुरझडी	13	1 से 9 तक		
14	—	14	10 से 22 तक		
15	—	15	23 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आमलाबे	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—"	2	18 से 30 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—"	3	31 से 43 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—"	4	44 से 62/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—"	5	63 से 71 क तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"	6	72 से 86 तक	अजजा. महिला	0
7	—"	7	87/1 से 99 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—"	8	100 से 116/2 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—"	9	117 से 129 तक		
10	—"	10	130 से 140 तक		
11	—"	11	141 से 153/2 तक		
12	—"	12	154 से 166/1 तक		
13	—"	13	166/2 से 185 तक		
14	—"	14	186 से 197 तक		
15	—"	15	198 से अन्त तक		

.....

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीपल्या बीजारेल	1	1 से 6/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—"	2	6/2 से 13/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—"	3	13/2 से 22/1 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—"	4	22/2 से 37 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—"	5	38 से 62 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"	6	63 से 87/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—"	7	87/2 से 101 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—"	8	102 से 116 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—"	9	117 से अन्त तक		
10	सनखेडी	10	1 से 10 क तक		
11	—"	11	11 से 25 तक		
12	—"	12	26 से 36 तक		
13	—"	13	37 से 45/2 तक		
14	—"	14	46/1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोडक्या	1	1 से 15/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	3
2	—	2	15/2 से 34 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	35 से 51 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	52/1 से 65 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	66 से 79 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	80 से 92/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	93 से 103 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	104 से 125 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	126 से 144 तक		
10	—	10	145 से 160 तक		
11	—	11	161 से 170 तक		
12	—	12	171 से 184 तक		
13	—	13	185 से 198 तक		
14	—	14	199 से 214 तक		
15	—	15	215 से 232 तक		
16	—	16	233 से 248 तक		
17	—	17	249 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कवलसीखेडा	1	1 से 12 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	13 से 17 ड तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	18 से 36 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	37 से 51/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	52 से 66/2 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	67 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	काछीखेडी	7	1 से 17 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	18 से 31 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	32 से 48 तक		
10	—	10	49 से 61 तक		
11	—	11	62 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बाडगांव	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	16 से 31/3 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	32 से 56 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	57 से 74/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	75 से 94 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	95 से 113 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	114 से 135 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	136 से 152 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	153 से 169 तक		
10	—	10	170 से 190 तक		
11	—	11	191 से 208 तक		
12	—	12	209 से 224 तक		
13	—	13	225 से 242 तक		
14	—	14	243 से 257 तक		
15	—	15	258 से 273 तक		
16	—	16	274 से 294 तक		
17	—	17	295 से 309 तक		
18	—	18	310 से 326 तक		
19	—	19	327 से 346 तक		
20	—	20	347 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	चौखण्डा	1	1 से 11/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 28 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	29 से 41/3 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	44 से अन्त तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	पथरी	5	1 से 14 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	15 से 26 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	27 से 42 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	43 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	हिनौती	9	1 से 24 तक		
10	—	10	25 से 39 तक		
11	—	11	40 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्दपुरा	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	16/1 से 29/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	29 से अन्त तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	खेरखेडी	4	1 से 20 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	21 से 34 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	35 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	गोपालपुरा	7	1 से 13/1 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	13/2 से 20/5 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	20/6 से 27/5 तक		
10	—	10	28 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कचनारिया	1	1 से 11/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	3
2	—	2	12 से 23 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	24 से 35 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	36 से 52 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	53 से 66 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	67 से 76 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	76/1 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	3
8	नांदरी	8	1/1 से 12/3 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	13 से 26 तक		
10	—	10	27 से 35 तक		
11	—	11	36 से 46 तक		
12	—	12	47 से 56/3 तक		
13	—	13	57 से अन्त तक		
14	दात्या	14	1 से 12/1 तक		
15	—	15	12/3 से 21/1 तक		
16	—	16	21/2 से अन्त तक		
17	लखेसरा	17	1 से 20/2 तक		
18	—	18	21 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गुलखेडी	1	1 से 10 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	11 से 19/2 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	20 से अन्त तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	रामगंज	4	1 से 8 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	9 से 18 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	19 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	दांतन	7	1 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	2
8	गणेशगंज	8	1 से 11/1 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	11/2 से 24 तक		
10	—	10	25 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ब्राहमणगांव	1	1 क से 14 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	15 से 33 ख तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	34 से 53 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	54 से 77 ख तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	78 से 102 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	103 से 119 ख तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	120 से 150 तक	अनारक्षित महिला	6
8	—	8	150 ख से 163 ग तक	अनारक्षित मुक्त	7
9	—	9	164 से 173 ख तक		
10	—	10	174 से 186 तक		
11	—	11	187 से 201 तक		
12	—	12	202 से 218 ख तक		
13	—	13	219 से 237 तक		
14	—	14	238 क से 254 तक		
15	—	15	255 से 268 तक		
16	—	16	269 से 283 तक		
17	—	17	284 क से 298 तक		
18	—	18	299 से 311 क तक		
19	—	19	312 से अन्त तक		
20	हरिगढ	20	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीपल्याकुल्मी	1	1 से 42 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	3
2	—	2	43 से 70 ड तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	71 से 109 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	110 से 144 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	145 से 180 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	181/1 से 233 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	234 से 268/1 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	268/2 से 304/1 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	305/1 से 338/3 तक		
10	—	10	339 से 379 तक		
11	—	11	380 से 423 तक		
12	—	12	424 से 459 तक		
13	—	13	460 से 501 तक		
14	—	14	502 से 553 तक		
15	—	15	554 से 589/1 तक		
16	—	16	589/2 से 627 ख तक		
17	—	17	628 से 666 क तक		
18	—	18	666 ख से 714 तक		
19	—	19	715 से 850 तक		
20	—	20	851 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	डूंगरी	1	1 से 8 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	3
2	—	2	9 से 23 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	24 से 33 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	34 से 46 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	47/1 से 57/4 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	58 से 63 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	64 से 76 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	77 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	कुण्डीखेडा	9	1 से 15 तक		
10	—	10	16 से 24 तक		
11	—	11	25 से 41 तक		
12	—	12	42 से 52 तक		
13	—	13	53 से 64 तक		
14	—	14	64 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बन्दा	1	1 से 7/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	8 से 17/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	18 से 35 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	36/1 से 48/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	49 से 61 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	62 से 77 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	78 से 93 तक	अनारक्षित महिला	1
8	—	8	94 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	गोतमपुरा	9	1 से 14/2 तक		
10	—	10	15 से 27 तक		
11	—	11	28 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झरन्या	1	1 से 26 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	27 से 58 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	59 से 68 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	69 से 88 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	89 से 108 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	109 से 125 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	126 से 141 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	142 से 164 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	165 से 181 तक		
10	—	10	182 से अन्त तक		
11	आनन्दपुरा	11	1/1 से 18/2 तक		
12	—	12	19 से 31 तक		
13	—	13	32 से अन्त तक		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झरनी	1	1 से 13 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	14 से 24 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	25 से 38/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	39 से 52 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	53 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	नारायणपुरा	6	1 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	देवीगढ	7	1 से 15 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	15 क से 30 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	31 से अन्त तक		
10	रामपुरिया	10	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बावडीखेडा	1	1 से 13 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	14 से 27 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	28 से 43 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	44 से 56 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	57 से 64 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	65 से 77 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	78 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	3
8	रतनपुरा	8	1 से 13 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	14 से 23/3 तक		
10	—	10	24 से 37 तक		
11	—	11	38 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आगरिया	1	1 से 16 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	17/1 से 30/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	30/2 से 36/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	36/3 से 53 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	54 से 67 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	68 से 80 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	81 से 93/2 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	94 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	सुन्दरपुरा	9	1 से 13 तक		
10	—	10	13/1 से 28/4 तक		
11	—	11	29 से 46/2 तक		
12	—	12	47 से 63 तक		
13	—	13	64 से 82 तक		
14	—	14	83 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गादिया	1	1 से 16 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	17 से 33 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	34 से 48 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	49 से 59 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	60 से 73 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	74 से 85 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	86 से 105 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	106 से 115 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	116 से 124 तक		
10	—	10	125 से अन्त तक		
11	किशनपुरा	11	1 से 8 तक		
12	—	12	9 से 21 तक		
13	—	13	22 से 29 तक		
14	—	14	30 घ से अन्त तक		
15	बान्याबे	15	1 से 13 क तक		
16	—	16	14 ख से अन्त तक		
17	शिवपुरा	17	1 से 14 क तक		
18	मल्हारगढ	18	15 ख से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कूमडा	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	11 क से 20 ख तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	20 ग से 39 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	40 से 51 ख तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	52 से 63 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	64 से 72 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	73 घ से 79 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	80 क से 96 ख तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	97 से 112 तक		
10	—	10	113 से 133 तक		
11	—	11	134 से 144 ग तक		
12	—	12	145 से 158 ग तक		
13	—	13	159 क से अन्त तक		
14	कुण्डीबे	14	1 से अन्त तक		
15	आदमपुरा	15	1 से 11 तक		
16	—	16	12 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कूमडी	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 23 ग तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	24 से 42 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	43 से 51 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	52 से 69 ख तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	70 से 81 ख तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	82 से 93 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	94 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	राजपुरखेडा	9	1 से 12/2 तक		
10	—	10	13 से 20 तक		
11	—	11	21 से 32 तक		
12	—	12	33 से 43 तक		
13	—	13	44 से 50/1 तक		
14	—	14	50/2 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजपुरा	1	1 से 11/1 ख तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12/1 से 21 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	22 से 33 क तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	33 ख से 41 ख तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	42 से 51 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	52 से 65 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	66 से 78 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	79 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	देवली	9	1 से 18 तक		
10	—	10	19 से 36 क तक		
11	—	11	36 ख से अन्त तक		
12	घाटाखेडी	12	1 से 8 तक		
13	—	13	9 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रामगढ	1	1 से 30/8 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	31 से 65 ड तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	66 से 94 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	95 से 123 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	124 से 153 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	154 से 183 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	185 से 214 तक	अनारक्षित महिला	6
8	—	8	125 से 242 तक	अनारक्षित मुक्त	7
9	—	9	243 से 273 तक		
10	—	10	182 से 214 तक		
11	—	11	215 से 237 तक		
12	—	12	238 से 260 तक		
13	—	13	261 से 280 तक		
14	—	14	281 से 297 तक		
15	—	15	298 से 316 तक		
16	—	16	316/2 से 332 तक		
17	—	17	333/1 से 355 क तक		
18	—	18	356 ख से 379 तक		
19	—	19	380 से 400 तक		
20	—	20	401 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गडगच्च	1	1 से 2/7 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	3 से 18 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	19/1 से अन्त तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	बटेडिया	4	1 से 16/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	17/1 से 26 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	27 से 36 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	37 से 46 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	47 से 54/2 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	55 से 68 तक		
10	—	10	69 से अन्त तक		
11	यशवंतपुरा	11	1 से अन्त तक		
12	सालरी	12	1 से 11 तक		
13	—	13	12 से अन्त तक		
14	फिरोजपुरा	14	1 से 6 ग तक		
15	—	15	7 घ से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मुकुन्दपुरा	1	1 से 14 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	15 से 22/9 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	22/10 से 54 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	55 से 67/3 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	68 से 88 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	89 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	भडकी	7	1 से 13 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	14 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	हरिपुरा	9	1 से अन्त तक		
10	कालीकाबे, शिवगढ, जयसिंहपुरा	10	1 से अन्त तक		
11	भडका	11	1 से 19 तक		
12	—	12	20 से 32 तक		
13	—	13	33 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अरन्या	1	1 से 8/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	9/1 से 18/2 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	19 से 24 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	25 से 36 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	37/1 से 44 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	45 से 55 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	56 से 66/1 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	66/2 से 75 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	76 से 88 तक		
10	—	10	89 से 93 तक		
11	—	11	94/1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लखोनी	1	1 से 34/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	35 से 63 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	64 से 75/4 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	76 से 103/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	104 से 123 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	124 से 140/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	140/2 से 161 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	162 से 190 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	191 से 209/1 तक		
10	—	10	209/2 से 224/1 तक		
11	—	11	224/2 से 248 तक		
12	—	12	249/1 से 273 तक		
13	—	13	274 से 296/1 तक		
14	—	14	296/2 से 300/3 तक		
15	—	15	301 से 326 तक		
16	—	16	327 से 342/2 तक		
17	—	17	343/1 से 365/2 तक		
18	—	18	366 से 386 तक		
19	—	19	387 से अन्त तक		
20	देवरी	20	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बांगपुरा	1	1 से 14 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	15 से 28 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	29/1 से 37/1 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	37/2 से 48 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	49 से 67 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	68 से 77 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	77 क से 89 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	90 से 99/1 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	99/2 से 121 तक		
10	—	10	122 से 134 तक		
11	—	11	135 से 146 तक		
12	—	12	147 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोरियाखेडा	1	1 से 14	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	15/1 से 27 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	28 से 41 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	42 से 58 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	59 से 74 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	75 से 89 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	90 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	2
8	खेडी	8	1 से 14 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	15 से 30 तक		
10	—	10	31 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उचावदा	1	1 से 8 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	9/1 से 17 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	18 से 25 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	26 से 35 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	36 से 42 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	43 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	अहिल्यापुरा	7	1 से 11 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	12 से 22/1 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	22/2 से अन्त तक		
10	किशनपुरा	10	1 से 15 तक		
11	—	11	16 से 34 तक		
12	—	12	35 से 49 तक		
13	—	13	50 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खोकरिया	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	18 से 32 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	33 से 57/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	58/1 से 76 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	77 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	पीपल्दी	6	1 से 16/2 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	17 से 31 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	32/1 से 42 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	43/1 से अन्त तक		
10	रामगंज	—	1 से अन्त तक		
11	मल्हारपुरा	10	1 से अन्त तक		
12	रतनपुरा	11	1 से अन्त तक		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भानपुरा	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	12 से 24 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	25/1 से 34 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	35/1 से 48/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	49/1 से 61 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	62/1 से 74/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	74 से 91 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	91/1 से 103/3 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	104 से 119 तक		
10	—	10	119/1 से 127 तक		
11	—	11	128 से 142 तक		
12	—	12	143 से 158/1 तक		
13	—	13	158/2 से 168/4 तक		
14	—	14	169 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हरिगढ	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	16 से 30 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	30 क से 43 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	43 क से 58 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	59 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	तीतरी	6	1 से 11 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	12 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	2
8	टूटियाहैडी	8	1 से 17/3 तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	—	9	18 से 35 तक		
10	—	10	36 से 51 तक		
11	—	11	52 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पोलाखेडा	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	18 से 33 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	34 से 49 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	50 से 62 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	63 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	दाईखेडी	6	1 से 18 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	19 से 36 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	37 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	देवरी	9	1 से 13 तक		
10	—	10	14 से 24 तक		
11	—	11	25 से 39 तक		
12	—	12	40 से 49 तक		
13	—	13	50 से अन्त तक		
	श्यामपुरा		1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	परोलिया	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	17 ग से 37/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	37/2 से 55 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	55 क से 71 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	72 से 92 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	93 से 117 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	118 से 136/3 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	137/2 से 153 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	154 से 168 तक		
10	—	10	169 से 184 तक		
11	—	11	185 से 198/1 तक		
12	—	12	198/2 से 210 तक		
13	—	13	211 से 227 तक		
14	—	14	228 से 240 तक		
15	—	15	241 से 254 तक		
16	—	16	255 से 271 तक		
17	—	17	272 से 288/1 तक		
18	—	18	288/2 से 311 क तक		
19	—	19	312 से 337 तक		
20	—	20	338 से अन्त		

राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ गठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंच को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

खण्ड जीरापुर			सारणी		
अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	संख्य
1	2	3	4	प्रवर्ग	5
1	मैनाखेडी	1	1 से 22 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	23 से 36 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	37 से 46 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	47 से 76 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	77 से 93 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	93 क से 106 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	107 से 115 तक	अनारक्षित महिला	6
8	—	8	116 से 131 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	132 से 137 तक		
10	—	10	138 से 159 ख तक		
11	—	11	160 से अन्त तक		
12	अरोलिया	12	1 से 13 तक		
13	—	13	14/1 से 30/2 तक		
14	—	14	30/3 से अन्त तक		
15	चमारखेडा	15	1 से 13 क तक		
16	—	16	13 ख से 31/1 तक		
17	—	17	32 से अन्त तक		

## खण्ड-जीरापुर

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धतुरिया	1	1 से 8 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	8 ख से 14 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	15 क से 27 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	27 क से 40 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	40 ग से 54 क तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	54 ख से 65 घ तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	66 क से 74 ख तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	75 से 82 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	83 से अन्त तक		
10	झूटियाहैडी	10	1 से 7 ख तक		
11	—	11	8 से 16 तक		
12	—	12	16 ख से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	चिलावद	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 22 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	23 से 29 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	30 से 43 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	44 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	चिलावदी	6	1 से 13 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	14/1 से 23 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	24 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	समेली	9	1 क से 11 तक		
10	—	10	12 से 25 तक		
11	—	11	26 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	राजाहैडी	1	1 से 13/3 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	13/4 से 25 तक	अनुसूचित जाति महिला	0
3	—	3	26 से 38/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	39 से 56/3 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	57 से 74 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	75 से 82/2 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	83 से 93 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	94/1 से 105 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	106 से 112 तक		
10	—	10	113 से 123/4 तक		
11	—	11	124 से 136/3 तक		
12	—	12	137 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खारपा	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	16 से 29 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	30 से 47 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	48 से 54/5 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	54/6 से 65 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	66 से 79 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	80/1 से 112 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	113 से 125 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	126 से 139 तक		
10	—	10	140 से 151 क तक		
11	—	11	151 ख से 166 तक		
12	—	12	166/1 से 180 तक		
13	—	13	181 से 193/4 तक		
14	—	14	193/5 से 204 तक		
15	—	15	205 से 213 तक		
16	—	16	214 से 222 तक		
17	—	17	223 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कुण्डालिया	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	16 से 25 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	26 से 38 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	39 से 51 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	52 से 63 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	63/1 से 67/2 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	67/3 से 79/1 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	80 से 101 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	102 से 117 तक		
10	—	10	118/1 से 128 तक		
11	—	11	129/1 से 140 तक		
12	—	12	141 से अन्त तक		
13	माधोपुर	13	1 से 7/3 तक		
14	—	14	7/4 से अन्त तक		
15	बालागज		1 से 2/3 तक		
16	—	15	3 से अन्त तक		
17	रामगढ	16	1 से 15/2 तक		
18	—	17	16 से 30 तक		
19	—	18	31 से अन्त तक		
20	कोटडा	19	1 से 10 तक		
21	—	20	11 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उभापान	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	12 से 18 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	19 से 30 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	30 क से 41 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	41 क से 48 क तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	48 ख से 59 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	60 से 70 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	71 से 79 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	80 से 97 तक		
10	—	10	98 क से 114 तक		
11	—	11	115 से 127 तक		
12	—	12	128 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जैतपुरा	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 22 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	23 से 37 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	38 से 47 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	47/1 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	जोधपुरा	6	1 से 8 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	9 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	2
8	देवनगर	8	1 से 7/1 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	7/2 से 24/1 तक		
10	—	10	24/2 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धतरावदा	1	1/1 से 8 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	9 से 22/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	22/2 से 40 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	41 से 55 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	56/1 से 69/3 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	70 से 86 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	87 से 101/2 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	102/1 से 113 तक	अनारक्षित मुक्त	7
9	—	9	114/1 से 127 तक		
10	—	10	128 से 142 तक		
11	—	11	143 से 158/2 तक		
12	—	12	158/3 से 176 तक		
13	—	13	177 से 186 तक		
14	—	14	187 से 199 तक		
15	—	15	200 से 214/1 तक		
16	—	16	214/2 से 222 तक		
17	—	17	222/1 से 237 तक		
18	—	18	238 से 252/1 तक		
19	—	19	252/1ख से 265 तक		
20	—		266 से अन्त तक		
21	नागखेडी	20	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	बरमनखेडी	1	1 से 9 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	10/1 से 22/2 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	23/1 से 36 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	37 से 50 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	51 से 65 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	66 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	सेंदली	7	1 से 12 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	13 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	काल्याखेडी	9	1/1 से 9 तक		
10	—	10	10 से 25/2 तक		
11	—	11	26 से 37 तक		
12	—	12	38 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कहारखेडा	1	1 से 6/2 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	6/3 से 12/1 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	13 से 21/1 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	21/2 से 27 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	28 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	पगारिया	6	1 से 14 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	15 से 30 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	31 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	गोवर्धनपुरा	9	1 से 18 तक		
10	—	10	19 से 36 तक		
11	—	11	37 से अन्त तक		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मणपुरा	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 24 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	25 से 42 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	43 से 60 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	61/1 से 68/1 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	68/2 से 73 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	74 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	1
8	समेली	8	1 से 12 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	13 से अन्त तक		
10	लाल्याखेडी	10	1/1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	महाराजपुरा	1	1 से 6 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	7 से 14 ग तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	15 क से 19 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	20 से 30 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	31 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	छतरपुरा	6	1 से 23/2 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	23/3 से 36/1 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	36/2 से 49 तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	—	9	50/1 से अन्त तक		
10	गोपालपुरा	10	1 से 11 क तक		
11	—	11	11 ख से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भण्डावद	1	1 से 26 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	27 से 49 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	50 से 71/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	72/1 से 84/2 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	85 से 109 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	110 से 125 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	126 से 145 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	146 से 161 तक	अनारक्षित मुक्त	7
9	—	9	162 से 179/1 तक		
10	—	10	179/2 से 192/1 तक		
11	—	11	192/2 से 211 तक		
12	—	12	212 से 229 तक		
13	—	13	230 से 255 तक		
14	—	14	256 से 274 तक		
15	—	15	275 से 294 तक		
16	—	16	295 से 313 तक		
17	—	17	314/1 से 337 तक		
18	—	18	338 से 354/1 तक		
19	—	19	354/2 से 372 तक		
20	—	20	373 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	टपरियाहैडी	1	1 से 16 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	17 से 30 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	31 से 44 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	45 से 57 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	58 से 70 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	71 से 90 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	91 से 112 ग तक	अनारक्षित महिला	1
8	—	8	112 घ से 129 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	130 ग से 142 तक		
10	—	10	142 क से 156 ख तक		
11	—	11	156 ग से 173 तक		
12	—	12	174 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नाईहैडा	1	1 से 14 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	3
2	—	2	15 से 27 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	28 से 43 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	44 से 58 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	59 से 67 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	68 से 80 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	81 से 95 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	96 से 107 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	107/1 से 125 तक		
10	—	10	126 से अन्त तक		
11	मैलखेडी	11	1 से 18 तक		
12	—	12	19 से 37 ख तक		
13	—	13	38 से 51 ख तक		
14	—	14	52 से 68 तक		
15	—	15	69 से 81 तक		
16	—	16	82 से 89 तक		
17	—	17	90 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बटावदा	1	1 से 16 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	17/1 से 29 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	30 से 54 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	55 से 73 क तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	73/1 से 83 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	84 से 95 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	96 से 104 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	105 से 120 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	121 से 132 ख तक		
10	—	10	133 से 145 तक		
11	—	11	146 से 159 तक		
12	—	12	160 से 173 तक		
13	—	13	174 से 182 ख तक		
14	—	14	182 ग से 189 तक		
15	—	15	190 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6.
1	काशीखेडी	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	16 से 29 तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—	3	30 से 44 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	45 से 55 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	56 से 75 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	76 से 93 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	94 से 107 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	108 से 135 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	पूर्व काशीखेडी	9	136 से 151 (112 से 123) तक		
10	—	10	124 से 137 तक		
11	—	11	138 से 153 तक		
12	खुमानपुरा	12	1 से 9 ख तक		
13	—	13	9 ग से 23 क तक		
14	—	14	23 ख से 51 अन्त तक		
15	अब्दालपुरा	15	1 से 15 तक		
16	—	16	15 क से 24 अन्त तक		
17	शहबाजपुरा	17	1 क से 8 तक		
18	—	18	9 क से 18 तक		
19	—	19	19 से 28 तक		
20	—	20	29 से 41 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ब्राहमणखेडा	1	1 से 4 क तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	4 ख से 15 क तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	16 से 23 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	24 से 29 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	29 ख से 38 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	39 से 58 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	59 से 67 ख तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	67 ग से 72 घ तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	73 से 82 अन्त तक		
10	ग्वाडी	10	1 से 9 ग तक		
11	—	11	10 से 22 क तक		
12	—	12	22 ख से 39 क तक		
13	—	13	40 से 53 ख अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खाकरी	1	1 से 12 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	13 से 25/4 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	26 से 35/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	36 से 47 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	48 से 66 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	67 से 72 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	73 से 84 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	85 से 99 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	100 से 116 तक		
10	—	10	117 से 135 तक		
11	—	11	136 से अन्त तक		
12	भीकनपुर	12	1 से 10 तक		
13	—	13	11 से 31 तक		
14	—	14	32 से अन्त तक		
15	दोलतपुरामजरा		1 से 9 क तक		
16	—	15	10 से 15 तक		
17	—	16	16 से 28 तक		
18	—	17	29 से अन्त तक		
19	कोटरा		1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खेजडिया	1	1/1 से 13/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	13/2 से 39 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	40 से 60 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	61 से 77 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	78 अ से 93 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	94 से 106 तक	अजजा. महिला	1
7	—	7	107 से 121/2 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	121/3 से 137 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	138 से 146 अन्त तक		
10	श्यामपुरा	10	1 से 11 तक		
11	—	11	12 से 22/5 तक		
12	—	12	23 से 31 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झाडमउ	1	1 से 17/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	17/2 से 33 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	34 से 53 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	54 से 74 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	75 से 101 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	102 से 126/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	126/2 से 154 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	155 से 173 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	174 से 195 तक		
10	—	10	196 से 220 तक		
11	—	11	221 से 232 तक		
12	—	12	233 से 258 तक		
13	—	13	259 से 281 तक		
14	—	14	282 से 297 तक		
15	—	15	298 से 320/1 तक		
16	—	16	320/2 से 339 तक		
17	—	17	340 से 356/3 तक		
18	—	18	357/1 से 363/1 तक		
19	—	19	363/2 से 380 तक		
20	—	20	381 से 404 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बालाहैडा	1	1 से 13 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	14 से 26 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	27 से 35 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	36 से 45 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	46 से 52 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	53 से 64 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	65 से 74 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	75 से 83 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	84 से 89 तक		
10	—	10	90 से 102 ख तक		
11	—	11	102 ग से 108 अन्त तक		
12	सेमला	12	1 से 11 तक		
13	—	13	12 से 27/2 तक		
14	—	14	28/1 से 35/2 तक		
15	—	15	36 से 54/2 तक		
16	—	16	55 से 62 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिरपोई	1	1 से 11 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	12 से 24 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	25 से 40 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	41 से 48 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	49 से 59 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	60 से 78 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	79 से 94 अन्त तक	अनारक्षित महिला	3
8	खुबानपुरा	8	1 से 13/1 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	13/2 से 23 अन्त तक		
10	सूरजपुरा	10	1 से 9 तक		
11	—	11	10 से 22 तक		
12	—	12	23 से 89 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बांसखेडी	1	1 से 13 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	14 से 21 ड तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	22 से 27 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	28 से 41 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	42 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	लक्ष्मीपुरा	6	1 से अन्त तक	अजजा. महिला	0
7	कायथा	7	1 से 7 तक	अनारक्षित महिला	2
8	—	8	8 से 16 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	17/1 से अन्त तक		
10	कालाखेडा	10	1 से 14 तक		
11	—	11	15 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नांदनी	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—"—	2	18 से 32 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—"—	3	33 से 50 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—"—	4	51 से 68 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—"—	5	69 से 80 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"—	6	81 से 98 तक	अजजा. महिला	1
7	—"—	7	99 से 111 तक	अनारक्षित महिला	1
8	—"—	8	112 से 123 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—"—	9	124 से 141 तक		
10	—"—	10	142 से 159 तक		
11	—"—	11	160 से 178 तक		
12	—"—	12	179 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कण्डेली	1	1 से 11 ख तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—"—	2	12 से 20 ख तक	अनुसूचित जाति महिला	3
3	—"—	3	20 ग से 29 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—"—	4	30 से 46 तक	पिछडा वर्ग महिला	1
5	—"—	5	46 क से 63 ख तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"—	6	61 से 69 ख तक	अजजा. महिला	0
7	—"—	7	69 ग से अन्त तक	अनारक्षित महिला	1
8	पथरिया	8	1 से 8/3 तक	अनारक्षित मुक्त	2
9	—"—	9	8/4 से अन्त तक		
10	मानपुरा	10	1 से अन्त तक		



अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लसूडल्याखेराज	1	1 से 9 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—"	2	10 से 19 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—"	3	20 से 28 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—"	4	29 से 39 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—"	5	40 से 46 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"	6	46/1 से 55/1 तक	अजजा. महिला	0
7	—"	7	55 क से 65/1 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—"	8	65/2 से 74 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—"	9	75/1 से 87 तक		
10	—"	10	88 से 99 तक		
11	—"	11	100 से 114 तक		
12	—"	12	115 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेडीउमठ	1	1 से 12 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—"	2	13 से 27 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—"	3	28 से 41 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—"	4	42 से 53 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—"	5	54 से 68 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—"	6	68 से 74 तक	अजजा. महिला	0
7	—"	7	75 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	3
8	मुण्डी	8	1 क से 9 ख तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—"	9	10 क से 20 तक		
10	—"	10	21 से अन्त तक		
11	हरिपुरा	11	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
1	रामनगर	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	18 से 30 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	31 से 43 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	44 से 56	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	57 से 69 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	70 से 84 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	85 से 96 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	97 से 112 तक	अनारक्षित मुक्त	3
9	—	9	113 से 121 तक		
10	—	10	122 से 137 तक		
11	—	11	138 से 156 तक		
12	—	12	157 से 166 तक		
13	—	13	167 से 179 तक		
14	—	14	180 से 201 तक		
15	—	15	202 से 220 अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख
1	2	3	4	5	6
1	मोहन	1	1 से 25 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	26 से 42 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	43 से 73 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	74 से 93 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	94 से 109 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	110 से 140 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	140/1 से 167 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	168 से 184 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	185 से 205 तक		
10	—	10	205/2 से 216 तक		
11	—	11	217 से 235 तक		
12	—	12	236 से 253 तक		
13	—	13	254 से 273 तक		
14	—	14	275 से 284 अन्त तक		
15	केशरपुरा	15	1 से 9 तक		
16	—	16	10 से 19 तक		
17	—	17	20 क से 29 अन्त तक		
18	खोडियाखेडी	18	1 से 16 ग तक		
19	—	19	16 घ से 35 क तक		
20	—	20	36 क से 68 ग अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	रूपाहेड़ा	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—" —</td <td>2</td> <td>18 से 36 तक</td> <td>अनुसूचित जाति महिला</td> <td>2</td>	2	18 से 36 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—" —</td <td>3</td> <td>37 से 51 तक</td> <td>पिछड़ा वर्ग मुक्त</td> <td>2</td>	3	37 से 51 तक	पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
4	—" —</td <td>4</td> <td>52 से 75 तक</td> <td>पिछड़ा वर्ग महिला</td> <td>3</td>	4	52 से 75 तक	पिछड़ा वर्ग महिला	3
5	—" —</td <td>5</td> <td>76 से 89 तक</td> <td>अजजा. मुक्त</td> <td>0</td>	5	76 से 89 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—" —</td <td>6</td> <td>90 से 107 तक</td> <td>अजजा. महिला</td> <td>0</td>	6	90 से 107 तक	अजजा. महिला	0
7	—" —</td <td>7</td> <td>108 से 122 तक</td> <td>अनारक्षित महिला</td> <td>5</td>	7	108 से 122 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—" —</td <td>8</td> <td>123 से 143 तक</td> <td>अनारक्षित मुक्त</td> <td>6</td>	8	123 से 143 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—" —</td <td>9</td> <td>144 से 161 तक</td> <td></td> <td></td>	9	144 से 161 तक		
10	—" —</td <td>10</td> <td>162 से 175 तक</td> <td></td> <td></td>	10	162 से 175 तक		
11	—" —</td <td>11</td> <td>176 से 192 तक</td> <td></td> <td></td>	11	176 से 192 तक		
12	—" —</td <td>12</td> <td>193 से 208 तक</td> <td></td> <td></td>	12	193 से 208 तक		
13	—" —</td <td>13</td> <td>209 से 221 तक</td> <td></td> <td></td>	13	209 से 221 तक		
14	—" —</td <td>14</td> <td>222 से 237 तक</td> <td></td> <td></td>	14	222 से 237 तक		
15	—" —</td <td>15</td> <td>238 से 257 तक</td> <td></td> <td></td>	15	238 से 257 तक		
16	—" —</td <td>16</td> <td>258 से 265 तक</td> <td></td> <td></td>	16	258 से 265 तक		
17	—" —</td <td>17</td> <td>266 से अन्त तक</td> <td></td> <td></td>	17	266 से अन्त तक		
18	कानडियाखेडी	18	1 से 18 तक		
19	—" —</td <td>19</td> <td>19 से 31 तक</td> <td></td> <td></td>	19	19 से 31 तक		
20	—" —</td <td>20</td> <td>32 से अन्त तक</td> <td></td> <td></td>	20	32 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्य
1	2	3	4	5	6
1	तमोलिया	1	1 से 12 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—" —</td <td>2</td> <td>13 से 27 तक</td> <td>अनुसूचित जाति महिला</td> <td>1</td>	2	13 से 27 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—" —</td <td>3</td> <td>28 से 43 तक</td> <td>पिछड़ा वर्ग मुक्त</td> <td>2</td>	3	28 से 43 तक	पिछड़ा वर्ग मुक्त	2
4	—" —</td <td>4</td> <td>44 से 58 तक</td> <td>पिछड़ा वर्ग महिला</td> <td>2</td>	4	44 से 58 तक	पिछड़ा वर्ग महिला	2
5	—" —</td <td>5</td> <td>59 से 69 तक</td> <td>अजजा. मुक्त</td> <td>0</td>	5	59 से 69 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—" —</td <td>6</td> <td>70 से 80 तक</td> <td>अजजा. महिला</td> <td>0</td>	6	70 से 80 तक	अजजा. महिला	0
7	—" —</td <td>7</td> <td>81 से 94 तक</td> <td>अनारक्षित महिला</td> <td>6</td>	7	81 से 94 तक	अनारक्षित महिला	6
8	—" —</td <td>8</td> <td>95 से 104 तक</td> <td>अनारक्षित मुक्त</td> <td>5</td>	8	95 से 104 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—" —</td <td>9</td> <td>105 से 117 तक</td> <td></td> <td></td>	9	105 से 117 तक		
10	—" —</td <td>10</td> <td>118 से 125 तक</td> <td></td> <td></td>	10	118 से 125 तक		
11	—" —</td <td>11</td> <td>126 से 136 तक</td> <td></td> <td></td>	11	126 से 136 तक		
12	—" —</td <td>12</td> <td>137 से 144 ख तक</td> <td></td> <td></td>	12	137 से 144 ख तक		
13	—" —</td <td>13</td> <td>145 से 156 तक</td> <td></td> <td></td>	13	145 से 156 तक		
14	—" —</td <td>14</td> <td>157 से अन्त तक</td> <td></td> <td></td>	14	157 से अन्त तक		
15	गोवर्धनपुरा	15	1 से 12 क तक		
16	—" —</td <td>16</td> <td>13 से 23 तक</td> <td></td> <td></td>	16	13 से 23 तक		
17	—" —</td <td>17</td> <td>24 से अन्त तक</td> <td></td> <td></td>	17	24 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दुपाडिया	1	1 से 9 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	10 से 21 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	22 से 33 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	34 से 45 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	46 से 57 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	58 से 75 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	76 से 93 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	94 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	कुण्डीखेडा	9	1 से 10 घ तक		
10	—	10	10 ड से 21 तक		
11	—	11	22 से 33 तक		
12	—	12	34 से 44 क तक		
13	—	13	44 ख से 56 तक		
14	—	14	57 स अन्त तक		
15	बद्धुखेडी	15	1 क से 12 तक		
16	—	16	13 से 20 तक		
17	—	17	21 से 43 तक		
18	—	18	44 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सादलपुर	1	1 से 7 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	7 क से 15 क तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	15 ख से 23 ग तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	24 से 38 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	39 से 50 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	51 से 60 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	61 से 70 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	71 से 83/2 तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	—	9	84 से 95 तक		
10	—	10	96 से 196 ख तक		
11	—	11	106 ग से 115 तक		
12	—	12	116 से अन्त तक		
13	फतेहपुर	13	1 से 18 तक		
14	—	14	19 से 29 तक		
15	—	15	30 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीपल्दा	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	18 से 36 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	37 से 52 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	53 से 64 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	65 से 79/1 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	80 से 93 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	94/1 से 105/2 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	106 से 116/1 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	116/2 से 126 तक		
10	—	10	127 से 132 तक		
11	—	11	133 से 145/2 तक		
12	—	12	146 से 163 तक		
13	—	13	164 से 176 तक		
14	—	14	177 से अन्त तक		
15	चैनपुरिया	15	1/1 से 10 तक		
16	—	16	11 से अन्त तक		
17	मान्याखेडी	17	1 से 12 तक		
18	—	18	13 से 19 तक		
19	—	19	20 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रानीपुरा	1	1 से 13/3 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	14 से 31 तक	अनुसूचित जाति महिला	0
3	—	3	32 से 38 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	39/2 से 43/1 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	43/2 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	बिन्याखेडी	6	1 से 5 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	6 से 12 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	13/1 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	देवपुर	9	1 से 36 अन्त तक		
10	—	10	1/1 से 16 तक		
11	—	11	17 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सुरजपुरा	1	1 से 13 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	14 से 24 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	25 से 35/3 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	36 से 49 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	50 से 62 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	63 से 74 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	75 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	6
8	अभयपुरा	8	1 से 21 क तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	22 से 39/2 तक		
10	—	10	40 से 51 तक		
11	—	11	52 से 63 तक		
12	—	12	64 से अन्त तक		
13	भगापुरा	13	1 से अन्त तक		
14	रामपुरिया	14	1 से 10 तक		
15	—	15	11 से 25 तक		
16	—	16	26 से अन्त तक		
17	गोपालपुरा	17	1 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवर	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गागोरनी	1	1 से 22 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	2
2	—	2	23 से 47 तक	अनुसूचित जाति महिला	2
3	—	3	48 से 74 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	2
4	—	4	75 से 94 तक	पिछडा वर्ग महिला	3
5	—	5	95 से 119 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	120 से 137 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	138 से 162 तक	अनारक्षित महिला	5
8	—	8	163 से 188 तक	अनारक्षित मुक्त	6
9	—	9	189 से 208 तक		
10	—	10	209 से 226 तक		
11	—	11	227/1 से 243 तक		
12	—	12	244 से 266 तक		
13	—	13	267/1 से 289 तक		
14	गागोरनी (गुराडा)	14	1 से 20 तक		
15	—	15	21 से 43 तक		
16	—	16	44 से अन्त तक		
17	लिम्बोदा भानपुरा	17	1 से 22/2 तक		
18	—	18	23 से 48 तक		
19	—	19	49 से 65 तक		
20	—	20	66 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पाडल्या	1	1 से 15 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	16 से 24/2 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	25 से 35/2 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	36 से अन्त तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	नबापुरा	5	1 से 19 क तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	20 से 34/2 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	34/3 से अन्त तक	अनारक्षित महिला	3
8	रामपुरिया	8	1 से 11 तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	—	9	12 से अन्त तक		
10	तेजपुरा	10	1 से 10 तक		
11	—	11	11 से 21 तक		
12	—	12	22 से अन्त तक		

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पाडली	1	1 से 17 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	0
2	—	2	18 से 28 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	29 से 42 तक	पिछडा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	43 से 52 तक	पिछडा वर्ग महिला	2
5	—	5	53 से अन्त तक	अजजा. मुक्त	0
6	पदमपुरा	6	1 से 13 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	14/1 से 31 तक	अनारक्षित महिला	4
8	—	8	32 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	5
9	शिवपुरी	9	1 से अन्त तक		
10	हरिपुरा	10	1 से 8/1 तक		
11	—	11	8/2 से अन्त तक		
12	रुगनाथपुरा	12	1 से 7 तक		
13	—	13	8 से अन्त तक		

राजगढ़, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 12 के साथ गठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:-

खण्ड जीरापुर

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दोबड़ा	1	1 से 20/1 तक	अनुसूचित जाति मुक्त	1
2	—	2	20/2 से 38/3 तक	अनुसूचित जाति महिला	1
3	—	3	39 से 53 तक	पिछड़ा वर्ग मुक्त	1
4	—	4	54 से 64 तक	पिछड़ा वर्ग महिला	2
5	—	5	65 से 74 तक	अजजा. मुक्त	0
6	—	6	75 से 85 तक	अजजा. महिला	0
7	—	7	86 से 97 तक	अनारक्षित महिला	3
8	—	8	98 से अन्त तक	अनारक्षित मुक्त	4
9	बाडियामण्डलोई	9	1 से 6 तक		
10	—	10	7 से अन्त तक		
11	हांसलबै	11	1 से 13 तक		
12	—	12	14 से अन्त तक		

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर.



कार्यालय, आयुक्त, इन्दौर संभाग,  
इन्दौर मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 09 मई 2014

क्र. 599-परिसीमन बुरहानपुर-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-518-अठारह 3-2004, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, संजय दुबे, आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगरपालिक निगम बुरहानपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
01	महाजनापेठ वार्ड
02	नेहरु नगर वार्ड
03	शिकारपुरा वार्ड
04	सिलमपुरा वार्ड
05	प्रतापपुरा वार्ड
06	महर्षि दयानंद वार्ड
07	तिलक वार्ड
08	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
09	शाह बाजार वार्ड
10	चाचा फकीरचंद वार्ड
11	शास्त्री चौक वार्ड
12	गांधी चौक वार्ड
13	खैराती बाजार वार्ड
14	बैरी मैदान वार्ड
15	नागझिरी वार्ड
16	मालवीय वार्ड
17	आलमगंज वार्ड
18	सरदार पटेल वार्ड
19	इतवारा वार्ड
20	सिंदीपुरा वार्ड
21	बुधवारा वार्ड
22	मालीवाड़ा वार्ड
23	आजाद वार्ड
24	चन्द्रकला वार्ड
25	लोहारमंडी वार्ड
26	डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड
27	दाउदपुरा वार्ड
28	अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड
29	डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड
30	मोमिनपुरा वार्ड
31	हरीरपुरा वार्ड

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
32	शनवारा वार्ड
33	खानका वार्ड
34	जयस्तंभ वार्ड
35	राजपुरा वार्ड
36	डाकवाडी वार्ड
37	न्यामतपुरा वार्ड
38	रास्तीपुरा वार्ड
39	राजीव वार्ड
40	गुरुनानक वार्ड
41	इन्दिरा वार्ड
42	रईकर वार्ड
43	लालबाग वार्ड
44	मिल एरिया वार्ड
45	गुलाबगंज वार्ड
46	गांधी कॉलोनी वार्ड
47	शिवाजी वार्ड
48	चिंचाला वार्ड

वार्डों के परिसीमन पश्चात सीमा

वार्ड क्रमांक 01—महाजनापेठ वार्ड

उत्तर—सरदार भुस्कुट्टे मार्ग पर गुप्तेश्वर गली से शीतला माता मंदिर होते हुए कच्चे रास्ते से पश्चात नाले से होते हुए ताप्ती नदी सतियारा घाट तक.

पूर्व—ताप्ती नदी के किनारे-किनारे सतियारा घाट से दक्षिण तरफ शमशान घाट तक.

दक्षिण—शमशान घाट से पश्चिम की ओर रास्ते से नागेश्वर मंदिर से सामने से होते हुए सरदार भुस्कुट्टे मुख्य मार्ग तक पश्चात सरदार भुस्कुट्टे मार्ग पर क्रास करते हुए पुराना नगरीय मूलभूत सेवा केन्द्र (उर्दू स्कूल) के पास कडवीशा नाले की पुलिया तक.

पश्चिम—पुराने मूलभूत सेवा केन्द्र के पास कडवीशा नाला की पुलिया तक उत्तर की ओर नाले-नाले रोड से पश्चात नाला क्रास करते हुए भैरव मंदिर के पास चापोरकर गली (बालशास्त्री पावडे गली) से सीधे सरदार भुस्कुट्टे मुख्य मार्ग पर तथा सरदार भुस्कुट्टे मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर गुप्तेश्वर गली के नुक्कड तक.

वार्ड क्रमांक 02—नेहरू नगर वार्ड

उत्तर—नगरीय मूलभूत सेवा केन्द्र (नई उर्दू स्कूल भवन) के पास बनी पुलिया से उत्तर पूर्व की ओर रोड से सरदार भुस्कुट्टे मुख्य मार्ग तक (नागेश्वर मंदिर के सामने तक) वहां से भुस्कुट्टे मार्ग क्रास करते हुए शमशान घाट रोड से ताप्ती नदी किनारे शमशान घाट तक.

**पूर्व**—ताप्ती नदी किनारे शमशान घाट से नदी किनारे-किनारे दक्षिण तरफ ताप्ती नदी के पुराने पुल के पास पाण्डारोल नाले के संगम तक.

**दक्षिण**—पुराने ताप्ती पुल के पास पाण्डारोल नाला संगम से नाले-नाले छोटी रेणुका माता के पास बनी पुलिया तक.

**पश्चिम**—छोटी रेणुका माता के पास नाले पर बनी पुलिया के पूरब की ओर मुख्य मार्ग से शिकारपुरा थाने के पास से होते हुए शिकारपुरा गेट तक वहां से सीधे पुराना नगरीय मूलभूत सेवा केन्द्र (उर्दू स्कूल के पास) नाले पर बनी पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 03—शिकारपुरा वार्ड

**उत्तर**—मिलिन्द नगर चौराहे से डॉ. बद्रीप्रसाद मार्ग से होते हुए तत्पश्चात रतनलाल मास्टर की गली होते हुए राजकमल बैंड वालों के मकान के पास चौराहे तक. (राजकमल बैंड वालों का मकान छोड़ते हुए) वहां से कश्मीरा टेक्सटाईल्स के सामने से होते हुए दक्षिण में संत कबीरदास मार्ग तक.

**पूर्व**—संत कबीरदास मार्ग से कडवीशा नाले-नाले शिकारपुरा गेट तक.

**दक्षिण**—शिकारपुरा गेट से कोटवाल कोटवाल होते हुए रेस्ट हाउस के सामने फुटे कोट तक.

**पश्चिम**—रेस्ट हाउस के सामने फुटे कोट से पूर्व के मार्ग से सुलभ शौचालय मार्ग के सामने चौराहे तक. (सुलभ शौचालय छोड़ते हुए) वहां से उत्तर की ओर मुख्य मार्ग से मिलिन्द नगर चौराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—सिलमपुरा वार्ड

**उत्तर**—सिलमपुरा गेट से पूर्व तरफ कोटवाल कोटवाल होते हुए राजपुरा गेट तक वहां से राजपुरा गेट से अंदर पुलिस चौकी (छोड़ते हुए).

**पूर्व**—पुलिस चौकी से दक्षिण में सीधे रोड से राधा वल्लभ मंदिर तक वहां से पश्चिम में रोड से रमण वाणी के मकान के कोने तक. वहां से बाजू वाली चिमनलाल नायक गली से दक्षिण तरफ मिलिन्द नगर चौराहा रोड पर वहां से दक्षिण की ओर शिकारपुरा टंकी रोड से सुलभ शौचालय तक (सुलभ शौचालय लेते हुए).

**दक्षिण**—सुलभ शौचालय के सामने वाले रोड से रेस्ट हाउस के सामने फुटे कोट तक.

**पश्चिम**—रेस्ट हाउस के सामने से फुटे कोट से कोटवाल कोटवाल होते हुए सिलमपुरा गेट तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—प्रतापपुरा वार्ड

**उत्तर**—राधावल्लभ मार्ग पर रमण वाणी के बाजू वाली गली के नुक्कड़ से राधा वल्लभ मंदिर तक वहां से वहां से पीछे की गली से नागरवाडी होते हुए सीधे पूर्व तरफ में रोड से होते हुए प्रतापपुरा में अर्जुनदास ठेकेदार के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ रसीकलाल के मकान से लक्ष्मी विलास भवन होते हुए वल्लभाचार्य मार्ग से कडवीशा नाले पर बने आमतट तक. (पुराने स्वस्तिक टाईल फैक्ट्री के सामने).

**पूर्व**—आम तट से दक्षिण की ओर कडवीशा नाले-नाले संत कबीरदास मार्ग से पीएचई कार्यालय के सामने तक.

**दक्षिण**—पीएचई कार्यालय के बाजू के रोड से कश्मीरा टेक्सटाईल्स चौराहे तक वहां से पश्चिम की ओर राजकमल बैंड वालों के मकान के चौराहे तक. (राजकमल बैंड वालों का मकान लेते हुए) वहां से बाजू वाली रोड क्रास कर तत्पश्चात रतनलाल मास्टर की गली के नुक्कड़ तक.

**पश्चिम**—रतनलाल मास्टर की गली से गली-गली तत्पश्चात डॉ. बद्रीप्रसाद मार्ग क्रास कर वहां से उत्तर की ओर सीधे चिमनलाल नायक गली से रमण वाणी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—महर्षि दयानंद वार्ड

**उत्तर**—राजपुरा रोड पर राजपुरा गेट के पास पुलिस चौकी से राजपुरा रोड (ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग) से पाण्डुमल चौराहे तक.

**पूर्व**—पाण्डुमल चौराहे से दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग से तिलक चौराहे से होते हुए बोरवाडी चौराहे तक वहां से सरदार भुस्कुट्टे मार्ग से दक्षिण तरफ चापोरकर गली के नुक्कड़ तक (बाल शास्त्री पावडे गली तक).

**दक्षिण**—चापोरकर गली से पश्चिम की ओर कडवीशा नाले तक वहां से नाले के सामने बने आमतट तक के सामने तक. (पुरानी स्वस्तिक टाईल फैक्ट्री लेते हुए) वल्लभाचार्य मार्ग से लक्ष्मीविलास भवन के दक्षिण पश्चिमी कोने के सामने तक वहां से उत्तर की ओर रोड से होते हुए हाटकेश्वर मंदिर होते हुए अर्जुनदास ठेकेदार के मकान के सामने तक वहां से पश्चिम में रोड से बद्रीलाल नागर के मकान के सामने से जडियावाला लेते हुए पश्चिम में कालूसिंह चुन्नीसिंह के मकान के आगे राधावल्लभ गली से राधावल्लभ मंदिर तक.

**पश्चिम**—राधावल्लभ मंदिर के बाजू में उत्तर की ओर वीर सावरकर मार्ग से राजपुरा मेन रोड (ज्ञानवर्धिनी सभा मार्ग) पुलिस चौकी तक.

### वार्ड क्रमांक 07—तिलक वार्ड

**उत्तर**—पाण्डुमल चौराहे पर भैरव मंदिर से पूर्व की ओर शंकराचार्य मार्ग से बाई साहब की हवेली के पास तिराहे तक (महादेव मंदिर के सामने).

**पूर्व**—बाई साहब की हवेली के तिराहे से दक्षिण की ओर राजा रणजीत सिंह मार्ग से आदर्श विद्यापीठ (नया मोहल्ला चौराहा) होते हुए दक्षिण की ओर टेनी मास्टर का मकान होते हुए भगवतराव दीक्षित के मकान तक भगवंतराव दीक्षित के मकान से रोड से वल्लभदास काशीवाले (जय चामुन्डा भवन) को लेते हुए वार्ड नं. 9 शाह बाजार की सीमा होते हुए स्वीपर क्वार्टर के सामने नाले के संगम तक (पुराना आम तट तक). वहां से दक्षिण में नाथवाडा लेते हुए नाले-नाले वार्ड क्रं. 8 की सीमा से होते हुए सतियारा घाट तक).

**दक्षिण**—सतियारा घाट से पश्चिम की ओर मार्ग से शीतला माता मंदिर से होते हुए गुप्तेश्वर मंदिर के सामने से पश्चिम की ओर गुप्तेश्वर मार्ग गली से सरदार भुस्कुटे मुख्य मार्ग तक.

**पश्चिम**—सरदार भुस्कुटे मुख्य मार्ग पर गुप्तेश्वर गली के कोने से मुख्य मार्ग से उत्तर की ओर सीधे बोरवाडी चौराहे एवं तिलक चौराहा होते हुए सीधे पाण्डुमल चौराहा तक.

### वार्ड क्रमांक 08—डॉ अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—जोशीवाडे के पास मांगवाडे के नुक्कड से पूर्व की ओर मरीमाता मंदिर से नवग्रह मंदिर तक वहां से कोटवाल से कोटवाल से ताप्ती नदी तक.

**पूर्व**—ताप्ती नदी के किनारे-किनारे दक्षिण की ओर सतियारा घाट तक वहां से शमशान घाट तक.

**दक्षिण**—शमशान घाट से सतियारा घाट गेट से होते हुए पश्चिम की ओर नाले से होते हुए नाथवाडा बस्ती छोड़ते हुए नाले-नाले उत्तर की ओर स्वीपर क्वार्टर के पास नाले के संगम तक. (पुराने आमतट तक).

**पश्चिम**—नाले के संगम (पुराना आमतट) से पूर्व की ओर जोशीवाडे के पास मांगवाडे के नुक्कड तक.

### वार्ड क्रमांक 09—शाह बाजार वार्ड

**उत्तर**—बाई साहब की हवेली के पास तिराहे के कोने (फरास खाना मार्ग से) फरासखाना वाला मार्ग से समद सेठ के मकान तक वहां से पूर्व तरफ शंकर कुम्हार के मकान तक.

**पूर्व**—शंकर कुम्हार के मकान से दक्षिण तरफ नाले से होते हुए दौलतपुरा स्वीपर्स क्वार्टर के पीछे टीन वाला आम तट तक.

**दक्षिण**—टीन वाला आम तट से नाले-नाले दक्षिण में कुम्हारों के ईट भट्टे लेते हुए पश्चिम की ओर उपर टेनी मास्टर मार्ग पर बने आम तट तक.

**पश्चिम**—टेनी मास्टर मार्ग पर आम तट के सामने से उत्तर तरफ टेनी मास्टर मार्ग के चौराहे के उत्तर में नया मोहल्ला चौराहे तक. (आदर्श विद्यापीठ के सामने) वहां से उत्तर में बाई साहब की हवेली के पास फरासखाना रोड के तिराहे तक.

### वार्ड क्रमांक 10—चाचा फकीरचंद वार्ड

**उत्तर**—रामकृष्ण परमहंस मार्ग (किला रोड) पर पम्पिंग स्टेशन से पूर्व तरफ से हकीमीया स्कूल के बाजू का किला बगीचा लेते हुए ताप्ती नदी तक.

**पूर्व**—ताप्ती नदी से दक्षिण तरफ नदी किनारे-किनारे नवग्रह मंदिर के सामने नदी किनारे तक.

**पश्चिम**—ताप्ती नदी किनारे से पश्चिम तरफ नवग्रह मंदिर लेते हुए रोड से पश्चिम में मांगवाडा मरीमाता मंदिर तक वहां से चौकसे की पुरानी चक्की से समद सेठ के मकान के सामने तक वहां से फरास खान वाले मार्ग से होते हुए शंकराचार्य मार्ग तक (पुरानी बाईसाहब की हवेली के तिराहे तक).

**दक्षिण**—शंकराचार्य मार्ग (पुरानी बाईसाहब की हवेली) से पूर्व तरफ रोड से राजघाट ढाल पर मोहन कालू के मकान तक वहां से उत्तर तरफ राजघाट रोड से किला (रामकृष्ण परमहंस मार्ग से) तरफ पम्पिंग स्टेशन तक.

### वार्ड क्रमांक 11—शास्त्री चौक वार्ड

**उत्तर**—ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा से पूर्व की ओर बशारत अली मार्ग से होते प्रियंका जनरल स्टोर लेते हुए दक्षिण की ओर भगवान क्लाथ स्टोर तक वहां से पूर्व की ओर गली से विनोद डेयरी के बाजू से शनि मंदिर रोड तक वहां से फव्वारा चौराहा होते हुए पूर्व की ओर किला रोड चौराहे तक. (रामकृष्ण परमहंस मार्ग तक).

**पूर्व**—किला चौराहा से रामकृष्ण परमहंस मार्ग से दक्षिण की ओर मोहन कालू के मकान से शंकराचार्य मार्ग तक.

**दक्षिण**—शंकराचार्य मार्ग से बाई साहब की हवेली से सीधे पाण्डुमल चौराहा तक.

**पश्चिम**—पाण्डुमल चौराहे से कमल टॉकिज तिराहे तक वहां से नेहरु अस्पताल रोड से नेहरु अस्पताल लेते हुए ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा तक.

### वार्ड क्रमांक 12—गॉंधी चौक वार्ड

**उत्तर**—सुभाष चौक में सुभाष प्रतिमा से होटल नीलगगन लेते हुए निमाड लॉज के सामने तक वहां से उत्तर तरफ पुरानी कुलदीप ऑईल मिल के सामने तक वहां से बाजू वाली बैरी मैदान की गली से पुरानी नेशनल हायस्कूल भवन (जकी काम्प्लेक्स) लेते हुए अकबरी सराय के पीछे से खैराती बाजार मेन रोड पर (फेमी साहब के मकान के सामने तक).

**पूर्व**—खैराती बाजार मेन रोड क्रॉस तक खत्री गली से दक्षिण तरफ हकीमीया स्कूल/कॉलेज की दीवार के बाजू के रोड से किला रोड तक. वहां से विश्वम्भर नाथ ठेकेदार के मकान के सामने किला रोड चौराहे तक.

**दक्षिण**—विश्वम्भर नाथ के मकान के सामने किला चौराहा से पश्चिम में चौक मेन रोड से सीधे फूल बाजार (फव्वारा चौक से) तक वहां से शनी मंदिर रोड से दुर्गा माता मंदिर के सामने पुराने कुल्फी के कारखाने तक वहां से गली तक लक्ष्मी रेडियो की दुकान लेते हुए विनोद दूध डेयरी के सामने से भगवान क्लाथ स्टोर तक.

**पश्चिम**—भगवान क्लाथ स्टोर से उत्तर की ओर गॉंधी प्रतिमा से होते हुए सुभाष चौक में सुभाष प्रतिमा तक.

### वार्ड क्रमांक 13—खैराती बाजार वार्ड

**उत्तर**—खैराती बाजार रोड पर शाम मंसूर शाह दरगाह गली से सै. अहमद मार्ग से मकान नं. 54 के बाजू वाली गली से पूर्व की ओर शाह मंसूर शाह की दरगाह से तैयब अली की बंगली से लेते हुए ताप्ती नदी तक.

**पूर्व**—ताप्ती नदी किनारे-किनारे दक्षिण तरफ खातुघाट से सीधे कारोनेशन हायस्कूल के दक्षिण पूर्वी कोने के नदी किनारे तक.

**दक्षिण**—कारोनेशन हायस्कूल के दक्षिण पूर्वी कोने से नदी किनारे से पश्चिम में कारोनेशन स्कूल लेते हुए चन्द्रगुप्त मोर्य मार्ग किला रोड पर हकीमीया स्कूल/कॉलेज के दक्षिण-पश्चिम कोने तक.

**पश्चिम**—वहां से उत्तर की ओर कॉलेज की दीवार के बाजू के रोड से उत्तर में खातुघाट रोड नाले तक. वहां से खत्री गली से उत्तर तरफ गोविन्दजीवाला मार्ग से सीधे खैराती बाजार रोड से शाह मंसूर शाह की गली इतवारा मुख्य रोड तक.

### वार्ड क्रमांक 14—बैरी मैदान वार्ड

**उत्तर**—सरसैयदना ताहेर सैफूददीन मार्ग पर हसन अली भट्टी वालों के मकान के पास कबर से पूर्व की ओर रोड से बीबी की मस्जिद के पास हारुन भाई इमदाद अली के मकान के कोने तक.

**पूर्व**—हारुन भाई इमदाद अली के मकान से दक्षिण तरफ खैराती बाजार रोड खातु घाट रोड से चौराहे से फेमी साहब के कारखाने के मकान के सामने रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग के मकान नं. 20 तक.

**दक्षिण**—खातु घाट चौराहे से पश्चिम तरफ हकीम सुखदेव प्रसाद मार्ग पर वहां से रोड से उत्तर तरफ बैरी मैदान पुराने कडवी बाजार में पम्पिंग स्टेशन तक.

**पश्चिम**—पम्पिंग स्टेशन लेते हुए वहां से पुराना कडवी बाजार, नई उर्दू स्कूल भवन लेते हुए रोड से उत्तर तरफ बदरुद्दीन मार्ग से सैयद ताहेर सैफूददीन मार्ग तक.

### वार्ड क्रमांक 15—नागझिरी वार्ड

**उत्तर**—बीबी की मस्जिद तिराहे से पूर्व तरफ रोड से नागझिरी शमशान घाट तक. (ताप्ती नदी तक).

**पूर्व**—ताप्ती नदी शमशान घाट से नदी किनारे-किनारे दक्षिण तरफ तैयब अली की बंगली तक.

**दक्षिण**—खैराती बाजार में तैयब अली की बंगली से वार्ड खैराती बाजार की सीमा से खैराती बाजार मेन रोड तक.

**पश्चिम**—खैराती बाजार मेन रोड से उत्तर की ओर बीबी की मस्जिद तिराहे तक.

### वार्ड क्रमांक 16—मालवीय वार्ड

**उत्तर**—आजाद नगर चौराहे से होते हुए पूर्व की ओर नगर निगम सीमा-सीमा नागझिरी शमशान घाट तक (ताप्ती नदी तक).

**पूर्व**—ताप्ती नदी शमशान घाट (नागझिरी) से नगर निगम सीमा से नदी किनारे-किनारे नागझिरी गेट तक.

**दक्षिण**—नागझिरी गेट से होते हुए आम नल तक (तिराहा तक) वहां से बीबी की मस्जिद तक.

**पश्चिम**—बीबी की मस्जिद के तिराहे से सीधे रोड से इतवारा गेट से होते हुए आजाद नगर चौराहे पर नगर निगम सीमा तक.

### वार्ड क्रमांक 17—आलमगंज वार्ड

**उत्तर**—गणपति नाका रोड पर चर्च के सामने पूर्व तरफ नगर निगम सीमा से मीठा मौला हजरतशाह रोड पर आजाद नगर चौराहे तक.

**पूर्व**—आजाद नगर चौराहे से पश्चिम की ओर कच्चे रास्ते से नगर निगम के आलमगंज मूलभूत सेवा केन्द्र के सामने तक.

**दक्षिण**—मूलभूत सेवा केन्द्र के सामने रोड से होते हुए सिन्धीपुरा गेट तक.

**पश्चिम**—सिन्धीपुरा गेट से उत्तर की ओर ठाकुर नारायणसिंह मार्ग से गणपति नाका रोड पर चर्च के सामने तक.

#### वार्ड क्रमांक 18—सरदार पटेल वार्ड

**उत्तर**—सिन्धीपुरा गेट से बाजू में बाल भैरव मंदिर के सामने से शंकर आशाराम मोरे से पीछे वाली गली से होते हुए आमतट के सामने ठा. नारायणसिंह मार्ग तक. वहां से दक्षिण की ओर ठा. नारायणसिंह मार्ग से होते हुए सिन्धीपुरा गेट के सामने तक वहां से पूर्व की ओर आलमगंज मूलभूत सेवा केन्द्र के सामने से आजाद नगर चौराहे तक.

**पूर्व**—आजाद नगर चौराहे से दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग से इतवारा गेट तक.

**दक्षिण**—इतवारा गेट से अंदर की ओर पश्चिम दिशा से खैरखानी रोड (मुंशी प्रेमचंद मार्ग) से होते हुए सरदार पटेल कॉलोनी के तिराहे तक. वहां से पश्चिम में गणपत कलाल मार्ग पर पाटीदार कॉलोनी के सामने तक. वहां से गणपतलाल कलाल के मकान के कोने से लाखवाली गली से सिन्धीपुरा मुख्य मार्ग तक.

**पश्चिम**—सिन्धीपुरा मुख्य मार्ग से सिंगाजी की गली से होते हुए सीधे उत्तर तरफ कुदरत अली मार्ग से घनश्याम दास बालचंद के मकान के पीछे तक वहां से उसी गली से वार्ड नम्बर 23 की सीमा से पश्चिम में बशीर मो. नजीर मो. के मकान के कोने तक. वहां से इसी गली से उत्तर में रियाज भाई करीमउद्दीन के मकान के कोने तक वहां से डॉ. इकबाल मार्ग से पश्चिम तरफ रहमत साहब मिस्त्री साब के मकान तक तथा उसके सामने मंशाराम शंखपाल का कारखाना लेते हुए फूटे कोट तक (रस्सी वालों के सामने तक) वहां से सिन्धीपुरा गेट तक.

#### वार्ड क्रमांक 19—ईतवारा वार्ड

**उत्तर**—मुंशी प्रेमचंद मार्ग पर सरदार पटेल कॉलोनी के सामने तिराहे से पूर्व की ओर खैरखानी मार्ग से खैरखानी रोड (मुंशी प्रेमचंद मार्ग) से सीधे इतवारा गेट तक.

**पूर्व**—इतवारा गेट से सीधे दक्षिण तरफ मेन रोड से विट्टल मंदिर लेते हुए बीबी की मस्जिद तक.

**दक्षिण**—बीबी की मस्जिद से पश्चिम तरफ रोड से डॉ. अकोले के दवाखाने तक. वहां से सेठ दौलतराम मार्ग से डॉ. बजाज के मकान के तिराहे तक.

**पश्चिम**—डॉ. बजाज के तिराहे से सीधे पश्चिम तरफ रोड से गुजराती स्कूल तिराहे तक वहां से उत्तर तरफ काँच मंदिर रोड से पाटीदार कॉलोनी के सामने से होते हुए सीधे मुंशी प्रेमचंद मार्ग पर सरदार पटेल कॉलोनी के सामने खैरखानी मार्ग के संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 20—सिन्धीपुरा वार्ड

**उत्तर**—सिंगाजी गली से पूर्व की ओर सिन्धीपुरा मुख्य मार्ग तक. तत्पश्चात सिन्धीपुरा रोड से लाख वाली गली के कोने तक. लाख वाली गली से पूर्व की ओर गणपतलाल कलाल मार्ग पर गणपतलाल कलाल के मकान के पास तक.

**पूर्व**—गणपतलाल कलाल मार्ग पर गणपतलाल कलाल के मकान के कोने से दक्षिण की ओर काँच मंदिर रोड से सिन्धीपुरा गुजराती स्कूल के तिराहे तक (रंगलाल बाबाजी मार्ग तक).

**दक्षिण**—गुजराती स्कूल तिराहे से पश्चिम में सिंधीपुरा चौराहे तक वहां से दक्षिण में बुधवारा चौराहे तक वहां से पश्चिम में बोहरा जमातखाने के दक्षिण पश्चिमी कोने तक.

**पश्चिम**—दाउदपुरा बोहरा जमातखाने के दक्षिण पश्चिम कोने से उत्तर तरफ पंढरपुर वाले के मकान तक वहां से नरोत्तम दास के मकान के सामने से बुरहानउद्दीन औलिया दरगाह की पूर्व तरफ गली से यतीम खाना लेते हुए सीधे उत्तर तरफ कुदरत अली मार्ग से सिंगाजी मंदिर के पास सिंगाजी मंदिर की गली तक.

#### वार्ड क्रमांक 21—बुधवारा वार्ड

**उत्तर**—सिन्धीपुरा चौराहे से रंगलाल बाबाजी मार्ग से सिन्धीपुरा गुजराती स्कूल होते हुए डॉ. बजाज के मकान तक.

**पूर्व**—डॉ. बजाज के मकान से सेठ दौलतराम मार्ग से सैयदना ताहेर सैफीददीन मार्ग पर डॉ अकोले के दवाखाने के सामने तक वहां से हसन अली भट्टी वाले के मकान के पास (कबर) तक. वहां से हसन अली भट्टी वालों के मकान के सामने से सीधे बैरी मैदान पुराना स्लाटर हाउस ट्यूबवेल चौराहे तक.

**दक्षिण**—ट्यूबवेल चौराहे से पश्चिम में बैरी मैदान रोड से होते हुए अशरफ मंडप वाले के मकान के आगे चमेली कुआ मुस्लिम पंच मदरसा होते हुए चुन्नीलाल धरमदास के मकान के सामने डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग.

**पश्चिम**—डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग वे चुन्नीलाल धरमदास मर्चेन्ट के मकान के सामने से उत्तर तरफ रोड से बुधवारा चौराहा होते हुए सिन्धीपुरा चौराहा तक रंगलाल बाबाजी मार्ग तक.

#### वार्ड क्रमांक 22—मालीवाडा वार्ड

**उत्तर**—अमरावती खण्डवा रोड पर रोशन सायजिंग लेते हुए खण्डवा रोड से होते हुए पूर्व तरफ नगरपालिक निगम सीमा से गणपति नाका रोड (ठाकुर नारायण सिंह मार्ग) पर चर्च के पास नगर पालिक निगम सीमा तक.

**पूर्व**—चर्च के पास नगर पालिक निगम सीमा से दक्षिण की ओर संत टेरेसा स्कूल लेते हुए उसके पास बने नये आमतट तक वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर शंकर आशाराम मोरे के पीछे की गली से होते हुए बाल भैरव मंदिर के सामने तक. वहां से सिन्धीपुरा गेट तक.

**दक्षिण**—सिन्धीपुरा गेट से कोटवाल कोटवाल होते हुए लोहारमंडी गेट तक.

**पश्चिम**—लोहारमंडी गेट से पूर्व की ओर गली से होते हुए हनुमान सायजिंग के पीछे वाली गली से (हनुमान सायजिंग लेते हुए) सीधे सीमेन्ट वाले रोड से आमतट के पास मुजपफर हुसैन शौकत के पोल्ट्री फार्म के सामने से रास्ते से रोशन सायजिंग के सामने से होते हुए अमरावती खंडवा रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 23—आजाद वार्ड

**उत्तर**—लोहार मंडी गेट के अंदर का हिस्सा लेते हुए पूर्व तरफ कोटवाल कोटवाल रस्सी वालों के मकान के सामने फूटे कोट तक वहां से दक्षिण की ओर सीधे रहमत साहब मिस्त्री के मकान के कोने तक वहां से पूर्व की ओर डॉ. इकबाल मार्ग से श्री रियाज भाई करीमउद्दीन के मकान के सामने तक.

**पूर्व**—रियाज भाई करीमउद्दीन के मकान के पास वाली गली से दक्षिण तरफ हुसैन खां के मकान के कोने तक (नवाब कुदरत अली मार्ग मकान नं. 03 तक) वहां से पूर्व में उसी गली में श्रीमती नुरा बी बेवा मोहम्मद हुसैन के मकान के कोने तक. घनश्यामदास बालचंद के मकान के पीछे कुदरत अली मार्ग पर वहां से उसी मार्ग से दक्षिण में सीधे पुरानी सिन्धीपुरा मराठी स्कूल के पास श्री मेहमूद खा फैज खां के मकान तक.

**दक्षिण**—श्री मेहमूद खां फैज खां मकान के पश्चिम में मो. युसुफ नूर मोहम्मद के मकान नं. 22 से पश्चिम में यासिन पहलवान के मकान से दक्षिण पश्चिम में अलीमफैजुल्ला मार्ग से अलीमुल्ला मो. ईसमार्शल के मकान तक वहां से दक्षिण में रफी मोहम्मद मो हुसैन के मकान तक.

**पश्चिम**—रफी मोहम्मद मो. हुसैन के मकान से उत्तर में किदवई गली के मकान नं. 17 तक वहां से सीधे उत्तर तरफ मकान नं. 6 डॉ. इकबाल मार्ग से लोहार मंडी गेट तक.

#### वार्ड क्रमांक 24—चन्द्रकला वार्ड

**उत्तर**—लोहार मंडी गेट से स्व. सूरजप्रसाद मिश्रा मास्टर के मकान के सामने से किदवई गली से वार्ड नं. 23 की सीमा से किदवई गली के मकान नं. 17 तक वहां से पूर्व तरफ यासिन पहलवान के मकान के सामने से वार्ड नं. 23 की सीमा से कुदरत अली मार्ग के मकान नंबर 54 के सामने से बुरहानुद्दीन औलिया दरगाह से सरोजनी नायडू मार्ग तक नरोत्तम हीरा के मकान तक.

**पूर्व**—नरोत्तम हीराचंद के मकान से दक्षिण की ओर गुलाम अहमद कच्छी के मकान के सामने से पंढरपुर वाली खुली

भूमि तक वहां से जमातखाना गली से से ताहेर सैफुद्दीन मार्ग तक. (दाउदपुरा वार्ड सीमा तक).

**दक्षिण**—दाउदपुरा वार्ड सीमा जमातखाना रोड से पश्चिम में जफर अली वकील के सामने फारुक एन्ड कंपनी के सामने मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने तक.

**पश्चिम**—मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने से उत्तर में नेशनल हायर स्कूल के सामने से लोहार मंडी रोड पर तुकडू बेचरदास चौराहा तक वहां से रफी अहमद मार्ग से उत्तर की ओर लोहारमंडी गेट तक. (आटा चक्की तक).

#### वार्ड क्रमांक 25—लोहारमंडी वार्ड

**उत्तर**—खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग पर देवीदास की खिड़की से पूर्व तरफ सीधे रोड से लोहारमंडी रोड तिराहे तक.

**पूर्व**—लोहारमंडी रोड तिराहे से दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग डॉ. जाकीर हुसैन मार्ग से गफूर पीर जी के मदरसे तक (मदरसा लेते हुए).

**दक्षिण**—गफूर पीर जी के बाजू वाली से पश्चिम की ओर हनुमान मंदिर से होते हुए सिराज भाई अंसारी भूतपूर्व पार्षद के मकान के पीछे तक वहां से रोड से दक्षिण में स्लाटर हाउस लेते हुए कोटवाल तक. (सिलेखानी तक).

**पश्चिम**—स्लाटर हाउस के पास सिलेखानी गेट से कोटवाल-कोटवाल उत्तर की ओर देवीदास की खिड़की तक.

#### वार्ड क्रमांक 26—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

**उत्तर**—खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग पर उद्योग नगर चौराहे से खण्डवा रोड से होते हुए रोशन सायजिंग के पास वाले रोड से मुजपफर हुसैन शौकत साहब के पोल्ट्री फार्म के सामने से आमतट से होते हुए तत्पश्चात दक्षिण की ओर सीमेन्ट रोड से होते हुए हनुमान सायजिंग के पीछे की गली से होते हुए लोहारमंडी गेट तक.

**पूर्व**—लोहार मंडी गेट से दक्षिण की ओर गेट के अंदर मुख्य मार्ग से तिराहे तक.

**दक्षिण**—लोहार मंडी रोड के तिराहे से पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग से देवीदास की खिड़की तक. वहां से दक्षिण की ओर कोटवाल कोटवाल सिलेखानी गेट तक (स्लाटर हाउस के कोने तक).

**पश्चिम**—सिलेखानी गेट से खण्डवा अमरावती रोड क्रॉस कर कृषि उपज मंडी समिति के दक्षिण गेट तक वहां से कच्चे नाले से पत्थर पीर के सामने नाले पर बनी छोटी पुलिया तक वहां से उत्तर में कच्चे रास्ते से नगर पालिक निगम की सीमा से होते हुए उद्योग नगर चौराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 27—दाउदपुरा वार्ड

**उत्तर**—डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग लोहारमंडी रोड (तुकडू बैचर चौराहा) से पूर्व की ओर सरोजनी नायडू मार्ग कबरो के बाजू में दक्षिण तरफ तैयब अली मार्ग से सै ताहेर सैफुद्दीन

मार्ग पर फारुक एन्ड फारुक मेशन के सामने तक वहां से सै ताहेर सैफूददीन मार्ग से पूर्व की तरफ सीधे जमातखाना होते हुए बुधवारा चौराहे तक.

**पूर्व**—बुधवारा चौराहे से दक्षिण की ओर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग से चुन्नीलाल, धरमदास मर्चेन्ट के मकान के पास जैनुल आबेदीन गली के नुककड तक.

**दक्षिण**—जैनुल आबेदीन की गली से गली-गली पत्थर बिल्डिंग के सामने अब्दुल्ला भाई फिदा अली मार्ग पर वहां से दक्षिण की ओर पुराने मंडी पावर हाउस के कोने तक वहां से मटन मार्केट से जाकिर हुसैन मार्ग (लोहारमंडी रोड) तक.

**पश्चिम**—डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग (लोहारमंडी रोड) से उत्तर की ओर सीधे तुकडू बैचर के चौराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 28—अ. कादर सिद्दीकी वार्ड

**उत्तर**—मटन मार्केट के बाजू में फिरोजशाह मेहता मार्ग के संगम से पूर्व की ओर मंडी रोड पर पावर हाउस तक, पावर हाउस के बाजू के अब्दुल्ला भाई फिदाअली मार्ग से पत्थर बिल्डिंग तक पत्थर बिल्डिंग के पूर्व तरफ जैनुलआबेदीन की गली से श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग पर चुन्नीलाल धरमदास के मकान तक वहां से श्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग पर चुन्नीलाल धरमदास के मकान तक वहां से श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड क्रास करते हुए पूर्व की ओर गली से हसन मंडप वाले के सामने से बेरी मैदान ट्यूबवेल चौराहे से (कडवीशा बाजार).

**पूर्व**—ट्यूबवेल चौराहे से दक्षिण तरफ मुल्ला फखरुद्दीन मार्ग से अकबरी सराय से पीछे वाले तिराहे तक.

**दक्षिण**—तिराहे से पश्चिम तरफ कुलदीप ऑईल मिल के कोने तक वहीं से दक्षिण में निमाड लॉज के सामने तक वहीं से पश्चिम में सुभाष प्रतिमा तक.

**पश्चिम**—सुभाष प्रतिमा से मंडी चौराहा होते हुए पावर हाउस हिन्दुस्तानी मस्जिद के सामने से मंडी पावर हाउस तक.

#### वार्ड क्रमांक 29—जाकीर हुसैन वार्ड

**उत्तर**—जिया अंसारी मार्ग पर मौलाना साहब के रंगाई खाता चौराहे से पूर्व तरफ हवाई जहाज कारंज चौराहे तक वहां से उत्तर तरफ उमरावसिंह मार्ग के चौराहे तक. वहां से दीक्षित जी की गली से सत्तार होटल वाले के मकान तक (लोहारमंडी रोड).

**पूर्व**—लोहारमंडी रोड पर दीक्षित जी की गली पर सत्तार होटल वालों के मकान से रोड रोड मंडी चौराहा तक.

**दक्षिण**—मंडी चौराहा से जयस्तंभ चौराहे तक जयस्तंभ चौराहे से शौकत अली मार्ग से दो भाई बीडी फैक्ट्री के सामने ठाकुर निरंजनसिंह मार्ग चौराहे तक.

**पश्चिम**—दो भाई बीडी फैक्ट्री के सामने ठाकुर निरंजनसिंह मार्ग चौराहे से ठा. निरंजनसिंह मार्ग से मौलाना हिफजूरहमान साहब के रंगाई खाते के चौराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 30—मोमीनपुरा वार्ड

**उत्तर**—मोहम्मद अली मार्ग से हनुमान मंदिर की पूर्व की ओर सामने वाली गली से सिराज अंसारी भूतपूर्व पार्षद के मकान के पीछे से होते हुए लोहारमंडी रोड पर गफूर पीर जी के मदरसे के पास तिराहे तक(अब्दुल रब सेठ के मकान के सामने तक).

**पूर्व**—गफूर पीर जी के मदरसे के तिराहे से दक्षिण की ओर डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग से दिक्षीत जी की गली से दिक्षीत जी की गली से पश्चिम की ओर चौराहे तक. तत्पश्चात दक्षिण की ओर हवाई जहाँज कारंज तक.

**दक्षिण**—हवाई जहाँज कारंज से पश्चिम की ओर जिया अंसारी मार्ग से स्लाटर हाउस के सामने तक.

**पश्चिम**—स्लाटर हाउस के सामने रोड से मोहम्मद अली मार्ग से उत्तर की ओर हनुमान मंदिर तिराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 31—हरीरपुरा वार्ड

**उत्तर**—बडे स्लाटर हाउस के सामने फुटे कोट (सिलेखानी) से पूर्व की ओर जिया अंसारी मार्ग से ठा. निरंजन सिंह चौराहे तक.

**पूर्व**—जिला अंसारी पर ठा. निरंजनसिंह चौराहा से दक्षिण की ओर फजले हुसैन साबिर मार्ग तक (शास. उर्दू कन्या शाला के उत्तर पूर्व कोने तक).

**दक्षिण**—शास. उर्दू कन्या शाला के भवन के उत्तर पूर्व कोने से दक्षिण की ओर फजलेहुसैन साबिर मार्ग से होते हुए मो. अली मार्ग पर पत्थर कुआ गली के सिकन्दर फते मोहम्मद के मकान तक. फतेह मो. के मकान से दक्षिण की ओर स्वीपर क्वार्टर लेते हुए शनवारा गेट के पास फुटे कोट तक.

**पश्चिम**—शनवारा गेट के पास शनवारा गेट छोड़ते हुए फुटे कोट से कोटवाल कोटवाल होते हुए सिलेखानी गेट के पास फुटे कोट तक.

### वार्ड क्रमांक 32—शनवारा वार्ड

**उत्तर**—शनवारा स्वीपर क्वार्टर के सामने मंजलेसा नत्थुसा के मकान से बाजू वाली गली से पत्थर कुंआ तक वहां से सलीम खॉ किराना दुकान तक वहीं से फजले हुसैन साबिर मार्ग से ठा. निरंजनसिंह मार्ग से संगम तक वहां से पूर्व तरफ शौकतअली मार्ग तक दो भाई बीडी फैक्ट्री के सामने तक.

**पूर्व**—दो भाई बीडी फैक्ट्री के सामने शौकत अली मार्ग व निरंजनसिंह मार्ग चौराहे से दक्षिण की तरफ शौकत मैदान बगीचे से होते हुए जयस्तंभ तक.

**दक्षिण**—जयस्तंभ से पश्चिम की ओर सीधे मेन रोड से होते हुए शनवारा गेट तक गेट से (शनवारा गेट लेते हुए) पश्चिम की ओर स्टेशन रोड से सलूजा टिम्बर मार्ट तक वहां से पाण्डारोल नाले पर बने नये पूल तक. (स्टेशन रोड).

**पश्चिम**—स्टेशन रोड पर पाण्डारोल नाले पर बने नये पूल से सलूजा टिम्बर मार्ट के पीछे से कच्चे रास्ते से पत्थर पीर की पुलिया से वहां से कच्चे रास्ते से कृषि उपज मंडी समिति का सम्पूर्ण परिसर लेते हुए खण्डवा रोड तक वहां से खण्डवा रोड क्रॉस कर सिलेखानी गेट तक वहां से कोटवाल कोटवाल शनवारा गेट के पास फुटे कोट तक. वहां से स्वीपर क्वार्टर छोड़ते हुए उत्तर में मार्ग से मंजलेसाहब के बाजू वाली गली तक.

### वार्ड क्रमांक 33—खानका वार्ड

**उत्तर**—जयस्तंभ चौराहे से पूर्व की ओर डॉ. राजेन्द्र प्रसाग मार्ग से मंडी चौराहे तक.

**पूर्व**—मंडी चौराहे से दक्षिण की ओर प्रकाश टाकिज के टांगा स्टैण्ड से होते हुए गाँधी प्रतिमा तक.

**दक्षिण**—गाँधी प्रतिमा से पश्चिम की ओर बशरत अली मार्ग से ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा तक.

**पश्चिम**—ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा से उत्तर की ओर जवाहर लाल नेहरु मार्ग से जयस्तंभ चौराहे तक.

### वार्ड क्रमांक 34—जयस्तंभ वार्ड

**उत्तर**—शनवारा रोड पर शनवारा चौराहे से शनवारा गेट से होते हुए पूर्व की ओर मुख्य मार्ग से जयस्तंभ चौराहे तक.

**पूर्व**—जयस्तंभ चौराहे से दक्षिण की ओर जवाहर लाल नेहरु मार्ग से ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा तक.

**दक्षिण**—ठा. शिवकुमार सिंह की प्रतिमा से वनिता विहार स्कूल लेते हुए बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक. वहां से सीधे बस स्टैण्ड रोड से आनंद भोजनालय के सामने से होते हुए सिकन्दर शाही मस्जिद के कोने तक. वहां से सीधे पुष्पक बस स्टैण्ड लेते हुए भारतीय स्कूल के सामने खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग तक. (मनोज कार्नर होटल के सामने तक).

**पश्चिम**—पुष्पक बस स्टैण्ड के पास भारतीय स्कूल के सामने से खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग से उत्तर की ओर शनवारा चौराहा से शनवारा गेट तक.

### वार्ड क्रमांक 35—राजपुरा वार्ड

**उत्तर**—कस्तूरबा गाँधी मार्ग से मकान नम्बर 70 के पूर्व से उत्तर की ओर बाबू पुरुषोत्तम टंडन के मकान नं. 32 (मो. उमर) के पूर्व तरफ से रोड से होते हुए नर्स क्वार्टर छोड़ते हुए सावित्रीबाई फूले शास. उच्चतर मा. विद्यालय लेते हुए रोड से कमल टॉकिज से होते हुए उबन यादव मुंशी के मकान तक.

**पूर्व**—उबन यादव मुंशी के मकान से दक्षिण में तिलक मार्ग से पाण्डुमल चौराहे तक.

**दक्षिण**—पाण्डुमल चौराहे से पश्चिम में ज्ञानवर्धिनी सभामार्ग से मकान नं. 34 बम्बई वालों के विलिडिंग के दक्षिण-पश्चिम कोने तक. (राजपुरा रोड).

**पश्चिम**—राजपुरा रोड पर बम्बई वालों की बिलिडिंग से उत्तर से सीधे रोड से कस्तूरबा गाँधी मार्ग के मकान नं. 70 तक. (किशोर टॉकिज के पास).

### वार्ड क्रमांक 36—डाकवाडी वार्ड

**उत्तर**—न्यामतपुरा रोड पर फकडिया लोहार के मकान से पूर्व तरफ रोड से रैन बसेरा के सामने से होते हुए पोस्ट ऑफिस से सामने से होते हुए ठाकुर शिवकुमार सिंह की प्रतिमा तक.

**पूर्व**—ठाकुर शिवकुमार सिंह की प्रतिमा से दक्षिण की तरफ तहसील कार्यालय से होते हुए टीबी अस्पताल/वार्ड के दक्षिण पूर्वी कोने तक टीबी अस्पताल के दक्षिणी पूर्वी कोने से डाकवाडी की सीमा से होते हुए किशोर टॉकिज के सामने कस्तूरबा गाँधी मार्ग (डाकवाडी रोड) से दक्षिण में सीधे बम्बई वालों की हवेली के सामने परसराम सेठ के मकान तक (राजपुरा/ज्ञानवर्धिनी सभा मुख्य रोड तक).



**दक्षिण**—राजपुरा में परसराम के मकान से पश्चिम में राजपुरा रोड से न्यामतपुरा रोड चौराहे तक (राजपुरा बडा आमनल तक).

**पश्चिम**—राजपुरा बडा आमनल से उत्तर में न्यामतपुरा रोड से होते हुए फकडिया लोहार की दुकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 37—न्यामतपुरा वार्ड

**उत्तर**—भारतीय स्कूल के सामने खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग पर मनोज कार्नर होटल से कोट के अंदर की ओर नगर निगम एवं नगर सुधार न्यास की दुकानें लेते हुए पुष्पक बस स्टैण्ड के पास पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान मंदिर तक वहां से पूर्व की ओर जुल्फिकार होटल के सामने से रोड से तथा होटल पुष्पक के सामने से रोड से मराठा खानावल लेते हुए सिकन्दर शाही मस्जिद के चौराहे तक.

**पूर्व**—सिकन्दर शाही मस्जिद के चौराहे से पूर्व तरफ बस स्टैण्ड आनंद भोजनालय के सामने से होते हुए मार्ग से बडे पोस्ट ऑफिस के सामने डॉ अम्बेडकर प्रतिमा तक.

**दक्षिण**—डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से रोड से रैन बसेरा के सामने रोड से फकडिया लोहार के सामने से होते हुए राजपुरा गेट तक. वहां से खण्डवा अमरावती राजमार्ग तक.

**पश्चिम**—राजपुरा गेट के बाहर खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग से होते हुए भारतीय स्कूल के सामने मनोज कार्नर होटल तक.

#### वार्ड क्रमांक 38—रास्तीपुरा वार्ड

**उत्तर**—शकर कुआ के पास पाण्डारोल नाले से पूर्व की ओर मुख्य मार्ग से होटल सूर्या के सामने खण्डवा अमरावती रोड तक.

**पूर्व**—होटल सूर्या के सामने खण्डवा अमरावती मुख्य मार्ग से होते हुए दक्षिण में राजपुरा गेट के सामने तिराहे तक. वहां से राजपुरा गेट तक वहां से कोटवाल कोटवाल होते हुए शिकारपुरा गेट तक.

**दक्षिण**—शिकारपुरा गेट से शिकारपुरा थाना लेते हुए मुख्य मार्ग क्रॉस करके रेणुका माता मंदिर पाण्डारोल नाले की पुलिया तक.

**पश्चिम**—छोटी रेणुका माता मंदिर के पाण्डारोल नाला पुलिया से पाण्डारोल नाले-नाले शकर कुआ पाण्डारोल नाले तक.

#### वार्ड क्रमांक 39—राजीव वार्ड

**उत्तर**—सिंधी बस्ती तिराहे से स्टेशन फोर लेन से होते हुए शनवारा चौराहा तक.

**पूर्व**—शनवारा चौराहे से दक्षिण की ओर खण्डवा-अमरावती मुख्य मार्ग से होते हुए होटल सूर्या के सामने तिराहे तक.

**दक्षिण**—होटल सूर्या के सामने तिराहा/फूटे कोट से पश्चिम की ओर शकर कुआ के सामने आमतट के आगे पाण्डारोल नाले तक.

**पश्चिम**—पाण्डारोल नाला क्रॉस करके कच्चे रास्ते से किशन सूर्यामल के मकान के कार्नर तक वहां से गुरुनानक दरबार के सामने से होलाराम गागनदास का मकान लेते हुए दयाराम जवाहरलाल के मकान के सामने तक श्रीचंद गुलराज मल के मकान के सामने तक वहां से रेल्वे स्टेशन रोड होते हुए सिंधी बस्ती तिराहे तक.

#### वार्ड क्रमांक 40—गुरुनानक वार्ड

**उत्तर**—बहादुर रोड गुरु गोविन्दसिंह कॉलोनी तिराहे के पास से उत्तर की ओर रोड से होते हुए लालबाग बहादुरपुर रोड तिराहे तक.

**पूर्व**—लालबाग बहादुरपुर तिराहे से पूर्व की ओर घनश्यामदास शीतलदास का मकान लेते हुए श्री अर्जुनदास हासानंद के सामने श्रीचंद गुराजमल के मकान तक वहां से दयाराम जवाहरमल के मकान से होते हुए गुरुनानक दरबार तक.

**दक्षिण**—गुरुनानक दरबार से कच्चे रास्ते से किशन सूर्यामल के मकान के सामने आमतट तक. किशन सूर्यामल के मकान के सामने आमतट से साहेबराव एकनाथ पाटिल के मकान के कोने तक वहां से पुरुषार्थी स्कूल के सामने तक.

**पश्चिम**—पुरुषार्थी स्कूल के सामने से नये प्रस्तावित रोड से होते हुए ब्रह्मशक्ति नगर के सामने से होते हुए गुरु गोविन्दसिंह कॉलोनी के मुख्य मार्ग से होते हुए बहादुरपुर रोड संगम तक.

#### वार्ड क्रमांक 41—इन्दिरा वार्ड

**उत्तर**—लालबाग स्टेशन रोड पर आयकर विभाग के पास से (आयकर कार्यालय छोड़कर) सिन्धी बस्ती बहादुरपुर तिराहे तक.

**पूर्व**—सिन्धी बस्ती-बहादुरपुर तिराहे से दक्षिण की ओर बहादुरपुर रोड से गुरु गोविन्दसिंह कॉलोनी के मुख्य मार्ग तक तत्पश्चात् नगर निगम सीमा के प्रस्तावित मार्ग से ब्रह्मशक्ति नगर से होते हुए मार्ग से पुरुषार्थी शाला लेते हुए पाण्डारोल नाले तक.

**दक्षिण**—पुरुषार्थी स्कूल के पास पाण्डारोल नाले से तत्पश्चात् नगर निगम सीमा से होते हुए सरस्वती नगर से होते हुए बहादुरपुर रोड पर नगर निगम सीमा पर गंदे नाले तक.

**पश्चिम**—बहादुरपुर रोड क्रॉस कर गंदे नाले से तत्पश्चात् नई एवं पुरानी इंदिरा कालोनी के मध्य के नाले एवं रास्ते से होते श्रीनगर कॉलोनी लेते हुए तथा नई इंदिरा कॉलोनी छोड़ते हुए लालबाग स्टेशन रोड पर आयकर कार्यालय तक.

#### वार्ड क्रमांक 42—रूईकर वार्ड

**उत्तर**—लालबाग स्टेशन रोड पर म. प्र. वि. मंडल कार्यालय के पास पुलिया से स्टेशन रोड से होते हुए आयकर कार्यालय से सामने तक.

**पूर्व**—आयकर कार्यालय लेते हुए उस बाजू से कच्चे रास्ते से श्रीनगर कालोनी छोड़ते हुए तत्पश्चात् नई इंदिरा कॉलोनी लेते हुए नई एवं पुरानी इंदिरा कॉलोनी के मध्य रास्ते एवं नाले से गंदे नाले तक नगर निगम सीमा तक.

**दक्षिण**—गंदे नाले से पश्चिम की ओर नाले-नाले नगर निगम सीमा से कृत्रिम गर्भाधान के सामने नगर निगम की सीमा सीमा होते हुए उपकार कौर नगर तक.

**पश्चिम**—उपकार कौर नगर, श्रमिक बस्ती, अर्जुन नगर, गोपाल नगर एवं कमला नगर छोड़ते हुए तथा हनुमान व्यायामशाला लेते हुए पूर्व की ओर नये सी सी रोड से होते हुए तत्पश्चात् इन्द्र नगर लेते हुए लक्ष्मी माता मंदिर से होते हुए कच्चे नाले तक वहां से नाले-नाले होते हुए श्री नंदकिशोर जी देवड़ा (मिलन मिठाई वाले) के बंगले तक. वहां से स्टेशन रोड से म. प्र. वि. मंडल कार्यालय के पास मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया तक.

#### वार्ड क्रमांक 43—लालबाग वार्ड

**उत्तर**—दत्त मंदिर के सामने पाण्डारोल नाले के रेलवे पुल से पूर्व की ओर पाण्डारोल नाले से नाले-नाले शहादरा रोड की पुलिया तक वहां से पाण्डारोल नाले-नाले नगर निगम की सीमा होते हुए पठान वाडी लेते हुए नये निर्माणाधीन पुल तक.

**पूर्व**—पाण्डारोल नाले पर बहादुरपुरा रोड तिराहे के सामने निर्माणाधीन पुल से पाण्डारोल नाले-नाले होते हुए सिन्धी बस्ती स्टेशन फोरलेन के पुल तक.

**दक्षिण**—पुल से लालबाग स्टेशन मुख्य मार्ग से स्टेशन रोड से सीधे होते हुए लालबाग में लाला भोजनालय तक वहां से रेलवे बुकिंग ऑफिस वेटिंग हॉल होते हुए रेलवे ब्रीज से प्लेटफार्म पार करके चिंचाला तरफ रेलवे फेंसिंग तक.

**पश्चिम**—चिंचाला की ओर रेलवे फेंसिंग से उत्तर की ओर रेलवे कॉलोनी के समस्त मकान लेते हुए सीधे पाण्डारोल नाले पर बनी पुलिया तक. (दत्त मंदिर के सामने).

#### वार्ड क्रमांक 44—मिल एरीया वार्ड

**उत्तर**—धरणगाँव जीन के उत्तर-पश्चिम कोने से रेलवे फेंसिंग से होते हुए रेलवे स्टेशन तरफ नगर पालिक निगम के सुलभ कॉम्प्लेक्स तक.

**पूर्व**—रेलवे स्टेशन के बाहर नगर पालिक निगम सुलभ कॉम्प्लेक्स के सागर टॉवर लेते हुए स्टेशन मुख्य रोड से नेहरू मान्टेसरी लेते हुए मुख्य मार्ग से श्री नंदकिशोर देवड़ा (मिलन मिठाई वालों के बंगले के पास) बने नाले की पुलिया तक.

**दक्षिण**—नाले पर बनी पुलिया से मिलन होटल वालों का निवास/मकान छोड़ते हुए नाले-नाले इन्द्र नगर छोड़ते हुए तत्पश्चात् लक्ष्मीमाता मंदिर से होते हुए हनुमान व्यायाम शाला के मुख्य रोड से होते हुए फेंसिंग से होते हुए छगन बारी के मकान के पास ताप्ती मिल फेंसिंग तक.

**पश्चिम**—नगर निगम सीमा से आम रास्ते से ताप्ती मिल फेंसिंग तक वहां से वामन होलू के मकान तक. वहां से नगर निगम का पम्पिंग स्टेशन छोड़ते हुए धरणगाँव जीन के पश्चिमी फेंसिंग से सीधे रेलवे फेंसिंग तक.

#### वार्ड क्रमांक 45—गुलाबगंज वार्ड

**उत्तर**—ताप्ती मिल फेंसिंग से लेबर कॉलोनी गोपाल नगर, कमला नगर, अर्जुन नगर एवं उपकार नगर कॉलोनी लेते हुए नाले से सीधे नगर पालिक निगम सीमा तक.

**पूर्व**—वहां से नाले/रास्ते से सीधे नाले से पातोंडा रोड तक वहां से सीधे हाजी कम्पाउन्ड ब्लिचिंग फैक्ट्री (मामू कॉलोनी छोड़ते हुए) तक.

**दक्षिण**—मामू कॉलोनी के पास हाजी कम्पाउन्ड ब्लिचिंग फैक्ट्री लेते हुए (मामू कॉलोनी छोड़ते हुए) उसके पास रोड तक वहां से रोड से सीधे मामू कॉलोनी के पास (मदिना मस्जिद) मस्जिद के सामने के रोड से चित्रा टॉकिज के सामने बेना पहलवान के मकान के पास बनी नाले की पुलिया तक.

**पश्चिम**—नाले की पुलिया से नाले-नाले वामन होलू के मकान के पास ताप्ती मिल के फेंसिंग तक.

#### वार्ड क्रमांक 46—गांधी कालोनी वार्ड

**उत्तर**—लालबाग ओम चूना फैक्ट्री के पास रेलवे परिसर की सीमा-सीमा पश्चात् माल गोदाम छोड़ते हुए रेलवे कॉलोनी के मकान नं. 37 तक. वहां से खुली भूमि से धरणगाँव जीन के फेंसिंग अंदर का हिस्सा लेते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स के कोने तक.

**पूर्व**—वहां से धरणगाँव जीन की फेंसिंग फेंसिंग अंदर का हिस्सा लेते हुए नगर पालिक निगम पम्पिंग स्टेशन तक.

**दक्षिण**—वामन होलू का मकान और ताप्ती मिल फेंसिंग के मकान नम्बर के पास नाले के संगम तक. वहां से अंदर की ओर नाले-नाले होते हुए पश्चात बेनी पहलवान के मकान के पास (चित्रा टॉकिज के सामने) नाले की पुलिया तक. वहां से सीधे रोड से मामू कॉलोनी लेते हुए तथा हाजी कम्पाउंड ब्लिचिंग फैक्ट्री तक.

**पश्चिम**—हाजी कम्पाउंड ब्लिचिंग फैक्ट्री छोड़ते हुए तथा मामू कॉलोनी के सामने मकान लेते हुए मामू कॉलोनी के कोने तक. वहां से नगरपालिक निगम सीमा तक (नाले तक) वहां से नगर पालिक निगम सीमा से होते हुए पुरानी ओम चूना फैक्ट्री तक.

#### वार्ड क्रमांक 47—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—रेलवे सुखा भण्डारा के पास नगर पालिक निगम सीमा खसरा नं. 188 से पाण्डारोल नाला क्रासकर शिवाजी नगर बस्ती से वार्ड चिंचाला का क्षेत्र सूतवाला प्लाट के मध्य के रोड से रेलवे बाउन्ड्री के पास श्रद्धा निवास तक. वहां से सुलभ तक पश्चात रास्ते से नगर पालिक निगम सीमा से नाले तक.

**पूर्व**—नपा निगम सीमा आमतट के नाले के पुलिया से रेलवे फेंसिंग से होते हुए पश्चात रेलवे फ्लेटफार्म से रेलवे ब्रिज से पटरी क्रास कर बुकिंग ऑफिस एवं वेटिंग हॉल छोड़ते हुए रेलवे परिसर से नगर पालिक निगम के सुलभ कॉम्प्लेक्स तक.

**दक्षिण**—नगर पालिक निगम के सुलभ कॉम्प्लेक्स से धरणगाँव जीन के रेलवे पटरी साईड कोने तक. वहां से धरणगाँव जीन के फेंसिंग-फेंसिंग बाहर का हिस्सा लेते हुए पश्चात खुली भूमि से होते हुए रेलवे क्वार्टर नंबर 34 तक. वहां से रेलवे फेंसिंग से होते हुए, माल गोदाम लेते हुए रेलवे सीमा लेते हुए पश्चात नगर पालिक निगम सीमा-सीमा चिंताहरण के खसरा नंबर 249 तक.

**पश्चिम**—खसरा नंबर 249 के दक्षिण पश्चिम कोने से उत्तर की ओर चिंताहरण पानी की कुंडिया लेते हुए नपा निगम सीमा से होते हुए मूल भंडारा से सुखा भंडारा खसरा नम्बर 188 तक.

#### वार्ड क्रमांक 48—चिंचाला वार्ड

**उत्तर**—सूतवाला खेत के मध्य के रोड (उत्तर-दक्षिण) रोड से सीधे पाण्डारोल नाके तक. वहां से होते हुए चिंचाला बस्ती के पीछे से होते हुए सीताराम मोतीराम के मकान के पास नगर पालिक निगम सीमा तक.

**पूर्व**—नगर पालिक निगम सीमा से सीताराम मोतीराम का मकान लेते हुए पाण्डारोल नाले से रेलवे पुलिया की रेलवे फेंसिंग तक.

**दक्षिण**—पाण्डारोल नाले से रेलवे पुलिया फेंसिंग से जिवराज, शेख पुदन का मकान लेते हुए रेलवे फेंसिंग से सूतवाला खेत के मध्य का रोड श्रद्धा निवास तक.

**पश्चिम**—सूतवाला खेत के मध्य का रोड श्रद्धा निवास से सीधे खुनी भंडारा रोड क्रास कर नगर पालिक निगम सीमा पाण्डारोल नाले तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजय दुबे**, आयुक्त.

इंदौर, दिनांक 9 मई 2014

क्र. 599-सा-परिसीमन बुरहानपुर-2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 599-परिसीमन, बुरहानपुर-2014, दिनांक 9 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजय दुबे**, आयुक्त.

Indore, the 9th May 2014

No. 599—सा. -Parisiman, Burhanpur-2014.—In exercise to the powers vested under Notification No. 3-518-XVIII-3-2014 dated 24th February 2004 of the Local Government Administration and Development Department of Govt. of Madhya Pradesh. I, Sanjay Dube, Commissioner, Indore Division, Indore hereby determine the extent of Wards of Municipal Corporation Burhanpur under the provisions of Section 10 (1) of the M. P. Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) as per Schedule given below:—

#### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1	Mahajanapeth Ward
2	Nehru Nagar Ward
3	Shikarpura Ward
4	Silampura Ward
5	Pratappura Ward
6	Maharshi Dayanand Ward
7	Tilak Ward
8	Dr. Ambedkar Ward
9	Shah Bazar Ward

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
10	Chacha Fakirchand Ward
11	Shastri Chowk Ward
12	Gandhi Chowk Ward
13	Khairati Bazar Ward
14	Berimaidan Ward
15	Nagziri Ward
16	Malviya Ward
17	Alamganj Ward
18	Sardar Patel Ward
19	Itwara Ward
20	Sindhipura Ward
21	Budhwara Ward
22	Maliwara Ward
23	Azad Ward
24	Chandrakala Ward
25	Loharmandi Ward
26	Dr. Rajendraprasad Ward
27	Daudapura Ward
28	A. Kadar Siddiki Ward
29	Dr. Zakir Husain Ward
30	Mominpura Ward
31	Haripura Ward
32	Sanwara Ward
33	Khanka Ward
34	Jai Stambh Ward
35	Rajpura Ward
36	Dakwadi Ward
37	Niyamatpura Ward
38	Rastipura Ward
39	Rajiv Ward
40	Guru Nanak Ward
41	Indira Ward
42	Ruikar Ward
43	Lalbagh Ward
44	Mill Area Ward
45	Gulabganj Ward
46	Gandhi Colony Ward
47	Shivaji Ward
48	Chinchala Ward

#### WARD No. 01—MAHAJANAPETH WARD

**North**—From Sadar Bhuskutte Marg by Gupteshwar Galli along Sitlamata Temple by Kachha road and thereafter along Nalla upto Satiyara Ghat of River Tapti.

**East**—From Satiyara Ghat of River Tapti upto Burning Ghat.

**South**—From Burning Ghat towards west through Kachha road and Nageshwar Temple upto Sardar Bhuskutte marg. There from by crossing Sardar Bhuskutte road upto Kadvisa Nalla Pulia near Urban Basic Service Centre.

**West**—From Urban Basic Service Centre towards North via Kadvisa Nalla Puliya by road side of Nalla. Thereafter by crossing the Nalla near Bhairao Temple through Chaporkar lane (Bal Shastri Pawade Galli) directly on Bhuskutte lane and through Bhuskutte road upto the corner of Gupteshwar Galli.

#### WARD No. 02—MEHRU NAGAR WARD

**North**—From the culvert near Urban Basic Service centre (New Urdu School building) to north east by road to Sardar Bhuskutte Main road (Opposite Nageshwar Mandir) and then crossing Bhuskutte Marg to the burning Ghat of Tapti river.

**East**—From the Burning Ghat of Tapti River along river towards South upto the junction of Pandaroll Nala and Tapti river near old bridge of Tapti river.

**South**—near old bridge of Tapti river from the junction of river and Pandaroll Nalla alongwith Nalla upto the culvert near Chhoti Renuka Mata Mandir.

**West**—From the culvert of nallah near Chhoti Renuka Mandir towards east along the main road through Shikarpura Police Station upto Shikarpura gate and then to old urban basic service centre (near new Urdu School building) upto culvert of the nallah.

#### WARD No. 03—SHIKARPURA WARD

**North**—From Milindnagar Chouaha through Dr. Badriprasad Marg and then along the lane of Ratanlal Master upto Chauraha of the house of Rajkamal Band Wala (excluding the house of Rajkamal Band Wala) then passing from Kashmira Textiles to South upto Sant Kabirdas Marg.

**East**—From Sant Kabirdas Marg alongwith Nallah upto Shikarpura Gate.

**South**—From Shikarpura Gate along the kot wall upto broken kotwall opposite Rest house.

**West**—opposite Rest house from broken Kotwall towards eastern road opposite Chauraha of Salab Public Latrine excluding public Latrine to north upto Milind nagar Chouraha

#### WARD No. 04—SILAMPURA WARD

**North**—From Silampura Gate towards est along Kot wall to Rajpura gate and then from Rajpura gate inside excluding police Chouki.

**East**—From Police Chouki towards South directly through road to Radha Vallabh Mandir and from there along road upto the corner of the house of Raman Wani and then from the side Chimanlal Naik Lane towards South upto Milindnagar Chouraha road and then to South along Shikarpura Tank road upto Sulabh Public Latrine including Sulabh Public Latrine.

**South**—From the road opposite Sulabh Public Latrine to the broken kot wall opposite Rest House.

**West**—From the broken Kot wall opposite Resi. House alongwith the Kot wall upto Silampura gate.

#### WARD No. 05—PRATAPPURA WARD

**North**—From the corner of the side lane of the house of Shri Raman Wani on Radhavallabh marg upto the Radhavallabh temple, Therefrom by the side lane through Nagar wadi direct towards East by the road upto the house of Arjundas thekedar in Pratappura. There from towards South Along the house of Rasiklal Bharatiya and Laxmi Vilas by the Vallabh charya Marg upto Kadvisa Nall (infront of public latrine Opp. old Swastic Tiles factory).

**East**—From Public Latrine towards South along Kadvisa Nallah and from Sant Kabirdas Marg upto the opposite of P.H.E. office.

**South**—by the side Raod of P.H.E. office to the Chauraha of Kashmira Textiles and then to the West upto the chauraha of Rajkamal Band-wala's house including his house and then crossing the side road to the corner of Ratanlal Master.

**West**—from the lane of Ratanlal Master alongwith the lane and then after crossing Dr. Badriprasad Marg and then towards north along Chimanlal Naik lane to the house of Raman Wani.

#### WARD No. 06—MAHRISHI DAYANAND WARD

**North**—From the Police Chouki on Rajpura Road near Rajpura gate alongwith Rajpura Road (Gyanwardhini Sabha Road) to Pandumal Chouraha.

**East**—From Pandumal Chauraha to South along main road and Tilak Chauraha to Borwadi Chouraha and then from Sardar Bhuskutte Marg towards South upto the corner or Chaporkar lane (to Bal Shastri Pawde Lane).

**South**—From Chaporkar lane towards west Kadvisa Nallah and then to the Public Latrine situated opposite Nallah (including old factory of Swastic tiles) from Vallabhacharya Marg to the South west Corner of Laxmi Vilas Bhawan and then to north along road and HatKeshwar Mandir upto the front of Arjundas Contractor and to he west along road through the house of Badrilal Nagar taking Jadiyahada in the West by the lane of Kaloosingh Chunnisingh to Radhavallabh Mandir.

**West**—by the side of Radhavallabh Mandir to north along Veer Sawarkar Marg to Rajpura Main road (Gyanwardhini Sabha Marg) upto Police Chouki.

#### WARD No. 07—TILAK WARD

**North**—From Bhairao Mandir on Pandumal Chouraha towards east by Shankaracharya Road to the Road Triangle near Bai Sahab ki Haveli.

**East**—From the road triangle of Bai Sahab ki Haveli towards South along Raja Ranjitsingh Marg and Adrash Vidya Peeth (Naya Mohallah Chouraha) towards South through the house of Teni Master to the house of Bhagwantrao Dixit and then along road taking the house of Vallabhdas Kashiwale (Jai Chamunda Bhawan) and through the border of Ward No. 9 Shah Bazar upto the junction of Nallah opposite sweepers quarters (upto old Public Latrine) and then taking Nathwada

along Nallah through the border of Ward No. 8 upto Satyara Ghat.

**South**—From Satyara Ghat towards West along road and Shitla Mata Mandir from the front side of Gupteshwar Mandir towards west from Gupteshwar lane upto Sardar Bhuskutte Marg.

**West**—From the Corner of Gupteshwar lane on Sardar Bhuskutte main road along main road directly passing through Borwadi Churaha and Tilak Chouraha to Pandumal Chaurah.

#### WARD No. 8—DR. AMBEDKAR WARD

**North**—From Mangwada Corner of Joshiwada towards East by Marimata Temple upto in front of Navagraha Temple. From there upto Fort wall. From Fort wall directly upto River Tapti.

**East**—Along the Bank of Tapti River towards south upto Satyara Ghat and then to the burning ghat.

**South**—From the burning Ghat to Satyaraghat gate towards west along nallah leaving Nathwada Basti towards north upto Junctions of Nallah near Sweepers quarters (old Public Latrine)

**West**—From the junction of Nallah (old public latrine) to wards east upto Magwada corner near Joshiwada.

#### WARD No. 09—SHAH BAZAR WARD

**North**—From the Corner of triangle near Bai Sahab ki Haveli Farashkhana Marg to the house of Samad Seth and then to the house of Shankar kumhar in the east.

**East**—From the house of Shankar Kumbhar towards South by the Nalla upto the Tinwala shed public latrine behind the Daulatpura Sweeper quarters.

**South**—From Tinwala public latrine along Nalla by Brick Kilns of Kumbhar towards public latrine on Teni master marg in west.

**West**—From the front of Public latrine on Teni Master Marg towards north upto Naya Mohallah Chourah (Opposite Adrash Vidya Peeth) and then towards north upto the road triangle of Fars Khana Wala Marg near Bai Sahab ki Haveli.

#### WARD No. 10—CHACHA FAKIRCHAND WARD

**North**—From Pumping station on Ramkrishna Parambans Marg (Killa road) towards east by the road along killa garden by the side of Hakimiya Coronaton High School upto river Tapti.

**East**—From River towards south by the River bank upto the river in front of Navagraha Mandir.

**West**—From the river bank towards west along Navagraha Temple by the road towards west upto marimata mandir in mangwada. Therefrom along floor mill of Choukse upto the front of house of Samad Seth, therefrom by Farashkhanawala road upto Shankaracharya Marg (upto Baisahab Haveli).

**South**—From Shankaracharya Marg (Baisahab ki Haveli) towards East by the road upto the house of Mohan Kalu on Rajgha Dhal to pumping Station at Killa road (Ramkrishana Paramhans Marg.)

#### WARD No. 11—SHASTRI CHOWK WARD

**North**—From the east of Statue of Thakur Shivkumarsingh by Basharat Ali Marg to Priyanka General Stores (including) then to South upto Bhagwan Cloth Stores and then through the eastern lane of Vinod Dairy upto Shani Mandir and then to Fawwara chowk towards east upto Quilla road Chouraha (upto Ram Krishna Param Hans Marg).

**East**—From Ramkrishan Paramhans Marg on Quilla Chouraha to the South upto the house of Mohan Kalu on Shankaracharya Marg.

**South**—From Bai Sahab ki Haveli Shankracharya Marg upto Pandumal Chouraha.

**West**—From Pandumal Chouraha to road Triangle of Kamal Talkies and then including Nehru Hospital upto the Statue of Thakur Shivkumarsingh.

#### WARD No. 12—GANDHI CHOWK WARD

**North**—At Subhash chowk from Subhash statue to Hotel Neel Gagan upto the front of Nimad lodge and further towards North upto kuldip Oil Mill. Therefrom by side lane of Beri Maidan upto old National High School building (Jaki complex) along back of Akbari Sarai direct upto the front of the

house of Faimisab on Khairati Bazar main road.

**East**—From the Cross of Khairati Bazar main road Khatri Gali to South by the side of Hakimia School/College's wall to Quilla road and then through the house of Vishambharnath Contractor.

**South**—From the house of Vishambharnath Contractor on Quilla Chouraha towards Western (Fawwara Chowk) and then to Shani Mandir road upto Durga Mata Mandir near old kulfi karkhana and then through lane including the shop of Laxmi Radio from Vinod Diary to Bhagwan Cloth store.

**West**—From Bhagwan Cloth store to the northy upto Subhash statue in Subhash chowk.

#### WARD No. 13—KHAIRATI BAZAR WARD

**North**— From Shah Mansoor Dargah Lane on Khairati Bazar road from the side lane of house No. 54 on Sayyad Ahmed Marg towards east along Tayab Ali Bengali upto river Tapti.

**East**—By the bank of river Tapti towards South along Khattoo Ghat direct to River bank at South-East corner of Coronation High School.

**South**—From the South east corner of H. Coronation along the bank of river including the said school upto the South-west corner of Hakima School/College.

**West**—Then to the north by the wall of the School/ college through the road to north upto Khattoo Ghat nalla and then to Govindjiwala Marg through Khairatibazar Road upto Lane of Shah Mansoor shah on Itwara main Road.

#### WARD No. 14—BERI MAIDAN WARD

**North**—From Kabar (Graue) near the house of Hasanali Bhattiwala on Sir Saiyadna Taher Saifuddin marg towards east by the road upto the corner of the house of Haroon bhai Imdadali near Bidi ki Masjid.

**East**—From the corner of the house of haroonbhai Imdadali towards South by Khairati Bazar road upto Khattoo Ghat road crossing (opposite) to loom factory of Faimisaheb at house No. 20 on Ravindranath Taigore marg.

**South**—From Khattoo Ghat road crossing towards west by hakim Sukhadeo Prasad Marg then towards north upto pumping station at Berimaidan Kadabi Bazar.

**West**—Including pumping Station towards old Kadbi Bazar Urdu School building (including) towards north through Badruddin Marg to Saifuddin Marg.

#### WARD No. 15—NAGJIHRI WARD

**North**—From Bibi-ki Masjid Tiraha upto Nagziri Burning ghat towards east by road (upto Tapti river).

**East**—From Tapti River burning ghat upto Bandli of Tayyabali by river bank.

**South**—From Tayyabali-ki-bangli in Khairati Bazar towards west along with the boundary of ward Khairati Bazar upto Khairati Bazar Road.

**West**—From Khairati Bazar main road upto Bibi-ki Masjid Tiraha towards north.

#### WARD No. 16—M ALVIYA WARD

**North**—From Azad nagar chouraha towards east by limits of Municipal Corporation upto Nagjhiri burning ghat (Tapti river)

**East**—From Tapti river Burning ghat (Nagjhiri) along Municipal limits by the bank of river upto Nagjhiri gate.

**South**—By Nagziri gate towards public stand post (upto Tiraha) and from there upto Bibi-ki Masjid).

**West**—From Bibi-ki-Masjid Tiraha directly by road through Itwara gate upto Municipal boundary on Azadnagar Chauraha.

#### WARD No. 17—AALAMGANJ WARD

**North**—From in front of the Church on Ganpati Naka road towards East upto Nagar Nigam limit (Meetha Moula) on Hazarat shah Road.

**East**—From Azadnagar Chouraha towards West upto the front of Urban basic service centre.

**South**—From the frontal side of urban basic Service Centre along road to Sinhipura gate.

**West**—From Sinhipura gate towards north along thakur Narayansingh Marg upto Church on Ganpati Naka Road.

## WARD No. 18—SARDAR PATEL WARD

**North**—By the side of Sindhipura gate from the front of Bhairo Mandir along the lane behind the house of Shankar Asaram Morey upto the Public Latrine on Thakur Narainsingh Marg and then towards South along Thakur Narayansingh Marg upto the front of Sindhipura gate then towards east from the front of Urban basic service centre upto Azadnagar Chauraha.

**East**—From Azadnagar Chauraha towards south along main road upto Itwara gate.

**South**—From the interior side of Itwara gate towards west along khairkhani road (Munshi Premchand Marg) upto Sardar Patel Colony Tiraha then towards West upto the front of Patidar Colony on Ganpat Kalal Road then from the Corner of the house of Ganpat Kalal along Lakhwali gate upto Sindhipura Main road.

**West**—From Sindhipura main road along Singaji lane direct towards north along Quadrat Ali Marg upto the back of Ghanshyamdas Balchands' House and then from the same lane along the boundary of Ward No. 23 in West upto the Corner of the house of Bashir Mohd. Nazeer Mohd. and then from the same lane towards north upto the corner of the house of Riyazbhai Karimuddin and then along Dr. Iqbal Marg towards west upto the house of Rehamatsahab Mistri and then taking the Karkhana of Mansaram Shankhpal upto the broken kot wall (upto the front of Rassiwalla) and then upto Sindhipura gate.

## WARD No. 19—ITWARA WARD

**North**—From the Tiraha in front of Sardar Patel colony on Munshi Premchand road towards east along Khairkhani (Munshi Premchand Marg) upto Itwara gate.

**East**—From Itwara gate right towards South along main road including Vithal Mandir upto Bibi-ki-Masjid.

**South**—From the western side of Bibi-ki-Masjid towards west upto the old clinic of Dr. Akole and then along seth Daulatram Marg upto the Tiraha of the house of Dr. Bajaj.

**West**—From Tiraha of the house of Dr. Bajaj towards west upto the Tiraha of Gujrati School and then towards north along Kanch Mandir road from the front of Patidar Colony upto the

Sangam of Khairkhani Marg in front of Sardar Patel Colony on Munshi Premchand Marg.

## WARD No. 20—SINDHIPURA WARD

**North**—From Singaji lane towards east upto Sindhipura main road then along Sindhipura road upto the corner of Lakhwali lane and from lakhwali lane towards east upto the house of Ganpat Kalal on Ganpat Kalal Marg.

**East**—From the Corner of the house of Ganpat Kalal towards south along Kanch Mandir road upto Tiraha of Sindhipura Gujrati School (Ranglal Babaji Marg).

**South**—From Tiraha of Gujrati School towards west upto Sindhipura Chouraha and then towards south upto Budhwara chauraha and then in the west upto the south west corner of bohra Jamaat Khana.

**West**—From the South West corner of Bohra Jamaat Khana upto the house of Pandharpurwala in north and then from the front of house of Narottamdas along the eastern lane of Burhanuddin Dargah including Yateemkhana direct towards north along Quadrat Ali Marg upto the lane of Singhaji Mandir.

## WARD No. 21—BUDHWARA WARD

**North**—From Sindhipura Chouraha towards East by Ranglal Babaji marg upto the house of Dr. Bajaj.

**East**—From Seth Doulatram Marg to the front of the hospital of Dr. Akole on Taher Saifuddin Marg. Therefrom upto Kaber (Grave) near the house of Hasanali Bhattiwala. Therefrom along the front of house of Hasanali Bhattiwala upto Berimaidan old Slaughter house and upto Tube well Chauraha.

**South**—From Tube well Chauraha towards West by Berimaidan road along the house of Ashraf Mandpwale and further along Chameli Kuwa Muslim panch Madarsa upto Shyamaprasad Mukharji Marg in front of the house of Chunilal Dharmdas.

**West**—From Shyamaprasad Mukharji road in front of the house of Chunnilal Dharamadas towards north by Budhwara Chauraha upto Ranglal Babaji Marg on Sindhipura Chauraha.



## WARD No. 22—MALIWADA WARD

**North**—Along Khndwa road including Roshan Sizing on Amravati Khandwa road towards east through the limits of Municipal Corporation upto the boundary of Municipality near Church on Ganpati Naka Road (Thakur Narainsingh Marg).

**East**—From near Church by Nagar Nigam boundary towards South and by Sant Terresa School upto public latrine. From public latrine towards South-West from lane behind the house of Shankar Asharam Morey and towards Bal-Bhairao Temple near Sindhipura gate upto Sindhipura gate.

**South**—From Sindhipura gate towards west along fort wall upto Loharmandi gate.

**West**—From Loharmandi gate along the eastern lane along the lane behind hanuman Sizing including Hanuman Sizing direct along the Cement road upto the Poultry Farm of Muzaffar Husain Shoukat near Public Latrine and along the frontal way and from the front of Roshan Sizing upto Amravati Khandwa road.

## WARD No. 23—AZAD WARD

**North**—From Loharmandi gate along inner side portion towards East by Kot wall upto broken kot in front of Rassiwala. Therefrom towards South and directly upto the corner of the house of Rahemtasab Mistry. Therefrom towards East by Iqbal Marg upto in front of the house of Riyazbhai Karimuddin.

**East**—From the Gali near the house of Riyazbhai Kamruddin towards South upto the corner of the house of Husain Khan Jahidkhan (upto house No. 3 on Nawab Kudaratati marg). Therefrom towards East by the same gali upto the corner of the house of Smt. Noorabi Wd/o. Mohd. Husain and on Kudaratati Marg behind the house of Ghanshyamdas Balchand. Therefrom by the same Marg towards South directly upto the house of Mahemood khan faizkhan near old Sindhipura Marathi School.

**South**—From the house of Mahemoodkhan Faizkhan towards West along the house No. 22 of Mohd. Yusuf Noor Mohd. and towards West along the house of Yasin Pahalwan and

further therefrom towards South West by Hatim Faizulla Marg upto the house of Alimulla Mohammed Ismail. Therefrom towards South upto the house of Rafi Mohd. Mohd. Husain.

**West**—From the house of Rafi Mohammed, Mohd. Husain towards North upto House No. 17 of Kidwai Gali. Therefrom towards North along house No. 6 by Iqbal Marg upto Loharmandi gate.

## WARD No. 24—CHANDRAKALA WARD

**North**—From Loharmandi gate along the house of Suraj Prasad Master by Kidwai Gali along with the boundary of Ward No. 23 upto the house No. 17 of Kidwai Gali. Therefrom towards east along the front of Yasin Pahalwan house along with the boundary of ward No. 23 in front of house No. 54 of Kudaratati marg along Burhanuddin Aulia Dargah upto the house of Narottam Hirachand on Sarojini Naidu Marg.

**East**—From the house of Narottam Hirachand towards South by the road upto the open plot of Pandharpurwala. In front of the house of Gulam Ahmed Kachhi, therefrom through Jamat Khana gali upto Saiyadna Taher Saifuddin Marg on Daudpura ward boundary.

**South**—From Jamatkhana road in Daudpura towards west along the front of the house of Zafarali Advocate upto the South West corner of Masjid in front of Farook and Farook company.

**West**—From the South West corner of the mosque on towards upto the in front of National High School therefrom upto Tukadu Bechar Chauraha on Loharmandi road, Therefrom towards north by Rafi Ahmed Kidwai Marg upto Loharmandi gate floor mill.

## WARD No. 25—LOHARMANDI WARD

**North**—From Devidas Khidki on Amravati Khandwa Road towards east upto Tiraha of Loharmandi Road.

**East**—From the Tiraha of Loharmandi road along main road Dr. Zakir Husain marg upto Madarsa of Ghafoor Peerji including Madarsa building.

**South**—From the lane by the side of the house of Ghafoor Peerji towards west along Hanuman Mandir upto the back of the house of Sirajbhai Ansari Ex-Corporator and then along road towards south including Slaughter House upto Kot wall (Silekhani).

**West**—From Silekhan gate near Slaughter house along Kotwall upto Devidas Khidki.

#### WARD No. 26—RAJENDRA PRASAD WARD

**North**—From Udyog Nagar Chauraha on Khandwa Amravati Marg along Khandwa road and by the road beside Roshan Sizing upto Public Latrine near Poultry Farm of Muzaffar Husain Shoukat and then towards South along cement road and along the lane behind Hanuman Sizing upto Loharmandi gate.

**East**—From the inner side of Loharmandi gate towards south along main road upto Tiraha.

**South**—From the Tiraha of Loharmandi road towards west upto Devidas khidki and then along Kot wall upto Sile Khani gate near Slaughter House.

**West**—From Silekhani gate by crossing Khandwa Amravati Road upto the Southern gate of Krishi Upaj Mandi and then along Kacha Nallah upto the small culvert on the nallah in front of pathar Peer and then in the north along kachha road and along boundary (limits) of Municipality upto Chouraha of Udyognagar.

#### WARD No. 27—DAUDPURA WARD

**North**—From Tukadu Bechar Chouraha on Loharmandi road (Dr. Zakir Husain Marg) towards East by Sarojni Naidu Marg by the side of Kabars (Graves) towards South by Tayyabali Marg upto the front of Farooq and Farooq Mansion on Sayyadna Taher Saifuddin Marg (Daudpura). Therefrom by Sayyadna Saifuddin Marg towards East direct along the Jamatkhana upto Budhwara Chauraha.

**East**—From Budhwara Chauraha towards South along Dr. Shyamprasad Mukharji Marg near the house of Chunnilal Dharamdas and upto the corner of Jainul Abedin Lane.

**South**—From Jainul Abedin Lane on Abdullabhai Fidali Marg in front of Patthar Building. Therefrom towards South by road upto the corner of old power house and therefrom by Mutton Market upto Zakir Husain Marg (Loharmandi Road).

**West**—From Dr. Zakir Husain Marg (Loharmandi road) towards north directly upto Tukadu Bechar Chouraha.

#### WARD No. 28—A. QADAR SIDDIQUE WARD

**North**—From Mutton Market towards East near road Junction of Phiroz Shah Mehta road upto power house on mandi road, therefrom by the side of power house by Abdullabhai Fida Ali Marg, upto patthar building. Therefrom towards East by Jainul Abedin Gali along Shyama Prasad Mukharji Marg upto the house of Chunnilal Dharamdas. Therefrom by crossing the Shyamprasad Mukharji road towards East by lane in front of Hasan Mandapwala upto Beri Maidan Tube well (kadabi Bazar).

**East**—From Tube well chouraha towards South by Mulla Fakhruddin Marg upto Tiraha behind Akbari Sarai.

**South**—From the Tiraha towards west upto the corner of kuldeep oil mill. Therefrom towards South upto in front of Nimad Lodge. Therefrom towards West upto Subhash Statue.

**West**—From Subhash Statue along power house and from in front of Hindustani masjid upto Mandi power house.

#### WARD No. 29—DR. ZAKIR HUSAIN WARD

**North**—From Ziya Ansari marg along Chouraha of Dye House of Moulana Sahab towards chouraha of Hawaii Jahaj Karanj. Therefrom towards North upto Chouraha of Umraosingh marg. Therefrom along Dixitji lane upto the house of Sattar Hotelwala (Loharmandi Road).

**East**—From Loharmandi Road and Dixitji Lane by the house of Sattar Hotelwala upto Mandi Chouraha by Road side.

**South**—From Mandi Chouraha upto Jaistambh Chouraha, from JaiStambh Chouraha along Shoukatali Marg from in front of Do Bhai Bidi factory upto the Chouraha of Thakur Niranjana Singh Marg.

**West**—From infront Do Bhai Bidi Factory by Niranj Singh marg Chouraha along Thakur Niranj Singh Marg upto the chouraha of Dye house of Moulana Hifzur Rehman.

WARD No. 30—MOMINPURA WARD

**North**—From Mohammed Ali Marg to the east of Hanuman mandir and from the frontal lane and from the back of Siraj Ansari Ex-Corporator's house alongwith lane upto the Tiraha of the madarsa of Ghafoor Peerji (In front of the house of Abdul Rab Seth).

**East**—From the Tiraha of Madarsa of Ghafoor Peerji towards south along Dr. Zakir husain Marg and lane of Dixitji towards west upto chandraha and then towards south upto Hawai Jahaj Karanj.

**South**—From Hawai Jahaj Karanj towards west along Zia Ansari Marg upto the front of Slaughter House.

**West**—From Slaughter House along Mohammed Ali Marg towards north upto Tiraha of Hanuman Mandir.

WARD No. 31—HARIRPURA WARD

**North**—From the front of Slaughter House (Silekhani) towards east along Zia Ansari Marg upto chouraha of Thakur Niranj Singh Marg.

**East**—From Thakur Niranj Singh Chouraha on Ziya Ansari Marg towards South upto Fajale Husain Sabir Marg. (upto North-East corner of Govt, Urdu Girls School.

**South**—From North-East corner of Government Urdu Girls School building towards south by Fajale Husain Sabir Marg along Mohammadali marg upto the house of Fateh Mohd. on patthar Kuwa lane and from Fateh Mohd's house towards south and taking and including Sweepers quarters upto broken Kot wall near Shanwara gate.

**West**—Excluding Shanwara gate from broken Kot wall near Shanwara gate towards worth along Kot wall upto the broken Kot wall near Silekhani gate.

WARD No. 32—SHANWARA WARD

**North**—From the Manjlesab Nathusab infront of Shanwara Sweepers quarters along the side lane upto patthar Kuwa. Therefrom upto Kirana shop of Salimkhan, therefrom by Fajale Hussain Sabir Marg upto Thakur

Niranj Singh marg sangam. Therefrom towards East upto Shoukat ali marg upto infront of Do Bhai Bidi Factory.

**East**—From Shoukat Ali marg and Niranj Singh marg chouraha from infront of Do Bhai Bidi Factory and towards South by Shoukat Maidan Garden upto Jai-stambh.

**South**—From Jai Stambh towards west along main road to Shanwara Gate and including Shanwara gate towards west along Station road upto Saluja Timber Mart and then upto new bridge of Pandaroll Nallah (Station Road).

**West**—From new bridge of Pandaroll Nallah and along the backway of Slauja Timber Mart, along Kachha road and Pulia of pathar Peer and then along Kachha road and including the whole compound of Krishi Upaj Mandi to Silekhani gate and along Kot wall upto broken Kot near Shanwara gate and then excludng sweepers quarters towards northern road to the lane by the side of the house of Manjnle sab.

WARD No. 33—KHANKA WARD

**North**—From Jai-stambh chouraha towards East by Rajendraprasad marg upto Mandi Chouraha.

**East**—From Mandi Chouraha towards South along Prakash Talkies and Tanga stand upto Gandhi Statue.

**South**—From Gandhi Statue towards west by Basharatali Marg upto Statue of Shivkumarsingh.

**West**—From Statue of Shivkumarsingh towards north by Jawaharlal Nehru Marg direct upto Jai-stambh chouraha.

WARD No. 34—JAI-STAMBH WARD

**North**—From North-West corner of State Bank of Shanwara road towards east upto Jaistambh Chouraha.

**East**—From Jaistambh Chouraha towards South along Jawaharlal Nehru upto statue of Thakur Shivkumar Singh.

**South**—From the Statue of Thakur Shivkumar Singh including Vanita Vihar School upto Statue of Dr. Bhimrao Ambedkar in front of Post Office, and then along Bus-stand road and front of the Anand Bhojnalaya upto the corner of Sikander Shahi Masjid and then including

Pushpak Bus-stand upto the front of Bhartiya School on Khandwa Amravati Marg (Corner of Manoj Hotel).

**West**—From the frontal side of Bhartiya School near Bus-stand along Khandwa Amraoti Road towards north to Shanwara Chauraha and Shanwara gate.

#### WARD No. 35—RAJPURA WARD

**North**—From the east of house No. 70 on Kasturba Gandhi Marg towards north to east of House No. 32 (Mohd. Umar) on babu Purshottamdas Tandon marg along road and along Kamal Talkies upto Uban Munshi's house.

**East**—From the house of Uban Munshi towards south along Tilak Road to Pandoomal Chauraha.

**South**—From Pandumal Chouraha towards West by Gyan Vardhini Sabha upto the south-west corner of Bombaywale building house No. 34 (On Rajpura raod).

**West**—From South-west corner of Bombaywale building on Rajpura raod towards north by road direct upto the house No. 70 of Kasturba Gandhi marg (upto Kishore Talkies).

#### WARD No. 36—DAKWADI WARD

**North**—From the house of Phakdiya Lohar on Niyampura road towards east along Rain Basera by road along Post Office by road upto the statue of Thakur Shivkumar Singh.

**East**—From Nehru Statue towards south along Tehsil office upto south-east corner of T. B. ward, from south-east corner of T. B. Ward along Dakwadi boundary by Kishore Talkies towards Kasturba Gandhi Marg (Dakwadi road) direct towards South in front of Bombaywala haveli upto the house of parasram Seth (on Rajpura Gyanwardhani road).

**South**—From the house of Parasram in Rajpura towards West by Rajpura road upto Nyamatpura road Chouraha (upto Rajpura Bada Public stand post).

**West**—From Bada Public stand post towards north by Nyamatpura road upto the house of Fakdya Lohar.

#### WARD No. 37—NIYAMATPURA WARD

**North**—In front of Bhartiya School on Khandwa Amravati Raod from Manoj Corner Hotel

towards inside of Kot by including shops of Nagar Nigam and Nagar Sudhar Nyas upto Peepal tree's Hanuman Mandir and then towards east along raod land Zulfiquar Hotel and from the front of Pushpak Hotel upto chauraha of Sikandar Shahi Masjid including Maratha Khanawal.

**East**—From Sikandar Shahi Masjid Chauraha towards east in front of Bus-stand and Anand Bhojnalaya along road upto the Statue of Dr. Ambedkar in front of Post Office.

**South**—From the Statue Dr. Bhimrao Ambedkar along road in front of 'Rain Basera' and from the front of Phakdiya Lohar along road upto Rajpura gate and then upto Khandwa Amravati State High way.

**West**—Outside Rajpura gate along Khandwa Amravati main road to the Manoj Corner Hotel in front of Bhartiya School.

#### WARD No. 38—RASTIPURA WARD

**North**—From Pandaroll Nallah near Shakkar Kunwan towards east along main road in front of Hotel Surya upto Khandwa Amravati road.

**East**—In front of Hotel Surya along Khandwa Amravati Main road towards south upto Tiraha in front of Rajpura gate and then upto Rajpura gate and then along Kot wall upto Shikarpura Gate.

**South**—From Shikarpura Gate upto Shikarpura police Station, therefrom by crossing Amravati road direct upto Pandarol pulia of Chhoti Renuka Mata temple.

**West**—From Pandarol pulia of Chhoti Renuka Mata Temple by Pandarol Nallah upto Pandarol Nallah of Shakkar Kuwa.

#### WARD No. 39—RAJIV WARD

**North**—From Tiraha of Sindhi Basti along four lane road upto Shanwara chouraha.

**East**—From Shanwara Chauraha towards south along Khandwa Amravati main road upto Tiraha opposite Hotel Surya.

**South**—From Tiraha opposite Hotel Surya through broken Kot wall towards west upto Pandaroll Nalla near Public Latrine-Shakkar Kunwan.

**West**—Crossing Pandaroll nala by Kachha raod upto corner of the house of Kishan Suryamal and then through Gurunanak darbar to the front

of Dayaram Jawaharlal's house including house of Holaram Gagandas upto the front of the house of Shrichand Gulrajmal and then along Railway Station Raod upto Sindhi Basti Tiraha.

#### WARD No. 40—GURU NANAK WARD

**North**—From near the Tiraha of Guru Govindsingh Colony (Bahadarpur road) towards north along road upto Tiraha of Lalbagh Bahadarpur Raod.

**East**—From the tiraha of Lalbagh Bahadarpur road towards east including house of Ghanshyamdas Sheetaladas upto house of Shrichand Gulrajmal in front of house of Arjundas Hasanandani and then along the house of Dayaram Jawaharlal upto Guru Nanak Darbar.

**South**—From Guru Nanak Darbar throught Kaccha road to the public Latrine opposite the house of Kishan Suryamal and then from there to the corner of Sahebrao Eknath Patil and then to the Pursharathi School.

**West**—From the front of Purusharathi School along new proposed road and then along Brahmsakti Nagar and main road of Guru Govindsing Colony upto Sangam of Bahadarpur road.

#### WARD No. 41—INDIRA WARD

**North**—From the Income Tax Department building (excluding Income tax office) upto Sindhi Basti Bahadarpur Tiraha.

**East**—From Sindhi Basti Bahadarpur Tiraha towards south along Bahadarpur road upto main road of Guru Govind singh Colony and then to boundary of Municipal limit's proposed road along Brahmsakti nagar and including Purusharathi School upto Pandaroll Nallah.

**South**—From Pandaroll nallah near Pursharathi School along Municipal limits and along Saraswatinagar upto Ganda Nalla on Bahadarpur road upto Municipal limits.

**West**—Crossing Bahadarpur road from Ganda Nallah through the Nallah of new and old Indira Colony and along raod including Shrinagar Colony and excluding new Indira Colony upto Income Tax Office on Lalbagh Station Road.

#### WARD No. 42—RUIKAR WARD

**North**—From Pulia near M.P.E B. Office on Lalbagh Stations road along Station road upto the front of Income Tax Office.

**East**—Including Income Tax Office and from beside of it through Kachha road excluding Shrinagar Colony and including Indira colony along road and nallah between New and old Indira Colony upto Ganda Nallah Municipal limits.

**South**—From Ganda Nallah towards west along nalla and Municipal limits upto the front of artificail insemination centre (Animal husbandary centre) and along Municipal limits upto Upkar Kaur Nagar.

**West**—excluding Upkar Kaur Nagar, Sharamik Basti, Arjunnagar, Gopal Nagar and Kamlanagar and including Hanuman Vyayam Shala towards east along new C. C. Road and then including Indira Nagar along Laxmi Mata Mandir upto Kachha Nalla and then along nallah upto the Bunglow of Shri Nand Kishoreji Deoda (Milan Mithai Wale) and the along Station road upto Pulia near M.P.E.B. Office on Station Road.

#### WARD No. 43—LALBAGH WARD

**North**—From Railway bridge on Pandaroll nalla opposite Dutta Mandir towards east along Pandaroll Nallah upto Pulia of Shahadra road and then along Pandaroll Nalla & Municipal limits including Pathan Wadi upto bridge under construction.

**East**—From the bridge under construction on Pandaroll Nalla opposite Tiraha of Bahadarpur road and along Pandaroll Nalla upto the bridge of Sindhi Basti four lane station road.

**South**—Station raod to direct upto Lala Bhojnalaya in Lalbagh and from there to Railway Booking office along waiting hall and crossing Plateform by Railway bridge upto fencing of Railway towards Chinchala.

**West**—towards Chinchala from Railway fencing towards north including all the houses of Railway Colony upto Pulia on Pandaroll opposite Dutt Mandir.

#### WARD No. 44—MILL AREA WARD

**North**—From the north-west corner of Dharangaon Gin along the Railway Fencing towards railway station upto Municipal Sulabh complex.

**East**—From Municipal Sulabh Complex outside Railway station towards east including Sagar Tower along main road including Nehru Montessori School upto Pulia constructed over nalla near the Bungalow of Shri Nandkishore Deora (Milan Mithai Wale).

**South**—From the Culvert (Pulia) over nalla along nalla excluding the residence of Milan Hotel and excluding Indra Nagar then along Laxmi Mata Mandir and along main road of Hanuman Vyayam Shala fencing upto the house of Chagan Bari upto Tapti Mill Fencing.

**West**—From Municipal limits through Public way upto Tapti Mill fencing and then to the house of Waman Holu. And from there excluding Municipal Pumping Station along fencing of Dharangaon Gin direct to the Railway fencing.

#### WARD No. 45—GULABGANJ WARD

**North**—From Tapti Mill fencing including (taking) Labour colony, Gopal Nagar, Kamla Nagar, Arjun Nagar, Upkarnagar colony along nalla upto Municipal limits.

**East**—From there along nalla/road direct to patonda Road and the upto Haji Compound bleaching factory excluding Mamu colony.

**South**—Near Mamu colony including Haji compound bleaching factory (excluding Mamu Colony) and upto road near it and then through road direct to Madina Masjid near Mamu colony and then from the front of the road of Masjid along road upto Pulia of nalla near the house of Beni Pahelwan opposite Chitra Talkies.

**West**—From the culvert (Pulia) of nalla along nalla to the fencing of Tapti Mill near the house of Waman Holu.

#### WARD No. 46—GANDHI COLONY WARD

**North**—From near Om Lime Factory Lalbagh along boundary of Rly. colony, excluding goods shed, upto House No. 37 of Rly. colony Therefrom along open land through inner part of Dharangaon Ginning Factory upto the corner of Sulabh Complex.

**East**—Therefrom by the inner side of Dharangaon Ginning Factory upto Municipal pumping station.

**South**—House of Waman Holu and near House No. 75 of Tapti Mill Fencing upto the Sangam of nalla and from there towards interior along nalla upto Pulia (Culvert) near the house of Beni Pahelwan (Opposite Chitra Talkies) and then through road including Mamu colony upto Haji Compound Bleaching Factory.

**West**—Excluding Haji compound Bleaching Factory and including (taking) houses of the front of Mamu colony upto the Corner of the colony and then from there to Municipal limits (upto nalla) and from there along Municipal limits upto old Om Chuna factory.

#### WARD No. 47—SHIVAJI WARD

**North**—From Khasra No. 188 of Municipal Limit near Sukha Bhandara and after Crossing Pandaroll Nalla from Shivaji Locality to Chinchala area and from the road amidst plot of Sutwala upto Shradha Niwas near Railway boundary and then upto Municipal limits upto nalla.

**East**—From the Nalla bridge near public latrine on Municipal boundary along Rly. Fencing then from Railway Plate form by crossing Rly. line, excluding Booking office and waiting hall. From Rly. premises upto Sulabh complex of the Municipal Corporation.

**South**—from Sulabh complex of Municipal Corporation to Railway line's Corner of Dharangaon Ginning Factory and the from said Dharangaon Gin and taking outer part of the fencing then through open land upto Railway Quarter No. 34, and then along fencing and including goods shed and including Railway boundary upto Municipal limits khasra No. 249 of Chintaharan.

**West**—From South-West corner of Khasra No. 249 towards north and along Chintaharan water tanks including them and along Municipal Boundary upto Mool Bhandara to Sukha Bhandara Khasra No. 188.

#### WARD No. 48—CHINCHALA WARD

**North**—From the Central road of field of Sootwala (north-south) direct upto Pandaroll Nalla and then from the back of chinchala locality upto Municipal limits near the house of Sitaram Motiram.

**East**—From Municipal limits including house of Sitaram Motiram along Pandaroll Nalla upto Railway fencing of Railway Pulia (culvert).

**South**—from Pandaroll Nalla and Railway culvert (Pulia) fencing including the house of Jeewraj Shaikh Pudan along Railway Fencing upto Shradha Niwas Central road of field of Sootwala.

**West**—From Central road of field of Sootwala and Shradha Niwas direct to Khooni Bhandara and Crossing said road upto Pandaroll nalla Municipal limits.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
SANJAY DUBEY, Commissioner.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 3 मई 2014

क्र. 921-जि.श.वि.अभि.-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, जिला सतना एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद्, बिरसिंहपुर, जिला सतना के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ:—

## अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
2	सुभाष वार्ड
3	सरदार पटेल वार्ड
4	आजाद वार्ड
5	तिलक वार्ड
6	संजय वार्ड वार्ड
7	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
8	गांधी वार्ड.
9	शिवाजी वार्ड
10	लक्ष्मी बाई वार्ड
11	अम्बेडकर वार्ड
12	विवेकानंद वार्ड
13	महाराणा प्रताप वार्ड
14	दुर्गावती वार्ड
15	संत रविदास वार्ड

## वार्ड क्र. 01—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

उत्तर—ग्राम ब्रम्हनेट के पूर्व प्रधान तालाब की उत्तरी भीटा से प्रारंभ होकर ग्राम ब्रम्हनेट के गुलफाम गुले मोहम्मद के मकान नं. 19/1 से होते हुए ग्राम महुटा के सोतिन तालाब की दक्षिणी भीटा जलप्रदाय टंकी जोधा का मकान नं. 63 होते हुए पश्चिम की तरफ बिरसिंहपुर हरसेड़ रोड तक.

पूर्व—ग्राम मऊ के प्रधान तालाब से पूर्वी भीटा से प्रारंभ होकर सेमरिया बिरसिंहपुर रोड को पार कर रामाधार रहिला के पम्प हाऊस तक.

दक्षिण—रामाधार रहिला के पम्प हाऊस से प्रारंभ होकर कोटर बिरसिंहपुर रोड से कलबलिया रोड देवी स्थान के आगे तक.

पश्चिम—हरसेड़ रोड से सेमरिया सतना रोड से कलबलिया रोड तक.

## वार्ड क्र. 02—सुभाष वार्ड

उत्तर—ग्राम मसमाती जमुनिहाई के उत्तर-पश्चिम में धम्मा पटेल के मकान नं. 1 से प्रारंभ होकर ग्राम माजन हिनौता की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम मसमासी खेरा के मकान नं. 6/1 कालू राम गोपाल के मकान तक.

पूर्व.—कालू राम गोपाल के मकान नं. 6/1 से प्रारंभ होते हुए बिरसिंहपुर हरसेड़ रोड में स्थित गड़रियान मोहल्ला होते हुए बिरसिंहपुर सिमरिया रोड को पार कर शंकर बल्द रती कुम्हार के मकान नं. 97 तक.

दक्षिण—शंकर कुम्हार के मकान नं. 97 से प्रारंभ होकर परानू एवं कुम्हारन बसोरन मोहल्ला होते हुए बसुरान चौराहे तक.

पश्चिम—नन्दू के मकान के हरिजन चौराहा होते हुए शंकरदीन माली के मकान से होते हुए हरिजन मोहल्ला के नाले होकर बुधई चौरसिया के मकान से दशरथ पाण्डेय के मकान से मंगल यादव के मकान होते हुए धम्मा पटेल के मकान नं. 1 तक.

## वार्ड क्र. 03—सरदार पटेल वार्ड

उत्तर—ग्राम मसमासी खेरा में स्थित पं. रामनाथ रामगोपाल ब्राम्हण के पम्प हाऊस से प्रारंभ होकर मकान नं. 1 महेश बिहारी लाल के मकान होते हुए काशी प्रसाद रामगोपाल के मकान नं. 5/1 तक.

पूर्व—काशी प्रसाद के मकान नं. 5/1 से प्रारंभ होकर कोदूलाल चौरसिया चुनवादी माली एवं गोपाल माली की आटा चक्की होते हुए बिरसिंहपुर सेमरिया रोड से पिन्दू शर्मा के घर से हरी प्रसाद हरिजन के मकान तक.

दक्षिण—हरी प्रसाद हरिजन के मकान से रामाधार कचेर के मकान से होते हुए सुरेश होटल से रामाधार गुजराती के दुकान होकर जैतवारा बिरसिंहपुर रोड को पार कर मोतीलाल अग्रवाल धर्मशाला पश्चिम लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण के मकान नं. 4 गढ़ी के पीछे स्टाप डैम तक.

पश्चिम—स्टाप डैम से प्रारंभ होकर बृजेश प्रताप सिंह की आरामशीन होते हुए मसमासी खेरा स्थित पंडित रामनाथ ब्राम्हण के पम्प हाऊस तक.

**वार्ड क्र. 04-आजाद वार्ड**

**उत्तर**—गोपाल जी राममनोहर गुप्ता के मकान नं. 56 से प्रारंभ होकर अग्रवाल धर्मशाला होते हुए किंकर दास अखाड़ा होते हुए राधेश्याम राममनोहर गुप्ता के मकान तक.

**पूर्व**—राधेश्याम गुप्ता के मकान नं. 20 से होकर राममनोहर गुप्ता, मिठाईलाल सोनी, जमुना प्रसाद गुप्ता के मकान होते हुए खडंवा रोड पारकर पंछी रध्धू के मकान नं. 83 होते हुए छुटकउना मधुआ के मकान नं. 91 सितावा नदी तक.

**दक्षिण**—छुटकउना मधुआ के मकान नं. 91 से प्रारंभ होकर गोकरण विद्यालय तक.

**पश्चिम**—गोकरण विद्यालय से प्रारंभ होकर गौरीशंकर कपूर इलाहाबाद बैंक होते हुए गोपाल जी राममनोहर गुप्ता मकान नं. 56 तक.

**वार्ड क्र. 05-तिलक वार्ड**

**उत्तर**—मकान नं. 93 राधे चरण, हर प्रसाद नामदेव के मकान से प्रारंभ होकर अशोक दत्त पाण्डेय के एवं छोटेला सोनी तथा छक्के लाल लोहार वगैरह के मकान से होते हुए शंकरलाल सेन के मकान नं. 281 तक.

**पूर्व**—शंकरलाल सेन के मकान नं. 281 से प्रारंभ होकर रामानंद पाठक के मकान होते हुए मकान नं. 245 रामलखन ददू कोरी के मकान से होकर रामेश्वर के मकान तक.

**दक्षिण**—मकान नं. 245 रामलखन कोरी एवं रामेश्वर कोरी मकान से प्रारंभ होकर मोहम्मद बारिश के मकान होते हुए गल्हा मंगलवा कुम्हार के मकान नं. 89 तक.

**पश्चिम**—गल्हा मंगलवा कुम्हार के मकान नं. 89 से प्रारंभ होकर रमुआ बंगड़ी कुम्हार एवं जगदीश पाण्डेय के मकान होते हुए राधेचरण, हर प्रसाद के मकान नं. 93 तक.

**वार्ड क्र. 06-संजय वार्ड**

**उत्तर**—शारदा प्रसाद, जगन्नाथ गुप्ता के मकान नं. 138 से प्रारंभ होकर मोहम्मद रिजवान खॉ एवं गल्ला मंडी स्थित धर्मशाला होते हुए पंडित रघुवंश प्रसाद के मकान 352/1 तक.

**पूर्व**—पंडित रघुवंश प्रसाद के मकान नं. 352/1 से प्रारंभ होकर नारायण प्रसाद तिवारी के मकान नं. 316 तक होते हुए जुगुल प्रसाद पंडित के मकान एवं बैजनाथ उर्फ भुइया के मकान नं. 260/2 तक.

**दक्षिण**—बैजनाथ उर्फ भुइया के मकान नं. 260/1 से प्रारंभ होकर मोहन मिट्ठिया, लक्ष्मण गुप्ता की डीह एवं रामेश्वर नाई के मकान होते हुए प्यारेलाल बट्टी नामदेव के मकान नं. 135 तक.

**पश्चिम**—प्यारेलाल नामदेव के मकान नं. 135 से प्रारंभ होकर शारदा प्रसाद, जगन्नाथ गुप्ता के मकान नं. 138 तक.

**वार्ड क्र. 07-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**उत्तर**—पं. अवधेश प्रताप के मकान नं. 353/1 से प्रारंभ होकर लाल भुंजवा के मकान होते हुए बिहारी कचेर के मकान तक.

**पूर्व**—बिहारी कचेर के मकान नं. 400 से प्रारंभ होकर गुप्ताजी की डीह होकर यज्ञनारायण परौहा के मकान एवं बट्टी प्रसाद सेन के मकान होते हुए जानकी प्रसाद महापात्र के मकान नं. 291 एवं रोड के पूर्वी हिस्सा मस्जिद से लेकर महेश सिंह के मकान से होते हुए पश्चिम की ओर पुराने पटवारी भवन तक.

**दक्षिण**—महेश सिंह के मकान से मस्जिद होते हुए जानकी प्रसाद महापात्र के मकान नं. 291 से होकर बृजमोहन अग्निहोत्री के मकान एवं खटकाल मोहल्ला होकर नन्हिया सरमन माली, राज किशोर गौतम के मकान होते हुए गुलशेर गुले मोहम्मद के मकान नं. 328 तक.

**पश्चिम**—गुलशेर गुले मोहम्मद के मकान नं. 328 से प्रारंभ होकर वार्ड नं. 6 की पूर्वी सीमा सुन्दरलाल सेन के मकान से होते हुए पं. अवधेश प्रसाद के मकान तक.

**वार्ड क्र. 08-गांधी वार्ड**

**उत्तर**—बाबूलाल बेलदार के मकान से सी. सी. रोड के पश्चिमी भाग से नन्दू बेलदार के मकान होते हुए शंकर जी तालाब की पूर्वी भीटा में स्थित गड़रिया धर्मशाला से प्रारंभ होकर राम राखन, नंदकिशोर अग्रवाल रामाश्रय उरमलिया का मकान, बृजकली का बगीचा एवं बट्टीश उरमलिया का मकान होते हुए रामजी उर्फ छिन्ती गुप्ता के मकान नं. 637 तक.



**पूर्व**—रामजी उर्फ छिन्ती गुप्ता के मकान नं. 637 से प्रारंभ होकर वार्ड नं. 9 की पश्चिमी सीमा होते हुए लल्ली बाई, फूलचन्द अग्रवाल के मकान नं. 614/1 तक.

**दक्षिण**—लल्ली बाई, फूलचन्द अग्रवाल, मलूचन्द्र सोनी, संतोष अग्रवाल, अनंत अग्रवाल की दुकान, रामलाल गुप्ता की कपड़ा की दुकान होते हुए रामगोपाल गुप्ता के मकान नं. 705 तक.

**पश्चिम**—रामगोपाल गुप्ता के मकान नं. 705 पालिका चबूतरा प्राथमिक पाठशाला होते हुए गड़रिया धर्मशाला तक.

### वार्ड क्र. 09-शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—सतना सेमरिया मार्ग से दक्षिणी हिस्सा समधी कूप होते हुए फारेस्ट कार्यालय से बस स्टैण्ड होते हुए सतना कोटर मार्ग राम जी गुप्ता के मकान से मंजी कोल के मकान सी. सी. रोड होते हुए भूमि विकास बैंक से प्रारंभ होकर कमलेश मिश्रा, श्यामलाल गुप्ता का मकान होते हुए डकुआ कोल का मकान नं. 471 तक.

**पूर्व**—सतना रोड पुरुषोत्तम गुप्ता के घर से लेकर मड़फा रोड तक.

**दक्षिण**—कमली चौरसिया के मकान के सामने डफलियान जाने वाली रोड से लेकर हफीज की दुकान तक एवं महगी कुम्हार के घर से लेकर सतना रोड मड़फा मंदिर के उत्तरी हिस्सा तक.

**पश्चिम**—मगनलाल चौरसिया के मकान 433 से प्रारंभ होकर, गया प्रसाद कचेर वृन्दावन अग्रवाल की मकान, ओम अग्रवाल, मंगल सोनी भूरा काछी के मकान होते हुए भूमि विकास बैंक तक.

### वार्ड क्र. 10-लक्ष्मी बाई वार्ड

**उत्तर**—मड़फा मन्दिर महगी कुम्हार के घर से होते हुए डफलियान कमली चौरसिया चौराहे तक सी. सी. रोड का पश्चिमी हिस्सा तक.

**पूर्व**—सतना कोटर रोड से बिट्टी दुर्गा तेली के मकान नं. 475/1 तक.

**दक्षिण**—बिट्टी दुर्गा तेली के मकान से प्रारंभ होकर विसमिल्ला मो. यूसुफ के मकान एवं शासकीय तलैया की पश्चिमी भीटा होते हुए रामदेव सोनी के चक्की से रामलाल स्वीपर के मकान होते हुए रामदेव फक्कड़ के मकान नं. 775 सितावा नदी तक.

**पश्चिम**—किशनलाल गुप्ता के मकान से लेकर वीरेन्द्र तिवारी के मकान से मस्जिद हायर सेकण्ड्री रोड तक.

### वार्ड क्र. 11-अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—मस्जिद से प्रारंभ होकर (विसमिल्ला मो. ईसुफ के मकान के पास) महादेव चमार, रमई चर्मकार, बसोरन मोहल्ला होते हुए बिरसिंहपुर कोटर रोड में मड़फा तक.

**पूर्व**—मड़फा से प्रारंभ होकर बाबूलाल चौधरी के मकान होते हुए पूरनलाल नामदेव के मकान नं. 545 तक.

**दक्षिण**—पूरनलाल नामदेव के मकान नं. 545 से प्रारंभ होकर जवाहर लाल नामदेव एवं अशोक मोतीलाल नामदेव, रामवतार गुप्ता की किराना दुकान होते हुए शासकीय तलैया की दक्षिणी भीटा के पश्चिमी कोने तक.

**पश्चिम**—शासकीय तलैया के दक्षिणी पश्चिमी भीटा से प्रारंभ होकर मस्जिद तक.

### वार्ड क्र. 12-विवेकानंद वार्ड

**उत्तर**—रामभरोसा, शीतल प्रसाद के मकान प्रारंभ होकर दर्शन सिंह, लल्लू सिंह मकान नं. 812 होते हुए रामसिया शिव दयाल के मकान नं. 543 बिरसिंहपुर कोटर रोड तक.

**पूर्व**—रामसिया के मकान से एम. पी. ई. बी. सब-स्टेशन होते हुए सितावा नदी तक.

**दक्षिण**—एम. पी. ई. बी. सब-स्टेशन से रामकिशोर गर्ग के मकान तक.

**पश्चिम**—रामकिशोर गर्ग के मकान से प्रारंभ होकर रामराज रघुनाथ, लालमणि, गंगा प्रसाद नामदेव के मकान होते हुए रामभरोसा के नये मकान तक.

### वार्ड क्र. 13-महाराणा प्रताप वार्ड

**उत्तर**—जशमत नाई के मकान नं. 142 पुराना थाना के पास से प्रारंभ होकर छकौड़ी लाल आत्मज दसइया तेली के मकान नं. 144 तक.

**पूर्व**—छकौड़ी लाल तेली के मकान नं. 144 से प्रारंभ होकर राजकरण केदार प्रसाद का मकान एवं इन्द्रभान पाण्डेय की आटा चक्की होते हुए अशोक दत्त पाण्डेय के मकान तक.

**दक्षिण**—अशोक दत्त पाण्डेय के मकान से प्रारंभ होकर जागेन्द्र प्रसाद के मकान होते हुए जैतवारा बिरसिंहपुर रोड (सभापुर थाना के सामने) तक.

**पश्चिम**—थाना सभापुर के सामने जैतवारा बिरसिंहपुर रोड से विद्युत मण्डल कार्यालय पुराना थाना होते हुए जसमत नाई के मकान नं. 142 से जैतवारा सेमरिया रोड पार करते हुए माध्यमिक शाला सभापुर से जगदम्बा के मकान तक पिपरी टोला रोड में का दक्षिणी हिस्सा.

### वार्ड क्र. 14-दुर्गावती वार्ड

**उत्तर**—प्रहलाद कोटवार के मकान नं. 231 से प्रारंभ होकर सभापुर की मस्जिद होते हुए राजा खॉ एवं अल्ला गनी के मकान नं. 282/1 तक.

**पूर्व**—अल्ला गनी के मकान नं. 282/1 प्रारंभ होकर सधुआ बच्चू के मकान होते हुए सुखलाल धोबी के मकान नं. 269 तक.

**दक्षिण**—सुखलाल धोबी के मकान नं. 269 से प्रारंभ होकर कुरियान मोहल्ला होते हुए विजय कुमार पाण्डेय के मकान नं. 187 तक.

**पश्चिम**—विजय कुमार पाण्डेय के मकान नं. 187 से प्रारंभ होकर प्रहलाद कोटवार के मकान नं. 231 तक एवं सम्पूर्ण ग्राम ऐड़ी होते हुए जगदम्बा के मकान तक.

### वार्ड क्र. 15-संत रविदास वार्ड

**उत्तर**—हरिजन बस्ती दीप नगर से प्रारंभ होकर थाना प्रभारी के निवास बाऊण्डी के बगल से जैतवारा रोड पार करते हुए विसलवा इन्द्रजीत पाण्डेय, राजीव लोचन शास्त्री के मकान होते हुए पं. गंगा दयाल द्विवेदी के मकान नं. 164 तक.

**पूर्व**—साजन बीड़ी कारखाना से प्रारंभ होकर उदई तालाब तक.

**दक्षिण**—उदई तालाब से प्रारंभ होकर यात्री कर नाका के पास से बिरसिंहपुर जैतवारा रोड को पार करते हुए ककरहा तालाब तक.

**पश्चिम**—ककरहा तालाब से प्रारंभ होकर युद्ध प्रताप सिंह का मकान नं. 1 होते हुए (प्राथमिक पाठशाला सभापुर से पास) तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर.

सतना, दिनांक 3 मई 2014

क्र. 921-परिसीमन-सतना.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 921-परिसीमन-सतना-2014, दिनांक 3 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर.

Satna, the 3rd May 2014

No. 921-Duda-2014.—In exercise of the power conferred by the Notification No. 4-520-XVIII-3-04, Dated 24 February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh. I, Dr. Mohan Lal Collector, Distt. Satna Madhya Pradesh under section 29 (1) of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Municipal Council, Birsinghpur as per Schedule below.

### SCHEDULE

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1.	Dr. Zakir Hussain Ward
2.	Subhash Ward
3.	Sardar Patel Ward
4.	Ajad Ward
5.	Tilak Ward
6.	Sanjay Ward
7.	Rajendra Prasad Ward
8.	Gandhi Ward
9.	Shivaji Ward
10.	Lakshmi Bai Ward
11.	Ambedkar Ward
12.	Vivekanand Ward
13.	Maharana Pratap Ward
14.	Durgawati ward
15.	Sant Ravidas Ward

**Ward No. 01—Dr. Zakir Hussain Ward**

**North**—The former head of the pond and start Bmhnet Village and Village North Bhita Bmhnet Gulfam the house of Mohammed Gule No. 19/1 while the southern Bhita village pond water supply tank Jodha Mhuta Sotin the house No. 63 Birsinghpur Hrsed Road on the West.

**East**—Starting from the Eastern Bhita head of Mu village pond Semria pears Ramadhar Birsinghpur road crossing to the Pump House.

**South**—Ramadhar pears, starting from the Cotter Pump House road Birsinghpur Ange Klbli road to the goddess.

**West**—Hrsed road Semaria Klbli road from Satna road.

**Ward No. 02—Subhash Ward**

**North**—Msmati Jmunihai Village North - West Dhamma Patel's house No. Starting with 1 being the southern border Village of Hinauta Majn Msmasi Khera Village house No. 6/1 to Kaluram Gopal house.

**East**—Kaluram Gopal house Makan No. 6/1 originates from the parish Gderian being located in birsinghpur birsinghpur Cimmeria Hrsed road, Shankar Road, Bld en: Rati parker H. No. strike thrower 97.

**South**—Shankar Potters House No. Starting from the 97 to the intersection Bsuran Pranu and the Potters Bsnorn Haete Parish.

**West**—Naidu's house while Shankrdin intersection Harijan Harijan Mohalla while the gardener's house and Budi sewer Chaurasia Dasaratha's house Pandey's house while Dhamma tue Yadav's house in his house No. To 1.

**Ward No. 03—Sardar Patel Ward**

**North**—Msmasi Nath Ram Gopal Khera Village located in Bramhn start from the Pump House, House No. 1 Kashi Prasad Ram Gopal Mahesh Bihari Lal's house in the house no. 5/1 to.

**East**—Kashi Prasad Maken no. 5/1 Kodulal Chaurasia starting Chunwadi flour mill while Mali and Mali Ram Gopal Sharma Pintu birsinghpur Semria road from the house to the house of Hari Prasad Harijan.

**South**—Hari Prasad Harijan Maken's house while Suresh property of Ramadhar Cacher Ramadhar Gujarati Motilal Agarwal's shop across the Jatwara birsinghpur Road West Laxmi Prasad Bramhn hospice house no. 48 chateau behind the dam to stop -

**West**—Starting from Brajesh Singh to stop the dam being Msmasi sawmill located Khera Bramhn Nath Pandit to the Pump House.

**Ward No. 04—Azad Ward**

**North**—H. No. GRam Manohar Gopal Gupta. While hospice Agarwal starting 56 while Radhe Shyam Manohar Kinkar Das Gupta arena to house.

**East**—Radhe Shyam Gupta's house no. 20 to the Ram Manohar Gupta, Mitailal Sony, Jamuna Prasad Gupta, Khandwa Road Parker bird house is the house of Rdhdhu no. There were 83 houses Cutkuna Mdhua no. 91 Sitawa to the river.

**South**—Cutkuna Mdhua apartment no. Starting on 91 Gokrn to school.

**West**—While starting school Gokrn Gopal Ji Ram Manohar Gauri Shankar Gupta Kapoor, Allahabad Bank House no. By 56.

**Ward No. 05—Tilak Ward**

**North**—House no. 93 Radhe Hari Prasad Namdeo stage actor Ashok Pandey's house and start hitting the red blacksmith's and Chhote Lal Soni, et cetera while Shankar Lal Sen's house to house no. By 281.

**East**—Shankar Lal Sen's house no. The house is a house, starting from 281 Ramananda reader no. Rameshwar Ram Lakhan Dddu 245 Haekr Corey's house to house.

**South**—House no. Corey and Corey House, Rameshwar Ram Lakhan, starting with the 245 houses of Mohammed being heir Glha TUESDAY Potters House no. To 89.

**West**—TUESDAY Glha Potters House no. Start with 89 bangles Potter and Jagdish Pandey Haekr Rmua apartment houses each offering while Radeern no. By 93.

**Ward No. 06—Sanjay Ward**

**North**—Sharada Jagannath Prasad Gupta's house no. Started by Muhammad Rizwan Haekr Mnndi Khaw and drove in 138 while the innards of Pt Maken RURAL DEVELOPMENT 352/1 to.

**East**—RURAL DEVELOPMENT Pandit's Maken 352/1, starting Narayan Prasad Tiwari's house no. Notwithstanding the Jugul 316 Bhuiya alias Baijnath Prasad Pandit houses and apartment no. 260/2 to.

**South**—Bhuiya alias Baijnath apartment no. 260/2, starting Mitriya Lakshman Mohan Gupta and Rameshwar hairdresser ruins of the house is no house namdev Pyarelal Badri. By 135.

**West**—Pyarelal namdev apartment no. Jagannath Gupta, H. No. 135, starting Sharada Prasad upto 138.

**Ward No. 07—Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North**—Pandit Awadhesh Pratap apartment no. 353/1, starting from being Bihari Lal Bhunjwa house to house Cacher -

**East**—AB Cacher apartment no. Gupta, starting from 400 g of the ruins of the house while Janaki Yjnarayn Pruha Badri Prasad Mahapa houses and apartment no. 291 and the road from the eastern part of the mosque to the westward the old house Mahesh Singh Patwari Allowances.

**South**—Janaki Prasad Singh while Mahesh's house mosque Mahapa apartment no. Agnihotri through 291 houses and Ktkal Parish Brij Mohan Raj Kishore Gautam and Mali Nnhia Sermon on the house is the house of Mohammed Gule Gulsher no. To 328.

**West**—Mohammed Gule Gulshear apartment no. Starting from Ward No. 328. 6, while the eastern boundary of the Pt Awadhesh Prasad Sundarlal Sen. house to house.

**Ward No. 08—Gandhi Ward**

**North**—CC groundsman Lal's house Road to the western part of the groundsman's house while Nandu Shankar Shepherd Hospice, starting at the pond located in the eastern Bhita And Ramkelavn, Nandkisor Agarwal ramashray

Urmlia house, garden and Bdraish Urmlia Brijkli Chitti aka Ramji Gupta's house is the house no. To 637.

**East**—Chitti aka Ramji Gupta's house no. Starting from Ward No. 637. Notwithstanding the western boundary of 9 Fulcndra Agrawal Y Lally House no. 614/1 yet.

**South**—Lally Mulcndra Sony Wi Fulcndra Agarwal, Santosh Agarwal, Anant Agarwal store, while Ram Lal Gupta, Ram Gopal Gupta, H. No. fabric store. To 705.

**West**—Ram Gopal Gupta, house no. While primary school council dais to 705 Shepherd Hospice.

**Ward No. 09—Shivaji Ward**

**North**—While the southern part way coupe laws Semria Satna Forest office while Satna Bus Stand, Cotter Road Rama Gupta, Minister of apartment houses Kōal's CC Road, while land development bank starting Kamlesh Mishra, Shyam Gupta's house Dkua of the house is no house call. To 471.

**East**—Satna road from the house of Purushottam Gupta Mdfa Road.

**South**—Kmlia Chaurasia Dflian the road from the front of the house Hafiz to shop from home and Mahgi potter Mdfa Satna Road to the north of the temple.

**West**—Maganalaal Chaurasia apartment no. Starting from 433, the offerings Cacher Vrindavan houses Agarwal, Om Agarwal Tue Sony Brown coster to the house is the land development banks.

**Ward No. 10—Lakshmi Bai Ward**

**North**—The temple consists of potters house Mdfa Mahgi CC Dflian Kmlia to the intersection Chaurasia Road to the west.

**East**—Betty Cotter Road from Satna Durga Teli apartment no. 475/1 yet.

**South**—Betty Durga Teli, starting from the apartment houses and government of Mohammad Yousuf Vismilla pool while the western Bhita Ramdev from the Ram Lal Soni Grinder Sweeper Ramdev bohemian apartment of the house is no. 775 Sitawa to the river.

**West**—Virendra Tiwari Lal Gupta from apartment to apartment Mshjid Higher Sekndri Road.

**Ward No. 11—Ambedkar Ward**

**North**—Starting from Mshjid (Vismilla mo. Vicinity of the house of Joseph) Mahadev Skinner, Romai tanners, while Bsoirn birsinghpur Cotter Road Mohalla to Mdfa.

**East**—BabuLal Choudhary, while starting Mdfa Purnlal namdev apartment house no. To 545.

**South**—Purnlal namdev apartment no. Namdev Namdeo and Ashok Motilal, Jawaharlal, starting from 545, while Ramwatar Gupta's grocery store Bhita government of south western corner of the pool.

**West**—Starting on the western Bhita Mshjid Dkshinai to the official pool.

**Ward No. 12—Vivekananda Ward**

**North**—Soft starting Rambrosa house offerings Darshan Singh, Sonny Singh, House no. There were 812 houses Ramsia Shiv Dayal no. 543 birsinghpur Cotter Road.

**East**—Ramsia M.P.E.B. apartment No. Notwithstanding all Sitawa station to the river.

**South**—M.P.E.B. Ramkishore from the station to house all Garg.

**West**—Raghnath Prasad Ram Raj Kishore Garg, starting from the apartment, ruby, while Ganga Prasad Namdev Rambrosa the house to the new house.

**Ward No. 13—Maharana Pratap Ward**

**North**—Jsmt Barber House no. 142, starting from the old station house Ckaudi red oil man, son Dsinya no. 144.

**East**—Ckaudi red Teli apartment no. Starting from 144 Rajkrn Kedar Prasad Pandey flour mill house and being Indraban by Ashok Dutt's house.

**South**—Dutt, Ashok Pandey, starting from the apartment house, while offering Jagendra Jatwara birsinghpur Road (opposite the police station Sbaupur) up.

**West**—Sbapur police station before being Jatwara Jasmt birsinghpur Road Vidut Board office Old Barber House no. Sbaupur Jatwara Semria Road crossing 142 from middle school to house Jagdamba Dkshinai Pipri part of the parish road.

**Ward No. 14—Durgawati Ward**

**North**—Prahlaad's Makan Kotwar no. Being the king of Sbaupur Mshjid starting from 231 Khaw and Alla Ghani apartment no. 282/1 yet.

**East**—Alla Ghani apartment no. 282/1 while starting Sdhua chappie apartment house laundry SUKH no. To 269.

**South**—Sukhalal dhobi house no. While Kurian Vijay Kumar Pandey, starting from 269 parish house no. To 187.

**West**—Vijay Kumar Pandey, house no. H. No. 187 of Kotwar starting Prahlaad. Notwithstanding the long and Jagdamba entire village of 231 houses to aijhhi.

**Ward No. 15—Sant Ravidas Ward**

**North**—Harijan Basti resident of Deep Nagar SHO starting Jatwara Road crossing next to transboundary Vislwa Indrajit Pandey, Rajiv Lochan Pandit Ganga Dayal Dwivedi Shastri the house is the house no. To 164.

**East**—Udi Sajan bidi factory starting to pond.

**South**—Udi Yatri starting from the pond near the barrier crossing birsinghpur Kkrha Jatwara road to the pond.

**West**—Rudra Pratap Singh, H. No. Kkrha starting from the pond. Notwithstanding 1 (primary school near Sbaupur) long.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
MOHANLAL, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 9 मई 2014

क्र. व.लि.-2014-97.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961  
(क्र. 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगरपालिका परिषद् शाहपुर के 15 वार्डों के परिसीमन का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है :—

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)
1	विवेकानंद वार्ड
2	अम्बेडकर वार्ड
3	श्रीकृष्ण मंदिर वार्ड
4	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	सरदार पटेल वार्ड
6	महाराणा प्रताप वार्ड
7	महात्मा फूले वार्ड
8	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
9	सावता माली वार्ड
10	शिवाजी वार्ड
11	तानाजी वार्ड
12	महात्मा गांधी वार्ड
13	भगतसिंह वार्ड
14	मौलाना आजाद वार्ड
15	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

### वार्डों की वृद्धित एवं संकुचित चतुर्सीमा

#### वार्ड क्र. 01—विवेकानंद वार्ड

**उत्तर**—अमरावती नदी के किनारे से नगरपालिका सीमा से कालुशाह बाबा का क्षेत्र आगे हाईवे रोड के पूर्वी भाग से होते हुए डिगी गांव होते हुए आगे दक्षिण की ओर.

**पश्चिम**—पुलिस स्टेशन क्षेत्र से होते हुए युवराज महाजन का मकान आगे शिवाजी गेट.

**दक्षिण**—पूर्व की ओर कांजी हाऊस से सीधे श्रीराम बलीराम के मकान से होते हुए चादर के नाले की बाईं ओर का हिस्सा.

**पूर्व**—बंशीलाल मिश्रीलाल के मकान से सीधे वार्ड क्र. 2 का मुख्य रोड जो शवदाह गृह की ओर जाता है रोड के उत्तर की ओर का भाग.

#### वार्ड क्र. 02—अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—द्वारिकाबाई के मकान की उत्तर की ओर शवदाह गृह के सामने वाला दाईं ओर का भाग अर्थात् फुकटपुरा लेते हुए अमरावती नदी तक.

**पश्चिम**—पंचायती भवन की पश्चिम की ओर काशीनाथ ईसना का मकान इसी मकान के पिछले हिस्से में किटकुल नामदेव का मकान लेते हुए सीधे गणेश शंकर के मकान को लेते हुए बाईं ओर उन्नत शवदाह गृह से अमरावती नदी के किनारे से चादर के नाले की ओर पानी का हौज के आगे की ओर अरुण बलीराम लेते हुए उत्तर की ओर पंचायती भवन तक.

**दक्षिण**—गाड़ी रास्ते से दक्षिण की ओर चलते हुए चादर के नाले से बीच के आवासीय भाग को सम्मिलित करते हुए हौज तक.

**पूर्व**—अमरावती नदी के किनारे से बख्खारी कच्चा गाड़ी रास्ते तक दक्षिण की ओर चादर के नाले तक.

#### वार्ड क्र. 03—श्रीकृष्ण मंदिर वार्ड

**उत्तर**—गोठान चौराहे से चादर के नाले से (तुलसीराम रूपा न्हावी के मकान पास) पूर्व की ओर अमरावती नदी के किनारे तक.

**पश्चिम**—पांडूरंग उखाजी के मकान के कोने से उत्तर की सुतारवाडी रोड से सीधे भगवान उखाजी की चक्की होते हुए रोड से तुलसीराम रूपा न्हावी के मकान के पास गोठान चौराहे पर चादर नाले तक.

**दक्षिण**—अमरावती नदी के किनारे पायरी वाले कुएं से पश्चिम की तरफ सीधे देव मंदिर रोड से भैय्या साहब देशमुख के मकान के पीछे से होते हुए महादेव मंदिर से पांडूरंग उखाजी के मकान के कोने तक.

**पूर्व**—अमरावती नदी के पश्चिम किनारे दक्षिण के ओर नदी के किनारे-किनारे पायरी वाले कुएं तक.

#### वार्ड क्र. 04—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—सुनारवाडी रोड पर पांडूरंग के मकान से पूर्व तरफ महादेव मंदिर रोड से सुमतीचंद के मकान से होते

हुए आगे जमनाबाई मानिकचंद के मकान से सीधे पूर्व नदी घाट से लक्ष्मीबाई सदाशिव के मकान के पीछे बाड़े के उत्तर-पूर्व कोने तक.

**पश्चिम**—सोनू जनरल स्टोर्स भोई वेताल चौराहा से उत्तर की तरफ सुतारवाडी रोड पर पांडूरंग मास्टर के मकान तक वहां से जमुनाबाई के मकान तक आगे बिजली विभाग की डी.पी. से सीधे नदी की ओर लक्ष्मीबाई सदाशिव के बाड़े से होते हुए दक्षिण की ओर राधा निवास तक, आगे नामदेव महाजन का मकान लेते हुए भोई वेताल चौराहा सोनू जनरल स्टोर्स तक.

**दक्षिण**—जनार्दन मुजुमदार (राधा निवास) के मकान के कोने से पश्चिम में छोटा बाजार रोड से सीधे ब्राम्हण पुरी रोड से सीधे भोई वेताल चौराहा से सीधे आगे सोनू जनरल स्टोर्स तक.

**पूर्व**—नदी घाट रोड से लक्ष्मीबाई सदाशिव के मकान के पीछे बाड़े से उत्तर, कोने से दक्षिण में आम गली से सीधे जनार्दन मुजुमदार (राधा निवास) के मकान तक.

### वार्ड क्र. 05-सरदार पटेल वार्ड

**उत्तर**—नदी घाट रोड से इबाहित ब्रास बेण्ड के मकान से पूर्व की ओर अमरावती नदी तक.

**पश्चिम**—मोती सेठ की चक्की से उत्तर में आम गली से नदी घाट रोड तक इब्राहिम बेण्ड का मकान.

**दक्षिण**—पानी की टंकी कच्चे रोड से पश्चिम में त्रिखुटी पर बारी के मकान से मोती सेठ की चक्की तक.

**पूर्व**—गुलजार सेठ के मकान से अमरावती नदी रोड तक आगे पूर्व की ओर पिपरी घाट कुएं से दक्षिण की ओर आसाराम ओंकार का मकान सीधे मोती सेठ की चक्की की ओर जाने वाला रोड अर्थात् गुलजार सेठ के मकान तक.

### वार्ड नं. 06-महाराणा प्रताप वार्ड

**उत्तर**—वसंत तुलसीराम के मकान से पूर्व की ओर बलीराम देवराम का मकान तथा झेण्डू शिवराम के मकान से बलीराम मास्टर के खले तक. आगे अमरावती के पुल से बख्तवारी कच्चा रास्ता तक. अमरावती नदी तट से सार्वजनिक शौचालय तक.

**पश्चिम**—बंशी कालू का मकान लेते हुए वसंत तुलसीराम के मकान के खुट तक उत्तर की ओर.

**दक्षिण**—फोपनार फाटे से नगरपालिका पूर्व सीमा से फोपनार शाहपुर कच्चे रोड से अमरावती नदी का ब्रिज वहां से पश्चिम की ओर बंभाडा फाटे के सामने सार्वजनिक शौचालय से सीधे शोभा शामराव तथा श्रीपत रावजी के मकान को लेते हुए आगे खुली जगह के पास लगे सार्वजनिक नल तक अर्थात् काशीनाथ सोनवणे के मकान तक.

**पूर्व**—बख्तवारी रास्ते से नगरपालिका पूर्व सीमा के साथ खले से फोपनार फाटे तक.

### वार्ड क्र. 07-महात्मा फुले वार्ड

**उत्तर**—त्रिखुटी से पूर्व में पानी की टंकी तरफ कच्चे रोड से सीधे अमरावती नदी के किनारे पिपरी घाट कुएं तक पिपरी घाट कुएं से अमरावती नदी के उत्तर की ओर नदी के किनारे-किनारे बख्तवारी कच्चे रास्ते तक वहां से कच्चे रास्ते के दूर से सीधे बख्तवारी गांव के पश्चिम दिशा में नगरपालिका की हद तक अर्थात् गुलाबखां तुराबखां के खेत के उत्तर-पश्चिम कोने तक. बख्तवारी कच्ची गाड़ी रास्ते से दक्षिण की ओर नदी एवं पानी की टंकी तक.

**पश्चिम**—सीताराम चाय की होटल के पास माली वेताल मुख्य सड़क के उत्तर में वेसी चौराहा से सीधे चमार वाडी के आगे हल तक. पश्चात् पश्चिम को मुड़ते हुए पतली गली से सीधे बलीराम बाडगू के चक्की वाला उत्तर की ओर बालासाहब के मले का बाईं ओर से पानी की टंकी वहां से सीधे त्रिखुटी तक.

**दक्षिण**—फोपनार रोड (नगरपालिका हद) से पश्चिम में शाहपुर की ओर सीधे अमरावती नदी के पुलिया पार करते पुलिया के पास मेस्को देवी घाट तक मंदिर तक. वहां से उत्तर-पश्चिम दिशा में माली वेताल रास्ते से बाजू को कोतील वाडा कच्चे रास्ते से शिवकुमारसिंह चौहान के खेत के सामने सदाबाई गंगाराम के बाजू वाली छोटी गली से शामराव पांडू के मकान से पश्चिम में मुडकर जयंती रूपा के मकान के पास से सीताराम की चाय की होटल के पास माली वेताल मुख्य सड़क तक इस वार्ड की सीमा जिसमें सार्वजनिक शौचालय का सामने का भाग अर्थात् अमरावती नदी का पश्चिमी तट की ओर गाड़ी रास्ता आगे पतली गली जिसमें वासुदेव निंभोरकर का मकान आगे बालासाहब के मले तक.

**पूर्व**—ख. नं. 459/1 से उत्तर-पश्चिम कोने से दक्षिण को बख्खारी गांव की पश्चिम दिशा में नगरपालिका से होते हुए गांव में बख्खारी का पक्का रास्ता पार करते हुए आगे कोदरी गांव (नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत) एवं उत्तर-पूर्व दिशा में नगरपालिका हद के पास फोपनार रोड तक.

### वार्ड क्र. 08-चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—महाजन गली में शोभाराम मास्टर के मकान से पूर्व तरफ माली वेटाल के चौराहे को पार करके सीताराम चाय की होटल (जनगणना म. नं. 566) के बाजू वाले गली से जयवंती रूपा का मकान लेते हुए पूर्व में सीधे श्रीमती चन्द्रभागा गंगाराम श्री हिरामण गुल्लू श्री तुलसीराम सोनजी के मकान को लेते हुए श्रीमती सदाबाई गंगाराम के मकान की बाजू वाली छोटी गली तक (श्रीमती सदाबाई गंगाराम का मकान छोड़कर).

**पश्चिम**—देवराम कौतीक तेली के मकान से कच्चा रोड सीधे केशव देवराम वराडे के मकान होते हुए बलीराम बाविस्कर की चक्की तक वहां से पूर्व में शामजी तुलसीराम के नुक्कड़ वाले मकान तक.

**दक्षिण**—कोतील वाडे से कच्चे रास्ते से सीधे बलीराम राखोंडे के मकान तक एवं प्रकाश देवाप्पा के मकान से सीधे चिट्ठी घर के आगे देवराम कौतीक तेली का मकान.

**पूर्व**—कोतील वाडा तथा दक्षिण के आम रास्ते के आगे सार्वजनिक शौचालय का पिछला भाग होकर पश्चिम में शामजी तुलसीराम महाजन के नुक्कड़ पर वहां से फर्शिकरण से सीधे पांडुरंग लक्ष्मण का मकान के आगे प्रकाश देवाप्पा के घर तक.

### वार्ड क्र. 09-सावता माली वार्ड

**उत्तर**—छोटा बाजार में श्रीराम मंदिर से पूर्व छोटा बाजार होते हुए मुसलमान गली टंकी रोड से त्रिखुटी पर श्री लक्ष्मण गणपत के मकान तक.

**पश्चिम**—टेलीफोन केन्द्र के सामने नगरपालिका मूत्रालय से उत्तर में श्री सीताराम लोहार के दुकान से राम मंदिर मार्ग से सीधे छोटा बाजार में श्रीराम मंदिर तक.

**दक्षिण**—ऐसी चौराहा पर श्रीमती रायबी कसारन के मकान से पश्चिम में बड़े बाजार तक जाने वाला मेन रोड से

टेलीफोन केन्द्र के सामने नगरपालिका मूत्रालय तक.

**पूर्व**—त्रिखुटी पर लक्ष्मण गणपत के मकान से ऐसी चौराहा पर जाने वाला मेन रोड से श्रीमती रायबी कसारन के मकान तक (ऐसी चौराहे पर).

### वार्ड क्र.10-शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—बुरहानपुर-फोपनार रोड पर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय के सामने की श्री शिवलाल के मकान के बाजू वाली गली से पूर्व में श्रीमती अनुसयाबाई के मकान से सोनाजी चौधरी प्रभाकर जोशी के मकान से होते हुए आगे तुकाराम आखरे के मकान के नुक्कड़ से मुड़कर दक्षिण-पूर्व सुतारवाड़ी रोड पर श्री वामन सुरडकर के मकान तक यहां से दक्षिण में सीधे रोड से सुनील महाजन का पुराना मकान होते हुए मधुकर खांडवेकर का मकान लेते हुए भोई वेटाल चौराहा मंगल भवन होते हुए पश्चिम की ओर से भोई चौराहा सोमा भोई का मकान अर्थात् (वामन पंडित के मकान के सामने) सोमा भोई के मकान से उत्तर की ओर भोकरीकर का मकान को लेते हुए साहेबराव आमोदे सुनील महाजन का नया मकान वहां से मधुकर खांडवेकर.

**पश्चिम**—मवेशी दवाखाने के सामने फोपनार रोड से उत्तर तरफ सीधे शिवलाल महाजन के मकान तक.

**दक्षिण**—बाबुराव तेली के मकान से पश्चिम तरफ टेलीफोन केन्द्र से बड़ा बाजार रोड पार करके पुराने पूर्व निमाड़ सहकारी बैंक के सामने गंगाराम चौधरी के मकान तक वहां से सीधे शत्रुघ्न रूपचंद प्रायमरी कन्या शाला के सामने के मकान से दक्षिण तरफ श्री विश्वनाथ मुजुमदार की खुली जमीन से मवेशी दवाखाने के सामने फोपनार रोड पर.

**पूर्व**—श्रीराम मंदिर के सामने श्री विश्वनाथसिंह दीक्षित के मकान से दक्षिण में सीधे बड़े बाजार के ओर मधुकर राठोर के मकान से होते हुए सुनील मेडिकल होते हुए प्रायमरी कन्या स्कूल के सामने तक.

### वार्ड क्र. 11-तानाजी वार्ड

**उत्तर**—नगरपालिका सीमा से ताप्ती नदी के किनारे सीताराम नथू का खेत ताप्ती मोहना संगम से नेरगांव नेर सिरसोदा रोड से उत्तर में नगरपालिका हद तक अर्थात् हाईवे रोड का पश्चिमी भाग, सिरसोदा फाटे से नेरगांव



के सीमा से शाहपुर नगरपालिका सीमा शाहपुर इच्छापुर रोड अर्थात् दक्षिण की तरफ जय स्तंभ होते हुए शासकीय पुराना दवाखाना, नया दवाखाना होते हुए कांजी हाऊस रोड से जीन गोठान पर सीधे राजाराम उखाजी के मकान तक.

**पश्चिम**—श्री दगडू के खेत से पश्चिम-दक्षिण कोने से उत्तर तरफ होते हुए अडगांव के पास नेर सिरसोदा मार्ग तक.

**दक्षिण**—वामन सुरडकर के मकान के सामने अर्थात् सदाशिव मिस्त्री का भवन लेते हुए जटाले पेंटर तथा धनलाल मोपारी का मकान लेते हुए राजाराम मंसाराम एवं सदाशिव मिस्त्री के भवन तक. तथा वामन सुरडकर के मकान के सामने उत्तर की ओर वहां से फर्शीकरण की दाईं ओर उत्तर-पश्चिम मधुकर खोड़के के मकान तक वहां से उत्तर-पश्चिम तरफ मुड़कर मधुकर चौधरी के मकान से दक्षिण तरफ मुड़कर सोनजी चौधरी के मकान से पुनः मुड़ते हुए श्रीराम चौधरी तथा बाबूराव चौधरी के मकान से होते हुए सीधे बुरहानपुर फोपनार रोड पर वहां से दक्षिण में पुराने विद्युत मंडल कार्यालय से होते हुए उत्तर में नेर गांव की सीमा तक.

**पूर्व**—गणपत जयराम के खले ख. नं. 653 से देशमुख साहब के खले ख. नं. 684 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक सीधे इच्छापुर रोड पर वहां से दक्षिण तरफ दापोरा गांव के पास नगरपालिका हद तक. यहां से पश्चिम तरफ नाचनखेड़ गांव के पास दगडू के खेत के पश्चिम दक्षिण कोने तक (ख. नं. 293).

### वार्ड क्र. 12-महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—प्रायमरी मराठी कन्या शाला (नगर पालिका कार्यालय के पास) के उत्तर-पश्चिम कोने से पूर्व तरफ विश्वनाथ मुजुमदार के मकान से सीधे बडे बाजार में अमरचंद चौरे का मकान से आगे और सीधे चौराहे आने वाले मुख्य मार्ग से ऐसी चौराहे पर महाजन गली पर श्री रामदास वामनरावजी के मकान तक.

**पूर्व**—महाजन गली पर श्री रामदास वैगरा के मकान के पश्चिम तरफ महाजन गली से नाना के मकान तक (शोभाराम मास्टर के मकान के सामने) वहां गली से पिंजारा वाली गली पर वहां से पूर्व में गली से

कर्नाटपुरी के नुक्कड पर पुराने इंगले टेलर की दुकान तक वहां से कर्नाटपुरी की गली से दक्षिण तरफ बैल बाजार में फोपनार रोड पर गली के नुक्कड तक.

**दक्षिण**—श्री बाबू श्री शिवराम आदी के मकान को लेते हुए खटकी गली के रास्ते तक.

**पश्चिम**—नगरपालिका कार्यालय के पंपिंग स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम कोने से उत्तर में सीधे नगरपालिका कार्यालय के पीछे प्रायमरी मराठी शाला के उत्तर-पश्चिम कोने तक.

### वार्ड क्र.13-भगतसिंह वार्ड

**उत्तर**—अरुण चित्र मंदिर के पास से पूर्व की ओर उमर सुलेमान का मकान वहां से आगे मस्जिद की दुकाने सीधे दक्षिण में बड़ा बाजार में बाबू खटकी के नुक्कड पर कमलाबाई के मकान के नुक्कड तक वहां से लियाकत मीर मास्टर के मकान को लेते हुए श्रीमती गुलाब रूपा के मकान से आगे फोपनार शाहपुर रोड के समानान्तर बाईं ओर बंभाड़ा फाटा आगे अमरावती नदी से दक्षिण में नगरपालिका सीमा तक.

**पश्चिम**—इच्छापुर रोड पर श्री देशमुख साहब के मले के उत्तर पश्चिम कोने से गणपत राजाराम के खले के बाजू में श्री सुनील भाऊलाल के मकान के कोने तक (मकान छोड़कर) वहां से शाहपुर फोपनार रोड से पूर्व की तरफ सीधे अरुण चित्र मंदिर भवन की गली तक.

**दक्षिण**—दक्षिण कच्चा रोड का दाहिना हिस्सा से ईसाक बर्तन वाले के मकान तक यहां से दक्षिण-पश्चिम कोने तक वहां से उत्तर में ऑवलिया बीड़ी फैक्ट्री के बाद उस्मान भंगार वाले के मकान से आरा मशीन की बाईं ओर का हिस्सा लेते हुए दक्षिण की ओर हरिजन क्वार्टर्स के सामने का क्षेत्र से नगरपालिका की दक्षिण-पश्चिम सीमा तक.

**पूर्व**—निम्बा मास्टर के मकान से भूरा मेम्बर के मकान से होते हुए पक्के रोड तक यहां से रोड के दाहिने ओर से पूर्व की ओर लियाकत मीर मास्टर के मकान तक यहां से मीरा संपत के मकान से होते हुए मेटल रोड तक.

**वार्ड क्र. 14-मौलाना आजाद वार्ड**

given below:—

**उत्तर**—दक्षिण की ओर कच्चे रोड तक वहां से रोड की बाईं ओर रसीद जल्लाद तथा सब्दल मिस्त्री के आगे होते हुए बशीर सेठ का बाड़ा वहां से पश्चिम की ओर सांडू सेठ के आरामशीन तक.

**पश्चिम**—सांडू सेठ की आरामशीन से दक्षिण की ओर कच्चे मार्ग से होते हुए स्वीपर स्वाटर्स को लेते हुए नगरपालिका की दक्षिण-पश्चिम सीमा तक.

**दक्षिण**—नगरपालिका की सीमा से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंभाडा सड़क तक.

**पूर्व**—वार्ड की दक्षिण सीमा के दक्षिण पूर्व बिन्दु से बंभाडा रोड तक.

**वार्ड क्र. 15-रानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

**उत्तर**—अमरावती नदी पर बने ब्रिज से शाहपुर फोपनार पक्के रोड के दाईं ओर कोदरी क्षेत्र तक जिसमें मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का कार्यालय तथा फुकटपुरा है. यहां से सीधे फोपनार रायगांव फाटे तक.

**पश्चिम**—खामनी से अमरावती नदी का दाहिना तट का मार्ग लेते हुए शाहपुर के कब्रस्तान तक वहां से उत्तर में अमरावती नदी तक बने ब्रिज तक.

**दक्षिण**—खामनी के पास नदी पर बने ब्रिज का शाहपुर की ओर का हिस्सा अर्थात् अमरावती नदी के किनारे-किनारे पश्चिम की ओर.

**पूर्व**—फोपनार फाटे के दाईं ओर खामनी रोड के साथ-साथ नगरपालिका सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.**

Burhanpur, the 9th May 2014

No. व.लि.-2014-97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipallities ACT, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby determine the extent of ward of Municipal Council Shahpur as per schedule

**SCHEDULE****NUMBER AND NAME OF THE WARDS**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
1.	Vivekanand Ward
2.	Ambedkar Ward
3.	Shri Krishna Mandir Ward
4.	Lal bahadur Shastri Ward
5.	Sardar Patel Ward
6.	Maharana Pratap Ward
7.	Mahatma Phule Ward
8.	ChandraShekhar Azad Ward
9.	Sawta Mali Ward
10.	Shivaji Ward
11.	Tanaji Ward
12.	Mahatma Gandhi Ward
13.	Bhagat Singh Ward
14.	Maulana Azad ward
15.	Rani Laxmibai Ward

**WARD No. 1—VIVEKANAND WARD**

**North**—Bank of Amravati river to Nagar Palika teritori to area of Kalushah Baba Farward Highway East area including to the Digi Village way to farward South area

**West**—Way of Police Station area to Mr. Yuvraj Mahajan house to farward Shivaji Gate.

**South**—Kanji house to east side Mr. Shriram Baliram house to include to the left side of Chadar's Nala.

**East**—House of Banshilal Mishrilal to straight Ward No. 2 Main road death body Burn Room way be sighted to part of North way.

**WARD No. 2—AMBEDKAR WARD**

**North**—From the house of Dwarkabai towards North up to river Amravati including the right side of the front of Shavdah Griha i.e. Fukatpura.

**West**—West side of civilaan's house to Mr. Kashinath Iesna house to this house back side of Mr. Kitkul Namdev included to strigth Mr. Ganesh Shankar house to left side of devioeped death body Burn House to bank of Amravati River to Chadar Nala. Under ground water tank to forward east side including Mr. Arun Baliram house North side civilian house.

**South**—From beuttock cart road proceeding towards South, by left side of Chadar Nala to Houj including the residing portion in between.

**East**—From the bank Amravati river to Bakhari Kachcha bullock-cart road and towards west up on to Chadar ka Nala.

#### WARD No. 3—SHRI KRISHNA MANDIR WARD

**North**—From Chadda Nala at Gothan Chauraha (near house of Shri Tulsiram Rupa Navi) towards east through the Nala up to the west bank of Amravati river.

**West**—From the house corner of Pandurang Ukhaji towards north by Sutarwadi road along Gloor Mill of Bhagwan Ukhaji direct up to Chaddar Nala near the house of Tulsiram Pupa Navi at Gothan Chauraha.

**East**—From the west bank of Amravati River along the river bank up to Payariwale well.

**South**—From Payriwala well on the bank of Amravati River towards west by River Ghat Road up to the house on Onkar Motiram there from by Mahadev Temple road along the back side of the house corner of Pandurang Ukhaji near Mahadev Temple.

#### WARD No. 4—LAL BAHADUR SHASTRI WARD

**North**—From the house of Shri Pandurang on Sutarwadi road towards east by mahadeo Road along the house of Shri Sumatichand Jain onwards along the house of Jamnabai Manakchand towards east direct by River Ghat road up to the North-east corner of Bada at the back of the house of Smt. Laxmibai Sadashiv.

**East**—From the north-east corner of the Bada at the back of the house of Smt. Laxmibai Sadashiv south through the public lane direct up to the house of Shri Janardan Mujumdar (Radha Nivas).

**South**—Edge of Mr. Janardan Mujumdar (Radha Nivas) house to West side small Market road to strigth Brahmanpuri road forward to Bhoi Vetel square to Sonu General Store.

**West**—Sonu General Store Bhoi Vetel Square to North side of sutarwadi road Mr. Pandurang Master house then Jamunabai house to forward electric (department) transformer to strigth river side Laxmibai Sadashiv Place to South side Radha Nivas to forward Namdev Mahajan house included to Bhoi Vetel Square Sonu General Store.

#### WARD No. 5—SARDAR PATEL WARD

**North**—From the house of Ibrahim Bross Band on river Ghat road towards East up to Amravati River.

**South**—Water Tank Banked road West side Trikuti Bari house to Moti Seth Chakki.

**West**—From the flour mill of Moti seth towards North through the public lane upto the house of Ibrahim Brass Band on the river ghat road.

**East**—Guljar Seth house to way of Amravati river forward east side pipari Ghat well to South side Mr. Asaram Onkar house to strigth Moti Seth Chakki road means Guljar Seth house.

#### WARD No. 6—MAHARANA PRATAP WARD

**North**—From the house of Vasant Tuliram towards East to the house of Baliram Devram and from the house of Zendu Shivram direct up to Khala of Baliram Master and onwards from the bridge of Amravati river up to Bakhari Kachacha rasta, front the the west side river of Amravati to right side public Letrine.

**West**—Banshi Kalu house including Mr. Vasant Tulsiram house North area.

**South**—From Phopnar fata to the eastern limit of Municipality and to the bridge of Amravati river by Phopnar Shahpur pakka road, from there towards west from public latrine infront of Bambhada fata straight to Shobha Shyamrao and up to public Tape in open land (house of Kashinath Sonwane) along with the house of Shripat Raoji.

**East**—From Bakhari road to Phopnar fata along with the eastern limit of Municipality.

## WARD No. 7—MAHATMA PHULE WARD

**North**—Trikhuti to east side water tank banked road to strighth Amravati river Bank of Pipari Ghat well and Pipari Ghat well to Amravati river North side or river bank, Banked road of Bakhari then banked road east side Bakhari Village west direction in Nagar Palika teritari Means Gulabkha Turabkha Agriculture land to North-West edage Bakhari Kachchi Vahical way to south side river and water tank.

**West**—Chamarwadi contining strat upto water tank turning wast side lends strat upto Raliram Badgu floor Mill and back side of the North Basasahab filld to strait right side of the water tank upto the Trikhuti.

**South**—From Phopnar road (Municipal Limit) towards west (towards Shahpur) direct after crossing the bridge of Amravati River upto Meshkodevi Temple) from there towards north-west side by Koltivada Kachcha road (by thee side of Mali Yetal road) upto the house of Sadabai Gangaram opposite the field of Shri Shivkumar Singh Chauhan from there by the smail side lane along the house of Shamrao Pandu turning towards west by the Public lane further along the house of Jayawanti Rupa upto main road of Mali yetal near the hotel of Sitaram, boundry of this ward including public Letrine front side i.e. west side back of the Amravati river contining Public Latrine of bullock cart road. Towards water tank land in which Vasudeo Nimbhorkar house to ballasahab Agriculture land till.

**East**—From the North-West corner of Khasara No. 459/1 towards south along Muncial boundary to the west of Bakhari gaon there after crossing the Bakhari Pakka road, onwards upto the Municipal limit near Phopnar road on the North-West corner of Kodrigaon within Municipal area.

## WARD No. 8—CHANDRASHEKHAR AZAD WARD

**North**—From the house of Shri Shobharam Master in Mahajan lane towards esat, after crossing the Maliyetal Chauraha through the lane by the side of the hotel of Shri Sitaram (Censes House No. 1566) along the house of Jayavanti Rupa towards east, direct along the house of Shrimati Chandrabhaga Gangaram, Heeraman Gollu, Tulsiram Sonji upto the small lane by the side of the house of Shrimati Sadabai Gangaram

(excluding the house of Smt. Sadabai) on the Koliwada road.

**West**—From the house of Devram Kautik Teli Straight by Kachchha road upto the Flour Mill of Baliram Bawiskar, along with the house of Keshav Devram Barade from here towards east upto the corner of the house of Shamji Tulsiram.

**South**—From Koliwada by Kachcha road straight upto the house of Baliram Rakhonde and from the house of Prakash Dewappa stiught upto the house Devram Kautik Teli after Chitthigher.

**East**—From Koliwada to the corner of Shri Shamji Tulsiram Mahajan house after the main road in south including the backportion of Public latrine from there by stone path straight upto the house of Prakash Dewappa after the house of Pandurang Laxman.

## WARD No. 9—SAWTA MALI WARD

**North**—From Shri Ram Temple in Chhota Bazar towards cast through Chhota Bazar further by Tanki road Gali (Trikhiti Gali) upto the house of Laxman Ganpat on Trikhuthi.

**East**—From the house of Laxman Ganpat by the main road towards Aisy Chauraha upto the house of Raibi Kasarain on Aisy Chauraha.

**South**—From the house of Raibi Kasaran on Aisy Chauraha towards west by the main road of Bada Bazar upto Public Urinal in front of Telephone Office.

**West**—From Public Urinal in front of Telephone Office towards north along blacksmithy shop of Sitaram Nathu by Ram Mandir road direct upto Ram mandir in Chhota Bazar.

## WARD No. 10—SHIVAJI WARD

**North**—Burhanpur Phopnar road on (M.P.) electric department office infront of Shri Shivilal house side smoll street to east in Smt. Anusayabai house to Sonji Choudhry, Prabhakar Joshi house including to forward Tukaram Akhare house corner turn south-east sutarwadi road or Shri Waman Suralkar house then to south direction straight way to Mr. Sunil Mahajan old house including Mr. Madhukar Khandwekar house to Bhoi Vetal Square Mangal Bhavan to west side to Bhoi Square Soma Bhoi house mems (infront

of Waman Pandit house) Soma Bhoi house to North direction Bhokarikar house included Sahebrao Aamode Sunil Mahajan new house There to Madhukar Khandwekar.

**East**—Shri Ram Temple in front of Shri Vishvnath Dixit house to south forward Big Market direction to Mr. Madhukar Rathore house included Sunil Medical to in front of Primary Girl School.

**South**—From the house of Baburao towards west along telephone office, crossing Bada Bazar road up to the house of Gangaram Chaudhry in front of District co-operative bank there from direct towards west along the house of Shatrughan Ramchandra (in front of Primary Marathi School) towards south up to the south side of the open plot of Vishwanath Mujumdar (in front of Veterinary Hospital) on Phopnar road.

**West**—In front of Vatarnari Hospital Phopnar road to North forward Mr. Shivlal Mahajan house.

#### WARD No. 11—TANAJI WARD

**North**—Territory of Nagar Palika to Bank of Tapi river Mr. Sitaram Nathu Agriculture land and Tapti Mohana Sangam to Ner Village Ner-Sirsoda road to North in Nagar Palika Territory means west side of highway Sirsoda turn to Ner Village territory to Shahpur Nagar Palika territory Shahpur way of Ichchhapur means South side including to Jaysthamb and Government old Hospital, New Hospital to Kanji house road Jin Godawn to Strigth Rajaram Ukhaji house.

**South**—In front of Waman Suradakar house to Sadashiv mistri house to Jatale Pental and Dhanlal Mopari house to Rajaram Mansaram And till Sadashive Mistri house. In front of Waman Suradakar house North side flouring right side and North west direction Mr. Madhukar Khodake house Then North west turn to Mr. Madhukar Choudhary house Repeat turn to Mr. Shriram Choudhary and Baburao Choudhary house to direct forward Burhanpur Phopnar road There South area old electric department office to South direction Ner Village territory.

**East**—Mr. Ganpath Jayram land No. 653 to Deshmukh sir and land No. 684 to South-West edge to strigth Ichchhapur road and there south direction to Dapora Village near about Nagar Palika

territory this place to west direction Nachankheda village to Mr. Dagdu Agriculture land West-South edges land No. 293.

**West**—From the south-west corner of field of (Khasra No. 932) of Shridagdu, towards north along municipal boundary up to ner sirsoda road near nergaon.

#### WARD No. 12—MAHATMA GANDHI WARD

**North**—From north-west corner of primary Marathi School (near Municipal office) towards east along the house of Vishvnath Mujumdar direct along the Amarchand Chaure house in Bada Bazar further on wards direct by the main road towards Aisy Chauraha towards east up to the house of Shri Ramdas Vaman, Raoji on Aisy Chauraha.

**East**—From the house of shri Ramdas etc. at Mahajan Gali towards south by Mahajan Gali upto the house of Shri Nana (in front of house of Shobharam Master). There front through the lane up to Pinjarwadi lane. There from towards east through the cane up to the Tailoring shop of Ingle (up to the corner of Karnatakपुरी) There from by Karnatakपुरी lane towards south up to the corner of the lane of Phopnar road in Bail Bazar.

**South**—From the corner of the Karnatakपुरी on Phopnar road in Bail Bazar towards south up to the side lane near Tajmal Saw Mill (excluding Saw Mill). There from by the small lane along the house of Shri Shamrao, Sitaram etc. further along the house of Shri Babu, Shri Shivram etc. up to the Khatki Gali road there from by the said lane road along the house of right hand side, towards west up to the house of Yasin Dadu in Weekly Bazar Medan. There from by Bada Bazar road towards north direct up to Panshop of Sudhakar at corner of Mahajan Gali. There from towards south after crossing Bada Bazar road along the Kirana shop of Hardemal and along the houses of right hand side, direct towards west along the houses of right hand side, direct towards west along the houses of right hand side, direct towards west along the Municipal Balwadi building up to south-west corner of Municipal Pumping station.

**West**—Pumping Station of Nagar Palika office to South-West edage North instrigth Nagar Palika

office back side of Primary Marathi School to North West edage.

**WARD No. 13—BHAGAT SINGH WARD**

**North**—Arun Photo Temple near to east direction Mr. Umar Suleman house There forward for Masjid shopes strigth south to Big Market in Babu Khataki corner Kamla Bai house corner then Liyakat Mir Master house including Smt. Gulab Rupa house to forward Phopnar Shahpur road perpendicular left side Bambhada turn forward Amravati river to south direction in Nagar Palika area.

**West**—On Ichhapur road, from the north-west corner of the Mala of Shri Deshmukh Sahab towards east up to the corner of the house including house of Shri Sunil Mahajan by the side of the field of Shri Ganpat Jairam from there towards east by Shahpur Phopnar road direct up to the lane on Arun Chitra Mandir.

**South**—By the right side of Kachcha road upto the house of Isaq Bartanwala from there up to south west corner from here to wards north after Auliya bidi Factory from the house of Uxman Bhangarwala, including the left side portion of saw Mill to wards south through the area infront of Sweeper's Quarters up to the south west limit of Municipality.

**East**—From the house of Nimba Master up to Pakka road along with the house of Bhura member from here by the right side of the road towards east up to the house of Liyakat Mir master from here along with the house of Meera Sampat upto Metal road.

**WARD No. 14—MAULANA AZAD WARD**

**North**—South side Bankked road There road left side Rasid Jallad and Sabdal Mistri forward side including Bashir Seth (Bada) There west side Sandu seth woods cuting machine.

**West**—From Saw Mill of Sandu Seth towards south by Kachcha road upto south west limit of Municipality along with Sweeper's Quarters.

**South**—From Municipal limit towards east upto Bambhada road.

**East**—In a Ward south area to south-east point to Bambhada road.

**WARD No. 15—VIVEKANAND WARD**

**North**—From the bridge constructed on Amravati River to Kodari area which is one the right side of Shahpur-Phopnar Pakka road and in which is M.P.E.B. office and Fokatpura. from here direct up to Phopnar Raigaon fata. o

**West**—From Khamni including the path of the right back of Amravati River up to Kabrastan ground of Shahpur. from here towards north up to the bridge constructed on the river Amravati.

**South**—The portion towards shahpur towards shahpur of the bridge constructed on the river near Khamni i.e. to wards west by the bank of Amravati river.

**East**—Up to Municipal Limit, on the right side of Phopnar fata. Along with Khamni Road.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
ASHUTOSH AWASTHI, Collector